

THE
HISTORY OF RAJPUTANA

VOLUME III, PART III.

HISTORY OF THE PARTABGARH STATE

BY

MAHĀMAHOPĀDHYĀYA RĀI BAHĀDUR
SĀHITYA-VĀCHASPATI

Dr Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt. (Hony.)

PRINTED AT THE VEDIC YANTRALAYA,
AJMER.

(All Right Reserved)

First Edition. } 1941 A. D. { *Price Rs. 7.*

Published by

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sabitya-Vachaspati
Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt, Ajmer.



Apply for Author's Publications to :—

(1) *The Author, Ajmer.*

(2) *Vyas & Sons, Book-Sellers,*

AJMER.

राजपूताने का इतिहास

तीसरी जिल्द, तीसरा भाग

प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास

ग्रन्थकर्त्ता

महामहोपाध्याय रायबहादुर साहित्यवाचस्पति
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचन्द्र श्रोत्रा, डी० लिट्० (ऑनरेरी)

बाबू चांदमल चंडक के प्रबन्ध से
वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर में छपा

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण }
}

वि० सं० १९६७

{ मूल्य रु० ७.



परलोकवासी महाराजकुमार मानसिंह

प्रतापगढ़ राज्य के उन्नायक
परम विद्यानुरागी
पूर्ण पितृभक्त
स्वर्गवासी
महाराजकुमार मानसिंह
की
पवित्र स्मृति
को
सादर समर्पित

भूमिका

इतिहास साहित्य का एक प्रधान अंग एवं जाति तथा समाज की वास्तविक दशा का सच्चा द्योतक है। जाति, समाज एवं व्यक्ति के निर्माण और क्रमिक विकास में इसका बड़ा हाथ रहता है। कुछ समय पूर्व भारतवासी साहित्य के इस आवश्यक अंग की तरफ से प्रायः उदासीन रहते थे, परन्तु हर्ष का विषय है कि इधर इस रिक्त अंग की पूर्ति की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है और लोगों की प्रवृत्ति इसके पठन-पाठन की तरफ क्रमशः बढ़ रही है। जहां कुछ दिनों पहले हिन्दी के ऐतिहासिक ग्रंथों की गणना अंगुलियों पर की जा सकती थी, वहां अब उसमें आशा-प्रद उन्नति दृष्टिगोचर हो रही है।

भारतवर्ष के इतिहास में वीरता, उदारता, दानशीलता, विद्याप्रेम, सांस्कृतिक महत्व आदि की दृष्टि से सीसोदिया जाति का प्रमुख स्थान है। सीसोदियों के मेवाड़ राज्य की गणना संसार के प्राचीनतम राज्यों में होती है, क्योंकि वहां गत चौदहसौ वर्षों से एक ही वंश का अक्षररूप से राज्य चला आता है। प्रतापगढ़ राज्य के शासक इसी राजवंश की एक शाखा में हैं। आज से लगभग चारसौ पैंतीस वर्ष पूर्व मेवाड़ के महाराणा कुंभा के भाई जेमकर्ण के पुत्र सूरजमल ने इस राज्य की नींव डाली थी। तब से अबतक उसके वंशजों का यहां अधिकार चला आता है। वागड़ (डूंगरपुर-बांसवाड़ा), मालवा और मेवाड़ की सीमाओं से मिला हुआ होने से यह राज्य साधारण बोल-चाल में "कांठल" भी कहलाता है। पहाड़ियों तथा गहन वनों से आच्छादित होने के कारण पहले यहां भील, मीणों आदि की ही बस्ती विशेष रूप से थी और आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होने की वजह से इसको विजय करने की तरफ मुसलमान शासकों का ध्यान नहीं रहा।

प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—

१—मुगलों से पूर्व का काल

२—मुगल-काल

३—ब्रिटिश-काल

मुगलों से पूर्व का इस राज्य के नरेशों का जो इतिहास मिलता है वह इतना कम है कि उससे उनके व्यक्तित्व और कार्यों पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता; पर उससे इतना अवश्य पाया जाता है कि मेवाड़ से अलग हो जाने पर भी उन्होंने उसको अपनी मातृभूमि समझा, वीर-प्रसूता मेवाड़ भूमि का उनके हृदय में बड़ा आदर रहा और वे उसकी रक्षा के लिए सदा प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहते थे। भारतवर्ष में मुगलों की प्रभुता स्थापित होने पर कितने ही अन्य राजाओं के समान प्रतापगढ़ राज्य के नरेशों ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और समय-समय पर उन्हें उनकी तरफ से उच्च सम्मान और मनसब आदि मिलते रहे। इस बीच मरहटों का आतंक बढ़ने पर प्रतापगढ़ भी उनके प्रभाव से मुक्त न रहा और यहां भी उनकी चौथ लगने लगी। ब्रिटिश-काल शांति, सुव्यवस्था और उन्नति का युग रहा है। ई० स० १८१८ में अंग्रेज़ सरकार के साथ सन्धि होने के बाद बाह्य और आन्तरिक झगड़ों की समाप्ति होकर राज्य उन्नति-पथ पर अप्रसर हुआ। विगत वर्षों में राज्य की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत अन्तर हो गया है। बहुत से प्रजा-हित के कार्यों का भी इसी काल में श्रीगणेश हुआ, जो भविष्य में सामूहिक दृष्टि से राज्य के लिए हितकर सिद्ध होंगे, फिर भी इस ओर अभी बहुत गुंजाइश है।

प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास तैयार करने में निम्नलिखित चार प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ है—

१—प्राचीन शिलालेख, दानपत्र और सिक्के

२—बड़बे भाटों आदि की ख्यातें

३—शाही फ़रमान और अन्य राजकीय पत्र आदि

४—प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ एवं संस्कृत, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिन्दी और उर्दू की प्रकाशित पुस्तकें

प्राचीन शिलालेख इस राज्य से केवल तीन मिले हैं, जिनमें से दो घोटासी गांव के विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास के और तीसरा गौतमेश्वर का विक्रम की सोलहवीं शताब्दी का है। वि० सं० की सत्रहवीं शताब्दी से बाद के शिलालेख और ताम्रपत्र प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जिनमें ताम्रपत्रों की ही अधिकता है।

बड़े-बड़े भाटों की बनाई हुई ख्याते इस राज्य की कई हैं, जिनमें राजाओं की वंशावली के अतिरिक्त उनकी राणियों, कुंवरो आदि के नाम और उनका संक्षिप्त वृत्तान्त भी मिलता है। कहीं-कहीं राजाओं की गद्दी-नशीनी का वर्ष, मास आदि भी दिया है, पर उनमें दिये हुए राणियों आदि के नाम परस्पर एक-दूसरे से नहीं मिलते तथा संवत् एवं घटनाएं भी बहुधा इतिहास की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। ऐसी दशा में उनका वास्तविक महत्व सन्दिग्ध ही है।

इस राज्य के नरेशों में सर्वप्रथम महारावत हरिसिंह ने शाही दरबार से संबंध जोड़ा था। हरिसिंह से लगाकर पृथ्वीसिंह तक के कई शाही फ़रमान, शाहज़ादों के निशान आदि प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान हैं। इनके अतिरिक्त शाही अखबारों में भी यहां के नरेशों का वृत्तान्त मिलता है। मरहटा-काल के कुछ कागज़-पत्रों और अंग्रेज़ सरकार के साथ के पत्र-व्यवहारों से भी इस राज्य की तत्कालीन स्थिति और इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

“हरिभूषण महाकाव्य” (संस्कृत) के अतिरिक्त इस राज्य के इतिहास से संबंध रखनेवाली और कोई प्राचीन पुस्तक नहीं मिली है। अपूर्ण होने पर भी उक्त महाकाव्य से हरिसिंह से पूर्व के नरेशों के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश पड़ता है। उसमें दी हुई घटनाओं का मिलान भी अन्य ग्रंथों से हो जाता है, परन्तु काव्य-ग्रंथ होने से कई स्थलों पर

उसमें मुख्य-मुख्य बातें छोड़ दी गई हैं या उलट-पुलट लिखी हैं । मुहणोत नैणसी की ख्यात से इस राज्य के वर्तमान नरेशों के प्रारम्भिक इतिहास की बहुत-कुछ पूर्ति होती है । कई फ़ारसी तवारीखों में भी यथाप्रसंग प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास आया है । अंग्रेज़ी इतिहासों में माल्कम की रिपोर्ट, टॉड-कूट “राजस्थान” । प्रतापगढ़ राज्य का गैज़ेटियर, लॉयल राजपूताना आदि पुस्तकें इस राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं । हिन्दी भाषा की पुस्तकों में “वीरविनोद” और उर्दू की पुस्तकों में “वक्राये राजपूताना” में इस राज्य का बहुत कुछ इतिहास मिलता है । इन पुस्तकों के अतिरिक्त महारावत हरिसिंह-निर्मित ग्रंथ तथा हरिसिंह और प्रतापसिंह के आश्रय में भिन्न-भिन्न विद्वानों-द्वारा रचित पुस्तकें भी इस राज्य के इतिहास के लिए उपयोगी हैं ।

प्रस्तुत ग्रंथ में प्रतापगढ़ राज्य के संक्षिप्त भौगोलिक परिचय एवं प्राचीन इतिहास के अतिरिक्त ज़ेमकर्ण से लगाकर वर्तमान समय तक के प्रतापगढ़ के नरेशों का विस्तृत तथा सरदारों और प्रसिद्ध घरानों आदि का संक्षिप्त इतिहास है । इसके प्रणयन में मैंने उपरिलिखित सामग्री का पूरा-पूरा उपयोग किया है । यह सत्य है कि निरन्तर लड़ाई-भगड़ों में व्यस्त रहने के कारण प्रतापगढ़ के नरेशों का भी अन्य राजपूत राज्यों के राजाओं की भांति इतिहास सुरक्षित नहीं रह सका है, फिर भी जो कुछ इतिहास उपलब्ध है उससे उनके अतीत गौरव पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । जहां तक वना आधुनिक शोध को स्थान देकर मैंने इसे सर्वांगपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है । ग्रंथ परंपरागत जनश्रुतियां, ख्यातों तथा काव्यों आदि में लिखी हुई कल्पित और खुशामद भरी बातें वास्तविक इतिहास को कितना नष्ट-भ्रष्ट कर सकती हैं, इसका मैंने कई स्थल पर संकेत किया है और वही बातें ग्रहण की हैं, जिनकी अन्यत्र पुष्टि हो जाती है । जहां-जहां ऐतिहासिक त्रुटियां दिखाई पड़ीं, मैंने यथाशक्य उनका निराकरण करने का प्रयत्न किया है ।

प्रतापगढ़ राज्य में अभी शोध के लिए पूरा स्थान है । इस राज्य के धोटासी, वरमंडल, वीरपुर, खेरोट, गौतमेश्वर, अरखोद, भचूंडला, नीनोर,

शेवना, बोरदिया आदि स्थानों में प्राचीन काल के मंदिरों के भग्नावशेष और बावड़ियां आदि विद्यमान हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में यह इलाका सुसमृद्ध था। प्रतापगढ़ राज्य में खुदाई का काम बिल्कुल नहीं हुआ है और न प्राचीन इतिहास की सामग्री की खोज ही हुई है। यदि खुदाई और शोध का कार्य हो तो और भी सामग्री मिल सकती है। ऐसी दशा में प्रतापगढ़ राज्य के सर्वांगपूर्ण इतिहास लिखने का श्रेय किसी भावी इतिहास-लेखक को ही मिलेगा, लेकिन उस समय भी मेरा यह इतिहास, मुझे विश्वास है, इतिहास-लेखकों के पथ-प्रदर्शक का काम करेगा।

भूल मनुष्य मात्र से होती है। इसका मैं अपवाद नहीं हूँ, और फिर इस समय मेरी वृद्धावस्था है। जो त्रुटियां मेरी दृष्टि में आईं उनके लिए पुस्तक के अंत में शुद्धिपत्र लगा दिया गया है। और भी जो त्रुटियां हों उनके लिए कृपालु पाठक मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। सप्रमाण सूचना मिलने पर उनका द्वितीय आवृत्ति के समय सुधार कर दिया जायगा।

वर्तमान प्रतापगढ़-नरेश महारावत सर रामसिंहजी बहादुर, के० सी० एस्० आई० ने राज्य में उपलब्ध इतिहास संबंधी समस्त सामग्री मेरे पास भिजवाने की कृपा की, जिसके लिए मैं उनका हृदय से अनुगृहीत हूँ। सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिंह, एम० ए०, एल्-एल्० बी०, डी० लिट्० का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने संग्रह से प्रतापगढ़ के संबंध के शाही फ़रमानों और अखबारों का अंग्रेज़ी खुलासा मेरे पास भिजवाने का कष्ट उठाया है। प्रतापगढ़ राज्य की रघुनाथ संस्कृत पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित जगन्नाथ शास्त्री तथा कामदार खासगी शाह मन्नालाल पाडलिया भी मेरे धन्यवाद-भाजन हैं, क्योंकि उनके द्वारा मुझे राज्य से इतिहास-संबंधी सामग्री एवं समय-समय पर सत्परामर्श मिलता रहा है। मैं उन ग्रन्थकर्ताओं का भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिनकी रचनाओं का मैंने इस इतिहास के लिखने में उपयोग किया है और जिनका उल्लेख मैंने यथास्थान टिप्पणों में कर दिया है।

अत में मैं पं० नाथूलाल व्यास एवं काशी-निवासी श्री हृदयनारायण सरिन, वी० ए० (जो गत छः वर्षों से मेरे सहकारी हैं) का नामोल्लेख करना आवश्यक समझता हूं, क्योंकि आरंभ से ही उन्होंने मेरे इस इतिहास के प्रणयन में बड़ी लगन के साथ कार्य किया है । मुझे अपने पुत्र प्रोफ़ेसर रामेश्वर ओझा, एम० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग के कार्यकर्त्ता पं० चिरंजीलाल व्यास से भी पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है, अतएव उनका नामोल्लेख करना भी आवश्यक है ।

अजमेर,
चैत्र कृष्णा सप्तमी वि० सं० १९६७ } गौरीशंकर हीराचन्द ओझा

हृदयनारायण
 नामोद्वेस
 रे इस इति
 अपने पुत्र
 के कार्य-
 है, अतएव

विषय-सूची

पहला अध्याय

भूगोल सम्बन्धी वर्णन

श्रीभ्रा

विषय	पृष्ठाङ्क
नाम	१
स्थान और क्षेत्रफल	१
सीमा	२
पर्वत श्रेणियां	२
नदियां	२
भीलें	३
जलवायु और वर्षा	३
जमीन और पैदावार	३
जंगल	३
पशु-पक्षी	४
खानें	४
रेल्वे	५
सड़कें	५
जनसंख्या	५
धर्म	५
जातियां	५
पेशा	५
पोशाक	६
भाषा	६

विषय	पृष्ठांक
लिपि	७
दस्तकारी	८
व्यापार	८
त्योहार	६
मेले	६
डाकखाने और तारघर	६
शिक्षा	६
अस्पताल	१०
ज़िले	१०
न्याय	११
शासन, जागीर और भोम आदि	१२
सेना और पुलिस आदि	१३
आय-व्यय	१३
सिक्का	१३
तोपों की सलामी और खिराज	१५
प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान	१५
देवलिया	१५
प्रतापगढ़	१८
जानागढ़	२०
घोटार्सी	२१
वीरपुर	२४
खैरोट	२५
अरणोद	२५
गौतमेश्वर	२५
भचूंडला	२६
नीनोर	२६

विषय
शेषना

पृष्ठाङ्क
२७

दूसरा अध्याय

सीसोदियों से पूर्व के राजवंश

रघुवंशी प्रतिहार	३०
नागभट्ट	३२
ककुत्स्थ	३२
देवराज	३२
घत्सराज	३२
नागभट्ट (दूसरा)	३२
रामभद्र	३३
भोजदेव	३४
महेंद्रपाल	३४
महीपाल	३४
भोज (दूसरा)	३४
विनायकपाल	३४
महेंद्रपाल (दूसरा)	३४
देवपाल	३६
विजयपाल	३६
राज्यपाल	३६
त्रिलोचनपाल	३६
यशःपाल	३६
परमार तथा सोलंकी	३७
मुसलमान शासक	३६

तीसरा अध्याय

महारावत क्षेमकर्ण से विक्रमसिंह (बीका) तक

विषय	पृष्ठांक
क्षेमकर्ण से पूर्व के गुहिलवंशी नरेश	४३
क्षेमकर्ण (क्षेमसिंह)	४७
क्षेमकर्ण का जन्म	४७
महाराणा कुंभकर्ण और क्षेमकर्ण के बीच विरोध होना	४७
क्षेमकर्ण का मालवे के सुलतान के पास जाना ...	४८
क्षेमकर्ण का मेवाड़ पर मालवे के सुलतान को चढ़ा लाना	४९
खानसलह के अनुचर बहरी से क्षेमकर्ण का युद्ध ...	५०
क्षेमकर्ण की मृत्यु	५१
क्षेमकर्ण की संतति	५३
क्षेमकर्ण का व्यक्तित्व	५३
सूरजमल	५४
सादड़ी का स्वामी होना	५४
रायमल का सारंगदेव को भैंसरोड़गढ़ की जागीर देना	५५
मालवे की सेना के साथ महाराणा के पक्ष में	
सूरजमल का युद्ध करना	५५
महाराणा के कुंवरो में पारस्परिक द्वेष की वृद्धि ..	५८
सारंगदेव का सूरजमल के पास जाकर रहना ...	६१
सूरजमल का मालवे की सेना के साथ जाकर	
महाराणा से युद्ध करना	६२
सूरजमल का मेवाड़ छोड़ना	६७
सूरजमल का देहान्त	७१
सूरजमल की राणियां और संतति	७१
सूरजमल का व्यक्तित्व	७३

विषय	पृष्ठाङ्क
बाघसिंह	७४
राज्यप्राप्ति	७४
बाघसिंह का खानवे के युद्ध में महाराणा के साथ रहना	७४
बाघसिंह का मालवे में जाना	७५
बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाइयां	७६
चित्तौड़ की रक्षार्थ बहादुरशाह से लड़कर बाघसिंह का मारा जाना	७८
बाघसिंह की राणियां और संतति	८३
रावत बाघसिंह का व्यक्तित्व	८४
रायसिंह	८५
राज्यप्राप्ति	८५
धाय पन्ना का बनवीर के डर से उदयसिंह को रायसिंह के पास ले जाना	८५
बनवीर को चित्तौड़ से निकालने के लिए रावत रायसिंह का महाराणा की सहायतार्थ जाना	८७
रायसिंह का देहान्त और उसकी संतति	८८
विक्रमसिंह (बीका)	९०
राज्यप्राप्ति	९०
सादड़ी की जागीर छूट जाने पर विक्रमसिंह का कांठल में जाना	९०
हाजीख़ां की सहायतार्थ महाराणा के साथ कुंवर तेजसिंह को भेजना	९१
विक्रमसिंह का सुहागपुरा, खैरोट, कोटड़ी, नीनोर, दलोट और पलथाना पर अधिकार करना	९४
ख्यातें और देवी मीणी की स्मृति में देवलिया वसाने की कथा	९६
कांधल को धमोतर, सुरताणसिंह को ढोढरखाखेड़ा और विजयसिंह को खैरोट की जागीर देना	९७

विषय	पृष्ठाङ्क
वांशवाड़ा के स्वामी प्रतापसिंह की तरफ़ रहकर डूंगरपुर के महारावल आसकरण से युद्ध करना	६८
विक्रमसिंह का देहान्त	१०१
विक्रमसिंह की राणियां और संतति	१०२
विक्रमसिंह का व्यक्तित्व	१०२

चौथा अध्याय

महारावत तेजसिंह से प्रतापसिंह तक

तेजसिंह	१०४
राज्यप्राप्ति	१०४
हल्दीघाटी के युद्ध में महारावत के काका कांधल का महाराणा के पक्ष में लड़कर काम आना	१०४
प्रतापगढ़ राज्य की तत्कालीन स्थिति	१०५
महारावल का पंवार हरराव आदि से युद्ध करना	१०६
महारावत का देहान्त	१०६
महारावत की राणियां और संतति आदि	१०७
भानुसिंह	१०६
राज्यप्राप्ति	१०६
भानुसिंह और शक्तावत जोधसिंह सीसोदिया के बीच विरोध होना	१०६
महारावत भानुसिंह और शक्तावत जोधसिंह के बीच युद्ध होना	११०
महारावत भानुसिंह के ताम्रपत्र	११६
महारावत की राणियां	११७
महारावत भानुसिंह का व्यक्तित्व	११८

विषय	पृष्ठांक
सिंहा	११८
राज्यप्राप्ति	११८
महाराणा अमरसिंह का महारावत के लिए टीका भेजना बसाड़ और अरणोद परगने का फ़रमान कुंवर कर्णसिंह के नाम होना	११९
महाबतख़ां का देवलिया में जाकर रहना	१२०
महारावत सिंहा का परलोकवास	१२१
महारावत की राणियां और संतति	१२३
महारावत का व्यक्तित्व	१२४
जसवंतसिंह	१२६
राज्य-प्राप्ति	१२६
उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) से महारावत का विरोध होना	१२७
महाराणा जगतसिंह का महारावत को उदयपुर में बुलाकर मरवाना	१३०
महारावत की सन्तति आदि	१३८
हरिसिंह	१४१
राज्यप्राप्ति	१४१
महाराणा का देवलिया पर सेना भेजना	१४१
महारावत का शाही सेना के साथ जाकर देवलिया पर अधिकार करना	१४३
महारावत को शाही दरबार से खिलअत आदि मिलना	१४६
महारावत की शाहज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति	१४८
शाहज़ादे दाराशिकोह और मुराद का महारावत को अपनी-अपनी तरफ़ मिलाने का प्रयत्न करना	१४९
दाराशिकोह को परास्त कर शाहज़ादे मुराद का महारावत को सुखेरीखेड़ा देना	१५२

विषय	पृष्ठांक
औरंगज़ेब का बसाड़ और गयासपुर के परगने महाराणा को देना	१५३
सहायता के लिए दाराशिकोह का महारावत के नाम निशान भेजना	१५४
महाराणा राजसिंह का देवलिया पर सेना भेजना	१५५
महाराणा राजसिंह के पास महारावत का उपस्थित होना	१५६
महारावत को पुनः गयासपुर और बसाड़ आदि परगने मिलना	१५८
महारावत का परलोकवास	१६३
महारावत की संतति	१६४
महारावत के वनवाये हुए महल और उसके समय के लोकोपयोगी कार्य	१६७
महारावत के समय के ताम्रपत्र और शिलालेख	१६७
महारावत का साहित्यानुराग	१७०
महारावत का व्यक्तित्व	१७५
प्रतापसिंह	१७७
राज्यप्राप्ति	१७७
महारावत को खिलअत तथा मंसव मिलना	१७७
शाहीदरवार से महाराणा राजसिंह और महारावत की तक्रार की जांच के लिए शेख इनायतुल्ला की नियुक्ति	१७७
मेवाड़ पर बादशाह औरंगज़ेब की चढ़ाई और महारावत के नाम फ़रमान पहुंचना	१७८
शाहज़ादे मुअज़्ज़म का महारावत के नाम निशान भेजना	१८२
महारावत का प्रतापगढ़ का क़स्बा आवाद करना	१८३
महाराणा अमरसिंह (दूसरा) का महारावत से छेड़-छाड़ करना	१८३
महारावत की पिपलोदे पर चढ़ाई	१८४
महारावत का शेरबुलंदख़ां को अपने यहाँ आश्रय देना	१८५

विषय	पृष्ठांक
बादशाह का महारावत को शाही दरबार में बुलाना	१८५
महाराजा अजीतसिंह और सवाई जयसिंह का देवलिया जाना	१८६
फिशनगढ़ के राजा राजसिंह का देवलिया जाकर रहना	१८७
महारावत का परलोकवास	१८८
महारावत की राणियां और संतति	१८९
महारावत के समय के लोकोपयोगी कार्य	१९०
महारावत का विद्यानुसंग	१९१
महारावत के समय के शिलालेख और दानपत्र	१९१
महारावत का व्यक्तित्व	१९३

पांचवां अध्याय

महारावत पृथ्वीसिंह से सामन्तसिंह तक

पृथ्वीसिंह	१९७
राज्यप्राप्ति	१९७
महारावत की पुत्री का जोधपुर के महाराजा के साथ विवाह होना	१९७
महारावत के नाम बसाड़ का पुनः फ़रमान और उसके मंसब में वृद्धि होना	१९८
जहांदारशाह के पास से बसाड़ परगने का फ़रमान होना	१९९
महारावत के नाम बादशाह फ़र्रुखसियर का फ़रमान	२००
महारावत का शाही इलाक़े में लूट-मार करना	२०१
महारावत का अपने कुंवर पहाड़सिंह को उदयपुर भेजना	२०२
आंबेर और बूंदी के नरेशों का बादशाह से महारावत की शिकायत करना	२०३
शिकायतों की जांच के लिए कुतुबुल्मुल्क का भेजा जाना	२०४

विषय

पृष्ठाङ्क

मंत्री बिहारीदास का रामपुरे से लौटते समय देवलियां में ठहरना	२०५
महारावत का देहान्त	२०६
महारावत के समय के शिलालेख और दानपत्र	२०७
महारावत का व्यक्तित्व	२११
संग्रामसिंह	२१३
महारावत की गद्दीनशीनी और मृत्यु	२१३
महारावत के समय के ताम्रपत्र	२१४
उम्मेदसिंह	२१५
राज्यप्राप्ति और देहान्त	२१५
महारावत के शिलालेख और दानपत्र	२१६
महारावत की राणियां और सन्तति	२१७
गोपालसिंह	२१८
राज्यप्राप्ति	२१८
मुगल बादशाहत की तत्कालीन स्थिति	२१९
मरहटों का उत्थान	२२०
आंवेर और जोधपुर के राजाओं की शक्ति बढ़ना	२२२
महारावत को धरियावद को परगना मिलना	२२४
महारावत का झूंगरपुर से महाराणा की सेना का घेरा उठवाना	२२५
मालवे के लिए मरहटों की लड़ाइयां	२२६
मरहटों से समझौते के लिए देवलिया के समीप राजाओं के एकत्र होने की विफल योजना	२३२
पेशवा के राजपूताना में पहुंचने पर महारावत का उसके पास जाना	२३४
महारावत का महाराणा के साथ सवाई जयसिंह की सहायतार्थ जाना	२४०
महारावत का देहान्त और राणियां आदि	२४१
महारावत के समय के शिलालेख और दानपत्र	२४२

विषय	पृष्ठाङ्क
महारावत का व्यक्तित्व	२४४
महारावत सालिमसिंह	२४५
राज्यप्राप्ति	२४५
महारावत का दिल्ली जाकर बादशाह से सम्मान प्राप्त करना	२४५
तुकोजी का देवलिया पर घेरा डालना ...	२४६
महाराणा अरिसिंह की सहायतार्थ महारावत का सेना भेजना	२४७
महारावत का देहांत और उसकी राखियां आदि ...	२५३
महारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि ...	२५४
महारावत का व्यक्तित्व	२५५
सामन्तसिंह	२५६
राज्यप्राप्ति	२५६
धरियावद का परगना महाराणा-द्वारा खालसा होना	२५७
होल्कर का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज स्थिर करना	२५८
होल्कर सरकार को खिराज की रकम न देने से कुंवर दीपसिंह का ओल में जाना	२५६
सिंधिया की सेना का प्रतापगढ़ को घेरना ...	२५६
अंग्रेज़ सरकार के साथ महारावत की प्रथम संधि ...	२६०
भंवर केसरीसिंह और दलपतसिंह का जन्म ...	२६३
अंग्रेज़ सरकार के साथ दूसरी संधि ...	२६३
प्रतापगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति में उन्नति होना	२६८
दलपतसिंह का डूंगरपुर गोद जाना ...	२६८
सेना-व्यय के एवज़ अंग्रेज़ सरकार को नक़द रुपये देने का क़रार होना	२६६
कुंवर दीपसिंह का उपद्रव करना	२७०
महारावत का नवलचंद पाडलिया को कामदार बनाना	२७३
महारावत की पौत्री का बीकानेर के कुंवर सरदारसिंह से विवाह	२७३

विषय		पृष्ठाङ्क
भंवर केसरीसिंह का देहावसान	...	२७३
शासन में अव्यवस्था होना	...	२७४
महारावत का डूंगरपुर से दलपतसिंह को बुलाकर शासन-कार्य सौंपना /	...	२७४
महारावत का देहान्त	...	२७५
राणियां और संतति आदि	...	२७५
महारावत के समय बने हुए देवालय आदि	...	२७६
महारावत के समय के शिलालेख और दानपत्र आदि		२७७
महारावत का व्यक्तित्व	...	२७६

छठा अध्याय

महारावत दलपतसिंह से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी तक

दलपतसिंह	...	२८१
राज्य-प्राप्ति	...	२८१
अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत आना		२८१
महारावल जसवन्तसिंह का डूंगरपुर से वृन्दावन भेजा जाना		२८२
महारावल जसवन्तसिंह का वृन्दावन में देहान्त होना और सावली के ठाकुर के पुत्र उदयसिंह का डूंगरपुर का स्वामी होना		२८४
महाराजकुमार उदयसिंह का जन्म	...	२८५
डूंगरपुर का शासनाधिकार छूटना	...	२८५
सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेज़ सरकार को प्रतापगढ़ राज्य से सहायता मिलना	...	२८७
गोदनशीनी की सनद मिलना	...	२८४
महारावत का परलोकवास और राणियां आदि	...	२८५
महारावत का व्यक्तित्व	...	२८६

विषय		पृष्ठाङ्क
उदयसिंह	...	२६७
जन्म, गद्दीनशीनी और पुत्र-जन्म	...	२६७
शासन-कार्य चलाने के सम्बन्ध में महारावत के नाम पोलिटिकल एजेंट का खरीता जाना	...	२६७
एजेन्ट गवर्नर-जेनरल का गद्दीनशीनी की खिलअत लेकर जाना	...	२६८
भील और मीणों को दंड देना	...	२६८
रेल्वे निकालने के सम्बन्ध में अंग्रेज़ सरकार की महारावत से बातचीत	...	२६८
महारावत का वाइसरॉय लॉर्ड लॉरेन्स से मुलाकात करने आगरे जाना	...	२६९
प्रतापगढ़ में राजधानी स्थिर होना	...	२६९
अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी की सलामी की तोपें नियत होना	...	३००
वि० सं० १६२५ के अकाल में महारावत की उदारता		३००
शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी होना	..	३०२
अंग्रेज़ सरकार से अपराधियों के देन-लेन का इकरारनामा होना		३०२
घांसवाड़ा राज्य के साथ सीमा सम्बन्धी झगड़ा होना		३०६
महारावत का नीमच जाकर वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से मुलाकात करना	...	३०८
मोघियों को महारावत का अपने राज्य में न ठहरने देना		३०८
कामदार ओंकारलाल व्यास की मृत्यु	...	३०९
महारावत का अपने राज्य की आबादी बढ़ाना	...	३०९
दिल्ली दरबार के उपलक्ष्य में महारावत को भंडा मिलना		३१०
प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम बार मनुष्य-गणना होना		३१०
इन्दौर नरेश से मुलाकात के लिए महारावत का नीमच जाना		३१०
महारावत का पारसी फ़ामजी भीकाजी को कामदार बनाना		३११

विषय

पृष्ठांक

महारावत की सैलानेवाली महाराणी से कुंवर उत्पन्न होना	३११
महाराणी विक्टोरिया की स्वर्ण जयन्ती का उत्सव मनाया जाना	३११
महारावत का नीमच जाकर ड्यूक ऑफ् कनाट से मुलाकात करना	३१२
महारावत के अन्वय प्रमुख कार्य	३१२
महारावत का परलोकवास	३१३
महारावत की राणियां	३१३
महारावत के लोकोपयोगी कार्य	३१३
महारावत का व्यक्तित्व	३१३
रघुनाथसिंह	३१५
जन्म और गद्दीनशीनी	३१५
अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत पहुंचना	३१७
सीमा सम्बन्धी झगड़े तय होना	३१८
पंडित मोहनलाल पंडथा का कामदार नियत होना	३१८
रघुनाथ हास्पिटल का निर्माण होना	३१९
म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना	३१९
सायर के महकमे की स्थापना	३१९
प्रतापगढ़ में तारघर और देवलिया में डाकखाना खुलना	३२०
मन्दसोर तक पक्की सड़क बनना	३२०
देवलिया के राजमहलों का जीर्णोद्धार होना	३२०
ज़िलाबंदी होना	३२१
सरदारों को न्याय सम्बन्धी अधिकार मिलना	३२१
पारसी क्लामजी भीकाजी को पुनः कामदार नियत करना	३२५
राजकुमारी वल्लभकुंवरी का महाराजा बीकानेर के साथ विवाह होना	३२५
महारावत का बीकानेर जाना तथा कामदार पद पर ठाकुर रघुवीरसिंह का नियत होना	३२६

विषय	पृष्ठाङ्क
सेठ सोभागमल ढढा को खज़ांची बनाना ...	३२६
न्याय-विभाग को पृथक् कर राजसभा की स्थापना करना	३२६
संवत् १६५६ का भयङ्कर अकाल ...	३२७
कुंवर गोवर्द्धनसिंह का जन्म और उसको अरणोद की जागीर मिलना	३२८
अकाल का पुनः आक्रमण ...	३२६
ठाकुर रघुवीरसिंह का कामदार पद से पृथक् होना	३२६
महाराजकुमार मानसिंह का खेतड़ी में विवाह होना	३२६
महारावत का अंग्रेज़ सरकार से ऋण लेकर ऋर्ज़ चुकाना	३२६
सालिमशाही के स्थान में कलदार का चलन होना	३३०
खिराज की रक़म में कमी होकर कलदार रक़म नियत होना	३३१
खालसे के गांवों की पैमाइश होकर ठेकावन्दी होना	३३१
प्लेग की भयंकर बीमारी होना ...	३३२
महाराजकुमार मानसिंह को राज्याधिकार मिलना ...	३३२
महाराजकुमार मानसिंह का परलोकवास ...	३३८
महारावत के समय के पिछले उल्लेखनीय कार्य ...	३४२
महारावत का कामदार पद पर पारसी धनजीशाह को नियुक्त करना ...	३४३
महारावत के भंवर रामसिंह का विवाह ...	३४३
अफ़्तीम की ख़रीद के बारे में अंग्रेज़ सरकार से बातचीत होना	३४३
महारावत की बीमारी और परलोकवास ...	३४४
महारावत की राणियां और संतति ...	३४४
महारावत के समय के लोकोपयोगी कार्य ...	३४५
महारावत का व्यक्तित्व ...	३४६
महारावत सर रामसिंहजी ...	३५०
जन्म और गद्दीनशीनी ...	३५०
-शिक्षा ...	३५०

विषय	पृष्ठाङ्क
अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की ख़िलअत प्राप्त होना	३५०
मंत्री-पद पर एफ़्फ़० सी० केवेन्टरी की नियुक्ति ...	३५१
राजकुमारी मोहनकुंवरी का विवाह ...	३५१
लोक-हितकारी कार्य ...	३५२
ख़िराज में कमी होना ...	३५३
दिगंबर जैन सम्मेलन की ओर से महारावत को अभिनन्दनपत्र मिलना ...	३५४
सम्राट् जॉर्ज की ओर से महारावत को खिताब मिलना	३५४
मंत्री पद पर महारावत का राजा त्रिभुवनदास को नियत करना	३५४
विवाह और सन्तति ...	३५५
महारावत की जीवन सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें ...	३५६

सातवाँ अध्याय

प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित कर्मचारी

सरदार ...	३५८
महारावत के निकट सम्बन्धी	३५६
अरणोद ...	३५६
प्रथम वर्ग के सरदार ...	३६१
धमोतर ...	३६१
कल्याणपुरा ...	३६५
आंवीरामा ...	३६६
रायपुर ...	३६७
भांतला ...	३६८
सालिमगढ़ ...	३६६
अचखावदा ...	३७०

विषय	पृष्ठांक
घरडिया	३७०
बोड़ी साखधली	३७२
जाजली	३७२
द्वितीय वर्ग के सरदार	३७३
अनघोरा	३७३
घरखेड़ी	३७४
नागदी	३७६
देवद	३७७
बड़ा सेलारपुरा	३७८
छायण (सीधेरखा)	३७८
परगावा	३७९
धनेसरी	३८०
डोराणा	३८०
प्रसिद्ध और प्राचीन घराने	३८१
वर्षावत	३८३
शाह वर्षा और उसके वंशज	३८३
पाडलियों का घराना	३८३
पाडलिया चंद्रभाण और सुन्दर	३८३
लसण के पुत्र कपूर के वंशज	३८४
लसण के दूसरे पुत्र हरचंद के वंशधर	३८०
खासगीवालों का घराना	३८१
भांचावत	३८३
आपा सन्नाराम का वंश	३८४

परिशिष्ट

विषय	पृष्ठाङ्क
१—गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के पूर्व पुरुष रावत क्षेमकर्ण तक मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की वंशावली ...	३६५
२—महारावत क्षेमकर्ण से वर्तमान समय तक प्रतापगढ़ के राजाओं की वंशावली ...	३६७
३—प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालक्रम ...	३६८
४—प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से सहायता ली गई उनकी सूची ...	४१२

अनुक्रमणिका

(क) वैयक्तिक ...	४१६
(ख) भौगोलिक ...	४४८

चित्र-सूची

चित्र		पृष्ठाङ्क
(१)	स्वर्गवासी महाराजकुमार मानसिंह	समर्पण पत्र के सामने
(२)	देवलिया के राजमहल	... १७
(३)	उदयनिवास महल, प्रतापगढ़	... १६
(४)	प्रतापगढ़ के प्राचीन महल	... २०
(५)	शेवना के प्राचीन शिवमन्दिर का भीतरी भाग	... २७
(६)	शेवना के प्राचीन देवी-मन्दिर का भीतरी भाग	... २८
(७)	महारावत जसवन्तसिंह	... १२६
(८)	महारावत हरिसिंह	... १४१
(९)	महारावत प्रतापसिंह	... १७७
(१०)	महारावत पृथ्वीसिंह	... १६७
(११)	महारावत उम्मेदसिंह	... २१५
(१२)	महारावत सालिमसिंह	... २४५
(१३)	महारावत सामन्तसिंह	... २५६
(१४)	रघुनाथद्वारा, देवलिया	... २७६
(१५)	महारावत दलपतसिंह	... २८१
(१६)	महारावत उदयसिंह	... २६७
(१७)	प्रतापगढ़ का नवीन राजभवन	... २६६
(१८)	महारावत सर रघुनाथसिंह, के० सी० आई० ई०	... ३१५
(१९)	महारावत सर रामसिंहजी बहादुर, के० सी० एस्० आई०	... ३५०
(२०)	श्रीभुवनेश्वरीदेवी ज्ञानाना हॉस्पिटल, प्रतापगढ़	... ३५२



महामहोपाध्याय रायबहादुर
साहित्यवाचस्पति डॉ० गौरीशंकर हीराचंद ओझा,
डी० लिट्०, अजमेर रचित तथा संपादित ग्रन्थ

स्वतन्त्र रचनाएं—

	...	मूल्य
(१) प्राचीन लिपिमाला (प्रथम संस्करण)	...	अप्राप्य
(२) भारतीय प्राचीन लिपिमाला (द्वितीय परिवर्द्धित संस्करण)	...	अप्राप्य
(३) सोलंकीयों का प्राचीन इतिहास—प्रथम भाग	...	अप्राप्य
(४) सिरोही राज्य का इतिहास	...	अप्राप्य
(५) वापा रावल का सोने का सिक्का	...	॥)
(६) वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह	...	॥=)
(७) * मध्यकालीन भारतीय संस्कृति	...	रु० ३)
(८) राजपूताने का इतिहास—पहली जिल्द (द्वितीय संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण)	...	रु० ७)
(९) राजपूताने का इतिहास—दूसरी जिल्द, उदयपुर राज्य का इतिहास—पहला खंड	...	अप्राप्य
उदयपुर राज्य का इतिहास—दूसरा खंड	...	रु० ११)
(१०) राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, पहला भाग—डूंगरपुर राज्य का इतिहास	...	रु० ४)
दूसरा भाग—बांसवाड़ा राज्य का इतिहास	...	रु० ४॥)
तीसरा भाग—प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास	...	रु० ७)
(११) राजपूताने का इतिहास—चौथी जिल्द, जोधपुर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड	...	रु० ८)
जोधपुर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड	...	यंत्रस्थ
(१२) राजपूताने का इतिहास—पांचवीं जिल्द, बीकानेर राज्य का इतिहास—प्रथम खंड	...	रु० ६)
बीकानेर राज्य का इतिहास—द्वितीय खंड	...	रु० ६)

* प्रयाग की "हिन्दुस्तानी एकेडेमी"-द्वारा प्रकाशित । इसका उर्दू अनुवाद भी उक्त संस्था ने प्रकाशित किया है। "गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी" (अहमदाबाद) ने भी इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद प्रकाशित किया है, जो वहां से १) रु० में मिलता है ।

	सूक्ष्म
(१३) राजपूताने का इतिहास—दूसरा खंड	... अप्राप्य
(१४) राजपूताने का इतिहास—तीसरा खंड	... रु० ६)
(१५) राजपूताने का इतिहास—चौथा खंड	... रु० ६)
(१६) भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री	... ॥)
(१७) † कर्नल जेम्स टॉड का जीवनचरित्र	... ॥)
(१८) † राजस्थान-ऐतिहासिक-दन्तकथा—प्रथम भाग (‘एक राजस्थान निवासी’ नाम से प्रकाशित)	... अप्राप्य
(१९) × नागरी अंक और अक्षर	... अप्राप्य

सम्पादित

(२०) * अशोक की धर्मलिपियां—पहला खंड (प्रधान शिलाभिलेख)	... रु० ३)
(२१) * सुलेमान सौदागर	... रु० १)
(२२) * प्राचीन मुद्रा	... रु० ३)
(२३) * नागरीप्रचारिणी पत्रिका (त्रैमासिक), नवीन संस्करण, भाग १ से १२ तक—प्रत्येक भाग	... रु० १०)
(२४) * कोशोत्सव स्मारक संग्रह	... रु० ३)
(२५-२६) † हिन्दी टॉड राजस्थान—पहला और दूसरा खंड (इनमें विस्तृत सम्पादकीय टिप्पणियों-द्वारा टॉड-कृत ‘राजस्थान’ की अनेक ऐतिहासिक त्रुटियां शुद्ध की गई हैं)	... रु० ४)
(२७) जयानक-प्रणीत ‘पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य’ सटीक	... रु० ५)
(२८) जयसोम-रचित ‘कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्’	... यंत्रस्थ
(२९) मुंहणोत नैणसी की ख्यात—दूसरा भाग	... रु० ४)
(३०) गद्य-रत्न-माला—संकलन	... रु० १)
(३१) पद्य-रत्न-माला—संकलन	... रु० ॥)

† खड्गविलास प्रेस, बांकीपुर-द्वारा प्रकाशित ।

× हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग-द्वारा प्रकाशित ।

* काशी नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ।



ग्रन्थकर्ता-द्वारा रचित पुस्तकें ‘व्यास एण्ड सन्स’, बुकसेलर्स, अजमेर के यहाँ भी मिलती हैं ।

राजपूताने का इतिहास—तीसरी जिल्द, तीसरा भाग

प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास

पहला अध्याय

भूगोल सम्बन्धी वर्णन

प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी देवलिया होने से पहले यह राज्य देवलिया (देवगढ़) राज्य कहलाता था । उक्त राज्य के अधीन का प्रदेश कांठल नाम से प्रसिद्ध है । देवलिया का नाम कसबा पहाड़ी प्रदेश में होने तथा वहां का जलवायु आरोग्यप्रद न होने के कारण महारावत प्रतापसिंह ने समान भूमि में घोघेरिया खेड़ा (डोडेरिया का खेड़ा) के स्थान पर प्रतापगढ़ नगर बसाया, जहां राजधानी स्थिर होने से इसका नाम प्रतापगढ़ राज्य हुआ ।

प्रतापगढ़ राज्य राजपूताने के दक्षिणी भाग में $23^{\circ} 22'$ और $24^{\circ} 12'$ उत्तर अक्षांश तथा $74^{\circ} 26'$ और 75° पूर्व देशान्तर के बीच स्थित है । इस राज्य का क्षेत्रफल अनुमान ८८६ वर्ग मील है ।

(१) संस्कृत के 'कंठ' या 'कंठिका' शब्द से कांठा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ समुद्र, नदी अथवा किसी निश्चित सीमा के किनारे का प्रदेश होता है । यथा 'मही कांठा' = 'मही के तट का प्रदेश', 'रेवा काठा' = 'रेवा(नर्मदा)के तट का प्रदेश' आदि ।

प्रतापगढ़ राज्य से मालवा राज्य की सीमा मिलती है । इस कारण से उक्त राज्य 'कांठा' अर्थात् सीमा के तट का प्रदेश कहलाने लगा, जिसका परिवर्तित रूप 'कांठल' है ।

इस राज्य के उत्तर में उदयपुर और ग्वालियर राज्य; पश्चिम में उदयपुर और वांसवाड़ा राज्य; दक्षिण में रतलाम और जावरा राज्य एवं पूर्व में ग्वालियर, जावरा तथा इंदौर राज्य के कुछ-कुछ अंश हैं। उत्तर से दक्षिण तक इस राज्य की अधिक से अधिक लंबाई ५० मील है। पूर्व से पश्चिम तक का उत्तर का आधा भाग चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई ३० मील है, परंतु दक्षिणी आधे विभाग की चौड़ाई कम है और कहीं-कहीं तो केवल ८ मील ही है।

प्रतापगढ़ राज्य का उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिम का अनुमान एक तिहाई हिस्सा, जो 'मगरे' के नाम से प्रसिद्ध है, पर्वत श्रेणियों से भरा हुआ है। उत्तरी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतह से १८६२ फुट ऊंची है। दक्षिणी विभाग में सबसे ऊंची पहाड़ी समुद्र की सतह से १६१० फुट है, जो कानगढ़ के समीप है। शेष भूमि अर्थात् राज्य का पश्चिमी विभाग मालवा के पठार के समान है, जो समुद्र की सतह से १६५० से १७०० फुट तक ऊंचा है और माळ की ज़मीन होने से बड़ा उपजाऊ है।

इस राज्य में जाकम (जाखम), शिव, पेरा, रेतम और करमोई नामक नदियां हैं। उनमें जाकम (जाखम) और शिव साल भर बहती हैं, बाकी कुछ मास तक ही।

(१.) जाकम (जाखम)—यह नदी इंदौर राज्य के जाखमिया गांव से निकलकर कुछ दूर मेवाड़ में बहती हुई मेवाड़ से दक्षिण-पश्चिम में इस राज्य में प्रवेशकर मगरा ज़िले के उत्तरी भाग में बहती हुई पुनः मेवाड़ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात् धरियाबद के पास होती हुई यह मही की सहायक नदी सोम में जा मिलती है।

(२.) शिव—इस नदी का उद्गम इसी राज्य के दक्षिणी भाग में शिवना गांव से हुआ है। कुछ मील प्रतापगढ़ राज्य में बहकर पूर्व में २३ मील तक इस राज्य की सीमा बनाती हुई यह उत्तर-पूर्व में मंदसोर के पास बहकर चंबल में जा गिरती है।

(३) पैरा—राजधानी प्रतापगढ़ के पास से निकलकर १५ मील दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई यह वांसवाड़ा राज्य में प्रवेश करती है और वहां से तीस मील बहकर मही में मिल जाती है ।

(४) रेतम—कसबा प्रतापगढ़ से निकलकर राज्य के उत्तर-पूर्व में बहती हुई ग्वालियर राज्य में जाकर यह चंबल में मिल जाती है ।

(५) करमोई—इस नदी का निकास सीतामाता की पहाड़ियों से हुआ है । मेवाड़ में धरियावद के पास बहती हुई यह मही में जा मिलती है ।

इस राज्य में कोई बड़ी उल्लेखनीय भील नहीं है । राज्य में छोटे-बड़े सब मिलाकर ३१ तालाब हैं, जिनमें रायपुर, गंधेर, खेरोट, घोटासी, अचल-पुर, जाजली, अचलावदा, साखथली और देवलिया का 'तेजसागर' तालाब मुख्य हैं । तेजसागर तालाब मद्दारावत तेजसिंह का बनवाया हुआ है ।

भीलें

इस राज्य का जल-वायु मालवा के समान है और सामान्यतः आरोग्यप्रद है । मई-जून और अक्टोबर मास में सर्वत्र विशेष गर्मी पड़ती है, किंतु मगरा ज़िले में पहाड़ियां होने से अन्य स्थानों की अपेक्षा गर्मी कम रहती है । शीतकाल में सर्दी अधिक पड़ती है । यहां वर्षा का औसत २५ इंच के करीब है । ई० स० १८६३ (वि० सं० १६५०) में यहां ६४ इंच वर्षा हुई थी और ई० स० १८६६ (वि० सं० १६५६) में ११ इंच से भी कम ।

जल-वायु और वर्षा

पहाड़ी प्रदेश को छोड़कर यहां की अधिकांश भूमि उपजाऊ है । मिट्टी काली, भूरी और धामनी है । मगरा ज़िले की भूमि कंकरीली है । काली मिट्टीवाली अर्थात् 'माळ' की भूमि अधिक उपजाऊ है । यहां खरीफ़ (सिचालू) और रबी (उन्हालू) दोनों फ़सलें होती हैं, परंतु रबी की फ़सल की अपेक्षा खरीफ़ की फ़सल अधिक होती है । जहां कुआं आदि से सिंचाई की सुविधा है, वहां तथा 'माळ' में रबी की फ़सल पैदा की जाती है ।

जमीन और पैदावार

खरीफ़ की फ़सल की मुख्य पैदावर जवार, मक्का, तिल, कोदरा, कुरी, सामली, माल, चावल, मूंग, उड़द, चाँला, तूअर, सन, कपास आदि हैं। रबी की पैदावार में गेहूँ, जौ, चना, अफ़ीम, सरसों, अलसी, अजवाइन, राई, बटला (मटर), मसूर और सुवा हैं। जहाँ जल की सुविधा है, वहाँ गन्ने की खेती भी होती है। पहिले अफ़ीम की खेती बहुतायत से होती थी, परंतु कितने एक वर्षों से अंग्रेज़-सरकार की ओर से उसका बोना कम करा दिया गया है। शाकों में गोभी, आलू, कद्दू (कुम्हड़ा, कोला), प्याज़, लहसुन, मूली, रतालू, अरबी, अदरक, वैंगन, भिंडी, तुरई, आल (लौकी), गवार, मेथी आदि और फलों में आम, सीताफल (शरीफ़ा), केला, अनार, अमरूद, शहतूत, अंजीर, पपीता और नींबू मुख्य हैं। जंगल की पैदावार में सफ़ेद मूसली, गोंद, शहद, चिरोँजी तथा कत्था आदि हैं।

इस राज्य के उत्तरी तथा पश्चिमी पहाड़ी प्रदेशों में जंगल बहुत हैं। पहले इन जंगलों की तरफ़ राज्य की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु अब वे राज्य के प्रबंध में हैं। जंगल में जंगल सागवान, शीशम, आवनूस, हल्दू, सालर, ढाक, धौ, कदंब, महुआ, पीपल, बबूल, नीम, इमली, बांस आदि के वृक्ष हैं। सीता-माता के पास केवड़ा अधिकता से होता है, जो सुगंधि के लिए प्रसिद्ध है। सरीपीपली, दोनों सालिमगढ़, बजरंगगढ़, कनोर और अरणोद में भरनेवाले साप्ताहिक हटवाड़ों में भील लोग लकड़ियां, बांस आदि बेचने के लिए ले जाते हैं, जिससे राज्य को लगभग सात हज़ार रुपये वार्षिक महसूल की आय होती है। इन हटवाड़ों में सरीपीपली और सालिमगढ़ के हाट प्रसिद्ध हैं, जिनमें नीमच, मंदसोर और कभी-कभी नसीरावाद के व्यापारी भी लकड़ी खरीदने के लिए जाते हैं। चंदन के वृक्ष इस राज्य में सर्वत्र पाये जाते हैं, परंतु दक्षिणी भाग के वड़वास कलां और हतुण्या में अधिकता से होते हैं, जो राज्य की ही संपत्ति समझे जाते हैं। घास सर्वत्र होती है, पर मगरा ज़िले में अधिक। घास के कुछ स्थल राज्य के लिए सुरक्षित हैं।

पालतू-पशुओं में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और ऊंट मुख्य हैं। जंगली जानवरों में बाघ, चीता, रीछ, जरख (लकड़बग्घा), हिरन, नीलगाय, सांभर, चीतल, सूअर, भेड़िया, शियागोस आदि पाये जाते हैं। पक्षियों में गिद्ध, चील, तोता, कबूतर, फ्रास्ता, तीतर, बटेर, लवा आदि कई प्रकार के पक्षी हैं। जल के निकट रहनेवाले पक्षियों में सारस, बतख, बगुले, टिटहरी आदि हैं। जल-जंतुओं में मगर, मछलियां, मेंढक, केकड़े, कछुप, जलमानुस आदि हैं।

पशु-पक्षी

खनिज पदार्थों की इस राज्य में खोज नहीं हुई है। प्रसिद्ध है कि राजधानी प्रतापगढ़ के समीप की पहाड़ियों में लोहा है। धमोतर के पश्चिम में नकोर के पास इमारती पत्थर की खान है। देवलिया के महलों का निर्माण उसी पत्थर से हुआ है, परंतु कई वर्षों से यह खान बंद है। चूने का पत्थर राजधानी प्रतापगढ़ से पांच मील दूर रजोरा और तेरह मील दूर कामलियाखाल में मिलता है।

खानें

प्रतापगढ़ राज्य में अब तक कोई रेल्वे लाइन नहीं खुली है। राज्य का निकटवर्ती रेल्वे स्टेशन पूर्व में बी० बी० एंड सी० आई० रेल्वे का मंदसोर है, जो वर्तमान राजधानी प्रतापगढ़ से २० मील दूर है।

रेल्वे

प्रतापगढ़ से मंदसोर स्टेशन तक पक्की सड़क है, जिसपर बैलगाड़ियां, तांगे और मोटरें चलती हैं। इस राज्य में इस सड़क की लंबाई

सड़कें

१३ मील है और शेष ग्वालियर राज्य में है। आजकल प्रतापगढ़ से मंदसोर तक मोटर सर्विस जारी हो जाने से लोगों को बड़ा सुभीता हो गया है। देवलिया, नीमच, धरियावद, बांसवाड़ा, पीपलोदा और जावरा की तरफ गमनागमन के लिए कच्ची सड़कें बनी हुई हैं और उधर मोटरें, तांगे आदि भी चलते हैं। राज्य के अन्य भागों में गाड़ियों तथा ऊंट, घोड़ा आदि भार-वाहक पशुओं के जाने लायक मार्ग हैं। बरसात में कच्ची सड़कें तथा पहाड़ी मार्ग खराब हो जाते

हैं, जिससे गाड़ियों आदि का चलना बन्द रहता है ।

इस राज्य में अब तक छः बार मनुष्य गणना हुई है । यहाँ की जन-संख्या ई० स० १८८१ (वि० सं० १९३७) में ७६५६८; ई० स० १८९१ (वि० सं० १९४७) में ८७६७५; ई० स० १९०१ (वि० सं० १९५७) में ५२०२५; ई० स० १९११ (वि० सं० १९६७) में ६२७०४; ई० स० १९२१ (वि० सं० १९७७) में ६७११० और ई० स० १९३१ (वि० सं० १९८७) में ७६५३६ थी । ई० स० १९०१ (वि० सं० १९५७) में मनुष्य-संख्या में अधिक कमी होने का कारण वि० सं० १९५६ (ई० स० १८९६-१९००) का भीषण अकाल और उसके बाद दूसरे वर्ष फैलनेवाली हैजा आदि विमारियां थीं ।

इस राज्य के निवासियों के मुख्य-धर्म वैदिक, जैन और इस्लाम हैं । हिंदू (वैदिक) धर्म के माननेवालों में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि कई भेद हैं, जिनमें वैष्णव मतावलंबियों की संख्या अधिक है । जैन धर्म में दिगंबर तथा श्वेतांबर, नामक दो फ़िरकें हैं । श्वेतांबरों में एक फ़िरकी टूटियों का है, जो स्थानकवासी कहलाते हैं । प्रतापगढ़ राज्य में दिगंबरों की संख्या अधिक है । भील और मीरे हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं तथा देवी, महादेव, भैरव आदि देवताओं को पूजते हैं । उनका विवाह-संस्कार हिंदू-धर्म की प्रणाली के अनुसार होता है । मुसलमानों में सुन्नी और शिया नामक दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों की संख्या विशेष है । शिया मत के माननेवाले दाऊदी बोहरे हैं । ईसाइयों की संख्या नाम मात्र की है ।

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, चारण, सुनार, दर्जी, लुहार, सुथार, कुम्हार, माली, गूजर, कुनबी, गाडरी, धाकड़, दरोगा, नाई, धोबी, कोली, मीरे, भील, बलाई, भांवी, ढोली, मेहतर आदि अनेक जातियां हैं । ब्राह्मणों और महाजनों आदि में कई उपजातियां हो गई हैं, जिनमें परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता । ब्राह्मणों की उपजातियों में तो परस्पर स्नान-पान का संबंध भी नहीं है । मुसलमानों

में शेख, सैयद, मुगल, पठान, रंगरेज़, भिश्ती आदि कई भेद हैं।

इस राज्य के निवासियों में लगभग आधे से अधिक लोग खेती का पेशा करते हैं। ब्राह्मण पूजा-पाठ और पुरोहिताई करते हैं, किन्तु कोई-कोई खेती, व्यापार तथा नौकरी भी करते हैं।

पेशा

राजपूत प्रायः सैनिक-वृत्ति अथवा खेती करते हैं। महाजन तथा बोहरे विशेषतः व्यापार करते हैं। शेष लोग खेती, नौकरी, मज़दूरी, पशुपालन आदि से अपनी जीविका उपार्जन करते हैं।

प्रतापगढ़ राज्य के निवासियों में पुरुषों की साधारण पोशाक पगड़ी, कुरता, लंबा अंगरखा और धोती है। नागरिकों में कोट और

पोशाक

पायजामा पहनने की चाल बढ़ रही है। ग्रामीण तथा मीणे, भील आदि पगड़ी के स्थान पर मोटा वस्त्र, जिसे फेंटा कहते हैं, सिर पर लपेट लेते हैं। शहरों में राजकीय पुरुष पगड़ी, अंगरखा या अचकन तथा पायजामा पहनकर अंगरखे पर कमरबंद बांधते हैं, परंतु आजकल पगड़ी के स्थान पर साफ़ा या टोपी और अंगरखे के स्थान में कोट का प्रचार बढ़ता जा रहा है। कोई-कोई अंग्रेज़ी टोप का भी व्यवहार करने लगे हैं। बोहरे तथा मुसलमान प्रायः पायजामा पहनते हैं। स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, साड़ी और कंचुकी (कांचली) मुख्य हैं। कोई-कोई स्त्रियां कुरती, अंगिया या वास्कट भी पहनती हैं। मीणे, भील, किसान तथा अन्य ग्रामीण लोगों की स्त्रियों के लहंगे कुछ ऊंचे होते हैं। मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पायजामे व तिलक पहनती हैं। बोहरों की स्त्रियां बाहर जाते समय प्रायः लहंगा और दुपट्टा काम में लाती हैं।

इस राज्य में बोली जानेवाली मुख्य भाषा मालवी है, जिसे रांगड़ी भी कहते हैं। कुछ लोग वागड़ी तथा भीली भाषा बोलते हैं, जिनका गुजराती से बहुत कुछ संबंध है। कोई-कोई शुद्ध गुजराती भी बोलते हैं।

भाषा

यहां की प्रचलित लिपि नागरी है। राजकीय अदालतों, महाजनों की बहियों, चिड़ी पत्री आदि में इसी लिपि का व्यवहार होता है, किंतु यह

लिपि घसीट रूप में लिखी जाती है, जिसमें शुद्धता का बहुत कम ध्यान रखा जाता है। कुछ राजकीय दफ्तरों में अंग्रेज़ी का व्यवहार भी होने लगा है।

गांवों में काले और सफ़ेद कंबल तथा मोटी खादी बनाई जाती है। तांबे और पीतल के बर्तन तथा भीलनियों के पहिने की पीतल की पींजनियां आदि ज़ेवर भी यहां बहुतायत से बनते हैं। सोने-चांदी के ज़ेवर, लाख, हाथीदांत और नारियल की चूड़ियां, लकड़ी के रंगीन खिलौने, पलंग के शीशम आदि के पाये तथा खिलौने और अन्य सामान यहां अधिकता से बनता है। हरे, लाल और आसमानी रंग के कांच के ऊपर एक प्रकार का सुनहरी काम यहां बहुत ही सुन्दर बनता है, जो भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं नहीं बनता। ऐसे काम के बटन, सिगरेट-केस आदि वस्तुएं बनती हैं, जिनपर पौराणिक या शिकार आदि के चित्र अंकित किये जाते हैं और वे सोने में मढ़े जाते हैं। इस काम को करनेवाले यहां चार-पांच परिवार ही हैं, जो दूसरों को यह काम नहीं बतलाते।

व्यापार के मुख्य केन्द्र राजधानी के अतिरिक्त अरणोद, कनोरा, कोटड़ी, रायपुर और सालिमगढ़ हैं। राज्य में बाहर से आनेवाली वस्तुएं व्यापार नमक, कपड़ा, शक्कर, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तंबाकू, नारियल, मसाला, चावल, गुड़, सूखा मेवा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुएं, कांच तथा चीनी का सामान, हाथीदांत, मोटर, साइकिलें आदि हैं। राज्य से बाहर जानेवाली वस्तुओं में रूई, अफ़ीम, अन्न, तिल, अलसी, सुवा, सरसों, गुड़, घी, इमारती लकड़ी, लकड़ी के खिलौने, चमड़ा आदि मुख्य हैं। पहले यहां अफ़ीम का व्यापार बहुत था, परंतु अब अफ़ीम का सारा व्यापार अंग्रेज़-सरकार के नियन्त्रण में होने से उठ गया है। बंबई, इंदौर, रतलाम, मंदसोर, नीमच, वागड़ (डूंगरपुर तथा वांसवाड़ा राज्य) और मेवाड़ आदि से यहां का व्यापारिक संबंध है।

हिंदुओं के त्योहारों में होली, गनगौर, रक्षाबंधन, तीज, दशहरा और दीवाली मुख्य हैं। रक्षाबंधन विशेषतः ब्राह्मणों और दशहरा राजपूतों का त्योहार है। दशहरे के अवसर पर महारावतजी की सवारी धूमधाम से निकलती है। दीवाली व्यवसायी-वर्ग का त्योहार है, परंतु उसे सब हिंदू समानता से मनाते हैं। होली भी सब वर्गों का त्योहार है और सब जातियों के लोग फाग खेलते हैं। भीलों के त्योहारों में होली, दशहरा और दीवाली मुख्य हैं। गनगौर और तीज स्त्रियों के त्योहार हैं। मुसलमानों के त्योहार दोनों ईदें—'इदुल्फ़ितुर' और 'इदुल्जुहा'—तथा मोहर्रम (ताज़िये) हैं।

अरणोद के पास गौतमनाथ महादेव का मेला वैशाख सुदि १५ से दो दिन तक प्रति वर्ष होता है। अंबा माता (प्रतापगढ़ से ४ मील उत्तर) का मेला प्रति वर्ष कार्तिक सुदि २ को होता है, जहां बहुत से यात्री जाते हैं। सीतामाता का मेला प्रत्येक तीसरे वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में होता है।

इस राज्य में अंग्रेज़ी डाकखाने प्रतापगढ़, देवलिया, अरणोद, नीनोर और जाजली में हैं। तारघर केवल प्रतापगढ़ में ही है।

पहले राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध न था, जिससे लोग पंडितों, जैन यतियों तथा अन्य घरू पाठशालाओं में अपने बालकों को शिक्षा दिलाते थे। अब राज्य की तरफ़ से प्रतापगढ़ और देवलिया के अतिरिक्त बसाड़, केरोट (खेरोट), धामल्या, गंधेर, पानमोड़ी, दलोठ, कोटड़ी, नीनोर, वरमंडल, पीलू, कुणी, अचलेसर, नौगामा, कुलथाना, चूंपना, अमलावद, सरीपीपली तथा पारल्या में राज्य की तरफ़ से प्रारम्भिक पाठशालाएं खोल दी गई हैं। धमोतर, वारेवरदा, अरणोद, सालिमगढ़ और डोराना में सरदारों की तरफ़ से पाठशालाएं हैं, जहां प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। राजधानी प्रतापगढ़ में एक हाईस्कूल है और संस्कृत की ज्ञानवृद्धि के लिए पृथक् पाठशाला

भी है, जहां 'आचार्य' कक्षा तक की पढ़ाई होती है। उसका संबंध बनारस के गवर्नमेंट संस्कृत कालेज से है। कन्याओं की शिक्षा के लिए राजधानी में कन्या पाठशाला है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भी हो गई है।

इस राज्य में पहले रोगियों का इलाज वैद्य, हकीम, जर्हाह तथा अम्य अनुभवी लोगों-द्वारा होता था। ग्रामीण जनता अपनी चिकित्सा अपने-

अस्पताल

अपने अनुभव की औषधियों-द्वारा करती थी। कई

वर्षों से राज्य ने जनता के हितार्थ राजधानी प्रतापगढ़

और देवलिया में अस्पताल खोल दिये हैं, जहां चीर-फाड़ एवं बड़े-बड़े रोगों का इलाज होता है। राजधानी प्रतापगढ़ में स्त्रियों की चिकित्सा के लिए पृथक् अस्पताल भी बन गया है एवं देशी दवाखाना भी खोल दिया गया है। इनके अतिरिक्त वहां सेठ घासीलाल पूनमचंद की तरफ से भी एक अंग्रेजी दवाखाना चल रहा है। प्रतापगढ़ राज्य में शीतला से बालकों आदि को बचाने के लिए सर्वत्र टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। गांवों में घूम-घूमकर रोगियों की चिकित्सा करने के लिए राज्य ने एक डाक्टर और वैद्य भी नियत कर दिया है। रायपुर के ठिकाने में एक छोटा अस्पताल है, जो वहां के ठाकुर-द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान महारावतजी का इस ओर पूरा ध्यान होने से धमोतर और अरणोद में भी दवाखाने खोलने की व्यवस्था की जा रही है। पाठशालाओं के अध्यापकों-द्वारा भी गांवों में बुखार, खांसी आदि की औषधियां राज्य वितीर्ण कराता रहता है, जिससे ग्रामीण जनता का कष्ट बहुत कुछ कम हो गया है।

राज्य-प्रबंध की सुविधा के लिए पहले इस राज्य के पांच विभाग किये गये थे, जो प्रतापगढ़, कनोरा, बजरंगगढ़, साखथली और मगरा

जिले

जिले कहलाते थे; किन्तु बाद में उनकी संख्या

घटाकर हथूनिया, साखथली और मगरा नामक

तीन जिले ही रखे गये। ई० स० १९०५ (वि० सं० १९६२) में मगरा और प्रतापगढ़ दो ही जिले रह गये। तत्पश्चात् ई० स० १९०६ (वि० सं० १९६३)

में मगरा ज़िले के लिए एक नायब नियत कर देवलिया में रखा गया और वह ज़िला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत कर दिया गया। फिर खालसे की समस्त भूमि का माली प्रबंध एक पुथक् अफ़सर बनाकर उसके अधीन कर दिया गया, जो 'रेवेन्यु अफ़सर' कहलाता है। रेवेन्यु अफ़सर को जुडिशियल मामलों में द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हैं। कार्य की सुविधा के लिए गांवों में पटवारो तथा क़ानूनगो मुक़रर कर दिये गये हैं।

इस राज्य में पहले न्याय प्राचीन प्रणाली से होता था। फिर क्रमशः उसमें वर्तमान शैली के अनुसार परिवर्तन किये गये। छोटे-छोटे दीवानी मामलों के दो सौ रुपये तक के दावे सुनने का न्याय अधिकार स्मॉल काज़ कोर्ट बनाकर उसे दे दिया गया है, जिनकी अपील नहीं होती; परन्तु निगरानी हाई कोर्ट में होती है। दो सौ रुपये से ऊपर दस हजार अथवा उससे अधिक के दावे अदालत दीवानी में सुने जाते हैं और उनकी अपील सेशन जज के पास होती है। सेशन जज के किये हुए फ़ैसलों की अपील हाई कोर्ट में होती है। फ़ौजदारी मामले में एक हजार रुपया जुर्माना और दो वर्ष तक कैद की सज़ा देने का अधिकार प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट को है। उसकी अपील सेशन कोर्ट में होती है। प्राण-दंड और देश-निर्वासन तक की सज़ा देने का अधिकार सेशन जज को है। उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है और महारावतजी साहब की आज़्ञा होने पर ही प्राण दंड और निर्वासन की सज़ा दी जाती है। ई० स० १८६४ (वि० सं० १६५१) के इक्करारनामे के अनुसार धमोतर, रायपुर, कल्याणपुरा, भांतला, घरडिया, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और सालिमगढ़ के ठिकानों को दीवानी तथा फ़ौजदारी के नियत अधिकार प्राप्त हैं। वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०) में महारावत रघुनाथसिंह ने बोड़ी साखथली के ठाकुर को और वि० सं० १६८६ (ई० स० १६२६) में वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी ने जाजली के ठाकुर को भी नियत अधिकार दे दिये हैं, जिससे इस समय न्याय सम्बन्धी अधिकारवाले वहां ११

ठिकाने हैं।

राज्य की भूमि खालसा, शासन और जागीर नामक तीन भागों में बंटी हुई है। खालसा की भूमि की सारी आय राज्य लेता है। देव मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को पुण्य में दी हुई भूमि और गांव एवं चारणों और भाटों को दिये हुए गांव आदि शासन के अन्तर्गत है। इनका हासिल आदि राज्य वसूल नहीं करता और वे ही लोग लेते हैं, जिनके पूर्वजों आदि को वह भूमि और गांव मिले हुए हों। जागीरदारों को जागीर की भूमि और गांव पूर्वकाल में की हुई उनकी सेवाओं के उपलक्ष्य में अथवा महाराज के निकट के सम्बन्धी होने से दिये गये हैं। जागीरदारों में राजपूत जागीरदार मुख्य हैं। उनके अतिरिक्त राज्य के कुछ कर्मचारी भी हैं, जिनको उनकी अच्छी सेवाओं के पुरस्कार में जागीरें दी गई हैं। उनमें ब्राह्मण, महाजन, धायभाई आदि हैं। जागीरदारों से जागीर के एवज में नियत खिराज और सेवा ली जाती है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनसे खिराज अथवा नौकरी नहीं ली जाती। राजपूत जागीरदारों की वहां तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के जागीरदार, 'उमराव-नगरबन्द' कहलाते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान समय में ११ है—धमोतर, कल्याणपुरा, रायपुर, अरणोद, भांतला, वरडिया, सालिमगढ़, अचलावदा, आंधीरामा, बोड़ी साखधली और जाजली।

दूसरी श्रेणी के सरदार ताज़ीमी कहलाते हैं, जिनका धरान सरदारों के प्रसङ्ग में किया जायगा। तीसरी श्रेणीवाले ग़ैर-ताज़ीमी कहलाते हैं।

राजपूत जागीरदारों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से खिराज देने के अतिरिक्त नियत अवधि तक स्वयं नौकरी में जमीयत के साथ दशहरे पर उपस्थित होना पड़ता है। इनके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर जब राज्य चाहे, उनको जाना पड़ता है। किसी सरदार की मृत्यु पर जब नया सरदार होता है, तो राज्य में उसको तलवारबंदी का नज़राना दाखिल करना

पड़ता है। ठिकानों का प्रबंध ठीक न हो अथवा महारावत तथा राज्य के विरुद्ध उनका आचरण हो तो उनकी जागीरें ज़ूत भी हो जाती हैं। जागीरदार बिना महारावत की आज्ञा के दत्तक नहीं ले सकते। जागीरदारों तथा माफ़ीदारों को अपनी भूमि राज्य की आज्ञा के बिना रेहन रखने और बेचने का अधिकार नहीं है।

इस राज्य में २४ सवार, १४८ पैदल और १३ गोलंदाज़ सैनिक हैं। इनके अतिरिक्त १७८ पुलिस के सिपाही आदि हैं, जो राजधानी के प्रबंध के अतिरिक्त थानों आदि पर नौकरी देते हैं। सेना और पुलिस आदि आवश्यकता होने पर जागीरदारों की जमीयतें भी सैनिक-सेवा का कार्य करती हैं।

प्रतापगढ़ राज्य की वार्षिक आय लगभग छः लाख रुपये है और उतना ही व्यय है। आय के मुख्य स्रोत ज़मीन का हासिल, चुंगी (दाण), जागीरदारों का खिराज, मादक द्रव्यों की बिक्री (आबकारी), अफ़ीम का मुनाफ़ा, स्टाम्प, कोर्ट-फ़ीस, जंगल आदि हैं। व्यय के मुख्य स्रोत हाथ-खर्च, महलों के खर्च, सरकारी कर, राज्य-प्रबन्ध, सेना, पुलिस, पब्लिक वर्क्स, शिक्षा, अस्पताल आदि हैं। आधुनिक परिपाटी पर राज्य-प्रबन्ध हो जाने के कारण आय के साधन अधिक विस्तृत होते जाते हैं। आय-व्यय का बजट प्रति-वर्ष बनता है।

राज्य का पहले कोई स्वतन्त्र सिक्का नहीं था। वहां मांडू और गुजरात के सुलतानों के सिक्के चलते थे। बादशाह अक़बर ने मालवा और गुजरात के राज्य दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिये, तब से वहां मुग़लकालीन सिक्कों का प्रचलन हुआ। मुग़ल-साम्राज्य की अवनति के दिनों में राजपूताने के अन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ के स्वामी महारावत सालिमसिंह ने भी बादशाह शाह आलम (दूसरा, ई० स० १७५६-८८ = वि० सं० १८१६-४२) के समय उक्त बादशाह के नाम के चांदी के सिक्के बनाने के लिए प्रतापगढ़ में एकसाल

खोली। इन सिक्कों के एक तरफ़ 'सिककह मुवारक़ बादशाह गाज़ी शाह आलम सन् ११६६' और दूसरी तरफ़ 'ज़ुर्व.....२५ जुलूस मैमनत मानूस' फ़ारसी में खुदा है, जिसका अर्थ है उक्त सिक्का बादशाह शाह आलम दूसरे के राज्य-समय (भिन्न भिन्न जुलूसी सनों में) बना। शाह आलम के अपभ्रंश रूप से यह सिक्का पुराना सालिमशाही (शाह आलम शाही) कहलाता है। आम तौर से लोग इसको महारावत सालिम-सिंह के नाम का सिक्का मानते हैं, परन्तु सिक्के पर सालिमसिंह का नाम नहीं है। झूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भालावाड़ और नीवाहेड़ा के कुछ परगनों तथा मध्यभारत के रतलाम, जावरा, सीतामऊ एवं ग्वालियर के मंदसोर ज़िले के कुछ भागों में भी इस सिक्के का चलन था। ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७५) में ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि होने के पीछे ठप्पे में से शाह आलम का नाम निकलवाकर नीचे लिखा हुआ लेख रखा गया, परन्तु उसमें सन् हिजरी ही रहा—

‘सिक्का मुवारिक़ शाह लंदन, १२३६’ (ई० स० १८२०)।

यह सिक्का नया सालिमशाही कहलाता है। फिर इस नये सिक्के की अठन्नी, चवन्नी और दुअन्नी भी बनने लगीं, किंतु इस नवीन सिक्के में पुराने सिक्के की अपेक्षा चांदी की मात्रा कम रही। प्रतापगढ़ राज्य के आस-पास के राज्यों में अंग्रेज़ी सिक्के का प्रचार बढ़ने पर सालिमशाही सिक्के का मूल्य घटता गया और वह कलदार अठन्नी के बराबर रह गया। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६१) से इस सिक्के का चलन बन्द होकर अंग्रेज़ सरकार के कलदार रुपयों का चलन आरंभ हुआ और सालिमशाही रुपये चांदी के भाव में दे दिये गये। प्रतापगढ़ में पहले तांबे के सिक्के भी बनते थे, जिनमें एक तरफ़ 'श्री' के नीचे 'रियासत देवलिया सं० १६३५' और दूसरी तरफ़ बिंदियां तथा बिंदियों से बना हुआ एक अस्पष्ट चिह्न है। उसके पीछे के तांबे के सिक्कों में एक तरफ़ रियासत प्रतापगढ़ तथा मध्य में संवत् १६४३ है और दूसरी तरफ़ दो तलवारों के बीच में सूर्य का चिह्न अंकित है।

इस राज्य को अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पंद्रह तोपों की सलामी प्राप्त है और वाइसरॉय की मुलाक़ात के अवसर पर वाइसरॉय का वापसी मुलाक़ात के लिए महाराष्ट्र के यहाँ जाने का दस्तूर है। वहाँ से पहले ७२७०० रुपये सालिम-शाही अंग्रेज़-सरकार को ख़िराज के दिये जाते थे।

तोपों की सलामी और ख़िराज

फिर कलदार का चलन होने पर ३६३५० रुपये कलदार वार्षिक ख़िराज के दिये जाने लगे। वर्तमान समय में २७५०० रुपये कलदार वार्षिक 'कैश कंट्रिब्युशन' के नाम से अंग्रेज़ सरकार को दिये जाते हैं।

प्रतापगढ़ राज्य में कितने ही प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान हैं। उनमें से मुख्य-मुख्य का यहाँ पर संक्षेप से वर्णन किया जाता है—

देवलिया—प्रतापगढ़ से पश्चिम ८ मील की दूरी पर पहाड़ी प्रदेश में समुद्र की सतह से १८०६ फ़ुट की ऊंचाई पर देवलिया का क़सबा बसा हुआ है। पहले इस राज्य की राजधानी देवलिया होने से यह 'देवलिया राज्य' कहलाता था। प्रतापगढ़ में राजधानी स्थिर होने से अब यह 'प्रतापगढ़ राज्य' कहलाने लगा है, तो भी आम बोल-चाल में अब तक इस राज्य को 'देवलिया-प्रतापगढ़' कहते हैं। संस्कृत पुस्तकों और शिलालेखों में इसके नाम 'देव दुर्ग',

(१) संमत(सम्बत्)१७०७ वर्षे शाके १५७२ प्रवर्तमाने उत्तरायणगते श्रीसूर्ये वैशाखमासे शुक्लपक्षे पूर्ण(र्णि)मास्यां तिथौ गुरुवासरे मालवखंडेश्वरमहाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहजीविजयराज्ये देवदुर्गराजधान्यां..... ॥

देवलिया के गोवर्द्धननाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से।

श्रीचित्रकूटेश्वरराण(? भ्रात)खेमासुतोऽभैवद्रावतसूर्यमल्लः ।
तस्याष्टमः श्रीहरिसिंहदेवो राजेश्वरो राजति देवदुर्गे ॥ ३ ॥



‘देवल पत्तन’^१, ‘देवगिरि’^२ और ‘देवगढ़’^३ भी मिलते हैं । महारावत

...अत्युग्रधामा जगदेकनामा तस्मादमूच्छ्रीहरिसिंहदेवः ।

श्रीदेवदुर्गस्य विराजमाने सिंहासने राजति तत्तनूजः ॥

महारावत प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १५ के पाटण्या गांव के संस्कृत ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ।

(१) तस्मिन् देवलपत्तनं परिलसत्युच्चैः स्फुरद्गोपुरं

नानामङ्गलतूर्यनादनिवहैः संलक्षितं सर्वतः ॥...५ ॥

यस्मिन् देवलपत्तने परिलसत्यभ्रंलिहोऽट्टालिका

नृत्यन्त्यः प्रमदाः परं विदधते तत्राप्सरः संभ्रमम् । ...८ ॥

गंगाराम, हरिभूषण महाकाव्यम्, सर्ग १ ।

(२) पुराऽऽसकर्णः किल रावलोभूत्प्रतापसिंहेन युयोध यत्र ।

वंशालयाधीश्वरधर्मवन्धुः समागतो देवगिरेर्महीशः ॥ ३ ॥

वही; सर्ग ६ ।

(३) ...संवत् १७७२ वर्षे माघसुदि १३ श्रीदेवगढ़नगरे महा-
रावत श्रीश्रीपृथ्वीसिंहजी विजयराज्ये..... ॥

देवलिया के पार्श्वनाथ के मन्दिर की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से ।


...संवत् १७७४ वर्षे शाके १६३६ प्रवर्तमाने माह (घ) सुदि १३ रवौ
श्रीदेवगढ़नगरे महाराजधान्यां महाराजाधिराजमहारावतश्रीप्रथ्वीसिंहजी-
विजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाड़सिंहविराजमाने... ।

वही ।

...संवत् १७८८ वर्षे शाके १६५३ प्रवर्तमाने दक्षिणगोले
उत्तरायणगते श्रीसूर्ये शिशिरऋतौ महामाङ्गल्यप्रदे मासोत्तमे मासे माघ-
मासे शुक्लपक्षे ६ तिथौ शुक्रवा[स]रे काण्ठलदेशे देवगढ़नगरे
महाराजधान्यां सूर्यवंशे महाराजाधिराजमहारावतश्रीगोपालसिंहजीविराज-
माने... ।

देवलिया की ताबूतों की बावड़ी की प्रशस्ति की प्रतिलिपि से ।





देवलिया के राजमहल

विक्रमसिंह (बीका) ने मेवाड़ छोड़ने के पीछे इधर आकर मीणों का दमन किया और प्रसिद्ध है कि वि० सं० १६१७ (ई० स० १५६१) में देवलिया का क़सबा बसाकर वहाँ अपनी राजधानी स्थिर की । पहले इसके पूर्व-दक्षिण और पश्चिम के कुछ अंशों में दीवार बनी हुई थी, परंतु अब वह गिर गई है । युद्ध के अवसर पर यह स्थान सुरक्षित समझा जाता था, क्योंकि इसके चारों तरफ़ पहाड़ियां आ गई हैं और बीच में एक ऊंची पहाड़ी पर यह बसा हुआ है । यहां पुराने राज-महल हैं । भूत-पूर्व महारावत

(१) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों तथा उनके आधार पर बने हुए राजपूताना के गैज़ेटियर एवं अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों में महारावत विक्रमसिंह (बीका) का वि० सं० १६१७ (ई० स० १५६१) में देवी मीणी के नाम पर देवलिया का क़सबा बसाने का उल्लेख है, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं है । कर्नल टॉड लिखता है—“महारावत सूरजमल सादड़ी छोड़कर कांठल की तरफ़ बढ़ा, तब मार्ग में उसको कांठल के जंगल में एक स्थान पर यह दृश्य दीख पड़ा कि एक भेड़िया बकरी के बच्चे को उठाकर ले जाना चाहता है, किन्तु उसकी मा बार-बार प्रयत्न कर उसको उसके पूजे से बचाती है । निदान उसने उस स्थान को सब प्रकार से सुरक्षित समझ वहाँ पर अपना निवास रखना स्थिर किया और आस-पास के मीणों का दमन कर वहाँ देवलिया का क़सबा बसाया । चारणी की भविष्यवाणी के अनुसार फिर वह आस-पास के गांवों को दबाकर एक हजार गांवों का स्वामी हो गया और उसने अपने बाहुबल से अपने वंशजों के लिए स्वतन्त्र राज्य बना लिया, जो देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य कहलाता है (जि० १, पृ० ३४७ क्रुक-संपादित) ।”


ऊपर आई हुई भेड़िये और बकरी के बच्चे की कथा काल्पनिक है । ऐसी कथाएं ख्यातों आदि में अनेक स्थानों के सम्बन्ध में मिलती हैं, परन्तु वे विश्वास के योग्य नहीं हैं । उपर्युक्त कथन से इतना स्पष्ट है कि देवलिया का क़सबा महारावत सूरजमल ने बसाया था । उसका मेवाड़ की सीमा पर के कांठल प्रदेश पर अधिकार होने से चारणी देवी की भविष्यवाणी सत्य हुई, जिससे अनुमान होता है कि उसने देवी की स्मृति में वहाँ क़सबा आबाद कर उसका नाम देवलिया रक्खा । सूरजमल के पीछे बाघसिंह और रायसिंह, सादड़ी में ही रहे । वि० सं० १६१७ (ई० स० १५६१) के लगभग रावत विक्रमसिंह ने सादड़ी की जागीर का परित्याग कर देवलिया को ही अपनी राजधानी नियत किया, जो महारावत दलपतसिंह के समय तक बनी रही । इससे ख्यात-लेखकों ने इस क़सबे का विक्रमसिंह(बीका)-द्वारा आबाद होना मान लिया । वस्तुतः देवलिया का क़सबा महारावत सूरजमल ने बसाया था और उसकी उन्नति विक्रमसिंह के समय में हुई ।

रघुनाथसिंह की प्रतापगढ़ की अपेक्षा यह स्थान अधिक पसंद था, इसलिए उसने यहां कुछ नये मकान बनवाये और पुराने महलों की मरम्मत करवा दी; क्योंकि वह स्वयं भी यहां रहना करता था। यहां कई तालाब हैं, जिनमें 'तेजसागर' (तेजोला) तालाब महारावत तेजसिंह का बनवाया हुआ है। उसके पास ही प्रतापगढ़ के नरेशों की स्मशान-भूमि है, जहां कई स्मारक छत्रियां बनी हुई हैं। तेजसागर के समीप ही एक हम्माम (स्नानागार) बना हुआ है, जिसके लिए ऐसी प्रसिद्धि है कि महारावत सिंहा के समय चादशाह जहांगीर की अप्रसन्नता से उसका सेनापति महावतखां, जब देवलिया में रहा था, उस समय वह बनवाया गया था। वहीं महारावत दलपतसिंह का बनवाया हुआ सोनेला तालाब है, जिसके बीच में उक्त महारावत का बनवाया हुआ छोटासा महल भी है। इस तालाब और महल को बनवाकर उक्त महारावत ने वि० सं० १६०४ (ई० सं० १८४७) में उसकी प्रतिष्ठा की और उस अवसर पर उसने चारण लक्ष्मणदान को लाख पसाव भी दिया। देवलिया में कई वैष्णव, शैव और जैन मंदिर हैं, परंतु वे सब इस क़सबे के आवाद होने के पीछे के बने हुए हैं। विष्णु के मंदिरों में गोवर्धननाथ का मंदिर महारावत हरिसिंह का बनवाया हुआ है और वहां वि० सं० १७०७ (ई० सं० १६५०) की प्रशस्ति लगी है। महारावत सामंतसिंह का बनवाया हुआ यहां रघुनाथ-द्वारा नामक विष्णु-मंदिर है, जिसके प्रबंध के लिए राज्य की तरफ से लगभग पांच हजार रुपये वार्षिक आय के गांव हैं और उक्त मंदिर का प्रबंध वहां के महंत के अधिकार में है, जिसकी प्रतिष्ठा इस राज्य में सर्वोपरि है। इस राज्य में इससे बड़ी आय का कोई राजकीय देव-मंदिर नहीं है।

जैन मंदिरों में अधिकांश दिगंबर-संप्रदाय के हैं, जिनमें वि० सं० १७७२ (ई० सं० १७१५) के पूर्व का कोई लेख नहीं है। यहां पाठशाला, अस्पताल तथा पोस्ट ऑफिस भी हैं और प्रतापगढ़ से देवलिया तक टेलीफोन भी लगा दिया गया है। पहले यहां अच्छी बस्ती थी, परंतु अब कम होती जाती है।

प्रतापगढ़—देवलिया का जलवायु आरोग्यप्रद न होने से समथल प्रदेश






उद्यनिवास महल, प्रतापगढ़

में, जहां पहले घोवेरिया खेड़ा (डोडेरिया का खेड़ा) नामक गांव था, प्रतापगढ़ नामक कसबा महारावत प्रतापसिंह ने वि० सं० १७५५ (ई० सं० १६६८) में आबाद किया, जो इस समय इस राज्य का मुख्य कसबा और राजधानी है। वी० वी० एंड सी० आई० रेल्वे की मालवा लाइन के मंदसोर स्टेशन से २० मील दूर पश्चिम में स्थित प्रतापगढ़ का कसबा समुद्र की सतह से १६६० फुट की ऊंचाई पर है। वि० सं० १८१५ (ई० सं० १७५८) में महारावत सालिमसिंह ने इसके चौरफ़ कोट बनवाया, जिसके सूरजपोल, भाटपुरा दर्वाज़ा, बारी दर्वाज़ा, देवलिया दर्वाज़ा और धमोतर दर्वाज़ा नामक ६ दर्वाज़े हैं। इन दर्वाज़ों के अतिरिक्त दो छोटे द्वार तालाब बारी और क़िला बारी भी हैं। आवादी के बीच में पश्चिम की तरफ़ महारावत के पुराने महल बने हुए हैं, जिनमें सरकारी दफ़्तर हैं तथा कसबे के बाहर पश्चिम में क़िला बना हुआ है, जिसमें सामने की तरफ़ महारावत उदयसिंह का बनवाया हुआ 'उदयविलास' महल है। प्रतापगढ़ में हिंदू और जैन सम्प्रदायों के कई मंदिर हैं, परंतु वे अठारहवीं शताब्दी से पुराने नहीं हैं। यहां अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा के लिए 'पिन्हे हाईस्कूल' है, जिसमें मैट्रिक तक की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त संस्कृत-पाठशाला, राजकीय प्राइमरी स्कूल, कन्या-पाठशाला, ज़नाना-अस्पताल, रघुनाथ हॉस्पिटल, घासीराम डिस्पेंसरी, देशी दवाखाना, पोस्ट आफ़िस तथा तारघर, वाचनालय, धर्मशाला, उद्यान आदि लोकोपयोगी संस्थायें विद्यमान हैं। आवादी के बाहर महारावत उदयसिंह की बनवाई हुई कंपू (कैंप) कोठी बनी हुई है, जिसकी महारावत रघुनाथसिंह के समय महाराजकुमार मानसिंह ने बहुत कुछ अभिवृद्धि की थी। वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी ने वहां और भी नवीन भवन बनवाकर सुन्दर बगीचा लगवा दिया है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई है। अपने राज्याभिषेक के पीछे इन्होंने उसी स्थल को अपना निवास-स्थान बना लिया है, जिससे उसकी और भी उन्नति होने की आशा है। जानवरों से प्रेम होने के कारण कंपू-कोठी में इन्होंने जानवरों का छोटासा संग्रहालय बना रक्खा है, जो देखने योग्य है। कंपू कोठी के समीप सरकारी

दफ्तर भी हैं, और उसके सामने मेहमानों के ठहरने के लिए 'अतिथि-गृह' (Guest House) बना हुआ है। नगर की स्वच्छता का प्रबन्ध म्यूनि-सिपैलिटी-द्वारा होता है। यहां छापाखाना, विजली घर, कॉटन प्रेस तथा जिनिंग फ़ैक्टरी भी हैं। यहां की दस्तकारी में हरे रंग के कांच पर सुनहरी मीनाकारी का काम प्रसिद्ध है। इस राज्य में सागवान की लकड़ी की बहु-तायत होने से मकानों आदि के बनाने में उसका प्रचुरता से इस्तेमाल होता है। प्रतापगढ़ से दक्षिण की तरफ पहाड़ी नले में तालाब के पीछे दीपनाथ महादेव का मन्दिर है, जिसको महारावत सामन्तसिंह के कुंवर दीपसिंह ने बनवाया था। वहां का दृश्य मनोहर है। वहां और भी कई मन्दिर तथा देवकुलिकाण्ड हैं, जिनपर वृक्षों का सुन्दर भुरमुट्ट है। कार्तिक सुदि १५ को प्रति वर्ष वहां मेला भरता है। उसके पास ही राजकीय स्मशान है, जहां महारावत उदयसिंह तथा महाराजकुमार मानसिंह की स्मारक छत्रियां हैं। ई० स० १६३१ (वि० सं० १६८७) की मनुष्य-गणना के अनुसार प्रतापगढ़ क़सबे की जन संख्या १०८४५ है।

जानागढ़—प्रतापगढ़ से लगभग १० मील दूर दक्षिण-पश्चिम के पहाड़ी प्रदेश में जानागढ़ नामक पुराना क़िला है, जिसमें एक मसजिद, हम्माम और अस्तबल बना हुआ है। ऐसी प्रसिद्धि है कि जानआलम नामक कोई मुसलमान शाहज़ादा यहां रहा था और उसने ही यह क़िला तथा अन्य स्थान बनवाये थे। यहां कोई शिलालेख न होने से यह कहना कठिन है कि यह क़िला कब बना और जानआलम कहां का था। इसके आस-पास भीलों और मीणों की थोड़ीसी वस्ती है। गौतमेश्वर के वि० सं० १५६२ आषाढ वदि १४ (ई० स० १५०५ ता० १ जून) के शिलालेख^१ से अनुमान होता है

(१) संवत् १५६२ वासठा विषे (वर्षे) आसा (षा) ढ वदि १४ वा ...
 ... पातसा (शा) ह श्रीनासीरसा (शा) ह विजयराज्ये ... श्रीषां (खां) न
 आजमं मक़बेलषां (खां) न मुक़तकले गयासगीर मुतालिक सा (शा) ह
 जौइ (जय) चंद दामा देवश्रीगौतमेशर मुगतो कराव्यो जे क़ाइ कर लागतो



प्रतापगढ़ के प्राचीन महल



कि उक्त शिलालेख में उल्लिखित खान आलम मकबलखां, जो मालवे के मुसलमानों की तरफ से इस प्रदेश का शासन करता था और जान आलम एक ही व्यक्ति हों। संभव है कि उसने अपने रहने के लिए यह स्थान बनवाया हो।

घोटासीं—प्रतापगढ़ से ७ मील पूर्व में घोटासीं नामक प्राचीन नगर है। संस्कृत में इसका नाम घोंटावर्षिका मिलता है। यहां दूर-दूर तक भूमि के भीतर से बड़ी-बड़ी ईंटे निकलती हैं और कई मंदिरों के अवशिष्ट चिन्ह भी दृष्टिगोचर होते हैं तथा बहुत से खुदाई के कामवाले पत्थर इधर-उधर बिखरे हुए मिलते हैं, जिनसे अनुमान होता है कि पहले यह स्थान बड़ा ही संपन्न था और यहां कई मंदिर आदि थे। यहां एक मंदिर है, जिसको भैरुंजी का मंदिर कहते हैं। उसके नीचे का भाग सुंदर खुदाई-वाला और प्राचीन है तथा ऊपरी भाग का समय-समय पर जीर्णोद्धार हुआ हो ऐसा पाया जाता है। उक्त मंदिर के चवतरे पर तोरण के टुकड़े, देवी, विष्णु आदि की टूटी हुई मूर्तियां पड़ी हुई हैं, जो वहां के मंदिरों की होंगी। तालाब की पाल पर नवग्रह आदि की मूर्तियां एवं खुदाई के कामवाले बहुत से पत्थर बिखरे पड़े हैं और अब तक कुछ ऐसे अंश विद्यमान हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि तालाब के निकट कई मंदिर बने हुए होंगे। यहां 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्य मंदिर था, जिसको 'तरुणादित्य-देव' भी कहते थे। इस सूर्य के मंदिर को चौहान-वंशीय इन्द्रराज ने, जो दुर्लभराज का पुत्र और गोविन्दराज का पौत्र था, बनवाया था। वि० सं० ६६६ श्रावण सुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को मेवाड़ के गुहिल-

ते निकर कीयो जे कोइ मुसलमान होइ कर लेयै तेकूं सुअर की गेड हीन्दु हो तो कर लेयै तेहे गाइ की साइगे (सौगंध) है।

गौतमेश्वर के मूल शिलालेख की छाप से।

(१) यस्माद्धि(द्वि)भ्यति विद्विषः किमपरं यस्माच्च लक्ष्मीर्नृणां[1]

सोयं राजति राजचक्रनिलयः श्रीचाहमानान्वयः [॥ ५ ॥]

वंशीय नृपति खुम्माण (तीसरा) के पुत्र भर्तृपट्ट (भर्तृभट्ट, दूसरा) ने पलाशकुपिका (पलाशिया, मेवाड़) नामक गांव का वंजूलिका नामक क्षेत्र, इस मंदिर के भेंट किया था । इस मंदिर के समीप 'वटयक्षिणी

गोविन्दराज इति तत्र वभूव भूपो ।

राकाशशङ्ककिरणोत्करशुभ्रकीर्तिः ।

येन प्र[च]ण्डभुजदण्डतरण्डकेन ।

प्रोत्तारिता समरसागरतो जयश्रीः ॥ ६ ॥

लि(ल)दम्यालिङ्गितविग्रहो हरिरिव क्रोधाग्निदग्धाहितः ।

सर्वे[षां] च शरण्यतामुपगतो भास्वत्प्रतापोदयः ॥

श्रीमद्दुर्लभरा[ज]नामनृपतिस्तस्मादभूदंगजो ।

वक्रं येन कृतं नचार्थिनि जने वक्रं द्विषीवा[य]ति ॥ [८]

तस्मादनेकसमरार्जितकीर्तिकोशः ।

चिंतामणिः प्रणयिनां प्रणतो द्विज[जा]तेः [१]

यो योषितां तनुधरोभिनवो मनोभू-

भूषा भुवः समभव[त्सु]त इन्द्र[न्द्र]राजः ॥ [९]

तेनाकारि हिमाचलेन्द्रश[स]दृशं भासां प्रमोर्भासुरं [१]

घामेदं ध्वजकिङ्किणीकलमिलत्कोलाहलालंकृतं ॥ [१०]

प्रतापगढ़ से प्राप्त कन्नौज के प्रतिहारवंशी राजा महेंद्रपाल (दूसरा) का शिलालेख (एपिग्राफिया इण्डिका, जि० १४, पृ० १८४-५) ।

(१) संवत् ६६६ श्रावण सुदि १ समस्तराजावलिपूर्वमग्ने-
(द्वे)ह महाराजाधिराजश्रीभर्तृपट्टः श्रीखोम्माणसुतः स्वमातृपित्रो-
रात्मनश्च घर्माभिवृद्धये घोष्टावर्षीयेन्द्रराजादित्यदेवाय पलासकूपिकाग्रामे
वंजूलिकोन्ना(ना)मकछ(छः)..... ।

वही; जि० १४, पृ० १८७ ।

देवी' का मन्दिर और मठ भी था। उक्त देवी के मंदिर को वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० सं० १४६ ता० २ नवम्बर) को कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) ने, जिसके अधिकार में यह देश भी था, घोटासी के निकट का 'खर्परपद्रक' (खैरोट) गांव भेंट किया था। ये सूर्य और देवी के मंदिर तथा मठ कहां थे, इसका अब तक निश्चय नहीं हो सका। संभव है, जिसको आज-कल भैरूजी का मंदिर कहते हैं, वही प्राचीन सूर्य का मंदिरों हो। यहां के मंदिर आदि के पत्थर दूर-दूर तक पहुंचे हैं। मोहकमपुरा की छत्रियों और चवूतरों में यहां के पत्थर ही लगे हुए हैं। नंदवाणा बोहरा नाथू ने बसाड़ के पास पोह की बावड़ी बनवाई, जिसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ के दरवाजे के बाहर अग्रवाल चैनराम ने जो बावड़ी बनवाई, उसमें भी यहीं के पत्थर लगे हैं। उनके साथ वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० सं० १४६ ता० २ नवंबर) की उपर्युक्त रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) के समय की

(१) ...परममाहेश्वरो महाराजश्रीमहेन्द्रपालदेवः श्रीदशपुरपश्चिम-पथके तलवर्गिकहरिषड्भुज्यमानखर्परपद्रकग्रामे घोटावर्षिकाप्रत्यासन्ने समुपगतान् सर्वान्ने(नेव)यथास्थाननियुक्तान्प्रतिवासिनश्च समाज्ञापयत्यस्तु वः उपरिलिखितग्रामः स्वसामातृणप्रति[पूति]गोचरपर्यन्तो(न्तः)सर्वादाय-समेत-आचन्द्रार्कक्षितिकालं पूर्वदत्तदेवब्रह्मादेयवर्जितो मया पित्रोः पुन्या(रया)भिवृद्धयेका[हि]क्यांगंगायांस्नात्वापुन्ये(रये)हनि[घ]नशूर-प्रार्थनयाश्रीदशपुरचातुर्वेद्यहरिषेश्वर(हर्यषीश्वर)मठसंव(व)ध्यमानश्रीवट-यक्षिणीदेव्यै शासनत्वेन प्रतिपादितः (त इति) मत्वा भवद्भिः सा(स)-मनुमन्तव्यो(व्यः) प्रतिवासिजनपदैरप्याज्ञास(श्र)व्रणविधेयैर्भूत्वा यथा-दीयमानभागभोगकरहिरन्या(रया)दिकमस्योपनेतव्यमिति । श्रीजज्जनाग-प्रदत्तादेशात् । संवत्सो (संवत्सरे) १००३ मार्ग वदि ५ । पुरोहित-त्रिविक्रमताञ्च (नाथ) लिखितमिदम् । स्वहस्तोयं श्रीविदग्धस्य ।

प्रशस्ति भी यहां से ले जाकर बावड़ी के पास एक चवूतरे में चुनी गई थी। उसको मैंने वहां से निकलवाकर राजपूताना म्यूज़ियम अजमेर में सुरक्षित किया है^१। 'वरमंडल' गांव के, जो घोटारसी से दो मील दूर है, शिवालय के स्तम्भ आदि भी यहीं के हैं। उक्त मंदिर के बाहर एक चवूतरे पर सूर्य का एक-चक्र रथ जमा हुआ है, जो घोटारसी के सूर्य मंदिर का ही रथ होना चाहिये। वहां (वरमंडल) के चवूतरे तथा मंदिर की दीवारों में जो बहुत से सुंदर खुदाईवाले पत्थर लगे हुए हैं, वे सब घोटारसी से गये हैं। घोटारसी में पहले कुछ जैन मंदिर भी थे। प्रतापगढ़ की संस्कृत पाठशाला के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ शास्त्री के परिश्रम से पार्श्वनाथ के मंदिर की प्रशस्ति का एक टुकड़ा अभी मिला है, जिसमें संवत् का भाग नहीं है, परन्तु दुर्लभराज का नाम^२ है, जिससे अनुमान होता है कि उक्त मन्दिर उपर्युक्त दुर्लभराज चौहान के समय बना होगा।

वीरपुर—प्रतापगढ़ से लगभग दस मील दूर दक्षिण-पश्चिम में सुहागपुर के समीप वीरपुर नामक गांव है। यहां एक टूटा हुआ जैन-मंदिर है। उसको लोग दो हजार वर्ष का प्राचीन बतलाते हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उसपर जो खुदाई का काम है, वह बारहवीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है। पहले यह अच्छा कसबा था, परन्तु अब तो भीलों और मीणों की थोड़ी सी बस्ती है। यहां दूर-दूर तक ईंटों के टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं और खोदने पर बड़ी-बड़ी ईंटें तथा मिट्टी की नादें मिलती हैं। यहां एक शिवालय भी है, जो पहले शिखर-सहित पत्थर का ही बना था, परन्तु शिखर तथा सभामंडप दोनों ही गिर गये हैं तथा नदी के दो टुकड़े सभामंडप में पड़े हुए हैं। द्वार के ऊपर गणपति और उसके ऊपर नवग्रह की मूर्तियां बनी हैं। वि० सं० १९४१ (ई० स० १८८४) में सुहागपुरे में दिगम्बर जैनमन्दिर बनने पर वीरपुर के प्राचीन जैनमंदिर

(१) राजपूताना म्यूज़ियम (अजमेर) की ई० स० १९१३-१४ की रिपोर्ट; पृ० २।

(२) मूललेख की छाप से।

के स्तम्भ आदि ले जाकर वहां के मंदिर में लगा दिये गये ।

खेरोट—प्रतापगढ़ से लगभग ७ मील दूर दक्षिण-पूर्व में खेरोट नामक प्राचीन गांव है । संस्कृत लेखों में इसका नाम 'खर्परपद्रक' लिखा हुआ मिलता है । यह गांव रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) ने घोटासी गांव की 'वटयक्षिणीदेवी' के मंदिर को वि० सं० १००३ (ई० स० ६४६) में भेंट किया था^१ । खेरोट गांव में भी प्राचीनता के कई चिन्ह अब तक विद्यमान हैं, जिससे कहा जा सकता है कि पहले यह सुसंपन्न रहा होगा ।

अरणोद—प्रतापगढ़ से दक्षिण में ११ मील की दूरी पर अरणोद नाम का क़सबा है । इस समय यह क़सबा दूसरे नंबर पर है और महारावत के समीपी बांधवों का प्रमुख ठिकाना है । गांव के बाहिर पाठशाला के सामने की बावड़ी में शेषशायी विष्णु की सुंदर मूर्ति दीवार में चुनी हुई है । बाग के पास की बावड़ी में भी कई मूर्तियां और खुदाई के कामवाले पत्थर चुने हुए हैं, जिनमें से श्वेतांबर पार्श्वनाथ की खड़ी हुई मूर्ति बड़ी सुंदर है । भूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंह अरणोद से ही जाकर प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ था । वि० सं० १६५७ (ई० स० १६००) में उक्त महारावत के द्वितीय महाराजकुमार गोवर्धनसिंह का जन्म होने पर अरणोद के ठिकाने पर उसको नियत किया गया, जो वहां का वर्तमान स्वामी है । अरणोद में पाठशाला और डाकखाना भी है ।

गौतमेश्वर—अरणोद से लगभग दो मील के अंतर पर गौतमेश्वर नामक तीर्थ है, जो प्रतापगढ़ राज्य में बड़ा पवित्र माना जाता है । यहां का गौतमेश्वर नामक शिवालय एक पहाड़ के नीचे के मध्य-भाग में बना है, जहां कुछ चौड़ाई आ गई है । मंदिर के ऊपर पहाड़ का अंश छुज्जे की भांति है । गौतमेश्वर के मंदिर के पास और भी कई मंदिर हैं, जहां साधु लोग आकर ठहरते हैं । पहाड़ के ऊपर तालाब है, जिसका जल टपककर गौतमेश्वर

(१) देखो ऊपर पृष्ठ २३, टिप्पण सख्या १ ।

के सामने के कुंड में प्रपात के रूप में गिरता है। नीचे की तरफ बहुत गहराई में नदी बहती है। यहां का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। प्रतिवर्ष वैशाख सुदि १५ को यहां बड़ा मेला लगता है और दूर-दूर से हज़ारों यात्री आकर मेले में सम्मिलित होते हैं। मंदिर के बाहिर वि० सं० १५६२ आषाढ चदि १४ (ई० स० १५०५ ता० १ जून) का शिलालेख है^१, जिससे पाया जाता है कि यह प्रदेश मांडू के सुलतान नासिरशाह के अधीन था और खानआलम मकबलखां यहां का शासक था, जिसके समय में शाह, जैचंद ने यहां पर लगनेवाला यात्रियों का कर छुड़वाया।

भचूंडला—प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग १६ मील की दूरी पर भचूंडला नामक प्राचीन गांव है, जिसकी बस्ती अब कम रह गई है। उसके बाहर युद्ध में काम आनेवाले वीरों के स्मारक स्तम्भ खड़े हुए हैं, जिनमें से एक पर वि० सं० १३३८ (ई० स० १२८१) का लेख है। इन स्तंभों से थोड़ी ही दूर पर एक प्राचीन मंदिर है, जो सारा पत्थरों से बना है। इस मंदिर के द्वार पर गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति और भीतर की दीवार के सहारे मूर्ति की वेदी बनी है। आज-कल इसमें शिव-लिङ्ग है, परन्तु यह पहले विष्णु का मंदिर था। इस मंदिर के बहुतसे पत्थरों की खुदाई तथा स्तम्भ आदि बेमेल हैं, जिससे अनुमान होता है कि किसी अन्य मंदिर के पत्थर इस मंदिर के बनाने में काम में लाये गये हों। जो भी हो यह मंदिर १४ वीं शताब्दी के आस-पास का बना हुआ प्रतीत होता है और इसके अधिकांश पत्थर शेवना से लाये गये जान पड़ते हैं।

नीनोर—प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २४ मील की दूरी पर नीनोर नामक प्राचीन गांव है। यहां के दिगंबर जैन मंदिर के निजमंदिर का द्वार शेवना के शिव-मंदिर से लाकर खड़ा किया गया है। उसके मध्य में शिव और दोनों किनारों पर विष्णु और ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में तीन-तीन स्त्री-पुरुषों की पास-पास खड़ी हुई मूर्तियां हैं। यहां का लक्ष्मीनारायण का मंदिर नागर ब्राह्मण गेमल और विश्वनाथ का



शेवना के प्राचीन शिवमंदिर का भीतरी भाग


बनवाया हुआ है, जिसमें वि० सं० १८२६ शक सं० १६६४ ज्येष्ठ वदि ५ (ई० स० १७७२ ता० २१ मई) गुरुवार का शिलालेख है । इस मंदिर का द्वार तथा स्तंभों के सिरे शेवना से लाकर लगाये गये हैं । गांव के बाहिर पाषाण का बना हुआ एक छोटासा शिव-मंदिर तथा पद्मवती (देवी) का मंदिर है, जिनको वहां के नागर ब्राह्मणों ने बनवाया था । तालाब की पाल पर का शिव-मंदिर वि० सं० १८१६ (ई० स० १७६२) में महारावत सालिम-सिंह के समय नागर ब्राह्मण हरनाथ ने बनवाया था । गांव के आस-पास दूर-दूर तक पुरानी ईंटें निकलती हैं । पहले यहां विसनगरे नागरों की अच्छी बस्ती थी, परन्तु अब केवल १०-१५ घर रहे हैं ।

शेवना—प्रतापगढ़ से दक्षिण में लगभग २० मील की दूरी पर शेवना नामक गांव है, जो पहले संपन्न था । यह प्रसिद्ध है कि यहां शिवनगरी नामक राज्य की राजधानी थी । इसमें कितनी सत्यता है, यह कहा नहीं जा सकता, परन्तु इतना निश्चित है कि पहले यह नगर विशाल रहा होगा, क्योंकि इसके खंडहर दूर-दूर तक दृष्टिगोचर होते हैं । एक किले के अतिरिक्त यहां पर अब तक कई मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं, जिनमें एक शिवालय बहुत सुन्दर है । यहां ज़मीन के भीतर बना हुआ महाकाल का पुराना मंदिर है । कई मूर्तियां इधर-उधर टूटी-फूटी दशा में मिलती हैं, जिनमें से त्रिविक्रम (वामन) की मूर्ति राजपूताना म्यूज़ियम् अजमेर में सुरक्षित है^१ । यहां से कई मंदिरों के द्वार, स्तम्भ आदि लेजाकर भचूंडला, नीनोर आदि के मंदिर बनाये गये हैं । अब तो इसके आस-पास थोड़ीसी भीलों (मीणों) की बस्ती रह गई है ।

उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त इस राज्य में बोरदिया, धमोतर, बमोतर, गयासपुर, सुहागपुर, बसाड़ आदि और भी कई प्राचीन स्थान हैं । उनमें से कई में मंदिरों आदि के चिन्ह पाये जाते हैं । गयासपुर मालवे के सुलतान गयासुद्दीन के नाम पर बसा हुआ है, जो पहले

(१) राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) की ई० स० १६२२-२३ की रिपोर्ट; पृ० ५१ ।

देवलिया (देवगढ़) परगने का मुख्य स्थान था । अब तो यह स्थान ऊजड़ होता जाता है और केवल थोड़ी सी बस्ती रह गई है । इसी प्रकार बसाड़ भी प्रतापगढ़ परगने का मुख्य स्थान था और उसके नाम पर यह बसाड़ का परगना कहलाता था । अब यहां (बसाड़) की बस्ती भी थोड़ी ही रह गई है । बसाड़ में ब्रह्मा की एक प्राचीन मूर्ति है, जो देखने योग्य है ।



शेवना के प्राचीन देवी-मन्दिर का भीतरी भाग

दूसरा अध्याय

सीसोदियों से पूर्व के राजवंश



प्रतापगढ़ राज्य की गणना पहले मालवा के अन्तर्गत होती थी, इसलिए वहां पर पहले मौर्य, मालव, क्षत्रप, गुप्त और हूणों का राज्य रहना संभव है। अनन्तर प्रतापी राजा यशोधर्मन् और बैसवंशी राजा श्रीहर्ष ने क्रमशः मालवे पर अधिकार कर लिया तब प्रतापगढ़ राज्य भी उनके अधिकार में चला गया होगा, किन्तु अब तक प्रतापगढ़ राज्य से उनका कोई शिलालेख, ताम्रपत्र या सिक्का नहीं मिला है^१। श्रीहर्ष की मृत्यु के पीछे कन्नौज के महाराज्य में अव्यवस्था फैल गई। ऐसे समय में भीतमाल के रघुवंशी प्रतिहारों ने बढ़कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उस समय मालवा भी प्रतिहारों के अधिकार में चला गया और वे वहां के स्वामी हुए। प्रतापगढ़ राज्य के घोटारसी (घोटार्षिका) नामक गांव के वि० सं० १००३ (ई० स० ६४६) के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल (दूसरा) के समय के शिलालेख से वहां रघुवंशी प्रतिहार नरेशों का राज्य रहना निश्चित है^२। इसलिए यहां पर उनका उल्लेख करना आवश्यक है।

(१) उपर्युक्त वंशों के इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० १ (द्वितीय संस्करण), पृ० ६८-१६२ ।

(२) राजपूताना म्यूज़ियम् अजमेर की ई० स० १९१५-१६ की वार्षिक रिपोर्ट; पृ० २ । यह शिलालेख राजपूताना म्यूज़ियम् अजमेर में सुरक्षित है। मैंने इसका 'एपिग्राफिया इंडिका' (जि० १४ पृ० १७६-८८) में संपादन किया है। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री में वहां के प्राचीन इतिहास के लिए यह बड़ा उपयोगी है एवं रघुवंशी प्रतिहारों का राजपूताने में राज्य होने का समुचित प्रमाण है ।

रघुवंशी प्रतिहार

‘प्रतिहार’ नाम वंशकर्त्ता के नाम से चला हुआ नहीं, किन्तु राज्याधिकार के पद से बना हुआ शब्द है। राज्य के भिन्न-भिन्न अधिकारियों में एक अधिकारी प्रतिहार होता था, जिसका काम राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के द्वार (ड्योढ़ी) पर रहकर उसकी रक्षा करना था। इस पद के लिए किसी खास जाति या वर्ण का विचार नहीं किया जाता था, प्रत्युत राजा के विश्वसनीय पुरुष ही इस पद पर नियत होते थे। इसी से प्राचीन शिलालेखादि में ब्राह्मण^१, गुर्जर^२ (गूजर),

(१) विप्रः श्रीहरिचन्द्राख्य ५ पत्नी भद्रा च क्षतृ(त्रि)या ।

तेन श्रीहरिचन्द्रेण परिणीता द्विजात्मजा ।

द्वितीया क्षतृ(त्रि)या भद्रा महाकुलगुणान्विता ॥

प्रतीहारा द्विजा भूता ब्राह्मण्यां येभवन्सुताः ।

राज्ञी भद्रा च यान्सूते ते भूता मधुपायिनः ॥.....

नन्दावह्नं प्रहत्वा रिपुबलमतुलं भूत्रकूपप्रयातं

दृष्ट्वा भग्नां(न्) स्वपक्षां(न्) द्विजनृपकुलजां(न्) सत्प्रतीहारभूपां(न्)

मंडोर के राजा वाउक की वि० सं० ८६४ (ई० स० ८३७) की प्रशस्ति । मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० १ (द्वितीय संस्करण), पृ० १४-२, १६६ ।

(२).....परमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीक्षितिपालदेवपादानु-
ध्यातपरमभट्टारकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीविजयपालदेवपादानामभिप्रव-
र्द्धमानकल्याणविजयराज्ये संवत्सरशतेषु दशसु षोडशोत्तरकेषु माघमास-
सितपक्षत्रयोदश्यां शनियुक्तायामेवं सं० १०१६ माघसुदि १३ शनावद्य
श्रीराज्यपुरावस्थितो महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमथनदेवो महाराजाधिराज-
श्रीसावटसूनुर्गुर्जरप्रतिहारान्वयः कुशली ।

राजोरगढ़ (अलवर राज्य) से मिला हुआ गूजर प्रतिहारों का शिलालेख ।

एपिग्राहिया इडिका, जि० ३, पृ० २६६ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जिल्द ६ (वि० सं० १६८२), पृ० ३१६-७ । महामहोपाध्याय पं० दुर्गाप्रसाद (जयपुर); प्राचीन लेखमाला (प्रथम भाग), पृ० २३-२ ।

चावड़े^१, परमार^२, रघुवंशी^३ आदि प्रतिहारों के उदाहरण मिलते हैं। विक्रम की आठवीं शताब्दी से रघुवंशी-प्रतिहारों का उत्कर्ष होने लगा और वे बड़े पराक्रम-

(१) क्षीणिकल्पतरुः समीकसुभ(ग)श्रापोत्कटग्रामणीः

योगीन्द्रो नवचंद्रनिर्मलगुणः स्फूर्जत्कलानैपुणः ॥

श्रीचौलुक्यनरेन्द्रवेत्रितिलकः श्रीसोमराजः स्वयं

विद्वन्मंडलमंडनाय तनुते संगीतरत्नावलीम् ॥ ५ ॥

संगीत रत्नावली, ना० प्र० प०, जि० ६, पृ० ३१६।

(२) श्रीमदुत्पलराजादिवंशे प्रामारभूभुजां ।

अस्ति त्रैलोक्यविख्यातो धारावर्षो महीपतिः ॥ २ ॥

द्वास्थः तस्याभवत् पूर्व वीरो वारडवंशजः ।

नरपा[लस]मुद्भूतो हरिपाल इति श्रुतः ॥ ३ ॥

पुत्रस्तस्यास्ति विख्यातो भुवने लब्धविक्रमः ।

श्रीमत्साहणपालाहः वैरिवर्गक्षयंकरः ॥ ४ ॥.....

संवत् १२६४ वर्षे चैत्र शुदि १३ गुरौ । म० जालाकप्रेरितेन स्वश्रेयोर्थं प्रती० साहणपालेन देवश्रीवैद्यनाथस्य मंडपः कारितः ॥...॥

ईडर राज्य के बढाली गांव के वैद्यनाथ शिवालय की प्रशस्ति ।

पुरातरु (गुजराती, अहमदाबाद), जि० ४, पृ० २८१ ।

‘वारड’ परमारों की एक शाखा का नाम है और दांता के राया ‘वारड’ शाखा के परमार हैं ।

(३) मन्विद्धाकुकुस्थ(त्स्थ)मूलपृथवः द्दमापालकल्पद्रुमाः ॥ २ ॥

तेषां वंशे सुजन्मा क्रमनिहतघदे घाम्नि वज्रेषु घोरं

रामः पौलस्त्यहिन्श्रं (हिंस्रं) क्षतविहितसमित्कर्म चक्रे पलाशेः ।

श्लाघ्यस्तस्यानुजोसौ मघवमदमुषो मेघनादस्य संख्ये

सौमित्रिस्तीव्रदंडः प्रतिहरणविधेर्यः प्रतीहार आसीत् ॥३॥

कन्नौज के प्रतिहार राजा भोजदेव के समय की ग्वालियर की प्रशस्ति । ऐन्युअल् रिपोर्ट ऑव् दि आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑव् इण्डिया, ई० स० १६०३-४, पृ० २८० । नागरी प्रचारिणी पत्रिका (नवीन संस्करण), भाग ६, पृ० ३१७ । मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १ (द्वितीय संस्करण), पृ० ७४ ।

शाली हो गये। तदनन्तर उन्होंने चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीन लिया और फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी स्थिर की। ग्वालियर से मिले हुए रघुवंशी प्रतिहार राजा भोजदेव (प्रथम) के शिलालेख में, जो वि० सं० ६०० और ६५० (ई० स० ८४३ और ८९३) के बीच का है, लिखा है—“सूर्य-वंश में मनु, इच्चाकु, ककुत्स्थ आदि राजा हुए। उनके वंश में रावण का संहार करनेवाले रामचन्द्र हुए, जिनका प्रतिहार (ज्योदीवान) उनका छोटा भाई लक्ष्मण था।” इससे स्पष्ट है कि लक्ष्मण को प्रतिहार का कार्य मिलने से उसके वंशज प्रतिहार कहलाने लगे। उक्त भोजदेव के पुत्र महेन्द्रपाल (दूसरा) की प्रशंसा में कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथों में उसे ‘रघुकुलतिलक’^१, ‘रघुग्रामणी’^२ और ‘रघुवंशमुक्तामणि’^३ लिखा है, जिससे सिद्ध है कि वे रघुवंशी थे। इस राजवंश की क्रम-पूर्वक वंशावली नागभट्ट से आरंभ होती है, जो नीचे लिखे अनुसार है—

(१) नागभट्ट ।

(२) ककुत्स्थ (संख्या १ का भतीजा) ।

(३) देवराज (संख्या २ का छोटा भाई) ।

(४) वत्सराज (संख्या ३ का पुत्र) ।

(५) नागभट्ट (दूसरा, संख्या ४ का पुत्र)—उसको नागावलोक भी कहते थे। उसने चक्रायुध को परास्त कर कन्नौज का साम्राज्य भी

(१) देखो ऊपर पृ० ३१, टिप्पण ३। मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० १ (द्वितीय संस्करण) पृ० ७४ टि० २।

(२) रघुकुलतिलको महेन्द्रपालः... ।

विद्वशाल भंजिका; १।६।

(३) देवो यस्य महेन्द्रपालनृपतिः शिष्यो रघुग्रामणिः... ।

बालभारत, १।११।

(४) तेन (= श्रीमहीपालदेवेन) च रघुवंशमुक्तामणिना आर्यावर्त-महाराजाधिराजेन श्रीनिर्मयनरेन्द्रनंदनेनाधिकृताः सभासदः... ।

बालभारत ।

छीन लिया। उस समय से ही इन भीनमाल के प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज स्थिर हुई। उसने आंध्र, सेंधव, विदर्भ (बरार), कर्लिंग और वंग के राजाओं को जीता तथा आनर्त, मालव, किरात, तुरुष्क, घत्स और मत्स्य आदि देशों के पहाड़ी किले भी ले लिये, ऐसा उपर्युक्त ग्वालियर की प्रशस्ति में लिखा मिलता है। राजपूताने में जिस नाहड़राव पड़िहार का नाम बहुत प्रसिद्ध है और जिसके विषय में पुष्कर में घाट बनवाने की ख्याति चली आती है, वह यही नागभट्ट (नाहड़) होना चाहिये। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१५) का बुचकला (जोधपुर राज्य के बीलाड़ा परगने में) से मिला है^१। नागभट्ट का स्वर्गवास वि० सं० ८६० भाद्रपद सुदि ५ (ई० स० ८३३ ता० २३ अगस्त) को हुआ^२, ऐसा जैन विद्वान् चन्द्रप्रभसूरि ने अपने 'प्रभावकचरित' में लिखा है।

(६) रामभद्र (संख्या ५ का पुत्र) ।

(१)संवत्सरशते ८७२ चैत्रस्य सितपक्षस्य पंचम्यां निवेशि(शि)ता महाराजाद्धि(धि)राजपरमेश्वरश्रीवत्सराजदेवपादानुध्यात-परमभट्टारकमहाराजाद्धि(धि)राजपरमेश्वरश्रीनागभट्टदेवस्वविषये प्रवर्द्ध-मानराज्ये राज्यघङ्ककड्ग्रामे राज्ञी जायावली प्रतिहार स्व (स)गोत्रश्रीबपुक्र-पुत्र.....।

एपिग्राफिया इण्डिका, जि० ६, पृ० १६६-२००।

(२) विक्रमतो वर्षाणां शताष्टके सनवतौ च भाद्रपदे ।

शुक्रे सितपंचम्यां चन्द्रे चित्राख्यऋक्षस्थे ॥ ७२० ॥...

माभूत्संवत्सरोऽसौ वसुशतनवतेर्मा च ऋक्षेषु चित्रा

धिग्मासं तं नभस्यं क्षयमपि स खलः शुक्लपक्षोपि यातु ।

संक्रार्तिर्या च सिंहे विशतु हुतमुजं पंचमी यातु शुक्रे

गंगातोयाग्निमध्ये त्रिदिवमुपगतो यत्र नागावलोकः ॥७२५॥

'प्रभावकचरित' में बप्पभट्टिप्रबंध, पृ० १७७। नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, पृ० ३२३-२४ टि०। मेरा राजपूताने का इतिहास, जि० १ (द्वितीय संस्करण), पृ० १८०।

(७) भोजदेव (संख्या ६ का पुत्र)—उसको मिहिर और आदिवराह भी कहते थे । ताम्रपत्र और शिलालेखों के अतिरिक्त उसके चांदी तथा तांबे के सिक्के भी मिले हैं, जिनमें एक तरफ 'श्रीमदादिवराह' लेख और दूसरी तरफ 'नरवराह' की मूर्ति है । उसके दो तांबे के सिक्के प्रतापगढ़ राज्य से भी हमें मिले हैं ।

(८) महेंद्रपाल (संख्या ७ का पुत्र) ।

(९) महीपाल (संख्या ८ का पुत्र) ।

(१०) भोज (दूसरा, संख्या ९ का भाई) ।

(११) विनायकपाल (संख्या १० का छोटा भाई) ।

(१२) महेंद्रपाल (दूसरा, संख्या ११ का पुत्र)—उसके समय के उक्त घोटासी के वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० स० ९४६ ता० १७ अक्टोबर) के शिलालेख से प्रकट है कि घोटासी के आस-पास का प्रदेश प्रतिहारों के सामन्त चौहानों के अधिकार में था । चौहान इंद्रराज ने, जो गोविंदराज का पुत्र और दुर्लभराज का पौत्र था, घोटासी गांव में अपने नाम से 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्य-मंदिर बनवाया । तब उसके लिए महेंद्रपाल की तरफ से 'धारापद्रक' (धरियावद, मेवाड़) नामक गांव तथा उस गांव से पृथक् उत्तर की ओर का कच्छक नाम का रहूँट भेंट किया गया । उसकी सनद पर उस (महेंद्रपाल) के तंत्रपाल (शासक, हाकिम), महासामंत और महादंडनायक माधव ने, जो दामोदर का पुत्र था तथा कार्यवशात् उजैन गया था, हस्ताक्षर किये थे । इसी भांति उसपर उस प्रदेश के शासक त्रिदग्ध के भी हस्ताक्षर हुए थे ।

(१) स्वस्ति श्रीमदुज्जयन्या (यिन्यां) महामामन्तदण्डनायकश्री-
माधवः ॥ तथा मण्डपिकायां परमेश्वरपादोपजीविव (ब) लाधी (धि)-
कृतश्रीक्रोक्तनियुक्तश्रीशम्भे (शमर्णि) च व्यापारं कुर्वते इत्यस्मिन्
काले वर्तमाने इहैव श्रीमदुज्जयन्यायां (यिन्यां) कार्यभ्यागततंत्र-
(न्त्र) पालमहासामन्तमहादण्डनायकश्रीमाधवेन (धवः) श्रीदामोदरसुतेन-

‘इन्द्रराजादित्यदेव’ के मंदिर के साथ लगे हुए या उससे सम्बन्ध रखने-वाले ‘वटयक्षिणी देवी’ के मंदिर और मठ के लिए भी महेंद्रपाल ने वि० सं० १००३ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० सं० ६४६ ता० १७ अक्टोबर) को ‘खर्परपद्रक’ (खेरोट, प्रतापगढ़ राज्य) गांव भेंट किया था, जिसकी सनद पर भी उक्त विदग्ध ने हस्ताक्षर किये थे। इस ‘इन्द्रराजादित्यदेव’ के मंदिर को मेवाड़

(तः) चाहमानान्वयमहासामन्तश्रीइन्द्रराज(स्य) श्रीदुर्लभराजसुतम्य प्रार्थनयाः(या)। श्रीविदग्धभोगावासये धारापद्रकग्रामे समुपगतान् सर्वराजपुरुषान् ब्रा(ब्रा)ह्मणोत्तरीयान् प्रतिनिवासी(सि)जनपदांश्च वो(वो)धयत्यस्तु वस्सविदितं श्रीमहाकालदेवायतने सुस्नात्वा महादेव-मभ्यर्च्य मातापित्रोरात्मनश्च सुपुण्यकर्मयशोभिवृद्धये परलोकहिताय जलचन्द्रचपलजीविततेत्य(लं जीवितमवेत्य) क्षणदष्टसंपदा (नष्टाः सपदः) समन(समनु)चिन्त्य(चिन्त्य) मीनसंक्रन्तौ(संक्रान्तौ) श्रीनित्यप्रमुदितदेवप्रति[वद्ध]घोटावर्षिकस्थाने श्रीमदिन्द्रादित्यदेवस्य खण्डस्फुटितसमारचनाय व(व)लिचरुशत्रु(मत्र)प्रवर्तनाय ग्रामोयं स्वसीमापर्यन्त(न्तः) सवृद्धमाला[कु]लं(लः) सक्राष्ट(ष्ट)-तृणगोप्रचारं (रः) सजलस्थलसमेतं(तः) चतुष्कंठ(ष्कंठक)-विशुद्ध(द्धः) भागभोगकरहिरन्या(रया)दिस्कंधकमा[र्ग]णकादि-राजभाव्यैस्सहितं(तः) उदकपूर्वक्रेन शासनेन प्रदत्तं(त्तः) ॥ मत्वैतदसद्वड्म(द्दंश)जैरन्यैश्च धर्ममिदमनुपालनीयं (धर्मोयमनुपाल-यः) । प्रतिनिवामी(सि)जनपदैश्चाज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा यथा दीयमानं च दातव्यं ॥ अपरं [चै]तस्मिन्नेव ग्रामे उत्तरतो [दिग्भा]गे साधारं कच्छ[क] नाम अरहटेन तु संयुतं दत्तं । पुनः पत्रमण्डपकिटिकाः पश्च (च्च) शासनेन प्रदत्ताः ॥ स्वहस्तोयं श्रीमाधवस्य । स्वहस्तोयं श्रीविदग्धस्य ॥

एपिग्राफिया इण्डिका; जि० १४, पृ० १८२-७ ।

(१) देखो ऊपर पृष्ठ २३ टिप्पण १ ।

के स्वामी गुहिलवंशी खुम्माण (तृतीय) के पुत्र भर्तृपट्ट (भर्तृभट, द्वितीय) ने भी वि० सं० ६६६ श्रावण सुदि १ (ई० स० ६४२ ता० १७ जुलाई) को पलासकूपिका (पलासिया, मंदसोर से १५ मील दक्षिण में) गांव और वंज्वूलिका नाम का कच्छ (काछा = तर भूमि) भेंट किया था । इसी प्रकार चामुंडराज के पुत्र देवराज ने 'इंद्रराजादित्यदेव' के मंदिर को 'कोसवाह' (चड़स से पिलाये जानेवाला) 'छित्तुलाक' नामक क्षेत्र, जिसमें दस माणी अन्न बोया जाता था, भेंट किया था ।

(१३) देवपाल (संख्या ६ का पुत्र) ।

(१४) विजयपाल (संख्या १३ का भाई) ।

(१५) राज्यपाल (संख्या १४ का भाई)—उसके समय में इन रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य अत्यंत निर्बल हो गया । ऐसे समय में हि० स० ४०६ ता० ८ श्रावण (वि० सं० १०७५ मार्गशीर्ष सुदि १० = ई० स० १०१८ ता० २१ नवम्बर) को सुलतान महसूद गज़नवी ने कन्नौज पर चढ़ाई कर दी, जिसमें उस (राज्यपाल) की हार हुई और वह भाग गया । फिर उसने सुलतान की अधीनता स्वीकार कर संधि कर ली । सुलतान के भारत से लौट जाने के पीछे वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२१) में उस (राज्यपाल) पर कालिंजर के राजा गंड की चढ़ाई हुई, जिसमें वह (राज्यपाल) मारा गया ।

(१६) त्रिलोचनपाल (संख्या १५ का उत्तराधिकारी) ।

(१७) यशपाल (?)—उसके समय का वि० सं० १०६३ (ई० स० १०३६) का शिलालेख मिला है । राज्यपाल के समय से ही कन्नौज के

(१) देखो ऊपर पृ० २२ टिप्पण संख्या १ ।

(२)श्रीदेवराजेन श्रीचामुण्डाराजसुतः (सुतेन) श्रीमदिन्द्रादित्यदेवस्य कोसवाहे छित्तुल्लाकक्षेत्रं माणवाप १० शासनेन प्रदत्तं । श्रीमदिन्द्रादित्यदेवजगत्यां । त्रैलोक्यमोहनदेवस्य श्रीमदिन्द्रराजेन उंडि आकक्षेत्रं [अस्य] आघाटा लिख्यंते.....एवं चतुराघाटोपलक्षितं शासनेन प्रदत्तं ।

एपिग्राहिया इयिडका, जि० १४, पृ० १८७-१८८ ।

प्रतिहार राज्य में निर्बलता आ गई थी; जिसका लाभ उठाकर उसके समय में 'बदायूं' के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजाओं में से (जो उन दिनों उधर शक्तिशाली होते जाते थे) भुवनपाल के पुत्र गोपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु गोपाल के वंश का वहां अधिक समय तक अधिकार रहना पायद नहीं जाता। शीघ्र ही गाहड़वाल चन्द्रदेव ने, जिसने सारे पांचाल (गंगा और यमुना के बीच का प्रदेश) पर अधिकार जमा लिया था, उधर बढ़कर कन्नौज के प्रतिहार-राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी राजधानी स्थिर की। इस प्रकार प्रतिहारों के महाराज्य का अन्त हो गया। इन प्रतिहारों के राज्य के उन्नतिकाल में अधिकांश राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़, सारा पश्चिमोत्तर प्रदेश एवं विहार का पश्चिमी विभाग भी उनके अधीन था, जहां से उनके शिलालेख, ताम्रपत्र आदि मिलते हैं। फिर उनके राज्य की अवनति के समय उनके सामन्त स्वतंत्र हो गये। अब तो कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों के वंश में केवल बुंदेलखंड में नागोद का राज्य एवं अलिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे-छोटे ठिकाने रह गये हैं। भाटों की पुस्तकों में नागोद के राजाओं की जो वंशावली मिलती है, उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम हैं।

परमार तथा सोलंकी

कन्नौज के प्रतिहार-राज्य का पतन होने पर मालवे के परमार, जो संभवतः प्रतिहारों के सामंत थे, स्वाधीन नृपति बन गये। उनमें श्रीहर्ष, मुंज, सिंधुराज, भोज, उदयादित्य आदि प्रतापी और विद्वान् राजा हुए। अनन्तर उदयादित्य के पुत्र नरवर्मा और पौत्र यशोवर्मा के समय गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की मालवे पर चढ़ाइयां होने लगीं। नरवर्मा तो सोलंकियों के साथ की लड़ाई में मारा गया, पर यशोवर्मा के समय परमार पराजित हो गये और मालवे पर सोलंकियों का अधिकार हो गया संभव है कि मालवे के कुछ भूमि-भाग पर सोलंकियों के समय भी परमारों ने किसी प्रकार अपना अधिकार रक्खा हो,

क्योंकि उस समय भी मालवे में परमारों के ठिकाने थे' ।

सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के समय तक सोलंक्रियों का प्रताप बढ़ता रहा । वि० सं० १२३० (ई० स० ११७३) के लगभग कुमारपाल का देहांत हो जाने पर गुजरात के प्रतापी सोलंकी राज्य की भी अवनति होने लगी और उसके सामंत स्वतंत्र हो गये । कुमारपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल और उसके त्रितीय पुत्र भीमदेव (दूसरा, भोला भीम) के समय तो परमार पुनः इतने बलवान हो गये थे कि उन्होंने सोलंक्रियों को मालवे से निकालने की ठान ली । फलतः उपर्युक्त यशोवर्मा के पौत्र विंध्यवर्मा के समय परमारों और सोलंक्रियों के बीच युद्ध छिड़ गया, परंतु विंध्यवर्मा को इसमें सफलता नहीं हुई । विंध्यवर्मा की मृत्यु होने पर उसके पुत्र सुभटवर्मा ने गुजरातवालों से युद्ध जारी रखा । उसके समय में मालवे के परमार पुनः स्वतंत्र हो गये और उन्होंने वहां से सोलंक्रियों का अधिकार बिलकुल उठा दिया^१ । विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और फिर उनके मालवे पर आक्रमण होने लगे, परंतु उनका वहां स्थिर रूप से अधिकार नहीं हुआ । मालवे में इस (परमार) वंश का अंतिम राजा जयसिंह (चतुर्थ) हुआ, जिसके दो शिलालेख वि० सं० १३२६ और १३६६ (ई० स० १२६६ और १३०६) के मिले हैं, जिनसे निश्चित है कि उस समय तक मालवे में उनका थोड़ा बहुत राज्य अवश्य था । अनन्तर सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने मालवे पर आक्रमण कर वहां पर अधिकार कर लिया । तब से मालवे का मुख्य राज्य परमारों के हाथ से निकल गया, परंतु वहां ऊमटवाड़े का इलाका अब भी परमारों की अधीनता में चला आता है एवं नरसिंहगढ़ तथा राजगढ़ दो राज्य वहां परमारों के विद्यमान हैं । मरहटों के समय में

(१) परमारों के विस्तृत वर्णन के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १ (द्वितीय संस्करण), पृ० १६०-२३८ ।

(२) सोलंक्रियों के विशद इतिहास के लिए देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, जिल्द १ (द्वितीय संस्करण), पृ० २३८-२६१ ।

पेशवाओं ने अपने सेनापति ऊदाजी पंवार को मालवे का कुछ इलाका जागीर में दिया, जिसका मालवे के परमारों की मुख्य शाखा में होना प्रसिद्ध है। उसके वंश में अब धार और देवास के राज्य हैं।

परमारों और सोलंकियों के अभ्युदय के समय वागड़, मेवाड़ और सुप्रसिद्ध वित्तौड़ दुर्ग पर उनका अधिकार होना निश्चित है। इस अवस्था में प्रतापगढ़ राज्य का—जो मालवा, वागड़ और मेवाड़ की सीमा के किनारे पर स्थित है—परमारों और सोलंकियों के अधिकार से मुक्त रहना असंभव है, परन्तु प्रतापगढ़ राज्य से परमारों और सोलंकियों के शिलालेख, दानपत्र, सिक्के आदि कुछ भी नहीं मिले हैं। अतएव यहां परमारों और सोलंकियों के शासनकाल के इतिहास पर प्रकाश डालना अनावश्यक है। ग्वालियर राज्य के नीमच ज़िले के जीरण क़सबे में देवलिया-प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी महारावत भानुसिंह(भाना) की स्मारक छत्री बनी हुई है, उसके स्तंभों पर गुहिलवंशी विग्रहपाल के वि० सं० १०५३, १०६५ और १०६६ के चार लेख खुदे हुए हैं, जिनमें उसकी उपाधि 'महासामंताधिपति' लिखी है और उसका नागहद (नागदा) से निकलना पाया जाता है। इससे विदित होता है कि उस समय वहां मेवाड़ के गुहिलवंशियों का अधिकार था और संभव है कि देवलिया (प्रतापगढ़) के आस पास उनका अधिकार रहा हो एवं वहां के गुहिलवंशी परमारों के सामंत हों।

जीरण से ही मेवाड़ के महाराणा उदयसिंह के राज्य-काल का वि० सं० १६१७ आषाढ वदि ११ (ई० स० १५६० ता० १६ जून) का लेख मिला है, जिसमें आल्हण की स्त्री-द्वारा एक मन्दिर के जोर्णोंद्वार कराये जाने का उल्लेख है।

मुसलमान शासक

मालवे पर सबसे पहले दिल्ली के सुलतान शम्सुद्दीन अलतमश ने हि० स० ६२४ (वि० सं० १२२३ = ई० स० १२२६) में चढ़ाई की थी।

तदनन्तर नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह के समय उज्जैन, भेलसा आदि नगर मुसलमानों ने विजय किये, किन्तु मालवे पर उस समय उनका अधिकार स्थिर रूप से जमना पाया नहीं जाता। गुलाम वंश का अन्त होने पर दिल्ली के सिंहासन पर खिलजी-वंशियों का अधिकार हुआ। तब हि० स० ६६० (वि० सं० १३४८ = ई० स० १२६१) में उक्त वंश के प्रथम सुलतान जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह खिलजी ने आक्रमण कर मालवे के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। हि० स० ७०४ (वि० सं० १३६१ = ई० स० १३०४) में सुलतान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजकर मालवे का पूर्वी भाग भी ले लिया। फिर उक्त सुलतान ने विजित प्रदेश के प्रबंध के लिए मांडू, उज्जैन और धार में अपने हाकिम नियत किये। 'मिरात-इ-सिकंदरी' से पाया जाता है कि सुलतान मुहम्मद तुगलक ने हि० स० ७४४ (वि० सं० १४०० = ई० स० १३३३) के आस-पास मालवे का सारा इलाका अज़ीज़ हिमार को सौंप दिया था, जो पहले धार का ही हाकिम था।

फ़ीरोज़शाह तुगलक के तीसरे पुत्र मुहम्मदशाह तुगलक (वि० सं० १४४६-५० = ई० स० १३८६-९४) के समय दिलावरखां (दिलावरशाह गोरी, जिसका नाम अमीशाह भी लिखा मिलता है) मालवे का हाकिम नियत हुआ, जो दिल्ली के सुलतानों की अधीनता में वहां का शासन-प्रबंध करता था। महमूदशाह तुगलक के समय तुगलक-वंश का प्रभाव घट जाने पर दिलावरखां ने वि० सं० १४५८ (ई० स० १४०१) के लगभग स्वतंत्र होकर अपने को मालवे का सुलतान घोषित किया। उस (दिलावरखां) के पीछे होशंग (अल्पखां) और मुहम्मद (गज़नीखां) गोरी मालवे के सुलतान हुए। फिर खिलजी-वंश का महमूदशाह वहां का सुलतान हुआ, जो होशंग का पक सरदार था। महमूदशाह मेवाड़ के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) का समकालीन था। उन्हीं दिनों महाराणा कुंभकर्ण से विरोध हो जाने के कारण उसका छोटा भाई जैमकर्ण, जो प्रतापगढ़वालों का पूर्वज था, सुलतान महमूद के पास चला गया और उक्त महाराणा की मृत्यु पर्यन्त

वहीं रहा। वि० सं० १५३२ (ई० स० १४७५) में महमूदशाह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र गयासशाह (गयासुद्दीन) मालवे का सुलतान हुआ। प्रतापगढ़ राज्य में देवलिया के पास गयासपुर नामक प्राचीन गांव है, जिसका गयासशाह के नाम पर बसाया जाना पाया जाता है। उस समय गयासपुर सम्पन्न था और देवलिया परगने का मुख्य स्थान था, जिससे देवलिया परगना पहले गयासपुर का परगना कहलाता था। प्रतापगढ़ राज्य के अरणोद ठिकाने के निकट गौतमेश्वर नामक शिवालय है। वहां के वि० सं० १५६२ आषाढ वदि १४ (ई० स० १५०५ ता० १ जून) के शिलालेख से प्रकट है कि उस समय वहां सुलतान नासिरशाह का आधिपत्य था और खानआलम मक़बलखां वहां का शासक था। उसी समय के आस-पास उपर्युक्त ज़ेमकर्ण के पुत्र सूरजमल ने मेवाड़ से जाकर देवलिया (प्रतापगढ़) राज्य की नींव डाली।


नासिरशाह के पीछे उसका पुत्र महमूदशाह (दूसरा) खिलजी वि० सं० १५६८ (ई० स० १५११) में मालवे का स्वामी हुआ। उस (महमूदशाह) को हि० स० ६३७ (वि० सं० १५८७ = ई० स० १५३०) में गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने पकड़कर मालवे को गुजरात-राज्य में मिला लिया, किन्तु वह (बहादुरशाह) स्थिरतापूर्वक मालवे को अपने अधिकार में न रख सका और हि० स० ६४१ (वि० सं० १५६१ = ई० स० १५३४) में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूँ से हारकर मालवा तथा गुजरात के राज्यों को खो बैठा एवं स्वयं दीव के बंदरगाह से लौटता हुआ मारा गया।

बहादुरशाह को परास्तकर बादशाह हुमायूँ ने मालवा अपने अधिकार में कर लिया। इतने में बंगाल में शेरशाह सूरी का उपद्रव खड़ा होने की खबर सुनकर वह उधर रवाना हुआ, परंतु शेरशाह से उसकी हार हुई। यह खबर जब मालवे में पहुंची तो मल्लखां, जो खिलजियों का गुलाम था, हुमायूँ के सरदारों को निकालकर सुलतान क़ादिर के नाम से वि० सं० १५६२ (ई० स० १५३५) में वहां का स्वामी हो गया। शेरशाह ने दिल्ली

का स्वामी होने के पीछे हि० स० ६४६ (वि० सं० १५६६ = ई० स० १५४२) में उस(क्लादिर)को परास्तकर मालवे को पुनः दिल्ली की अमलदारी में दाखिल किया और शुजाख़ाँ को वहां का प्रबंधकर्ता बनाया । सूरवंश के अंतिम सुलतान मुहम्मदशाह के समय दिल्ली के पठान सुलतानों की सत्ता निर्वल हो गई, तब शुजाख़ाँ भी मालवे का स्वतंत्र सुलतान बन गया और राजधानी मांडू को छोड़कर सारंगपुर में रहने लगा । फिर उस- (शुजाख़ाँ)के पुत्र बाज़बहादुर से वि० सं० १६१६ (ई० स० १५६२) के लगभग बादशाह अकबर ने मालवा पीछा छीनकर मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया । उन्हीं दिनों सूरजमल के प्रपौत्र विक्रमसिंह (बीका) ने मेवाड़ में अपनी सादड़ी की जागीर का, जो उसके पूर्वजों के पास चली आती थी, सदा के लिए परित्याग कर स्थिरतापूर्वक कांठल में ही सूरजमल-द्वारा संस्थापित नवराज्य को अपने आधिपत्य में रखते हुए वहां की स्थिति सुदृढ़ की ।

तीसरा अध्याय

महारावत क्षेमकर्ण से विक्रमसिंह(बीका)तक



प्रतापगढ़ के स्वामी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गुहिलवंश की सीसोदिया शाखा के चित्तौड़ (मेवाड़) के राजवंश से उनका विकास हुआ है, जिसका वर्णन हमने उदयपुर राज्य के इतिहास में किया है। उनकी उपाधि 'महारावत'

क्षेमकर्ण से पूर्व के
गुहिलवंशी नरेश

हैं।

अन्य राजवंशों की भांति गुहिलवंश का विक्रम की सातवीं शताब्दी के पूर्व का इतिहास अंधकार में है और उसके बाद भी कुछ पीढ़ियों का इतिहास क्रमबद्ध नहीं मिलता, तो भी प्राचीन शोध से जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह निश्चित है कि संसार के वर्तमान राजवंशों में यही एक राजवंश ऐसा है, जो अनुमान चौदह सौ वर्षों से एक ही स्थान पर राज्य करता चला आ रहा है। इसका विशेष परिचय उदयपुर राज्य के इतिहास में दिया गया है, तथापि इतिहास का क्रम मिलाने के लिए हम यहां पर गुहिलोत और सीसोदिया वंश का प्राचीन इतिहास संक्षेप में देते हैं, ताकि प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के पाठकों को उक्त राजवंश के प्राचीन इतिहास की शृंखला की कुछ-कुछ जानकारी हो जाय।

गुहिलवंश का इतिहास गुहिल से प्रारंभ होता है। ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६) में मि० कार्लाइल को आगरे के समीप भूमि में गड़े हुए चांदी के २००० से अधिक सिक्के मिले, जिनपर 'श्रीगुहिल' लेख है। इससे अनुमान किया जाता है कि गुहिल का उधर भी राज्य होगा और उसके सिक्के दूर-दूर तक चलते होंगे। जयपुर राज्य के चाटसू गाव में गुहिलवंशी राजाओं का वि० सं० १००० के आस-पास का शिलालेख मिला है, जिससे

निश्चित है कि उधर भी उनका राज्य था। गुहिल के पांचवें वंशधर शीलादित्य (शील) का मेवाड़-राज्य के भोमट ज़िले के सामोली गांव से वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिलालेख तथा कुछ सिके और उसके उत्तराधिकारी अपराजित का एकलिंगजी के निकटवर्ती कुंडा गांव से वि० सं० ७१८ (ई० स० ६६१) का शिलालेख मिला है, जिससे सिद्ध होता है कि मेवाड़ के वर्तमान राजवंश के पूर्वपुरुष गुहिल (गोभिल, गोहिल, गुहदत्त, गुहादित्य) अथवा शील से पूर्व उसके किसी पूर्वज ने मेवाड़ की तरफ बढ़कर वहां अपना राज्य स्थिर किया हो। शील का क्रमानुयायी अपराजित शक्तिशाली राजा था। उपर्युक्त कुंडा के लेख से स्पष्ट है कि अपराजित ने सब दुष्टों का नाश किया और अनेक राजा उसके आगे सिर झुकाते थे। तदनंतर महेंद्र और फिर कालभोज हुआ, जो बापा या बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि बापा ने मौर्यों से चित्तौड़ का दुर्ग ले लिया था और दूर-दूर तक अपनी विजय-ध्वजा फहराई थी। वि० सं० ८१० (ई० स० ७५३) में बापा ने राज्य त्यागकर संन्यास ग्रहण किया। उसकी समाधि एकलिंगजी के पास विद्यमान है। बापा की राजधानी एकलिंगजी के निकट नागदा (नागहद) थी, जिसके नाम से गुहिलवंशी 'नागदे' भी कहलाते हैं। वहां जो मंदिरों आदि के ध्वंसावशेष विद्यमान हैं, उनसे पाया जाता है कि वह उस समय समृद्ध नगर था।

कालभोज के पीछे खुंमाण, मत्तट, भर्तृभट्ट, सिंह, खुंमाण (दूसरा), महायक और भर्तृभट्ट (दूसरा) क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए। प्रतापगढ़ से प्राप्त रघुवंशी प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल (दूसरा) की वि० सं० १००३ (ई० स० ९४६) की प्रशस्ति के एक अंश से पाया जाता है कि भर्तृभट्ट (दूसरा) ने वि० सं० ९९९ श्रावण सुदि १ (ई० स० ९४२ ता० १७ जुलाई) को घोंटावर्षिका (घोटासी) गांव के इंद्रराजादित्य नामक सूर्य-मंदिर को पलासकूपिका (पलासिया, मेवाड़) गांव का वंचूलिका नामक क्षेत्र भेंट किया। इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक है कि वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य का निकटवर्ती प्रदेश भर्तृभट्ट के राज्यान्तर्गत रहा हो।

भर्तृभट्ट (दूसरा) के पीछे अल्लट, नरवाहन और शालिवाहन नामक राजा हुए। शालिवाहन के वंशजों ने खेड़(मारवाड़ राज्य) की तरफ जाकर वहां अधिकार किया। वहां से काठियावाड़ की तरफ बढ़कर वहां उन्होंने धीरे-धीरे अपने वंशजों के लिए भावनगर, पालीताणा आदि गोहिल-राज्यों की स्थापना कर ली। शालिवाहन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शक्तिकुमार मेवाड़ का स्वामी हुआ। उपर्युक्त भर्तृभट्ट (दूसरा) से शक्तिकुमार तक पांच राजाओं का राज्यकाल वि० सं० ६६६-१०३४ (ई० स० ६४२-६७७) तक निश्चित है। उस(शक्तिकुमार)के समय राजधानी आघाटपुर (आहाड़, जो उदयपुर से १½ मील दूर है) भी रही, जिसको मालवे के परमार राजा मुंज ने तोड़ा था। परमारों के इस आक्रमण से मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की स्थिति निर्बल हो गई और चित्तौड़ उनके अधिकार से चला गया। वहां मुंज के छोटे भाई सिंधुराज के पुत्र प्रसिद्ध विद्यानुरागी राजा भोज का बनवाया हुआ 'त्रिभुवन-नारायण' का मंदिर है, जिसको मोकलजी और अद्भुत (अद्बद्) जी का मंदिर भी कहते हैं। शक्तिकुमार का क्रमानुयायी अंबाप्रसाद हुआ, जो सांभर के चौहान राजा वाक्पतिराज के हाथ से मारा गया।

तदनन्तर शुचिबर्मा, नरवर्मा, कीर्तिबर्मा, योगराज, वैरट, हंसपाल, वैरिसिंह, विजयसिंह, अरिसिंह, चोड़सिंह, विक्रमसिंह और रणसिंह (कर्णसिंह) नामक राजा हुए। रणसिंह से इस राजवंश की दो शाखाएं फटीं—एक रावल और दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा में प्रमुख क्षेमसिंह था, जिसके पुत्र सामंतसिंह और कुमारसिंह हुए। क्षेमसिंह के छोटे भाई माहप और राहप थे, जिनकी उपाधि 'राणा' हुई और उनको सीसोदे की जागीर मिली। इससे उनके वंशज सीसोदिया कहलाने लगे।

उसी समय के आसपास गुजरात के प्रसिद्ध सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के मालवे का राज्य विजय कर लेने पर चित्तौड़ का दुर्ग भी उसके अधिकार में चला गया। क्षेमसिंह के पीछे सामंतसिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसने गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल को युद्ध में बुरी तरह से

घायल किया, जिसपर गुजरातवालों ने उक्त हार का बदला लेने के लिए सामन्तसिंह पर चढ़ाई की। उस समय सामन्तसिंह के सरदार उससे विद्रोही हो गये थे, अतएव उस (सामन्तसिंह) को सोलंकरियों के मुक्ताबले में परास्त होना पड़ा और वह मेवाड़ छोड़कर वागड़ में चला गया। वहाँ उसने गुहिल-राज्य की वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) के पूर्व स्थापना कर वड़ोदा (वटपद्रक) में अपनी राजधानी नियत की।

फिर महारावल डूंगरसिंह के समय डूंगरपुर आवाद होकर वही वागड़ की राजधानी हुई। तदनन्तर महारावल उदयसिंह (प्रथम) ने अपने राज्य के दो विभाग कर ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को राजधानी डूंगरपुर-सहित वागड़ का पश्चिमी भाग और छोटे पुत्र जगमाल को वागड़ का पूर्वी भाग दिया, जिसकी राजधानी वांसवाड़ा है।

सामन्तसिंह के अधिकार से मेवाड़ का राज्य निकल जाने पर उसके छोटे भाई कुमारसिंह ने सोलंकरियों को प्रसन्न कर पुनः मेवाड़ का राज्य पाया। उसके पीछे मथनसिंह, पद्मसिंह और जैत्रसिंह क्रमशः मेवाड़ के राजा हुए। जैत्रसिंह वीर राजा था। उसकी गुजरात के सोलंकरियों, नाडोल के चौहानों और मालवे के परमारों के साथ लड़ाइयाँ हुई, जिनमें उसकी विजय हुई। अपने शत्रुओं को परास्तकर जैत्रसिंह ने चित्तौड़ पर पीछा मेवाड़ का अधिकार स्थापित किया। जैत्रसिंह के पीछे तेजसिंह, समरसिंह और रत्नसिंह क्रमशः मेवाड़ के स्वामी हुए। रत्नसिंह ने केवल एक वर्ष तक राज्य किया। उसके समय में दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुई, जिसमें रत्नसिंह मारा गया और चित्तौड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। रत्नसिंह के साथ चित्तौड़ की रावल शाखा की समाप्ति हुई। वि० सं० १३८२ (ई० स० १३२५) के आस-पास सीसोदे के राणा हंमीरसिंह ने चित्तौड़ पीछा अपने अधीन किया। तब से चित्तौड़ पर गुहिलवंश की सीसोदिया शाखा का राज्य स्थिर हुआ। हंमीरसिंह के पीछे क्रमशः क्षेत्रसिंह (खेता), लक्षसिंह (लाखा) और मोकल चित्तौड़ के स्वामी हुए। मोकल ने नागोर पर चढ़ाई कर फ़ीरोज़खाँ दंदानी

की सेना को नष्ट किया। सांभर, जालोर आदि विजय कर उसने अपने बाहुबल से गुजरात के सुलतान अहमदशाह को परास्त किया। हाड़ों से उसने जहाज़पुर छीना लिया था और मंडोवर का राज्य राव रणमल को दिलवाया था। वह बड़ा दानी था। उसने सोने और चांदी के २५ तुलादान किये, जिनमें से एक स्वर्ण तुलादान पुष्कर के आदिवराह के मंदिर में किया था। जो ब्राह्मण कृषक हो गये थे, उनके लिए उसने सांग(छः अंगों-सहित) वेद पढ़ाने की व्यवस्था की थी। उसके कुंभकर्ण (कुंभा), क्षेमकर्ण (खींवा) आदि सात पुत्र हुए। उनमें से कुंभकर्ण मेवाड़ का स्वामी हुआ, जिसके वंशधर मेवाड़ के महाराणा हैं और क्षेमकर्ण के वंशज प्रतापगढ़ के महारावत हैं, जिनका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा।

क्षेमकर्ण (क्षेमसिंह)

क्षेमकर्ण (जिसके दूसरे नाम क्षेमसिंह, खेमा या खींवा भी मिलते हैं) का जन्म महाराणा मोकल की सोलंकिनी राणी केसरकुंवरी के, जो राव सोड़ा की पुत्री और सांतल की पौत्री थी, उदर से हुआ था।

क्षेमकर्ण का जन्म

वि० सं० १४६० (ई० सं० १४३३) में महाराणा मोकल गुजरात के सुलतान अहमदशाह को दवाने के लिए चित्तौड़ से रवाना हुआ और जीलवाड़े की तरफ़ जाता हुआ बागोर के मुक्काम पर अपने पितामह महाराणा क्षेत्रसिंह(खेता) के दासी-पुत्र चाचा और मेरा के हाथ से मारा गया। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कुंभकर्ण (कुंभा) मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा।

महाराणा कुंभकर्ण और क्षेमकर्ण के बीच विरोध होना

फिर महाराणा कुंभकर्ण ने अपने छोटे भाइयों को प्रचलित रीति के अनुसार जागीरें देकर पृथक् करना चाहा। क्षेमकर्ण के लिए उसने जो जागीर निकाली, वह उस(क्षेमकर्ण)को पसंद नहीं हुई, क्योंकि वह उसके पद और मान-मर्यादा की दृष्टि से अपर्याप्त थी।

महाराणा कुंभकर्ण और जेमकर्ण सौतेले भाई थे, इसलिए उन दोनों के बीच परस्पर प्रेम में कमी होना स्वाभाविक बात थी। अब इस जागीर के वखेड़े ने और भी द्वेष बढ़ा दिया। निदान अप्रसन्न होकर जेमकर्ण ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया और अपने राजपूतों की सहायता से उसने मेवाड़ में बड़ी सादड़ी^१ तथा उसके आस-पास का समग्र प्रदेश बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया^२। महाराणा कुंभकर्ण को जेमकर्ण की यह बात सहन नहीं हुई और उसने अपनी सेना भेज सादड़ी और उसके समीप का प्रदेश उससे छीन लिया^३।

मेवाड़ में महाराणा-द्वारा सादड़ी आदि ले लिये जाने पर जेमकर्ण मालवे के सुलतान महमूद खिलजी^४ के पास चला

(१) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में कही कहीं वि० सं० १४७४ (ई० स० १४१७) में जेमकर्ण को सादड़ी की जागीर मिलने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है क्योंकि उस समय तो उसका पितामह महाराणा लक्ष्मिंह (लाखा) विद्यमान था। संभव है कि ख्यात लेखकों ने यहां ग़लती खाई हो और वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७)के स्थान में १४७४ लिख दिया हो। जब उस (जेमकर्ण)को महाराणा ने सादड़ी की जागीर दे दी थी, तो फिर परस्पर विरोध होने का कोई कारण नहीं हो सकता। संभव तो यही है कि जेमकर्ण ने वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७)में महाराणा की इच्छा के विरुद्ध सादड़ी पर अधिकार किया हो।

मुंहणोत नैणसी की ख्यात में जेमकर्ण का 'तेजमाल की सादड़ी' पर अधिकार होना लिखा है (जि० १, पृ० ६३), जो उदयपुर से ५० मील दक्षिण-पूर्व में है। यह मेवाड़ में सोलह उमरावों (प्रथम वर्ग) का ठिकाना है और प्रतिष्ठा में सर्वोपरि है। यहां के सरदार भाला हैं और उनकी ख्यात में लिखा है कि महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) ने भाला राज देदा को सादड़ी का पट्टा प्रदान किया था। इसके पूर्व उसके पूर्वजों की जागीर दूसरी थी।

(२) महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास; वीरविजोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५३।

(३) वही, द्वितीय भाग, पृ० १०५३।

(४) यह अज़ीम हुमायूं का पुत्र और गोरी खानदान के मांडू के सुलतान होशंग का सरदार था। वि० सं० १४६३ (ई० स० १४३६) में होशंग के पौत्र और

क्षेमकर्ण का मालवे के
सुलतान के पास जाना

गया, जहां पहले महाराणा मोकल के समय अप्रसन्न होकर महाराणा लक्ष्मिंह (लाखा) के ज्येष्ठ पुत्र चूंडा और अज्जा सुलतान होशंग के पास जाकर रहे थे। महमूद खिलजी और महाराणा कुंभकर्ण के बीच वैमनस्य था, क्योंकि उस (महमूद) को महाराणा ने चढ़ाई कर क़ैद कर लिया था। अतएव क्षेमकर्ण के रुष्ट होकर जाने पर सुलतान ने महाराणा को चिढ़ाने एवं उस (महाराणा) की कमज़ोरियों का भेद पाने की दृष्टि से उसको अपने यहां रख लिया।

महमूद, महाराणा से अपनी पूर्व पराजय का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने वि० सं० १५००, १५०३, १५११ और १५१३ (ई० स०

क्षेमकर्ण का मेवाड़ पर मालवे
के सुलतान को चढा लाना

१४४३, १४४६, १४५४ और १४५६) में मेवाड़ पर

आक्रमण किये। उसने गुजरात के सुलतान कुतुबुद्दीन

को भी अपनी तरफ़ मिलाकर संयुक्त सेना के साथ

पृथक्-पृथक् मार्ग से मेवाड़ पर चढ़ाइयां कीं, परन्तु इससे महाराणा की शक्ति न घटी और उन्हें हानि उठाकर लौटना पड़ा। महमूद के मेवाड़ के

गज़नीख़ां (मुहम्मदशाह) के पुत्र मसऊद को, जिसको दूसरे सरदार मुहम्मदशाह की मृत्यु पर गद्दी देना चाहते थे, हटाकर यह मालवे का सुलतान बन गया। वि० सं० १५३२ (ई० स० १४७५) में इसकी मृत्यु हुई (इक़, दि क्रोनोलोजी ऑव् इंडिया; पृ० २६२)।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५४। मुंहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में लिखा है कि जब राणा कुंभा गद्दी पर बैठा, तो दोनों भाइयों में परस्पर भूमि के लिए विरोध उत्पन्न हो गया। खेमा मांडू के सुलतान के पास पहुंचा और वहां से सैनिक सहायता प्राप्त कर उसने मेवाड़ को बड़ा धक्का पहुंचाया। राणा कुम्भा और खेमा में विरोध बना रहा, परंतु राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका। अंत में दोनों का इसी स्थिति में देहांत हो गया (प्रथम भाग, पृ० ६३-४)। नैणसी का उपर्युक्त कथन कि 'राणा उसको मेवाड़ से बाहर न निकाल सका', ठीक नहीं जान पड़ता। जैसा कि आगे बतलाया गया है, क्षेमकर्ण मेवाड़ से चले जाने के बाद ही वहरी से लड़ा था। वह महाराणा-द्वारा सादही छीने जाने पर मालवे के सुलतान महमूद के पास चला गया था और वहां उसने जागीर प्राप्त की थी, जो संभवतः मालवे में रामपुरा भाणपुरा (इंदौर राज्य) एवं वर्तमान प्रतापगढ़ राज्य के निकट ही हो।

आक्रमण में ज़ैमकर्ण का पूरा हाथ था^१, पर परिणाम ज़ैमकर्ण के लिए लाभदायक न हुआ-और आजीवन उन दोनों भाइयों के बीच द्वेष बना रहा।

ज़ैमकर्ण का मालवे के सुलतान के पास रहना वहां के दूसरे सरदारों को अखरता था, क्योंकि उच्चाभिलाषी होने से वह वहां के सरदारों से मेल

खानसलह के अनुचर बहरी
से ज़ैमकर्ण का युद्ध

न रखता था। इंदौर राज्य के खड़ावदा गांव की

बावड़ी के-वि० सं० १५४१ कार्तिक सुदि २ (ई० स०

१४८४ ता० २१ अक्टोबर) गुरुवार के शिलालेख से

पाया जाता है कि मालवे के सुलतान महमूद के एक सरदार खानसलह^२ के अनुचर मलिक बहरी^३ और ज़ैमकर्ण के बीच शंखोद्धार^४ में युद्ध हुआ,

(१) वीरविनोद, द्वितीय-भाग, पृ० १०५४। नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६३-४।

(२) खानसलह, हंमीरपुर के कलचुरीवंशी राजा भैरव के पुरोहित के वंशधर पुरुषोत्तम का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम घुड़ऊ था। कालपी (जौनपुर) के शासक अब्दुलक़ादिर ने, जो दिल्ली की सल्तनत के अधीन था, उसको मुसलमान बनाकर उसका नाम 'सलह' रक्खा। फिर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाकर उसने उसको अपना विश्वासपात्र सेवक बनाया। कालपी पर माहू के सुलतान होशंग की चढ़ाई होने पर अब्दुलक़ादिर ने पुत्र-पुत्री तथा धन-सहित खानसलह को होशंग को सौंप दिया। होशंग ने उसकी पूर्व-प्रतिष्ठा कायम रक्खी। वह (सलह) होशंग के पीछे मालवे पर अधिकार करनेवाले सुलतान महमूद खिलजी का भी कृपापात्र रहा, जिसने उसको खान की उपाधि दी थी। खानसलह ने सुलतान होशंग, महमूद खिलजी एवं गयासुद्दीन के सम्य कई युद्धों में वीरता दिखलाई थी।

(३) मलिक बहरी को खड़ावदे के शिलालेख में चत्रिय लिखा है। खानसलह ने उसको मुसलमान बना लिया था। खड़ावदे के उपर्युक्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि बहरी वीर होने के साथ ही पूर्ण स्वामिभक्त था-एवं उसको संस्कृत से भी अनुराग था। उसने खड़ावदे के भीलों को विजय करने के पीछे वहां क़िला, बावड़ी और बग़ीची बनवाकर महेश भट्ट से (जिसका मेवाड़ राज्य में बड़ा सम्मान था और वहां उसने कई प्रशस्तियों की रचना की थी) इस शिलालेख की रचना करवाई, जो तत्कालीन मालवे के इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है।

(४) खड़ावदा गांव से दूर चंबल नदी के तट पर (इंदौर राज्य के रामपुरा-भाणपुरा नामक ज़िले में) शंखोद्धार एक प्राचीन तीर्थ है। महाभारत (द्रोणपर्व, अ० ६७ वां)

जिसमें क्षेमकर्ण की हार हुई।

वि० सं० १५२५ (ई० सं० १४६८) में प्रतापी महाराणा कुंभकर्ण को मारकर उसका ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह (ऊदा) मेवाड़ का स्वामी हुआ। उसके इस जघन्य कृत्य से राजभक्त सरदारों को उससे अत्यन्त घृणा हो गई और वे अपने भाई, पुत्र आदि को राज्य-सेवा में भेजकर स्वयं उससे किनारा करने एवं उसे राज्यव्युत् करने का उद्योग करने लगे। उदयसिंह ने उनकी प्रीति सम्पादन करने का प्रयत्न किया, परंतु जब उसमें उसे सफलता नहीं हुई, तो उसने अपने पड़ोसी राजाओं को मेवाड़ के कुछ इलाके देकर सहायक बनाने का प्रयत्न किया। उस समय क्षेमकर्ण भी पितृहंता से जा मिला, जिससे सादड़ी

क्षेमकर्ण की मृत्यु

से पाया जाता है कि चंद्रवंशी राजा रंतिदेव के यहां असंख्य पशु बलि होते थे, जिनके लोह, मांस, मज्जा आदि ने बहकर नदी का रूप धारण किया, जो चर्मण्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर वह स्थान तीर्थ के रूप में परिणत हो गया, जहां वैशाख और कार्तिक में मेला लगता है और आस-पास के गांवों से बहुतसे आदमी जाकर एकत्रित होते हैं।

खड़ावदे की बावड़ी में उपर्युक्त वि० सं० १५४१ (ई० सं० १४८४) का शिलालेख लगा हुआ था, जो अब इंदौर स्टेट म्यूजियम में सुरक्षित है। इस शिलालेख में मलिक बहरी, खानसलह और सुलतान होशंग से लगाकर मालवे के सुलतान ग़यासुद्दीन तक का वर्णन है। खड़ावदे के आस-पास भीलों की अधिक बस्ती थी, जिनको मलिक बहरी ने विजय किया था। खड़ावदे के इस शिलालेख का मेरे आयुष्मान् पुत्र रामेश्वर गौरीशंकर ओम्का, एम० ए० (प्रोफेसर ऑफ् संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर) ने इंदौर स्टेट म्यूजियम का क्यूरेटर (अध्यक्ष) रहते समय काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका (भाग १२, सं० १६८८, पृ० १-६६) में 'इंदौर म्यूजियम का एक शिलालेख'—शीर्षक से सम्पादन किया है।

(१) शंखोद्धारे रंतिदेवोद्धृतायाः

स्रोतस्विन्यास्तीरमध्येभ्यभाक्वि ।

षण्णाषड्भि क्षेमकर्णद्वितीश-

श्रान्वन्व (स्तन्वन्व) हरीपारसीकेश्वरेण ॥ २६ ॥

खड़ावदे का शिलालेख ।

आदि परगने उसे फिर मिल गये। उदयसिंह की इस कार्यवाही से सरदार और भी असंतुष्ट हो गये। उन्होंने परस्पर सलाह कर उसके छोटे भाई रायमल को, जो अपनी ससुराल ईंडर में था, राज्य लेने के लिए बुलाया। रायमल उधर से कुछ सैन्य लेकर ब्रह्मा की खेड़ (ईंडर राज्य) तथा ऋषभदेव होता हुआ जावर (योगिनीपुर) के निकट पहुंचा, जो समृद्ध कसबा था। मेवाड़ के सरदार भी अपनी अपनी जमीयत-सहित उससे जा मिले। जावर के निकट के युद्ध में रायमल की विजय हुई और वहां उसका पूरा अधिकार हो गया। फिर पितृघाती के साथ दाड़िमपुर (दाड़मी गांव) में उसका युद्ध हुआ। उसमें उसकी विजय हुई और क्षेमकर्ण मारा गया। तदनंतर और भी कई युद्धों में विजय पाकर रायमल मेवाड़ का स्वामी हुआ तथा उदयसिंह वहां से भाग गया। ख्यातों के अनुसार इस घटना का समय वि० सं० १५३० (ई० स० १४७३) के लगभग है।

(१) अर्षत्संग्रामे सरभसमसौ दाडिमपुरे

घराधीशस्तस्मादभवदनगुः शोणितसरित् ।

स्वलनमूलस्तु (?) लोपमितगरिमा क्षेमकुपतिः

पतन् तीरेयस्यास्तटविटपिवाटे विघटितः ॥ ६४ ॥

एकलिङ्गजी के दक्षिण-द्वार की वि० सं० १५४५ (चैत्रादि १५४६) की प्रशस्ति; भावनगर इंस्क्रिप्शन्स, पृ० १२१।

(२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३२५।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में भी क्षेमकर्ण की मृत्यु का यही संवत् दिया है और लिखा है कि वह आश्विन सुदि १० (ता० १ अक्टोबर) बुधवार (? शुक्रवार) को ऋषभदेवजी (मेवाड़ के दक्षिणी भाग के धूलेव गांव का जैन तीर्थ) के पास करमदी के खेड़े में मारा गया। ख्यात और दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में इतना ही अन्तर है कि एक करमदी के खेड़े में और दूसरी दाड़िमपुर में क्षेमकर्ण की मृत्यु बतलाती है। ऋषभदेवसे उदयपुर के मार्ग में लगभग बीस मील पर जावर नामक प्राचीन गांव है, जो बड़ा समृद्धिशाली कसबा था और योगिनीपुर नाम से प्रख्यात था। महाराणा रायमल और उसके बड़े भाई उदयसिंह (ऊदा, पितृघाती) के बीच कई युद्ध हुए थे। उनमें एक

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े की ख्यात में लिखा है कि क्षेमकर्ण के चार राणियां थीं, जिनसे सूरजमल^१, रणवीर, श्रेष्ठधर और रायसाल नामक चार कुंवर एवं पेपकुंवरी नामक पुत्री हुई ।

क्षेमकर्ण स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । उसके समय का कोई शिलालेख या दानपत्र नहीं मिला है । अतएव उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़ना कठिन है । हरिभूषण महाकाव्य से प्रकट है कि वह सत्य का पक्षपाती, मतिमान् और धर्मप्रिय व्यक्ति था^२ । लोभ और कृपणता उसमें न थी एवं वह सिंह, शूकर, मृग आदि के आखेट का बड़ा प्रेमी था^३ । उपर्युक्त काव्य में उसके

जावर और दूसरा दादिमपुर के पास हुआ । उपर्युक्त दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति वि० सं० १२४२ (चैत्रादि १२४६ = ई० स० १४८६) की है, जो इस घटना से लगभग पन्द्रह वर्ष पीछे लिखी गई थी । ऐसी दशा में उक्त प्रशस्ति में उल्लिखित दादिमपुर के युद्ध में ही क्षेमकर्ण की मृत्यु होने का वर्णन विश्वसनीय है ।

(१) उदयपुर राज्य के प्रथम वर्ग के ठिकाने कानोड़ की ख्यात में लिखा है कि रावत अज्जा (महाराणा लाखा का पुत्र) के बेटे सारंगदेव और सूरजमल थे । उनमें से सारंगदेव अज्जा का उत्तराधिकारी हुआ और सूरजमल क्षेमकर्ण का; परन्तु इसके विरुद्ध प्रतापगढ़ राज्य से मिलनेवाली एक पुरानी ख्यात में सारंगदेव को सूरजमल का छोटा भाई बतलाकर उसको क्षेमकर्ण का दूसरा पुत्र लिखा है । इन दोनों में कौनसा कथन ठीक है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किन्तु घटनाक्रम पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि सूरजमल और सारंगदेव में कोई निकट-सम्बन्ध अवश्य था, जिससे वे सदा साथ रहकर महाराणा रायमल से युद्ध करते रहे और सुख-दुःख में भी सदैव साथ रहे ।

(२) नित्यं सत्यपरायणोऽतिमतिमान्धर्मप्रतिष्ठापको

लुब्धो नो कृपणो न रक्षणेपरो नित्यं प्रजानामपि ।

दण्डे पुत्रकलत्र-शत्रुविषये भिन्नो न भूवल्लभः

क्षेमारावतसन्निभः क्षितितले भूतो न भार्वा विभुः ॥ १४ ॥

हरिभूषण महाकाव्य, सर्ग १ ।

(३) हरिभूषण महाकाव्य, सर्ग १, श्लोक २१-३१ । उपर्युक्त हरिभूषण महाकाव्य

संबंध में अश्वमेध यज्ञ करने और संपूर्ण भूमि ब्राह्मणों को देने का जो वर्णन दिया है^१, वह अत्युक्ति-पूर्ण है। कवि ने इस काव्य में प्रत्येक स्थल पर अलङ्कारों का प्रयोग किया है, जैसा कि प्रायः काव्यों में होता है तथा यह काव्य क्षेमकर्ण से लगभग दो सौ वर्ष पीछे का बना हुआ है, अतएव उसके विषय में जो कुछ वर्णन किया गया है, वह तत्कालीन परिस्थिति के बिल्कुल विपरीत जान पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि क्षेमकर्ण ने मालवे की सेना-द्वारा अपनी मातृभूमि की बहुत कुछ हानि करवाई, किन्तु उसका परिशोध युद्ध में उसकी मृत्यु-द्वारा हो गया, जो क्षत्रियों के लिए गौरव की बात है। अपने न्यायपूर्ण स्वत्वों की प्राप्ति एवं आश्रित जनों की सहायतार्थ युद्ध में प्राणों की बाज़ी लगा देने के इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं। क्षेमकर्ण ने भी अपने जीवन का यही लक्ष्य रख युद्ध में वीरगति प्राप्त की, जिससे उसका चरित्र उज्ज्वल हो जाता है।

सूरजमल

दाढ़मी के युद्ध में क्षेमकर्ण के वीरगति प्राप्त करने के साथ ही महाराणा और उसके बीच होनेवाले विरोध का अंत हो गया और संभवतः

सादड़ी का स्वामी होना वि० सं० १५३० (ई० स० १४७३) के लगभग रावत

सूरजमल, क्षेमकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। सादड़ी आदि पर महाराणा कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात् उदयसिंह के समय क्षेमकर्ण का अधिकार हो गया था वह बना रहा।

में दिये हुए श्लोक संख्या २१-३१ से स्पष्ट है कि क्षेमकर्ण विंध्याचल के जंगलों में शिकार खेला करता था। अतएव उसका अधिकांश समय मालवे में हो व्यतीत होना निश्चित है।

(१) सम्पूर्णैव मही महाध्वरकृता ऋत्विग्गणोभ्यो मुदा

रिङ्गत्तुङ्ग-तुरङ्गमेधविषयेष्वापादिता दक्षिणा ।

भारुडागारमिहार्पितं न कतिधा येन स्वयं भूमुजा

चन्द्रो नाविशदस्य मेरुरपि तद्वन्नो नु मन्यामहे ॥ १६ ॥

हरिभूषण महाकाव्य; सर्ग १

मेवाड़ का राज्य पाने के पीछे महाराणा रायमल ने, जो सरल प्रकृति का था, सूरजमल से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, परंतु सूरजमल और महाराणा के बीच आन्तरिक सफ़ाई नहीं हुई और मनोमालिन्य बना ही रहा^१। फिर महाराणा ने सारंगदेव-अज्जावत (महाराणा लाखा का पौत्र) को भी भैंसरोड़गढ़ का ठिकाना जागीर में प्रदान कर दिया^२।

रायमल का सारंगदेव को भैंसरोड़गढ़ की जागीर देना

पितृघाती उदयसिंह (ऊदा) महाराणा रायमल से परास्त होकर इधर-उधर भटकता हुआ मांडू के सुलतान गयासुद्दीन^३ के पास सहायता के लिए गया, किंतु वहां पर बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल और सहसमल को मेवाड़ का राज्य दिलाने के लिए गयासुद्दीन ने चढ़ाई कर चित्तौड़ को घेर लिया। महाराणा ने अपनी सेना सुसज्जित कर सुलतान की सेना से मुक़ाबिला

मालवे की सेना के साथ महाराणा के पक्ष में सूरजमल का युद्ध करना

(१) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, पृ० ३३१ ऽऽऽऽ संख्या १ ।

(२) वही; जिल्द १, पृ० ३३५। 'वीरविनोद' (भाग १, पृ० ३४७) में महाराणा रायमल का सूरजमल और सारंगदेव को शामिल में वार्षिक पांच लाख रुपये आय की भैंसरोड़गढ़ की जागीर देना लिखा है, किन्तु कुछ स्थल पर केवल सारंगदेव को ही भैंसरोड़गढ़ की जागीर मिलने का उल्लेख मिलता है। मेवाड़ की जागीरदारी प्रथा को देखते हुए 'वीरविनोद' का यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता एवं दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को एक ही जागीर शामलात में मिलने के उदाहरण अब तक वहां देखने में नहीं आये। नैणसी भी लिखता है कि सूरजमल का सादही से लेकर गिरवा तक के प्रान्त पर ही अधिकार रहा था (मुहंणोत नैणसी की ख्यात; जि० १, पृ० ६४)।

(३) यह खिलजी वंश के मांडू के सुलतान महमूदशाह का पुत्र था। वि० सं० १५३२ (ई० स० १४७५) में यह मांडू का सुलतान हुआ (डफ, दि क्रोनोलोजी ऑव् इंडिया, पृ० २०२)। अनन्तर अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ससैन्य चढ़ आने पर वि० सं० १५५७ (ई० स० १५००) में यह स्वयं उसको राज्य-मुकुट पहना मांडू के सिंहासन से पृथक् हुआ और उसी वर्ष इसकी मृत्यु हुई।

किया, जिसमें सुलतान की हार हुई^१। सुलतान ने इस हार का बदला लेने के लिए पुनः युद्ध की तैयारी की और अपने सेनापति ज़फ़रख़ां को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा। ज़फ़रख़ां इस सेना के साथ मेवाड़ के पूर्वी हिस्से को लूटने लगा, जिसकी सूचना पाते ही महाराणा अपने कुंवरो पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिंह, पत्ता (प्रताप) और रामसिंह तथा कांधल चूडावत, सारंगदेव अज्जावत आदि कितने ही बड़े-बड़े सरदारों एवं विशाल सेना के साथ मांडलगढ़ की तरफ़ बढ़ा। वहां घमासान युद्ध हुआ, जिसमें

(१) वीरविनोद; भाग १, पृ० ३३८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, पृ० ३२८। कर्नल टॉड का कथन है कि उदयसिंह दिल्ली के सुलतान के पास चला गया और वहीं बिजली गिरने से मरा (राजस्थान, जि० १, पृ० ३४०)। नैणसी लिखता है कि मेवाड़ का राज्य छूटने के पीछे उदयसिंह सोजत गया और उसने कुंवर बाबा की बेटी से विवाह किया। फिर वह बीकानेर चला गया और वहाँ मरा (मुंहणोत नैणसी की ख्यात; जि० १, पृ० ३६)। मेवाड़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि वह मालवे के सुलतान के पास गया था और वहीं उसकी मृत्यु हुई। अनन्तर उसके पुत्र सूरजमल और सहसमल सुलतान गयासुद्दीन को मेवाड़ पर चढ़ा लाये (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३२७)। ख्यातों के इस कथन की पुष्टि एकलिङ्गजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति से भी होती है। उसमें सूरजमल और सहसमल के दिल्ली की सेना को मेवाड़ पर चढ़ा लाने का कुछ भी उल्लेख नहीं है। कर्नल टॉड भी गयासुद्दीन की मेवाड़ पर चढ़ाइयां होने का दर्शन करता है, पर उसका कथन है कि उनमें महाराणा की जो विजय हुई, वह उसके भतीजों की वीरता पर ही निर्भर है, जिनको महाराणा ने क्षमा कर दिया था (राजस्थान; जि० १, पृ० ३४०)। किन्तु अन्य स्थल पर महाराणा का अपने भतीजों (सूरजमल और सहसमल—पितृघाती उदयसिंह के पुत्र) को क्षमा करने का उल्लेख नहीं मिलता है। टॉड का यह कथन कि पितृहंता उदयसिंह के पुत्रों (सूरजमल और सहसमल) ने, जिनको महाराणा रायमल ने क्षमा कर दिया था, मालवे के सुलतान गयासुद्दीन की मेवाड़ की चढ़ाइयों के समय वीरता प्रदर्शित की थी, ठीक नहीं जान पड़ता। यहां टॉड का अभिप्राय सूरजमल और सारंगदेव से हो तो युक्तिसंगत जान पड़ता है, क्योंकि अन्य साधनों से सूरजमल और सारंगदेव का, गयासुद्दीन की मेवाड़ की चढ़ाई के समय महाराणा के पक्ष में लड़ना पाया जाता है। भीतरी वैमनस्य होने पर भी महाराणा रायमल ने सूरजमल का सादरी पर अधिकार रहने दिया एवं सारंगदेव को भैंसरोड़गढ़ का इलाका प्रदान कर दिया। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि महाराणा ने सूरजमल

दोनों तरफ़ के बहुत से वीर मारे गये और ज़फ़रखां हारकर मालवे को लौट गया। इस युद्ध के प्रसंग में महाराणा रायमल के समय की एकलिङ्गजी के दक्षिण-द्वार की वि० सं० १५४५ (चैत्रादि १५४६ = ई० स० १४८६) की प्रशस्ति में लिखा है कि मेदपाट के अधिपति रायमल ने मंडल दुर्ग (मांडलगढ़) के पास सैन्य का नाशकर शकपति ग्यास (गयासुद्दीन, मालवे का सुलतान) के गर्वोन्नत सिर को नीचा कर दिया^१। वहां से रायमल मालवे की ओर बढ़ा और खैराबाद के युद्ध में यवन सेना को तलवार के घाट उतारकर उसने

और सारंगदेव के पहले के अपराध क्षमा कर दिये। सूरजमल और सारंगदेव वंशक्रम के अनुसार परस्पर चचा-भतीजे थे। इससे संभव है कि कर्नल टॉड ने सूरजमल—जो महाराणा का चचाज़ाद भाई था—और सारंगदेव को—जो उस (महाराणा) का चाचा होता था—परस्पर चचा-भतीजे होने से महाराणा का भतीजा समझ लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है।

टॉड के उपर्युक्त संदिग्ध लेख को समझने में प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर-लेखक के० डी० अर्सकिन को भी भ्रम हो गया और उसने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल के विषय में कर्नल टॉड का सूरजमल को पितृहंता उदयसिंह का पुत्र मानना लिखकर उसका खंडन किया (राजपूताना गैज़ेटियर, जि० २ ए, पृ० १६७)। अर्सकिन के संदेह को ठीक मानकर विलियम क्रुक ने भी अपने संपादित 'एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑव राजस्थान' (जि० १, पृ० ३४७ टिप्पण ४) में उसके कथन को उद्धृत कर दिया। टॉड के उपर्युक्त विस्तृत ग्रंथ का अध्ययन करने पर अर्सकिन का यह लेख कि टॉड ने सूरजमल को पितृघाती उदयसिंह का पुत्र लिखा है, ग़लत प्रमाणित होता है। इसी प्रकार क्रुक का टिप्पण भी, क्योंकि टॉड ने प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक सूरजमल को कहीं पितृहंता उदयसिंह का पुत्र नहीं लिखा है तथा पृथ्वीराज और सूरजमल के पारस्परिक कलह के अवसर पर पृथ्वीराज का सूरजमल को 'काका' एवं सूरजमल का पृथ्वीराज को 'भतीजे' शब्द से संबोधन करना लिखकर सूरजमल के मेवाड़ छोड़कर कांठल में जाने और उसके वंशधरों के प्रतापगढ़ का स्वामी होने का उल्लेख किया है। इससे महाराणा का भाई (क्षेमकरण का पुत्र) सूरजमल और पितृहता उदयसिंह का पुत्र सूरजमल भिन्न व्यक्ति प्रकट होते हैं।

(१) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३३८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३२६।

मालवावालों से दंड लिया तथा अपना यश बढ़ाया ।

इस युद्ध का महाराणा रायमल की प्रशंसा में बने हुए 'रायमल रासा'-नामक भाषा-काव्य में विस्तृत वर्णन है । महाराणा के साथ युद्ध में जानेवाले जिन प्रतिष्ठित सरदारों को युद्ध के समय घोड़े दिये गये, उनमें रावत सूरजमल-क्षेमकर्णोत्त को सूरजपसाव घोड़ा दिये जाने का उल्लेख है^१, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय सूरजमल ने महाराणा की सेना में रहकर मालवे के सुलतान तथा ज़फ़रखां की चढ़ाइयों में मुसलमान सेना से युद्ध किया था । इससे यह भी अनुमान होता है कि महाराणा और सूरजमल के बीच जो मनो-मालिन्य था, वह मिटकर सूरजमल महाराणा के पक्ष में लड़ने के लिए गया था । फ़ारसी तवारीखों में गयासशाह (गयासुद्दीन), ज़फ़रखां और महाराणा के बीच होनेवाले युद्धों का वर्णन नहीं है, परंतु महाराणा रायमल के समय की उपर्युक्त चैत्रादि वि० सं० १५४६ (ई० स० १४८६) की एकलिङ्गजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में इन दोनों युद्ध का स्पष्ट उल्लेख है । इससे निश्चय है कि उक्त दोनों युद्ध वि० सं० १५४६ (ई० स० १४८६) के पूर्व और वि० सं० १५३० (ई० स० १४७३) के पीछे किसी समय हुए ।

महाराणा रायमल के पृथ्वीराज, जयमल, संग्रामसिंह (सांगा) आदि १३ पुत्र थे । ज्येष्ठ होने से कुंवर पृथ्वीराज राज्य का स्वत्वाधिकारी था ही,

महाराणा के कुंवरों में
पारस्परिक द्वेष की वृद्धि

परंतु जयमल पर महाराणा की विशेष प्रीति होने से वह भी राज्य-प्राप्ति की आशा से मुक्त न था ।

संग्रामसिंह शांत और गंभीर प्रकृति का पुरुष था

एवं उसके ग्रह बढ़े उच्च थे, जिससे पृथ्वीराज और जयमल उससे डाह रखते थे । एक दिन तीनों भाइयों ने किसी ज्योतिषी को अपनी-अपनी जन्मपत्रियां बतलाईं । उसने उत्तर दिया कि पृथ्वीराज और जयमल पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त होंगे एवं संग्रामसिंह राज्य का

(१) वीरविनोद, पहला भाग, पृ० ३४१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३२६ ।

(२) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३३६ ।

स्वामी होगा। इसपर क्रोध में आकर पृथ्वीराज तथा जयमल ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी को मिथ्या करने के लिए संग्रामसिंह को मार डालना चाहा। फलस्वरूप भाइयों के बीच तलवारें चलने लगीं और पृथ्वीराज के हाथ की तलवार से संग्रामसिंह की एक आंख जाती रही। इतने में रावत सारंगदेव जा पहुंचा। उसने उन तीनों को रोककर युद्ध से निवृत्त किया और फिर संग्रामसिंह को अपने यहां ले जाकर उसकी चिकित्सा की। उसने आपस का विरोध बढ़ता देख महाराणा के उपर्युक्त तीनों कुंवरों को समझाया कि तुम परस्पर क्यों कटे-मरते हो, ज्योतिषियों के कथन पर विश्वास नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त अभी तो महाराणा विद्यमान हैं, इसलिए ऐसा विचार करना ही बुरी बात है। फिर भी यदि तुमको यह बात स्पष्ट करनी है तो भीमल गांव के देवी के मंदिर की पुजारिन चारणी^१ से जाकर पूछ लो। इसपर उन्होंने सारंगदेव की बात स्वीकार कर ली।

तदनुसार वि० सं० १५६१ के ज्येष्ठ (ई० स० १५०४ मई) मास में एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्रामसिंह सारंगदेव-सहित अपने भाग्य का निर्णय कराने के लिए भीमल गांव की चारणी के पास गये। उस (चारणी) ने उनके आने का अभिप्राय समझ राजयोग संग्रामसिंह को बतलाया और मेवाड़ के किनारे की भूमि सूरजमल के अधिकार में रहने की बात कही। यह सुनते ही पृथ्वीराज तथा जयमल संग्रामसिंह पर दूट पड़े। इतने में सारंगदेव फुर्ती के साथ खड़ा होकर संग्रामसिंह पर किये हुए प्रहार अपने ऊपर भेलने लगा। परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज और सारंगदेव तो अधिक घायल होकर वहां गिर गये और संग्रामसिंह घायल होने पर भी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हुआ। जयमल ने, जो अधिक घायल नहीं हुआ था, उसका पीछा किया, परंतु संग्रामसिंह सही-सलामत सेवंत्री गांव में जा पहुंचा। उसके शरीर पर

(१) यह तुंगल कुल के चारण की पुत्री थी और इसका नाम वीरी था (वीर-विनोद; पहला भाग, पृ० ३४३)। इसे लोग देवी का अवतार मानते थे।

घाव लगे देखकर राठोड़ वीदा^१ (ऊदावत) ने, जो मारवाड़ की तरफ से वहां दर्शनों के लिए गया हुआ था, उसको घोड़े से उतारकर उसकी चिकित्सा की। इतने में जयमल भी वहां जा पहुंचा और उसने उससे संग्रामसिंह को मांगा, किन्तु वीर राठोड़ वीदा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर उसने संग्रामसिंह को तो घोड़े पर देसूरी की तरफ खाना किया और स्वयं अपने राजपूतों-सहित वीरतापूर्वक जयमल से युद्ध करता हुआ काम आया। उपर्युक्त सेवंत्री गांव के रूपनारायण के मंदिर में राठोड़ वीदा की स्मारक छत्री बनी हुई है। उसमें वि० सं० १५६१ ज्येष्ठ वदि ७ (ई० स० १५०४ ता ६ मई) को उसका महाराणा रायमल के कुंवर संग्रामसिंह की सहायतार्थ लड़कर मारे जाने का उल्लेख है^२। फिर निराश होकर जयमल कुंभलगढ़ चला गया। जब महाराणा को यह संवाद ख्यात हुआ तो उसने पृथ्वीराज को कहला भेजा कि तूने मेरी विद्यमानता में राज्य-लोभ से प्रेरित होकर यह संघर्ष मचाया और मेरा कुछ भी लिहाज न किया, इसलिए तू मुझे अपना मुंह मत दिखलाना। निदान घाव अच्छे होने पर पृथ्वीराज कुंभलगढ़^३ और सारंगदेव अपने स्थान को चला गया।

(१) यह मारवाड़ के राठोड़ों के पूर्वज राव सलखा के दूसरे पुत्र जैतमाल का वंशधर था। जैतमाल के वंशज जैतमालोत कहलाये। उसका पुत्र वैजल, पौत्र कांधल और प्रपौत्र ऊदल हुआ। ऊदल का बेटा मोकल था, जिसने मोकलसर बसाया। मोकल का पुत्र वीदा था, जिसके वंश के इस समय केलवे के स्वामी हैं, जो उदयपुर राज्य के दूसरी श्रेणी के सरदारों में है (मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३२)।

(२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३२ टिप्पण २।

(३) वीरविनोद; पहला भाग, पृ० ३४३-४। कर्नल टॉड-कृत 'राजस्थान' में महाराणा के कुंवरों के बीच जन्मपत्रियां दिखलाने के समय झगड़ा होने का कुछ भी वर्णन नहीं है और संग्रामसिंह की एक आंख भीमल गांव के झगड़े में चली जाना लिखा है (जि० १, पृ० ३४१-२)।

टॉड-कृत 'राजस्थान' और 'वीरविनोद' में महाराणा के कुंवरों के संघर्ष में सर्वत्र सूरजमल का ही उल्लेख है, परन्तु इस सम्बन्ध में नीचे लिखा एक प्राचीन पद्य प्रसिद्ध है—

इस घटना के कुछ दिनों पीछे कुंवर जयमल, सोलंकी सुरताण का अपमान करने के कारण सांखला रतना के हाथ से मारा गया^१। कुंभलगढ़ में रहते समय कुंवर पृथ्वीराज ने पहाड़ी प्रांत के लोगों का उपद्रव शांत कर दिया था। इससे महाराणा की अप्रसन्नता दूर हो गई। वह सारंगदेव से द्वेष रखता था। इसलिए महाराणा की प्रसन्नता का अवसर पाकर उस (पृथ्वीराज) ने उस (महाराणा) से निवेदन कराया कि आपने सारंगदेव को पांच लाख रुपये वार्षिक आय की जागीर प्रदान की है, जो अधिक है। यदि इसी प्रकार छोटे भाइयों को इतनी बड़ी जागीरें मिलतीं तो अब तक आपके पास मेवाड़ का कुछ भी हिस्सा बाकी न रहता। इसपर महाराणा ने उत्तर भेजा कि हमने तो भैंसरोड़गढ़ दे दिया। अगर तुम इसे अनुचित समझते हो तो परस्पर समझ लो। यह सूचना पाते ही पृथ्वीराज ने दो हजार सवारों के साथ भैंसरोड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सारंगदेव वहां से भैंसरोड़गढ़ का परित्याग कर^२ सूरजमल से मिल गया। बड़ी सादही से गिरवा तक का सारा प्रदेश सूरजमल के अधिकार में होना महाराणा रायमल को भी पसंद न था। इसलिए पृथ्वीराज उस (सूरजमल) से भी छेड़-छाड़ करने लगा।

पीथल खग हाथां पकड़, वह सांगा क्रिय वार ।

सारंग भेले सीस पर, उणवर साम उबार ॥

उपर्युक्त दोहे से स्पष्ट है कि महाराणा के कुंवरों के पारस्परिक कलह में संग्रामसिंह पर पृथ्वीराज के किये हुए प्रहार सारंगदेव ने अपने ऊपर भेले थे ।

(१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, भाग १, पृ० ४४-५ । टॉड; राजस्थान; जि० १, पृ० ३४४ । वीरविनोद, पहला भाग, पृ० ३४५-६ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३३५-६ ।

(२) वीरविनोद, पहला भाग, पृ० ३४७ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३५ ।

अनन्तर जब पृथ्वीराज का उपद्रव बढ़ता दिखाई पड़ा तो सूरजमल और सारंगदेव प्राणों के भय से विवश होकर मांडू चले गये और वहां के सूरजमल का मालवे की सुलतान नासिरुद्दीन को मेवाड़-राज्य की सारी सेना के साथ जाकर परिस्थिति से परिचित कर उन्होंने उसे अपनी सहायता के लिए उद्यत किया^१। मांडू (मालवे) के सुलतान अपने पड़ोसी मेवाड़ के हिन्दू-राज्य की बढ़ी हुई शक्ति को अपने लिए पूर्ण घातक समझते थे, क्योंकि उनकी समय-समय पर मेवाड़-राज्य के द्वारा बहुत क्षति हुई थी। इसलिए वहां के सुलतान ने पूर्व-पराजयों का बदला लेने का यह अच्छा अवसर समझ सूरजमल और सारंगदेव को सहायता देना स्वीकार किया। सूरजमल कुंवर जयमल के मारे जाने, पृथ्वीराज पर

(१) सुलतान नासिरुद्दीन मुहम्मद हि० सं० १०६ (वि० सं० १५५७ = ई० सं० १५००) के लगभग अपने पिता गयासुद्दीन की विद्यमानता में ही मांडू का सुलतान हुआ। 'तारीख फिरीश्ता' से ज्ञात होता है कि वि० सं० १५६० (ई० सं० १५०३) में नासिरशाह ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी और वहां से नज़राने के तौर पर बहुत से रुपये आदि लेकर वह लौटा था (जि० ४, पृ० २४३ ब्रिगज़-संपादित)। घटनाक्रम पर विचार करने से यह अनुमान होता है कि वि० सं० १५६३ (ई० सं० १५०६) के लगभग सूरजमल और सारंगदेव मांडू के सुलतान नासिरुद्दीन के पास पहुंचे और वहां से सैनिक सहायता प्राप्तकर महाराणा रायमल से युद्ध के लिए प्रवृत्त हुए होंगे।

कर्नल टॉड सूरजमल और सारंगदेव का मांडू के सुलतान मुज़फ़्फ़र के पास जाकर वहां से सैनिक सहायता प्राप्त करना लिखता है (राजस्थान, जि० १, पृ० ३४५ क्रुक-संपादित)। किन्तु मांडू के सुलतानों में मुज़फ़्फ़र नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ, जिससे उसका यह कथन ज्यों का त्यों मानने के योग्य नहीं है। संभव है कि सूरजमल और सारंगदेव के साथ सुलतान नासिरशाह ने अपने सरदार ज़फ़रख़ां को, जिसका नाम एकलिङ्गजी के दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति में मुदाफ़र लिखा है और जो पहले भी गयासुद्दीन के समय मेवाड़ पर सेना लेकर गया था, भेजा हो। फ़ारसी लिपि की अपूर्णता अथवा मालवे के इतिहास का पूरा ज्ञान न होने के कारण ज़फ़रख़ां और मुज़फ़्फ़रख़ां समान शब्द होने से उस(टॉड)ने उसको भूल से मुज़फ़्फ़र समझ, मांडू का सुलतान लिख दिया हो। इसी प्रकार एकलिङ्गजी के मंदिर की दक्षिण-द्वार की प्रशस्ति के रचयिता ने भी ज़फ़रख़ां का नाम मुज़फ़्फ़र समझ उसका विकृत रूप मुदाफ़र कर दिया हो।

महाराणा की अकृपा होने और संग्रामसिंह का पता न होने से चित्तौड़ का राज्य अपने अधिकार में कर लेना सरल समझ सारंगदेव तथा मालवे की मुसलमानी सेना के साथ मेवाड़ में गया और उसने सादड़ी तथा बाठरड़ा के अतिरिक्त नीमच से लगाकर नाई तक का प्रदेश अपने हस्तगत कर लिया। यही नहीं सूरजमल और सारंगदेव मालवे की सेना के साथ चित्तौड़ तक जा पहुंचे। उस समय कुंवर पृथ्वीराज कुंभलगढ़ की तरफ था और केवल महाराणा ही चित्तौड़ में था। वहां पर जितनी सेना थी, उसको लेकर वह सूरजमल और सारंगदेव के मुक्ताबले के लिए जा खड़ा हुआ। गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। उस समय महाराणा की सेना थोड़ी होने पर भी वह एक वीर पुरुष की भांति शत्रुओं से लोहा ले रहा था^१। महाराणा के युद्ध में २२ घाव आये। वह जर्जरित होकर रणक्षेत्र में गिरनेवाला ही था एवं उसकी पराजय होना संभव था कि इतने में कुंवर पृथ्वीराज ने अपने एक हजार सुसज्जित सवारों के साथ कुंभलगढ़ की तरफ से जाकर विपक्षियों की सेना पर धावा बोल दिया^२, जिससे युद्ध का रंग एक दम बदल गया। दोनों तरफ के बहुतसे आदमी मारे गये। कुंवर पृथ्वीराज, सूरजमल और सारंगदेव भी बहुत घायल हुए। सायंकाल होने पर युद्ध बन्द किया गया। महाराणा रायमल को कुंवर पृथ्वीराज पालकी में उठवाकर अपने डेरों में ले गया^३ और सूरजमल तथा सारंगदेव भी अपने सैनिकों के साथ अपने-अपने शिविरों में लौट गये। रात्रि के समय महाराणा के घावों पर पट्टी बंधवाने की व्यवस्था कर कुंवर पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर अकेला ही सूरजमल के शिविर में पहुंचा। सूरजमल के घावों पर भी पट्टियां बंधी हुई थीं और घावों को सिये हुए थोड़ा ही

(१) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३४५।

(२) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३४५-६। वीरविनोद, पहला भाग, पृ० ३४७-८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३३६।

(३) वीरविनोद, पहला भाग, पृ० ३४८।

समय हुआ था, तो भी वह पृथ्वीराज के सम्मान के लिए उठ खड़ा हुआ, जिससे पुनः उसके घाव खुल गये^१ और लहू बहने लगा। इतने पर भी सूरजमल विचलित नहीं हुआ और दोनों में निम्नलिखित वार्तालाप हुआ—

पृथ्वीराज—काकाजी आप प्रसन्न तो हैं ?

सूरजमल—कुंवर, आपके आने से मुझको विशेष प्रसन्नता हुई।

पृथ्वीराज—काकाजी, मैंने अभी महाराणा को नहीं देखा है। प्रथम आपको देखने के लिए दौड़कर आया हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है क्या आपके पास भोजन की कोई वस्तु है ?

इसपर भोजन का थाल शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया और काका-भतीजे ने एक ही थाल में भोजन किया। फिर पृथ्वीराज को पान भी दिया गया, जिसको उसने खाना होते समय खा लिया। तत्पश्चात् पृथ्वीराज ने कहा—काकाजी मैं और आप प्रातःकाल ही युद्ध को समाप्त करेंगे।

सूरजमल—बहुत अच्छा, शीघ्र आना।

पृथ्वीराज—काकाजी, स्मरण रखिये कि मैं आपको भाले की नोक जितनी भूमि भी रखने न दूंगा।

सूरजमल—मैं भी तुमको एक पलंग जितनी भूमि पर शांति से शासन न करने दूंगा।

पृथ्वीराज—युद्ध के समय फिर मिलेंगे, सावधान रहिये !

सूरजमल—बहुत अच्छा।

इस वार्तालाप के पीछे पृथ्वीराज लौटकर पुनः अपने डेरों में चला गया^२।

दूसरे दिन सबेरे ही फिर युद्ध आरंभ हुआ। सारंगदेव के ३५ तथा

(१) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३४५।

(२) वीरविनोद, दूसरा भाग, पृ० ३४८। टॉड, राजस्थान; जि० १, पृ० ३४५-६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३३७।

पृथ्वीराज के ७ घाव लगे^१ । सूरजमल भी बुरी तरह घायल हुआ । उसके राजपूत उसे डोली में डालकर पहाड़ों में ले गये^२ । पृथ्वीराज ने उनका पीछा किया । सूरजमल के राजपूत बन्ना देवड़ा के हाथ से पृथ्वीराज का सरदार महिया भाखरोत मारा गया^३ ।

‘हरिभूषण महाकाव्य’ में लिखा है—“एक दिन चित्तौड़ के स्वामी महाराणा रायमल ने, जो बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, क्रोधित होकर कहा कि जब तक सूरजमल जीवित है, तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता । क्या उसे मारने का बीड़ा उठाने के लिए कोई वीर तैयार है ? इसपर कुंवर पृथ्वीराज ने बीड़ा उठाया^४ । फिर उसने सेना के साथ प्रस्थान किया

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३४८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३३७ ।

(२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६४ ।

(३) वही, प्रथम भाग, पृ० ६४ ।

(४) एकदा चित्रकूटेशो रायमल्लोऽतिवीर्यवान् ।

सिंहासनसमारूढो वीरालंकृतसंसदि ॥ १८ ॥

इत्युचे वचनं क्रुद्धो रायमल्लः प्रतापवान् ।

मदाज्ञावीटिकां वीरः कोऽपि गृह्णातु सत्वरम् ॥ १९ ॥

उत्थाय च ततो भूपैरनेकैर्नामितं शिरः ।

वद नाथ ! महावीर दुर्विनेयोऽस्ति कोऽपि चेत् ॥ २० ॥

अवोचदिति विज्ञप्तः सूर्यमल्लो महाबलः ।

व्यथयत्येव मर्माणि श्रुत एव न संशयः ॥ २१ ॥.....

न राज्यं रोचते मह्यं न पुत्रा न च बांघवाः ।

न स्त्रियोऽप्यसवो यावत्तस्मिन्जीवति भूपतौ ॥ २३ ॥

वीरैः कैश्चिद्वचस्तस्य श्रुतमप्यश्रुतं कृतम् ।

अन्यैरन्यप्रसंगेन परैरपरदर्शनात् ॥ २४ ॥.....

और सूरजमल के पास दूत भेजकर कहलाया कि आप महाराणा से संधि कर लें, परंतु उसने पृथ्वीराज का कथन स्वीकार न किया। फिर क्या था, दोनों वीर परस्पर भिड़ गये और घमासान युद्ध हुआ। दो-तीन दिन पीछे पृथ्वीराज ने सूरजमल के डेरों में जाकर मंत्री-द्वारा कुशल पुछवाई,

तदात्मजो महावीरः पृथ्वीराजो रणाग्रणीः ।

तेनोत्थाय नमस्कृत्य वीटिका याचिता ततः ॥ २७ ॥

अवश्यं मारणीयो मे सूर्यमल्लो महावली ।

निराधारोऽपि नालीकः सपत्नो हन्ति वैरिणः ॥ २८ ॥

गंगाराम; हरिभूषण महाकाव्य, सर्ग २ ।

(१) अथेति कृत्वोच्चपटीगृहान्सः संप्रेषयामास नृपः स्वदूतम् ।

वपुः प्रकर्षेण महद्वचोभिर्विराजमानं विनयप्रधानैः ॥ १ ॥

त्वरामुपादाय गतिं कुरुष्व श्रीसूर्यमल्लं प्रतिबोधयेति ।

त्वं रायमल्लेन कुरुष्व सन्धिं नो चेदथो मां किल राजपुत्रम् ॥२॥

इत्थं जगाम त्वरया विमुक्तो वशी वभाषे वचनं स दूतः ।

स्फूर्जत्प्रतापानिलतापितारेः श्रीसूर्यमल्लस्य विभोः पुरस्तात् ॥३॥...

महीपतिस्तस्य वचो निशम्य विकाशिताशो दशनाशुपूरैः ।

अगाधबुद्धिर्निजगाद वीरः क्षीरोदचेता वचनं वरिष्ठम् ॥१६॥...

रसातलं गच्छति भूतघात्री सुमेरुमूलान्यपि संचलन्ति ।

वारां निधिः शुष्यति चेदपारस्तथापि मानो न कृशो मदीयः ॥१८॥

वही; सर्ग ३ ।

(२) ततो महासंयुगसांयुगिनैर्व्योम्नि स्फुरत्कान्तिक्रालखड्गैः ॥

परस्परं शस्त्रकठोरघातैर्भटैरुपक्रान्तमहो तदानीम् ॥ २५ ॥...

आकृष्टकोदंडकठोरनादैरापूरिते भूगगनान्तराले ।

न शुश्रुवुः क्वापि वचांसि केषां हेषामहो स्वीयतुरङ्गमाणास् ॥३६॥

जिसपर उसने पृथ्वीराज को अपने निकट बुलवाया । उक्त युद्ध में सूरजमल के ८४ घाव लगे थे, तो भी उसने खड़े होकर पृथ्वीराज का आलिङ्गन कर कुशल पूछी और फिर शिष्टाचार की बातें होने के पीछे वह विदा हुआ ।” तदनन्तर सूरजमल सादही में और सारंगदेव बाठरड़े में रहने

श्रीसूर्यमल्लोऽपि तदातपत्रमर्धेन्दुबाणेन ननाश तत्र ।
चिच्छेद सोऽपि ध्वजमुच्चमस्य श्रीचित्रकूटाधिपतिःस्वरोपैः॥४२॥
ध्वजे विनष्टे युधि पञ्चबाणैः कामातुरं काम इवाशु कोपात् ।
जघान गाढं हृदि देवलोशः सोऽपि प्रकुप्तो निजघान शक्त्या॥४३॥
गंगाराम, हरिभूषण महाकाव्य; सर्ग ३ ।

(१) विहाय युद्धं पुनरागतेन श्रीरायमल्लस्य सुतेन तेन ।
द्वित्रेर्दिनैस्तत्र समागतेन सुखस्य पृच्छा सचिवैरकारि ॥४५॥
आकारयामास महिपतिस्तमालिङ्गय हस्तैरभितिष्ठमानः ।
विराजमानोऽपि भृशं तदीयैरशीतिघातैरधिकैश्चतुर्भिः ॥ ४६ ॥
अवोचदित्थं वचनं महीशस्तं भूपतिं भूतलचक्रवर्ती ।
भूमिपते!स्वागमनं क्षतानि मां न पीडयन्ति त्वयि दृष्टिमागते॥४७॥
आतुः शरीरे सुखमस्ति किञ्चित्किं वा तुरुष्काधिपतिः प्रकुप्तः ।
किं चित्रकूटाधिपतेरधीनं मम स्वयं यद्भवता समागतम् ॥४८॥
इत्थं समुक्तः स्वजनेषु तेन प्रियं बभाषे वचनं नरेशः ।
या वीरसूः सा भवदीयमाता यत्सूर्यमल्लं सुपुत्रे कुमारम् ॥४९॥
मया पितृव्येण पितुर्निदेशात्त्वया कृतं युद्धमिह क्षमस्व ।
यतो हि भूमंडलमानराशे ! स्वीयं न युद्धे गणयन्ति घीराः ॥५०॥
समुत्थितः सोऽपि नृपः सभातः श्रीचित्रकूटाधिपतेस्तनूजः ।
स सूर्यमल्लोऽप्यचिरं ददर्श प्रबोधितो बन्दिजनैः प्रभातम् ॥५३॥
वही, सर्ग ३ ।

लगा। कुंवर पृथ्वीराज को सूरजमल और सारंगदेव का मेवाड़ में रहना खटकता था। एक दिन जब सूरजमल, सारंगदेव के पास सूरजमल का मेवाड़ छोड़ना वाठरड़े गया हुआ था, कुंवर पृथ्वीराज अपने एक हजार सवारों-सहित रात्रि के समय, जब वे लोग आग जलाकर निश्चिन्तता-पूर्वक ताप रहे थे, वहां पहुंचा और गांव का फलसा (फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया। उधर के राजपूतों ने भी तलवारें संभालीं और युद्ध होने लगा; किंतु पृथ्वीराज को देखते ही सूरजमल ने कहा—“कुंवर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से राज्य डूबता है, मुझपर तुम शस्त्र चलाओ।” इतना सुनते ही पृथ्वीराज लड़ाई बंदकर घोड़े से उतरा और उसने पूछा—“काकाजी, आप क्या कर रहे थे ?” सूरजमल ने उत्तर दिया—“हम तो यहां निश्चिन्त होकर ताप रहे थे।” पृथ्वीराज ने कहा—“मेरे जैसे शत्रु के होते हुए भी क्या आप निश्चित रहते हैं ?” उसने उत्तर दिया—“हां।”

उपर्युक्त 'हरिभूषण महाकाव्य' की हस्तलिखित प्रति मेरे संग्रह में थी, जिसकी प्रतिलिपि मैंने प्रतापगढ़ के भूतपूर्व महारावत रघुनाथसिंह के पास भिजवाई। इसपर उक्त महारावत ने उसका सम्पादन-भार प्रतापगढ़ के आमेटा ज्ञातीय पंडित जगन्नाथ शास्त्री, संस्कृताध्यापक रघुनाथ संस्कृत पाठशाला और पिन्हे हाई स्कूल, प्रतापगढ़, को सौंपा जिसने भाषानुवाद-सहित उसका संपादन किया, जो वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी की आज्ञानुसार रघुनाथ यंत्रालय (प्रतापगढ़) में मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ है।

(१) कर्नल टॉड ने भी लिखा है कि सूरजमल एक बार अपने साथियों-सहित वाठरड़े के जंगल में ठहरा हुआ था और अपनी रक्षा के लिए चारों तरफ लकड़ी की मज़-बूत वाड़ (घेरा) बनाकर रात्रि के समय वह अपने साथी राजपूतों-सहित आग जलाकर ताप रहा था कि घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके साथी राजपूत चौक उठे। सूरजमल ने कहा कि और कोई नहीं, यह मेरा भतीजा है। इतने में पृथ्वीराज अपने सवारों-सहित फलसा (फाटक) तोड़कर भीतर घुस गया। तब सूरजमल के साथी भी तलवारों निकाल उनसे भिड़ गये। पृथ्वीराज ने सूरजमल पर प्रहार किया, जिसकी चोट लगते ही वह गिरनेवाला था, परंतु सारंगदेव की सहायता से बच गया। सारंगदेव ने

दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही सूरजमल, जो पृथ्वीराज के स्वभाव से परिचित था, वहां से खाना होकर सादड़ी की ओर चला गया और पृथ्वीराज ने सारंगदेव को देवी के दर्शन के बहाने अपने साथ मन्दिर में ले जाकर दर्शन करते समय मार डाला। फिर वह वहां से खाना होकर सूरजमल के पास सादड़ी पहुंचा। उसने वहीं भोजन करना चाहा। सूरजमल की स्त्री ने भोजन तैयार करवाकर सामने रखा। भोजन के समय सूरजमल भी उसके शामिल बैठ गया। यह देख सूरजमल की स्त्री चौंक उठी और उसने शीघ्रतापूर्वक उस थाल में से एक कटोरे को उठा लिया, जिसमें विष मिला हुआ था। पृथ्वीराज ने सूरजमल से पूछा कि इस कटोरे को क्यों उठाया तो सूरजमल ने उत्तर दिया कि इसमें विष मिला होगा। राजपूतों में विश्वासघात बड़ा भारी पाप माना जाता है, अतएव अपनी स्त्री के इस जघन्य कृत्य से सूरजमल को बड़ा दुःख हुआ और उसने पृथ्वीराज से कहा—“मैं तुम्हारा काका हूँ, इसलिए रक्त-संबंध से अपने भतीजे की मृत्यु को नहीं देख सकता, किंतु तुम्हारी काकी को तुम्हारी मृत्यु

उसे लज्जित करते हुए कहा—इस समय का घुंसा पहले के घावों की अपेक्षा कहीं अच्छा है। इसपर सूरजमल ने कहा कि वह मेरे भतीजे के हाथ का हो। सूरजमल ने कुंवर से युद्ध बन्द करने की प्रार्थना कर कहा कि यदि मैं मारा जाऊं तो कुछ नहीं, मेरे पुत्र राजपूत हैं, वे देश में दौड़ेंगे और उनको सहारा मिल जायगा; किन्तु यदि, कुंवर, तुम मारे गये तो चित्तौड़ का क्या हाल होगा? मेरा संह काला होगा और सदैव के लिए मेरा नाम कलंकित हो जायगा। इसपर तलवारें म्यान में कर दी गईं और चचा-भतीजे कंधे से कंधा मिलाकर मिले। पृथ्वीराज ने पूछा—काकाजी! जब मैं आया उस समय आप क्या कर रहे थे? सूरजमल ने उत्तर दिया कि भोजन करने के पीछे मामूली बातें कर रहे थे। पृथ्वीराज ने कहा कि मेरे जैसा दुश्मन आपके सिर पर लगा हुआ होने पर भी आप इस प्रकार शाकित कैसे रहते हैं? सूरजमल ने कहा—क्या करें, तुमने मेरे लिए कोई साधन न रखा और मुझे अपना मस्तक टिकाने को कोई जगह चाहिये (टॉड; राजस्थान, जि० १, पृ० ३४६-७)।

से क्या दुःख, इसीसे उसने ऐसा किया होगा।” यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा—“अब यह मेवाड़ का सारा राज्य तुम्हारे लिए तैयार है।” सूरजमल ने उत्तर दिया—“मैं अब कलंक-कालिमा लगाकर मेवाड़ में जल पीना भी नहीं चाहता।” तदनंतर वह मेवाड़ के बाहर कांठल में चला गया और फिर पीछा मेवाड़ में न लौटा।

इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही सिरोही के राव जगमाल-द्वारा ज़हर दिये जाने पर कुंवर पृथ्वीराज का देहांत हो गया एवं वि० सं० १५६६ (ई० स० १५०६) में महाराणा रायमल भी स्वर्ग को सिधारा। फिर कुंवर संग्रामसिंह (सांगा) मेवाड़ का महाराणा हुआ, जिससे उस (सूरजमल) का मेल रहा और पाया जाता है कि सादड़ी आदि की जागीर उसकी अविद्यमानता में भी उसके नाम बनी रही।

कर्नल टॉड का कथन है कि सूरजमल ने सादड़ी में रहते हुए अपने पहले के किये हुए इस प्रण को कि यदि वह अपनी भूमि न रख सकेगा तो ऐसे व्यक्तियों को दे देगा, जो राजाओं से भी अधिक शक्ति-शाली हों, पूरा किया। वह अपनी भूमि ब्राह्मणों, चारणों आदि में बांटकर मेवाड़ से निकल गया। कांठल के जंगल की ओर जाते हुए उसे एक स्थान पर अच्छे शकुन हुए। इससे उसे चारणी की कही हुई भविष्यवाणी का स्मरण हो आया। उस शुभ शकुन को देख उसने वहां रुककर उधर के भील आदि लूटेरों का दमन किया और वहां देवलिया का क्रसवा आवाद किया तथा वह कांठल प्रदेश का स्वामी हो गया।

(१) वीरविनोद, प्रथम भाग, पृ० ३४८-६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जिल्द १, पृ० ३३८।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५४।

(३) मुंहणोत नैणसी की ख्यात में इन गांवों के नाम भीमल, धारता, गोठिया, वीरुणा, वोसोला (वासोला), भरखिया, वालिया, थाहरून, चारणखेर्दी, खरदेवला, भारकी और सुआली दिये हैं (प्रथम भाग, पृ० ६४)।

(४) टॉड, राजस्थान, जिल्द १, पृ० ३४७।

मेवाड़ छोड़ने के पीछे सूरजमल का जीवन कहां और किस प्रकार बीता, यह विषय अंधकार में है। उसके समय का कोई शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर कुछ प्रकाश पड़े। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात से सूरजमल का देहान्त पाया जाता है कि सूरजमल का परलोकवास वि० सं० १५८७ (ई० स० १५३०) में हुआ^१। ख्यातों के अतिरिक्त महारावत सूरजमल का मृत्यु-संवत् कहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसी दशा में यदि ख्यात में उल्लिखित उसका मृत्यु-संवत् ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि वह मेवाड़ से चले जाने पर बीस वर्ष से अधिक जीवित रहा था।

सूरजमल के पांच राणियां थीं, जिनसे उसके रणधीर^२, वाघसिंह,

(१) महारावत सूरजमल का मृत्युकाल ख्यातों में कहीं वि० सं० १५८४ और कहीं १५८७ लिखा हुआ मिलता है। एक ख्यात में यह भी लिखा है कि सूरजमल ने बड़ी सादड़ी में वि० सं० १५५० (ई० स० १४९३) में सूरसागर तालाब बनवाया था। सूरजमल और पृथ्वीराज के बीच २६ लड़ाइयां हुईं। बड़ी सादड़ी छोड़ने के बाद वह साटोला (मेवाड़) और कांठल के बीच के पहाड़ों में रहा और वि० सं० १५८४ (ई० स० १५२७) में सीकर के पास के मेवातियों से लड़ने में अपने पुत्र सैसमल-सहित काम आया। ख्यातों में दिये हुए उपर्युक्त संवत्, मिति और वारों का मिलान करने पर ये सब कथन प्रचिप्त ठहरते हैं, क्योंकि जो चार दिये गये हैं, वे उक्त तिथि को नहीं मिलते। घटनाक्रम पर विचार करने से भी बहुधा संवत् कल्पित ही प्रतीत होते हैं। यह संभव है कि सूरजमल खानवे के युद्ध में महाराणा संग्रामसिंह के साथ गया हो और क्रतहपुर सीकरी के पास किसी स्थान में काम आया हो, परंतु इस संबंध में जब तक कोई पु प्रमाण न मिले निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता और न उसके मृत्यु-समय का निर्णय ही हो सकता है।

(२) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि रणधीर मेवाड़ के महाराणा की तरफ से किसी युद्ध में लड़कर मारा गया था। यदि ख्यातों का कथन ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि रणधीर, सूरजमल और पृथ्वीराज के बीच मारा होने के पूर्व ही मारा गया होगा।

जग्गा, सैंसमल^१ (सहसमल), रिड़मल^२ (रणमल), कल्ला और राजधर नामक

सूरजमल की राणियाँ
और संतति

सात पुत्र और उम्मेदकुंवरी नामक एक पुत्री
हुई^३। जोधपुर के कविराजा बांकीदास के
'ऐतिहासिक बातों के संग्रह' से ज्ञात होता है

कि महारावत सूरजमल के पुत्र बाघसिंह, संसारचंद, सहसमल,
रणमल और कल्ला हुए, जो बीकानेर के स्वामी लूणकरण के दोहिते थे,
परन्तु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में संसारचंद का नाम ही नहीं
है और न इस राठोड़ राणी का नाम ही दिया है। उसमें रणधीर, और
बाघसिंह का हाड़ी राणी शृंगारकुंवरी, सहसमल और रणमल का हाड़ी
राणी तरतकुंवरी, कल्ला तथा राजधर का सोनगरी राणी जड़ावकुंवरी और

(१) सैंसमल (सहसमल) के लिए प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है
कि उसको मेवाड़ की तरफ से निवाहेड़ा जागीर में मिला था। सादड़ी की जागीर
महारावत विक्रमसिंह से महाराणा उदयसिंह ने ले ली, तब सैंसमल का पुत्र कान्हल
(कांधल) उक्त महारावत के साथ चला गया, जिसको कांठल के इलाक़े में धमोतर की
जागीर मिली। सैंसमल के नाम से उसके वंशधर सिंहावत कहलाते हैं। उनका प्रमुख
ठिकाना धमोतर है, जो प्रतापगढ़ राज्य में प्रतिष्ठा और आय में बड़ा है। मारवाड़ राज्य
में भालामंड का ठिकाना धमोतर के छोटे भाइयों का है। इसी धमोतर ठिकाने की एक
शाखा पूरावत है, जो ठाकुर कान्हल के छोटे पुत्र पूरा से प्रसिद्ध हुई। इस पूरावत
शाखा में जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग और वरखेड़ी का द्वितीय वर्ग में है। ये दोनों
ठिकाने भी अधिक पुराने नहीं हैं। जाजली का ठिकाना महारावत सर रामसिंहजी ने
प्रथम वर्ग में दाखिल किया है और वरखेड़ी का ठिकाना महारावत रघुनाथसिंह के
समय क्रायम हुआ है।

(२) रिड़मल (रणमल) के लिए भी प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात में लिखा
है कि वह महाराणा उदयसिंह के समय मेवाड़ और वूंदी की सीमा पर किसी लड़ाई में
काम आया था। उसके वंशज रणमलोत कहलाते हैं। रणमलोतों का कल्याणपुरे का
ठिकाना प्रथम वर्ग में है।

(३) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० १।

(४) कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातों का संग्रह, संख्या १३६७।

जग्गा का सांखली अंतरदे के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है^१। ऐसी स्थिति में बड़वे भाटों की ख्यातें इतिहास के लिए कहां तक उपयोगी हैं इसका निर्णय स्वयं इतिहास के पाठक कर सकते हैं।

महारावत सूरजमल वीर प्रकृति का पुरुष था। क्षत्रियोचित स्वभाव के अनुसार वह युद्ध के अवसर पर सदा आगे बढ़कर वीरता प्रदर्शित करता था। शत्रु सिर पर मंडराते रहने पर भी वह कभी नहीं घबराता था, वरन् उसका सम्मान कर

सूरजमल का व्यक्तित्व

उसको प्रसन्न कर देता, जिससे शत्रु भी उसका मित्र बन जाता था। कपट और विश्वासघात करना तो उसने सीखा ही न था। शत्रु को अकेला पाकर मारना वह सदैव नीच कार्य समझता था। इसका उसने अपने जीवन में पूर्णतः पालन किया। महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज-द्वारा सदा अपना अनिष्ट होने पर भी उसने कपट-भाव से उसको मारने की चेष्टा न की। उसने अपनी पैतृक भूमि त्याग दी, जिसकी प्राप्ति में अनेक बार रक्त की धारें बही थीं। अपनी राणी के पृथ्वीराज को विष देकर मारने के प्रयत्न से उसको इतना दुःख हुआ कि वह जीवन भर पीछा मेवाड़ में नहीं गया। राजपूत जाति के इतिहास में राज्य-प्राप्ति के लिए छल-रूपट आदि अधर्म-युक्त कार्यों के भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु सूरजमल इन बुराइयों से सर्वथा मुक्त था। वह युद्ध की अपेक्षा शांति को अधिक पसंद करता, किंतु जब आ पड़ती तब अपने प्राणों की भी बाज़ी लगा देता था। वह उदार राजा था। मेवाड़ में भीमल, धारता आदि गांव उसने चारणों और ब्राह्मणों को दे दिये, जो उसकी दानशीलता का परिचय देते हैं। 'हरिभूषण महाकाव्य से पाया जाता है कि वह चतुर और नीति निपुण था^२। बड़ी सादही में सूरसागर

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० १।

(२) वभूवाथ महावीरः सूर्यमल्लस्तदात्मजः ।

कर्णोपमेयो दानेन मानेनापि सुयोधनः ॥ १ ॥

वर्णाश्रित्वार एत्रैते नाप्नवन्नन्यवाच्यताम् ।

वर्णा इव महीपाले तस्मिन् शासति मेदिनीम् ॥ २ ॥

तालाव उस(सूरजमल)का ही बनवाया हुआ माना जाता है ।

बाघसिंह

सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र रणधीर पिता की विद्यमानता में ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुका था^१, इसलिए उस(सूरजमल)का देहांत होने पर उसका दूसरा पुत्र बाघसिंह वि० सं० १५८७ (ई० स० १५३०) के लगभग उसका उत्तराधिकारी हुआ ।

राज्य-प्राप्ति

मेवाड़ का स्वामी महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) बड़ा वीर था । उसने मेवाड़-राज्य के गौरव में बहुत वृद्धि की । भारतवर्ष के हिंदू-राज्यों में मेवाड़ ही उस समय एक प्रधान राज्य था, जिसकी धाक दिल्ली, गुजरात और मालवे के मुसलमानी राज्यों पर थी । उन दिनों दिल्ली पर लोदी सुलतानों का अधिकार था । उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर भारत पर मुगल-राज्य स्थापित करने की दृष्टि से चंगताई खान्दान के बाबर-शाह ने तुर्किस्तान की तरफ से बढ़कर कंधार के मार्ग से हिंदुस्तान में आकर वि० सं० १५८३ (ई० स० १५२६) में दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी पर आक्रमण किया । पानीपत के मैदान में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें इब्राहीम मारा गया एवं दिल्ली पर मुगलों (बाबर) का अधिकार हो गया । इब्राहीम का एक शाहजादा और उसका सेनापति हसनख़ां महाराणा से सहायता लेने के लिए चित्तौड़ पहुंचे । महाराणा भी भारत में पुनः हिन्दू-साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और अवसर की वाट देख रहा था ।

द्विजपूजापरो धीमान्धर्मज्ञो लोक्वत्सलः ।

कामानपूरयत्तस्य नित्यं कामदुघेव भूः ॥ ३ ॥

हरिभूषण महाकाव्य, सर्ग २ ।

(१) देखो ऊपर पृ० ७१, टि० २ ।

मुगलों को दिल्ली से निकाल वहां अपना अधिकार जमाने का यह अच्छा अवसर जानकर, उसने एक विशाल सेना के साथ बाबर पर चढ़ाई की। महाराणा को अपनी विजय का दृढ़ निश्चय था, परन्तु खानवे के वि० सं० १५८४ चैत्र सुदि १४ (ई० सं० १५२७ ता० १७ मार्च) के युद्ध में उसके सिर में शत्रु का एक तीर लगा, जिससे वह मूर्च्छित हो गया। तत्काल कुछ सरदार उसको युद्ध से हटाकर अन्यत्र ले गये और उसके स्थान में भाला अज्जा को उसका प्रतिनिधि बनाकर लड़ने लगे। मुगलों के साथ तोपखाना था। राजपूत तोपों और बन्दूकों से अपरिचित थे, अतएव उनकी मार से राजपूतों की बड़ी क्षति हुई और बाबर विजयी हुआ। भाला अज्जा, रावत रत्नसिंह आदि महाराणा के कई बड़े-बड़े सरदार और कई सहायक राजाओं में से डूंगरपुर का स्वामी महारावल उदयसिंह वीरगति को प्राप्त हुआ^१।

‘वीरविनोद’ में लिखा है कि इस युद्ध में रावत बाघसिंह ने बड़ी धीरता दिखलाई थी^२। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में रावत सूरजमल की मृत्यु वि० सं० १५८७ (ई० सं० १५३०) में होने का उल्लेख है। ऐसी दशा में खानवे के युद्ध के समय बाघसिंह रावत नहीं हो सकता। यदि ख्यातों में उल्लिखित सूरजमल का देहांत वि० सं० १५८७ (ई० सं० १५३०) में होना ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि खानवे के युद्ध में बाघसिंह ने पिता की विद्यमानता में भाग लिया होगा।

खानवे के युद्ध में हारने के पीछे महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) केवल कुछ मास तक जीवित रहा और वि० सं० १५८४ के माघ (ई० सं० १५२८ जनवरी) मास में परलोक सिधारा। तब उसका कुंवर बाघसिंह का मालवे में जाना रत्नसिंह राजगद्दी पर बैठा, किन्तु उस (रत्नसिंह) ने चार वर्ष ही राज्य किया और वि० सं० १५८८ (ई० सं० १५३१) में वह पारस्परिक द्वेष के कारण वृद्धी के हाड़ा राव सूरजमल से लड़कर मारा

(१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३७६।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग; पृ० २६, टिप्पण १।

गया तथा सूरजमल की भी वहीं मृत्यु हुई। इसपर उसका छोटा भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का स्वामी हुआ। वह (विक्रमादित्य) अपने राजपूत सरदारों का अपमान कर पहलवानों की नवीन सेना अपने पास रखता था, जिससे प्रायः सब बड़े-बड़े सरदार उससे असंतुष्ट थे और जब वह अकारण ही सरदारों की प्रतिष्ठा पर आघात करने लगा, तो अधिकांश बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों में जा बैठे। यही नहीं, महाराणा संग्रामसिंह का भतीजा नरसिंहेदव और राजा मेदिनीराय (चंदेरीवाला) आदि वि० सं० १५८६ (ई० सं० १५३२) में सुलतान के पास चले गये और उसको उसका भेद बताने लगे।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि रावत बाघसिंह भी महाराणा विक्रमादित्य के अनुचित व्यवहार से अप्रसन्न होकर मांडू के सुलतान के पास चला गया था^२, जहां उसको जागीर प्राप्त हुई। वहां रहते समय उस (बाघसिंह) ने अपनी जागीर में 'बाघवाड़ा' गांव बसाया, जिसका इस समय धार राज्य के अन्तर्गत होना बतलाया जाता है।

महाराणा कुंभकर्ण और संग्रामसिंह के समय गुजरात और मालवे की सेना कई बार पराजित हुई थी, जिसकी वहां के सुलतान भूले न थे, परन्तु उक्त महाराणाओं के प्रथम प्रताप के आगे वे मेवाड़ राज्य की शक्ति को क्षीण न कर सके थे।

वि० सं० १५८४ (ई० सं० १५२७) के पीछे मालवे (मांडू) का मुसलमानी राज्य निर्बल हो गया और गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने, जो अपनी शाहजादगी के समय क्रमशः डूंगरपुर और चित्तौड़ के राजाओं के आश्रय में रहा था, वहां के सुलतान महमूद को

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० २७।

(२) ख्यातों के इस कथन की पुष्टि मुंशी देवीप्रसाद-रचित 'महाराणा रतनसिंह और विक्रमादित्य के जीवनचरित्र' (पृ० ७०-१) से होती है। उसमें बाघसिंह के मांडू के सुलतान के पास जाने का उल्लेख है, जिसका अभिप्राय बहादुरशाह से हो, क्योंकि उन दिनों मांडू (मालवा) पर उसका अधिकार हो गया था।

परास्त कर उक्त राज्य को अपनी सलतनत में मिला लिया, जिससे गुजरात का मुसलमानी राज्य अधिक शक्तिशाली हो गया। महाराणा रत्नासिंह का देहांत होने पर उसके उत्तराधिकारी विक्रमादित्य ने, सुलतान बहादुरशाह की रायसेन पर वि० सं० १५८६ (ई० स० १५३२) में चढ़ाई होने पर उस- (बहादुरशाह)के विरुद्ध रायसेन (मालवा) के स्वामी सलहदी का पक्ष लिया। महाराणा को सलहदी के पुत्र भूपतराय-सहित आते देख, बहादुरशाह ने भी मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए शीघ्र अपनी सेना रवाना की और स्वयं भी अपनी सेना में जा मिला। यह देख महाराणा बिना लड़े ही चित्तौड़ लौट गया। तब सुलतान भी पहले रायसेन को परास्त करने का विचार- कर पीछा मालवे को चला गया^१।

अपने पड़ोस में एक प्रबल हिंदू-राज्य का होना सुलतान को खटकता था। विक्रमादित्य के भूतपराय की सहायतार्थ जाने से सुलतान बहादुरशाह और भी चिढ़ गया। रायसेन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् उसी वर्ष (वि० सं० १५८६ = ई० स० १५३२ में) चढ़ी तैयारी कर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना रवाना की। मुसलमानी सेना के मन्दसोर पहुंचने पर महाराणा के वकील संधि का संदेश लेकर पहुंचे। महाराणा के कुछ सरदार सुलतान से जा मिले थे, जिससे उसको महाराणा की कमजोरियों का भेद मिलता रहा, अतएव संधि की बात स्वीकार न हुई। तब महाराणा भी अपनी सेना के साथ शत्रुओं के मुक्ता- बले के लिए नीमच तक आग बढ़ गया^२, पर पहले ही आक्रमण में उस- (महाराणा) को अपनी सेना-सहित पीछे हट जाना पड़ा। गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी और स्वयं सुलतान भी मांडू से चलकर अपनी सेना में सम्मिलित हो गया। फिर उसने चारों तरफ से चित्तौड़ के किले को

(१) बेले, हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात, पृ० ३६१-६२। आत्माराम मोतीराम दीवानजी, मिरात-इ-सिकंदरी (गुजराती अनुवाद); पृ० २६२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३६५।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० २७।

घेर लिया और दुर्ग की सुदृढ़ दीवारों को तोपों से उड़ा देने का प्रयत्न किया। दुर्गस्थ सैनिक भी अपनी रक्षा के लिए थोड़ा-बहुत मुक्काबला कर रहे थे, पर गुजरात की प्रबल सेना के आगे उनका कुछ बस न चला और गुजराती सेना चित्तौड़ के नीचे के दो दरवाज़ों तक पहुँच गई^१।

राजमाता हाड़ी कर्मवती (महाराणा संग्रामसिंह की राणी) ने उस समय दिल्ली के बादशाह हुमायूँ से सहायता चाही, परंतु वहां से सहायता न मिली और जब दुर्ग बचने की आशा न दीख पड़ी तब राजमाता ने सुलतान बहादुरशाह के पास संधि की बात-चीत के लिए अपने वकीलों को भेजकर कहलाया कि महमूद खिलजी से लिये हुए मालवे के ज़िले लौटा दिये जावेंगे और महमूद का महाराणा संग्रामसिंह को दिया हुआ जड़ाऊ मुकुट तथा सोने की कमरपेटी भी दे दी जायगी। इनके अतिरिक्त दस हाथी, सौ घोड़े और नक़द रुपये भी दिये जायेंगे। राजमाता की इन शर्तों को मानकर वि० सं० १५८६ चैत्र वदि १४ (ई० स० १५३३ ता० २४ मार्च) को सुलतान वहां से लौट गया।

बहादुरशाह की चित्तौड़ पर की इस चढ़ाई का महाराणा विक्रमादित्य

(१) वेल्ले; हिस्ट्री ऑफ़ गुजरात; पृ० ३६६-७०। आत्माराम मोतीराम दीवानजी, मिरात-इ-सिकंदरी (गुजराती अनुवाद); पृ० २६६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २७। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३६२-६।

कर्नल टॉड ने बहादुरशाह की चित्तौड़ पर एक ही बार चढ़ाई होने का उल्लेख कर वि० सं० १५८६ (ई० स० १५३३) में बाघसिंह का युद्ध में काम आना और वहां पर सुलतान का अधिकार हो जाना लिखा है, किंतु इसके विरुद्ध 'मिरात-इ-सिकंदरी' आदि से वि० सं० १५६१ (ई० स० १५३४-५) में बहादुरशाह का दूसरी बार चढ़ाई करना स्पष्ट है और 'तारीख़ फ़िरिस्ता' (ब्रिगज़, जि० ४, पृ० १२६) से भी बहादुरशाह का चित्तौड़ पर दूसरी बार चढ़कर जाना पाया जाता है। इसलिए टॉड ने बाघसिंह का वि० सं० १५८६ (ई० स० १५३३) में बहादुरशाह की चढ़ाई के समय चित्तौड़ में काम आना लिखा, वह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उदयपुर और प्रतापगढ़ राज्य से मिलनेवाली प्रायः सब ख्यातों में बाघसिंह का वि० सं० १५६१ (ई० स० १५३४-५) में बहादुरशाह के आक्रमण के समय मारा जाना लिखा है।

पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तब शेष बचे हुए सरदारों में से भी कई चित्तौड़ की रक्षार्थ बहादुर-सुलतान से जा मिले, तथा वे उसको वहाँ का शाह से लड़कर बाघसिंह भेद बताते रहे। पहली चढ़ाई में सुलतान को किले का मारा जाना पर अधिकार करना कुछ कठिन जान पड़ता था, किन्तु महाराणा के सरदारों के जा मिलने से उसको चित्तौड़ पर अधिकार करना सरल जान पड़ा। निदान वि० सं० १५६१ (ई० स० १५३४) में उसने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए चढ़ाई की।

राजमाता हाड़ी कर्मवती को यह जानकर बड़ी चिंता हुई। उसने सरदारों को इस आशय के पत्र भिजवाये—“अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों के हाथ में रहा, पर अब उनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। मैं क़िला तुम्हें सौंपती हूँ, चाहे तुम रखो, चाहे शत्रु को दे दो। मान लो, तुम्हारा स्वामी अयोग्य ही है, तो भी जो राज्य वंश-परंपरा से तुम्हारा है, उसके शत्रु के हाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी।” राजमाता का यह पत्र पाते ही सरदारों में, जो महाराणा के व्यवहार से असंतुष्ट हो रहे थे, देश-प्रेम की लहर उमड़ पड़ी और इन उत्तेजनात्मक वाक्यों से वे चित्तौड़ की रक्षार्थ जान देने का संकल्प कर अपनी-अपनी सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। उपर्युक्त आशय का एक पत्र राजमाता ने देवलिया के स्वामी बाघसिंह के पास भी भेजा, जिसको पाते ही उसने विक्रमादित्य-द्वारा होनेवाले अनुचित कार्यों का विस्मरण कर चित्तौड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने का दृढ़ संकल्प कर लिया एवं सुलतान की दी हुई जागीर का परित्याग कर वह तत्काल अपने राजपूतों-सहित चित्तौड़ जा पहुँचा। शीघ्र ही चित्तौड़गढ़ घेर क्षत्रियों से भर गया, परंतु दुर्ग में खाने-पीने का सामान दो महीनों से अधिक चलने लायक न था तथा सुलतान की सेना में रसद, तोप, बारूद, गोले आदि प्रचुरता से थे। इसलिए सब सरदारों ने उभय पक्ष के बलायल पर विचार

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० २८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास ; जि० १, पृ० ३६७ ।

कर महाराणा विक्रमादित्य एवं उसके छोटे भाई उदयसिंह को, जब तक युद्ध समाप्त न हो तब तक के लिए, उनके ननिहाल वृन्दी भेजने और महाराणा के स्थान में रावत बाघसिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बना उसकी आज्ञानुसार दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु सैन्य से लड़ने का निश्चय किया। फिर उन्होंने सुलतान से लड़ने के लिए किले के चारों तरफ उचित स्थानों पर मोर्चे लगाकर वहां बड़े-बड़े सरदारों को नियत कर दिया^१। मुंहणोत नैणसी का कथन है कि इस अवसर पर रावत बाघसिंह ने अपने पिता सूरजमल-द्वारा सादड़ी पर अधिकार रहते समय चारणों आदि को दिये हुए १७ गांवों के^२, उनके वंशधरों के अधिकार में बराबर बने रहने की राजमाता से प्रतिज्ञा कराली थी।

जब सरदारों ने बाघसिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियत किया तो उसने उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझको महाराणा का प्रतिनिधि बनाया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आगे बढ़कर किले के मुख्य द्वार पर लड़ूं। निदान वह रावत नरबदई-सहित दुर्ग के प्रथम द्वार पाडलपोल पर जा डटा। इसी प्रकार अन्य सरदार भी अपने-अपने मोर्चों पर जा जमे। बीका-खोह पर द्वाड़ा अर्जुन, भैरवपोल पर सोलंकी भैरवदास, हनुमानपोल पर भाला सजा तथा सिंहा और गणेशपोल पर डोड़िया भाण सुलतान से लड़ने के लिए प्रस्तुत थे^३।

इधर तो राजमाता ने चित्तौड़ की रक्षा का यह उपाय किया और उधर राखी भेज उसने बादशाह हुमायूं से फिर सहायता की याचना की।

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० २६-३०। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३६७-६।

(२) देखो ऊपर पृ० ७० टि० ३।

(३) यह रावत अजा के पुत्र सारंगदेव का पौत्र और जोगा का बेटा था। इसके वंशधरों में मेवाड़ में कानोड़ के सरदार प्रथम वर्ग के उमराव हैं और सारंगदेवोत कहलाते हैं।

(४) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३०। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ३६६।

सुलतान बहादुरशाह और बादशाह हुमायूँ के बीच अनबन थी, जिससे हुमायूँ उसे नष्ट करना चाहता था । राजमाता कर्मवती का संदेश पाकर उसने उसको नष्ट करने का यह उपयुक्त अवसर समझा । वह अपनी सेना-सहित बहादुरशाह से लड़ने के लिए रवाना हुआ । ग्वालियर के पास पहुंचने पर उसको बहादुरशाह का पत्र मिला कि मैं इस समय ज़िहाद (धर्म-युद्ध) पर हूँ, यदि तुम हिन्दुओं की सहायता करोगे तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे ? यह पत्र पाकर हुमायूँ ग्वालियर में ही ठहर गया और चित्तौड़ के युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा ।

इस प्रकार हुमायूँ के मार्ग में रुक जाने से बहादुरशाह को चित्तौड़ पर आक्रमण करने में सुभीता हो गया और उसने चारों तरफ से किले पर घेरा डालकर युद्ध आरंभ कर दिया । उसके साथ के तोपखाने में यूरोपिअन (पोर्चुगीज़) गोलंदाज़ भी थे, जिन्होंने वेगपूर्वक गोलंदाज़ी शुरू कर दी । उसी समय बीका खोह की तरफ से सुरंग के द्वारा दुर्ग की पैंतालीस हाथ दीवार उड़ गई, जिससे हाड़ा अर्जुन अपने साथियों-सहित मारा गया । गिरी हुई दीवार के मार्ग से दुर्ग में प्रवेश करने के लिए गुजराती सेना ने प्रबल आक्रमण किया, जिसको राजपूतों ने बड़ी वीरता से रोका । बहादुरशाह ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सूरजपोल और लाखोटा की बारी की तरफ से हमला किया । तब दुर्ग का द्वार खोलकर बड़ी वीरता से राजपूतों का समूह उनपर टूट पड़ा । उस समय महारावत बाघसिंह ने शत्रु-सेना से घोर युद्ध किया और अंत में वह पाडलपोल के बाहर शत्रु-सैन्य से लड़ता हुआ मारा गया^१ । वहां उसका स्मारक आज भी बना हुआ है और उसकी पूजा होती है । बाघसिंह के मारे जाने पर राजपूत-सेना का व्यूह भंग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी । राजपूतों ने मुसलमान सेना का मुक्तावला करने में कसर न रखी । उनके अनेक वीर हताहत हुए और जब राजपूतों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सरदार काम आ गये तो सुलतान की

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३०-३१ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, ख० १, पृ० ३६७-६८ ।

सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया। राजमाता कर्मवती ने जब दुर्ग बचने की आशा न देखी तो बहुतसी स्त्रियों के साथ जौहर किया। इस युद्ध में सुलतान बहादुरशाह विजयी हुआ और उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध चित्तौड़ का 'दूसरा शाका' कहलाता है^१।

बहादुरशाह का थोड़े समय तक ही चित्तौड़ पर अधिकार रहा। वह अपना अधिकार स्थिर भी न करने पाया था कि बादशाह हुमायूँ ने उसपर चढ़ाई कर दी। मन्दसोर के निकट दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें बहादुरशाह हारकर मांडू की तरफ भाग गया। फिर तो हुमायूँ ने उसका पीछाकर

(१) सुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ५४-५। टॉड, राजस्थान; जि० १, पृ० ३०३। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३६६। मुंशी देवीप्रसाद, महाराणा रतनसिंह और विक्रमादित्य का जीवनचरित्र; पृ० ६६-७३।

सुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में वि० सं० १५८६ (ई० स० १५३३) में बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने और दुर्ग पर सुलतान का अधिकार होने का उल्लेख किया है (भाग १, पृ० ५५), परन्तु उसका वि० सं० १५८६ में सुलतान का चित्तौड़ पर अधिकार होने का कथन ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि वही पहली बार की चढ़ाई में सुलतान के चित्तौड़ को घेर लेने और फिर संधि होकर लौट जाने तथा दूसरी बार की चढ़ाई में सरदारों के काम आने एवं जौहर होने के पीछे सुलतान का अधिकार होने का वर्णन है। ऐसी स्थिति में पहली चढ़ाई वि० सं० १५८६ में और दूसरी वि० सं० १५६१ में होकर उस समय जौहर होना एवं चित्तौड़ पर सुलतान का अधिकार होना मानना पड़ेगा। फ़ारसी तवारीख़ों में बहादुरशाह की चित्तौड़ की दोनों चढ़ाइयों की घटना आस पास की होने से उनका वर्णन एक ही स्थल पर किया है और वर्णन भी कुछ अस्पष्ट है। इसलिए यह संभव है कि कर्नल टॉड ने भी ये दोनों घटनाएँ एक ही समझ उनका संवत् १५८६ में घटित होना लिख दिया हो।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में एक स्थान पर माघ सुदि ४ शुक्रवार को बाघसिंह की मृत्यु होना लिखा है, परन्तु वि० सं० १५६१ माघ सुदि ४ को शुक्रवार नहीं, अपितु मंगलवार था। इसलिए ख्यात के लेखानुसार माघ सुदि ४ को मृत्यु होना माना नहीं जा सकता। 'वीरविनोद' में वि० सं० १५६२ चैत्र सुदि ५ को अंतिम युद्ध होना लिखा है, जो फ़ारसी तवारीख़ों से भी ठीक जान पड़ता है।

मालवा और गुजरात के विशाल राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अभागा बहादुरशाह अपना राज्य गंवाकर दीव बंदर के पास पोर्चुगीजों के हाथ से मारा गया। हुमायूँ के मुक्काबले में बहादुरशाह के परास्त होने का समाचार सुनकर चित्तौड़ में रही-सही गुजराती सेना भी भागने लगी। ऐसा सुअवसर देख मेवाड़ के बचे हुए सरदारों ने थोड़े-बहुत राजपूतों को एकत्र कर गुजराती सेना पर (जो चित्तौड़ में नियत थी) आक्रमण कर दिया, जिससे सुलतान की बची हुई सेना भाग गई और बिना अधिक रक्तपात के ही मेवाड़वालों का पुनः चित्तौड़ पर अधिकार हो गया^१।

कर्नल टॉड ने इस युद्ध में महारावत बाघसिंह के काम आने की बड़ी प्रशंसा की है। उसका कथन है कि जिस दिन मेवाड़ का राज्य-चिह्न 'छांगी' सूरजमल के पुत्र (बाघसिंह) के शीश पर उठाई गई, उस दिन उसका जैसा प्रकाश हुआ, वैसा कभी न हुआ^२। सचमुच अपने देश की रक्षा के लिए तो वीरों के युद्ध में मारे जाने के इतिहास में अनेक उदाहरण हैं, परन्तु निःस्वार्थ भाव से इस प्रकार आगे बढ़कर काम आने के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। बाघसिंह के पिता सूरजमल और पितामह जेमकर्ण से मेवाड़ के महाराजाओं का विरोध रहा था, पर चित्तौड़ पर आपत्ति के समय उन सब बातों को भूलकर अपने प्राणों की बाज़ी लगा देना अवश्य ही बाघसिंह के सद्गुणों का परिचायक है। महाराजा का प्रतिनिधि बनकर चित्तौड़ की रक्षा में वीरगति प्राप्त करने के कारण उस (बाघसिंह) के वंशजों की उपाधि 'दीवान' हुई और वे देवलिया के दीवान कहलाते हैं^३।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में लिखा है कि उस (बाघसिंह) के

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३२-३३। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० १, पृ० ४००। मुशी देवीप्रसाद, महाराणा रतनसिंह और विक्रमादित्य का जीवन-चरित्र, पृ० ७४-६।

(२) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३६३।

(३) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३० टिप्पण १ तथा पृ० १०५५। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ३६८, टिप्पण २।

बाघसिंह की राणियां और
संतति

पांच राणियां थीं, जिनसे छः पुत्र—रायसिंह, जेतमाल
भारमल, कान्हा, खानजी^१, मानजी—तथा दो पुत्रियां
रामकुंवरी और शामकुंवरी उत्पन्न हुई^२ ।

रावत बाघसिंह युद्ध-वीर, धर्मप्रिय और दानी नरेश था । स्वदेश-
प्रेम और कुलाभिमान उसकी नसों में कूट-कूट कर भरा हुआ था ।

रावत बाघसिंह का व्यक्तित्व
उसने निःस्वार्थ भाव से चित्तौड़ की रक्षा के लिए
अपने प्राण उत्सर्गकर संसार के सामने एक बड़ा
आदर्श उपस्थित किया । उसमें एक विशेष गुण यह भी था कि
अपने पूर्वजों-द्वारा दान में दी हुई भूमि उसने पीछी नहीं ली, अपितु
जब वह युद्ध क्षेत्र में महाराणा का प्रतिनिधि बन कर लड़ने गया, उस
समय उसने राजमाता कर्मवती हाड़ी से अपने पिता सूरजमल-द्वारा मेवाड़
में दान किये हुए गांव सदा के लिए बहाल रहने की प्रतिष्ठा करा ली । इस
उदाहरण से उसके चरित्र की महत्ता सिद्ध होती है । यदि उस अवसर पर
वह राजमाता से नया पट्टा तथा अधिक सम्मान मांगता तो वह भी मिल
सकता था; परन्तु उस वीर ने अपने वंशजों के लिए राजपूती स्वभाव के
विरुद्ध कुछ भी याचना न कर केवल उपरिलिखित याचना की, जो उसके
निर्मल चरित्र का परिचय देती है ।

‘हरिभूषण महाकाव्य’ का कर्त्ता कवि गंगाराम महारावत बाघसिंह
की प्रशंसा करता हुआ, उसको विलासप्रिय नरेश बतलाता है^३; किंतु
गंगाराम का यह मत ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वह विलासप्रिय
व्यक्ति होता तो युद्ध-क्षेत्र में मरने को कभी सन्नध नहीं होता । गंगाराम,
वहादुरशाह से युद्ध होना तो लिखता है; किंतु बाघसिंह के धराशायी होने
का कुछ भी वर्णन नहीं करता । गुजराती सैन्य का भाग जाना और

(१) खानजी के वंशज आंबीरामा और बोदी साखथली के प्रथम वर्ग के सर-
दार हैं और वे खानावत कहलाते हैं ।

(२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० २ ।

(३) गंगाराम, हरिभूषण महाकाव्य, सर्ग ४, श्लोक ३-३१ ।

महाराणा की विजय होना आदि कथन^१ भी उसका ज्यों का त्यों स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि अनेक प्रमाणों से उपर्युक्त युद्ध में वाघसिंह की मृत्यु होना और बहादुरशाह की विजय होकर थोड़े दिनों तक उसका चित्तौड़ पर अधिकार रहना सिद्ध है, जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं।

वाघसिंह का कोई शिलालेख तथा ताम्रपत्र नहीं मिला है, जिससे उसके जीवन पर अधिक प्रकाश पड़ना कठिन है, तो भी उसका जो-कुछ इतिहास प्राप्त है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह देशभक्त और वीर क्षत्री था।

रायसिंह

वाघसिंह के वि० सं० १५६१ (ई० स० १५३५) में मालवे की जागीर छोड़ने पर मेवाड़-राज्य ने सादड़ी आदि की पैतृक जागीर पुनः उसको बहाल कर दी, अतएव उसका कुटुंब सादड़ी में ही रहने लगा और जब वाघसिंह का बहादुरशाह की चढ़ाई के समय युद्ध में परलोकवास हो गया, तब उसका पुत्र रायसिंह अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ। चित्तौड़ पर उसके पिता के वीरतापूर्वक काम आने से उसको मेवाड़-राज्य की तरफ से धरियावद की जागीर भी प्रदान की गई^२।

चित्तौड़ से गुजरात की सेना को भगाकर राजपूतों ने वहां पर पीछा अधिकार कर लिया और फिर विक्रमादित्य को बूंदी से बुलाकर उसको चित्तौड़ का राज्य सौंप दिया; किन्तु उसका आचरण न सुधरा। उसने बात-बात पर सरदारों का अपमान करना जारी रखा, यहां तक कि अपने पिता संग्रामसिंह (सांगा) को कुंवरपदे में भ्रातृ-विरोध के समय आश्रय देनेवाले पंवार कर्मचंद्र का भी उसने अपमान किया। यह देख सरदारों

(१) वही, सर्ग ५, श्लोक १-२० ।

(२) अर्थात्, राजपूताना गैज़ेटियर (मेवार रेज़िडेंसी), जि० २ ए, पृ० १६७ (ई० स० १९०८) । एक ख्यात में साटोला भी जागीर में मिलने का उल्लेख है।

को उस (विक्रमादित्य) से पूर्ण घृणा हो गई और वे उसको राज्यच्युत करने का उद्योग करने लगे। इस षड्यंत्र में महाराणा संग्रामसिंह के परलोकवासी कुंवर पृथ्वीराज के दासी-पुत्र बनवीर को भी (जो विक्रमादित्य का कृपापात्र था) सरदारों ने शामिल कर लिया। कुछ समय बाद ही अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर विक्रमादित्य तथा उदयसिंह को मार निष्कंटक राज्य करने का विचारकर बनवीर ने वि० सं० १५६३ (ई० स० १५३६) में एक दिन रात्रि के समय विक्रमादित्य को मार डाला^१।

विद्युत्-वेग की भांति यह समाचार राज-महलों में फैल गया और अन्तःपुर में बुहराम मच गया। मध्य रात्रि में, राज-महलों में रोना-पीटना शुरू हो जाने से लोग आश्चर्यान्वित हो गये और एक वारी (पत्तल आदि बनानेवाले) ने उदयसिंह की धाय पन्ना खींची से भी यह बात कह सुनाई। वारी के मुख से बनवीर-द्वारा विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर धाय को बड़ी चिंता हुई और उसे भय हुआ कि वह अब उदयसिंह को भी अवश्य मारेगा। अतएव उसने बड़ी फुर्ती से उदयसिंह को बारी के साथ बाहर निकाल दिया और उसके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया, जो उदयसिंह की अवस्था का था। धाय ने यह परिवर्तन इतनी शीघ्रता से किया कि दूसरा कोई इस भेद को न जान सका। इतने में हाथ में नंगी तलवार लिए बनवीर वहां पहुंचा और उसने धाय से पूछा कि उदयसिंह कहां है। तब पन्ना ने पलंग पर सोये हुए बालक की तरफ संकेत किया। बनवीर, उदयसिंह को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहता था; इसलिए पूरी-पूरी जांच किये बिना ही उसने शीघ्रतापूर्वक उस सोये हुए बालक पर तलवार का प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई^२।

(१) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३६७। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३३। मुंशी देवीप्रसाद, महाराणा रतनसिंह और विक्रमाजीत का जीवनचरित्र, पृ० ७८-७९। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ४०१।

(२) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३६७-८। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३३। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ४०१।

कठोर हृदय करके धाय पन्ना ने वनवीर द्वारा अपने पुत्र का मारा जाना देखा और जब वह वहां से चला गया तो वह अपने मृतक पुत्र का अग्नि संस्कार कर वहां से चल दी। लुक-छिपकर किले के बाहर निकल वह पूर्व संकेत के अनुसार जहां बारी उदयसिंह को लेकर ठहरा हुआ था वहां गई। फिर वह उदयसिंह को लेकर रावत रायसिंह के पास सादड़ी पहुंची। रावत रायसिंह ने धायपन्ना के मुख से विक्रमादित्य के मारे जाने की बात सुनकर खेद प्रकट किया और उसको आश्वासन देकर अपने यहां ठहराया; किन्तु स्थायी-रूप से उन्हें अपने यहां रख वनवीर का विरोधी बनने की उसमें शक्ति न थी, इसलिए उसने उस (उदयसिंह) को सुरक्षित रूप से डूंगरपुर भिजवा दिया^१।

डूंगरपुर पहुंचने पर वहां के महारावल पृथ्वीराज ने उसका सम्मान तो किया, परन्तु वनवीर से विरोध होने में हानि समझ उसको अपने यहां थोड़े ही समय तक रखा और उदयसिंह के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कुंभलगढ़ समझ सवारी आदि का यथोचित प्रबंध कर उसने उस (उदयसिंह) को वहां पहुंचा दिया। वहां के दुर्गाध्यक्ष आशाशाह नामक देपुरा (माहेश्वरी) महाजन ने अपनी माता के आग्रह करने पर उदयसिंह को अपने पास रखा^२।

धीरे-धीरे यह बात प्रकाश में आने लगी कि उदयसिंह मारा नहीं गया है और धाय-सहित कुंभलगढ़ पहुंच गया है, जहां वह सही-सलामत है। तब चौहान खान (कोठारिये के रावत का पूर्वज) आदि बड़े-बड़े सरदार कुंभलगढ़ पहुंचे और उन्होंने दूसरे सरदारों को भी वहां बुलाया। फिर

(१) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३६८। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ४०३।

कर्मल टॉड और 'वीरविनोद' के इस कथन से कि धाय पन्ना उदयसिंह को लेकर देवलिया के स्वामी रायसिंह के पास देवलिया पहुंची थी, पाया जाता है कि उस समय रायसिंह देवलिया में रहता होगा।

(२) टॉड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३६८-६१। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ४०३।

सब सरदारों ने मिलकर कुंभलगढ़ में ही वि० सं० १५६४ (ई० स० १५३७) में उदयसिंह को गद्दी पर विठलाने का दस्तूर किया। उस समय उदयसिंह की आयु लगभग पंद्रह-सोलह वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए सरदारों ने पाली के सोनगरे अखैराज की पुत्री के साथ उसका विवाह भी कर दिया। तदनंतर चित्तौड़ से बनवीर को निकालने के लिए सलाह कर सेना एकत्रित करने की आयोजना की गई। महाराणा के इस विचार की खबर फैलते ही चारों तरफ से सैनिक आने लगे और उसके कुटुंबियों के अतिरिक्त प्रजा भी उसको देखने के लिए आतुर हो उठी। कुछ ही समय में ईडर का राव भारमल, वूंदी का हाड़ा राव सुलतान, डूंगरपुर का कुंवर आसकरण, वांसवाड़े का महारावल जगमाल एवं महारावत रायसिंह आदि अपने राजपूतों को लेकर उदयसिंह की सहायतार्थ जा पहुंचे^१।

उधर बनवीर भी यह समाचार पाकर अपनी सेना-सहित मुक्काबले के लिए गया। माहोली (मावली) के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ जिसमें महाराणा की विजय हुई। अनन्तर ताणा-नामक स्थान पर अधिकार कर महाराणा चालीस हजार सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा, परंतु साथ में, तोपखाना न था। इसलिए घेरा डालने पर भी किले पर अधिकार करने में कठिनाइयां होने लगीं। तब महाराणा के प्रधान आशाशाह देपुरा ने बनवीर के प्रधान चील मेहता को मिलाकर रात्रि में दुर्ग के द्वार खुलवा दिये, जिससे महाराणा की सेना ने भीतर प्रवेश कर वि० सं० १५६७ (ई० स० १५४०) में वहां अधिकार कर लिया।

महारावत रायसिंह के समय का शेष इतिहास भी उसके पूर्वजों के इतिहास के समान अंधकार में विलीन है। प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात तथा अन्य ख्यातों में लिखा है कि रायसिंह का वि० सं० १६०६ (ई० स० १५५२) में देहांत हुआ^२। उसके चार कुंवर—विक्रमसिंह (बीका),

रायसिंह का देहांत और उसकी मत्ति

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६३।

(२) एक ख्यात में रायसिंह का साटोले के खेड़े में देहांत होने का उल्लेख

उदयकरण, आसकरण और पूरणमल तथा एक पुत्री किशनकुंवरी हुई' । 'हरिभूषण महाकाव्य' से पाया जाता है कि रायसिंह अपने पूर्वजों के समान वीर, नीतिनिपुण और कवियों का सम्मान करनेवाला था । उसकी प्रजा सम्पन्न थी । उसने कई तालाब और उद्यान बनवाये थे । चारण कवियों का उसके यहां बड़ा प्रभाव था और वह उनको दान देने में न अघाता था । उस(रायसिंह)का कोई शिलालेख अथवा दानपत्र नहीं मिला है, अतएव उसके इतिहास पर अधिक प्रकाश डालना कठिन ही नहीं एक प्रकार से असंभव है ।

मिलता है और यह भी लिखा है कि वि० सं० १६०७ (ई० स० १५५०) में महाराणा उदयसिंह के समय सादड़ी की जागीर छूट गई थी, परंतु अधिकांश स्थलों पर सादड़ी की जागीर रायसिंह के पुत्र विक्रमसिंह(बीका) के समय छूटना लिखा मिलता है, जिससे उस(विक्रमसिंह)के प्रसङ्ग में इस घटना को विस्तृत रूप से लिखा जायगा ।

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, पृ० २ ।

(२) वैरिवीरवनिताकुचान्तरे स्वेददुर्घनपटीरकर्दमम् ।

साध्वसानदाशिखाप्रतापिते यन्निशम्य मिलितारिसूदनम् ॥ २४ ॥

येन भूतलमिदं महीभृता सर्वतो गतदरिद्रलेशकम् ।

पूरितं सकलद्रव्यसम्पदा स्वर्गपत्तनमिव व्यशोभत ॥ २५ ॥

वाटिकाः कति महीभृता स्वयं कारिताः कति सरोवराण्यपि ।

धर्मराज इव भूतले बभौ याचमानजनदानतत्परः ॥ २६ ॥

यः कवीश्वरसभावशम्बदो लोकलोचनसुखाकरो बभौ ।

न्यूनदानमपि लक्षसंख्यया येन दत्तमिह भूतले सदा ॥ २७ ॥

चारणैरतितरां निषेवितः संस्तुतः कविजनैः समन्ततः ।

रञ्जयन्निजगुणैः कवीश्वरान् भासमान इह भानुवद्वभौ ॥ २८ ॥

सर्ग ५ ।

विक्रमसिंह (बीका)

रायसिंह का परलोकवास होने पर वि० सं० १६०६ (ई० स० १५५२) के लगभग उसका ज्येष्ठ कुंवर विक्रमसिंह, जिसको बीका भी कहते हैं, कांठल एवं मेवाड़ में अपने पिता की संपत्ति सादड़ी राज्य-प्राप्ति आदि का अधिकारी हुआ^१। उसका जन्म वि० सं० १५८२ (ई० स० १५२५) में होना माना जाता है^२।

ऊपर महारावत रायसिंह के प्रसङ्ग में बतलाया गया है कि धाय पन्ना-द्वारा बाल्यावस्था में महाराणा उदयसिंह, विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाने पर, रायसिंह के पास पहुंचाया गया था; परंतु उसने बनवीर के भय से उस समय विशेष सहायता न दी और उसको डूंगरपुर पहुंचा दिया। इसके पीछे कुंभलगढ़ में सरदारों के जा मिलने पर महाराणा, बनवीर को निकालने में समर्थ हुआ और वि० सं० १५६७ (ई० स० १५१०) में चित्तौड़ की तरफ बढ़ा। उस समय रायसिंह भी उक्त महाराणा की सहायतार्थ अपनी सेना-सहित सम्मिलित हुआ था। चित्तौड़गढ़ पर अपनी सत्ता टूट हो जाने के उपरान्त महाराणा ने रायसिंह की इस सेवा को विस्मरण कर दिया और

(१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० २। प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, पृ० २।

(२) प्रतापगढ़ के पहले के राजाओं के जन्म-संवत् अब तक नहीं मिले हैं। ऊपर विक्रमसिंह का जो जन्म-संवत् दिया गया है, वह पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी हुई एक याददाश्त के आधार पर है। उसमें तिथि और वार नहीं दिया है और न उस- (विक्रमसिंह) की कोई जन्म-कुंडली देखने में आई है। ऐसी दशा में उसका जन्म-संवत् १५८२ ठीक है अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसकी पुष्टि में जब तक कोई दूसरा प्रमाण न मिले, तब तक इसे आनुमानिक ही मानना पड़ेगा। विक्रमसिंह प्रतापगढ़ के राजवंश के मूलपुरुष क्षेमकर्ण का पांचवा वंशधर था। क्षेमकर्ण और रायसिंह (विक्रमसिंह के पिता) तक के समयक्रम पर विचार करने से तो विक्रमसिंह का जन्म-संवत् १५८२ होना संभव जान पड़ता है।

अपनी बाल्यावस्था के समय उस (रायसिंह)के द्वारा सहायता न मिलने की बात को स्मरण कर वह उससे अप्रसन्न रहने लगा । संयोगवश रायसिंह का देहांत हो गया । तब विक्रमसिंह के सादड़ी आदि का स्वामी होने पर महाराणा उससे छेड़-छाड़ करने लगा और सादड़ी आदि की जागीर उसने राज्य में मिला ली । महाराणा उदयसिंह अपने भाई विक्रमादित्य की अपेक्षा अच्छा शासक था । राजपूताना के कई नरेश उसको अपना नेता मानते थे एवं उसने मेवाड़ के अतीत गौरव को थोड़ा-बहुत चमका दिया था । ऐसी अवस्था में उदयसिंह से मुक्तावला करने में विक्रमसिंह को हानि की ही संभावना थी, अतएव उसने बलपूर्वक सादड़ी की जागीर अपने अधिकार में रखना श्रेयस्कर न समझा और महाराणा के सादड़ी की जागीर ले लेने पर वह वि० सं० १६१०- (ई० स० १५५३) के लगभग मेवाड़ का सदा के लिए परित्याग कर^१, स्वाधीनतापूर्वक जीवन व्यतीत करने की भावना से अपने पितामह सूरजमल-द्वारा जीते हुए कांठल प्रदेश में चला गया तथा वहां की स्थिति को सुदृढ़ कर गयासपुर में रहने लगा^२ ।

दिल्ली के मुगल बरदशाह हुमायूं ने गुजरात के सुलतान बहादुरशाह को हराकर मालवा तथा गुजरात विजय कर लिया, परंतु उन्हीं दिनों उस-
(हुमायूं)के सरदार शेरखां ने बंगाल में विद्रोह कर दिया । इसपर हुमायूं ने मालवे की ओर से उधर प्रस्थान किया । वहां उसने विद्रोह को दवाने की चेष्टा की, पर उसमें सफलता नहीं हुई और शेरखां ने हुमायूं को परास्त कर दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार कर लिया तथा शेरशाह नाम से अपने को दिल्ली का स्वामी घोषित किया । वह केवल छः वर्ष ही राज्य करने पाया था कि उसका देहांत हो गया । उसके पीछे उसके वंशजों

हाजीखां की सहायतार्थ महाराणा के साथ कुवर तेजसिंह को भेजना

(१) कैप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० ७६ । मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट; पृ० १६७ ।

(२) कैप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० ७६ । मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० १६७ ।

ने केवल दस वर्ष ही सलतनत का उपभोग किया और वि० सं० १६१२ (ई० स० १५५५) में सूर वंश के अंतिम बादशाह सिकंदरशाह से दिल्ली की सलतनत पीछी बादशाह हुमायूं ने छीन ली, किन्तु उसी वर्ष मस्जिद की सीढ़ी से गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और उस (हुमायूं) का पुत्र अकबर तेरह वर्ष की आयु में दिल्ली का स्वामी हुआ। उस समय मेवात (अलवर इलाका) पर शेरशाह के गुलाम सेनापति हाजीखां का अधिकार था। वहां से उसको निकालने के लिए बादशाह ने पीरमुहम्मद सरवानी (नासिरुलमुल्क) को ससैन्य रवाना किया। पीरमुहम्मद के पहुंचने पर हाजीखां भागकर अजमेर^१ चला गया, जहां उस समय

(१) महाराणा विक्रमादित्य के समय गुजरात के सुलतान बहादुरशाह की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने पर अजमेर पर भी गुजराती सलतनत का अधिकार हो गया था, परंतु वहा उसका अधिकार थोड़े समय तक ही रहा। बहादुरशाह की पराजय के पीछे दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं के समय शेरखां पठान ने विद्रोह कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपना नाम शेरशाह रखा। इस अव्यवस्था से लाभ उठा मेढ़ते के राव वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अपना अधिकार वहां थोड़े दिन ही रख सका और जोधपुर के राव मालदेव ने उससे अजमेर छीन लिया। वि० सं० १६०० (ई० स० १५४३) में शेरशाह सूर की मालदेव पर चढ़ाई हुई, उस समय अजमेर राठोड़ों के हाथ से निकल गया। फिर शेरशाह सूर के पुत्र सलीमशाह सूर (इस्लामशाह) की मृत्यु के पीछे राव मालदेव ने पुनः वहां पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना भेजी। इसपर शाही सेवकों ने, जो अजमेर में नियत थे, वि० सं० १६१० (ई० स० १५५३) में महाराणा उदयसिंह को चित्तौड़ से बुलाया। महाराणा ने वहां से राठोड़ों की सेना को हटाकर अपना अधिकार जमा लिया। हाजीखां से महाराणा की वि० सं० १६१३ (ई० स० १५५७) में हार हो जाने पर उसको अजमेर से निकालने के लिए बादशाह अकबर ने सेना भेजी, जिसने उसको निकालकर वहां अपना अधिकार स्थिर किया। लगभग १३५ वर्षों तक अजमेर पर मुगल सलतनत का अधिकार रहा। मुगलों के शासनकाल में यह एक प्रधान सूबा था और राजपूताना के उदयपुर, जयपुर, जोधपुर आदि राज्य इस सूबे के अन्तर्गत थे। मुगल बादशाहत की अवनति के दिनों में

महाराणा उदयसिंह का अधिकार था । महाराणा ने उस (हाजीखां) को वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए कहलाया । इसपर हाजीखां ने अपना दूत भेज महाराणा से निवेदन कराया कि मैं तो आपका सहारा समझ यहां आकर ठहरा हूं, परंतु जोधपुर का राव मालदेव मुझे लूटना चाहता है, इसलिए आप मेरी सहायता करें । राव मालदेव के समय शेरशाह सूर-द्वारा मारवाड़ पर चढ़ाई होकर जोधपुर कुछ समय के लिए उक्त राव के अधिकार से निकल गया था, इस कारण मालदेव का सूर-खान्दान तथा उसके आश्रितों से वैर होना स्वाभाविक था । हाजीखां के पास अतुल संपत्ति थी, अतएव राव मालदेव ने शेरशाह-द्वारा होनेवाली हानि का बदला लेने के लिए यह अवसर उपयुक्त समझा और हाजीखां के अजमेर पहुंचने पर उसने अपने सरदार पृथ्वीराज जैतावत (बगड़ीवालों का पूर्वज) की अध्यक्षता में अपनी सेना रवाना की । अकेले हाजीखां की राठोड़ों से सामना करने की सामर्थ्य न थी, इसलिए महाराणा की सहायता उसको अपेक्षित थी । महाराणा उदयसिंह और राव मालदेव के बीच अनबन थी, दूसरे हाजीखां ने उसको सहायता देने के एवज में चालीस मन सोना और कुछ हाथी भी देने का इत्तार किया था । फलतः वि० सं० १६१३ (ई० स० १५५६) में हाजीखां की सहायतार्थ महाराणा स्वयं अपने कई बड़े सरदारों एवं डूंगरपुर के महारावल आसकरण बांसवाड़ा के स्वामी

जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह और अभयसिंह ने यहा पर अधिकार जमाने का उद्योग किया । उसमें अभयसिंह सफल हुआ, परंतु फिर उससे जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने अजमेर ले लिया । जयसिंह की मृत्यु के बाद राठोड़ों ने पुन वहां अधिकार किया, किंतु ग्वालियर के सिंधिया जय आपा को जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० सं० १८१२ (ई० स० १७५५) में छल से मरवा डाला । इसपर जनकूजी सिंधिया ने अपनी विशाल सेना के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई की । तब विजयसिंह ने कई लाख रुपये सेना व्यय के और अजमेर का ज़िला जनकूजी को देकर अपना पिंड छुड़ाया । फिर दौलतराव सिंधिया से वि० सं० १८७५ (ई० स० १८१८) के लगभग अंग्रेज़ सरकार ने यह प्रांत ले लिया ।

प्रतापसिंह, वूंदी के राव सुरजन हाड़ा, रामपुरा के राव दुर्गा, राव जयमल मेड़तिया (मेड़ते का) आदि के साथ मालदेव की सेना के मुक्ताबले के लिए रवाना हुआ। महाराणा की इस बड़ी सेना में देवलिया के स्वामी विक्रमसिंह का कुंवर तेजसिंह भी अपनी सेना-सहित सम्मिलित हो गया था। इस अवसर पर बीकानेर के स्वामी राव कल्याणमल ने भी (जिसका हाजीख़ां से मेल और मालदेव से वैर था) अपनी सेना उस- (हाजीख़ां)की सहायतार्थ रवाना की, जिससे हाजीख़ां का बल बढ़ गया। महाराणा और हाजीख़ां के सम्मिलित कटक और बीकानेर की सैनिक-सहायता को देख जोधपुर के सरदारों ने अपने सेनापति पृथ्वीराज को समझाया कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पहले ही काम आ गये हैं। यदि हम भी मारे गये तो राव का बल घट जायगा; क्योंकि हाजीख़ां के सहायकों की संख्या बहुत अधिक है और उससे सामना करने में बड़ी कठिनाई होगी इसलिए इस समय लौट जाना ही उचित होगा। इसपर वस्तु-स्थिति अपने अनुकूल न देख पृथ्वीराज बिना लड़े ही मारवाड़ की सेना-सहित लौट गया^१।

गुजरात के सुलतान बहादुरशाह के आक्रमण के पीछे मालवे पर दिल्ली की सलतनत का अधिकार हो गया; परंतु वह स्थिर भी न होने पाई

(१) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें' (संख्या १२६६) और मुंशी देवीप्रसाद-रचित 'महाराणा उदयसिंहजी का जीवनचरित्र' (पृ० ६५) में इस घटना के वर्णन में तेजसिंह को देवलिया का रावत लिखा है; परंतु वह वि० सं० १६१३ (ई० स० १५५६) में रावत नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसका पिता विद्यमान था, जैसा कि आगे के वर्णन से स्पष्ट होगा।

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि० १, पृ० ७४) में लिखा है कि वि० सं० १६११ में राव मालदेव ने मेड़ते पर चढ़ाई की, उस समय पृथ्वीराज मारा गया; परंतु इसके विरुद्ध नैणसी की ख्यात (भाग १, पृ० ५८-६) में यह लिखा है कि वह वि० सं० १६१३ में हाजीख़ां के विरुद्ध राव मालदेव की तरफ से अजमेर में सेना लेकर गया था, परन्तु महाराणा के हाजीख़ां की सहायतार्थ आ जाने पर लौट गया। अनन्तर मेड़ते में राव जयमल से युद्ध करता हुआ वह काम आया।

विक्रमसिंह का सुहागपुरा
खैरोट, कोटड़ी, नीनीर, दलोद
और पलथाना पर अधिकार
करना

थी कि शेरशाह का भगड़ा खड़ा हो जाने से हुमायूँ को बंगाल में जाना पड़ा। उस समय (वि० सं० १५६२ = ई० सं० १५३५ में) मालवे के खिलजी वंश के सुलतानों का गुलाम मल्लूखां, हुमायूँ के अमीरों को निकालकर क्रादिर के नाम से वहां का सुलतान बन गया^१। शेरशाह ने दिल्ली की सलतनत दृढ़ करने के उपरांत मालवे की तरफ बढ़कर हि० सं० १५६६ (वि० सं० १६०० = ई० सं० १५४३) में मल्लूखां को वहां से निकाल दिया और अपनी तरफ से शुजाखां (सजावलखां) को वहां का हाकिम नियत किया, जो शेरशाह सूर के वंशज मुहम्मदशाह सूर के समय स्वतंत्र होकर वहां का सुलतान बन बैठा^२। मालवे में होनेवाले इन परिवर्तनों से विक्रमसिंह ने बड़ा लाभ उठाया और अपनी सत्ता कांठल पर सुदृढ़ कर ली। कांठल के निवासी मीणों वड़े निर्भय और स्वेच्छाचारी थे। वे मालवे के अतिरिक्त दूर-दूर तक लूट-खसोट किया करते थे। इस कारण मालवे के मुसलमान हाकिमों को विक्रमसिंह-द्वारा कांठल पर सुदृढ़ अधिकार होकर उपद्रवी मीणों का दमन होने में लाभ था। इन शक्तिशाली मीणों के पृथक्-पृथक् दल थे, जिनको विजय करने और अधीन रखने में बड़ी सेना की आवश्यकता थी, परंतु उधर की आय इतनी अधिक नहीं होने से मालवे के मुसलमान हाकिम सर्वदा उदासीन रहते थे, अतएव विक्रमसिंह के कांठल के मीणों को दवाने से वे उसके विरोधी नहीं हुए। फिर उसने अपने बाहुबल से थोड़े समय में ही उपद्रवी मीणों के कई मुखियों को मारकर वहा पर अपनी प्रभुता स्थापित की, जिससे शांति स्थापित होकर लूट-खसोट कम हो गई। विक्रमसिंह-द्वारा मीणों को दवाने का मालवे के मुसलमान हाकिमों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने भी उनसे मैत्री स्थापित कर उनको अपना सहायक बना

(१) नागरी प्रचारिणी (त्रैमासिक) पत्रिका, काशी (नवीन संस्करण); भाग ३, पृ० १७० ।

(२) वही, पृ० १७० ।

लिया। इससे उसको वहां अपना क्षेत्र विस्तीर्ण करने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने देवलिया से दक्षिण और दक्षिणपूर्व में गयासपुर के निकट बसनेवाले राजपूतों को भी, जो मीणों के साथ लूट-खसोट में भाग लिया करते थे, दबाकर सोनगरे चौहानों से सुहागपुरा तथा जलखेड़िया, राठोड़ों से खेरोंट, डोडियों से कोटड़ी, प्रतिहारों से नीनोर एवं दलोट तथा मुसलमानों से पलथाना छीन लिये^१। सुहागपुरा के इलाके पर अधिकार करने के समय सैसमल (सूरजमल का कुंवर) के चार पुत्र अक्षयराज, पीथा, देवीसिंह और उदयसिंह काम आये^२। तदनन्तर उसने वि० सं० १६१७ (ई० स० १५६०) के लगभग देवलिया में रहना स्थिर किया^३।

ख्यातों तथा 'वीरविनोद' में लिखा है कि विक्रमसिंह ने भामरथा मीणा को मारकर देवलिया की भूमि पर अधिकार किया और उसकी स्त्री देवी उसके साथ सती होने लगी, तब उसने उसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए उसके नाम पर देवलिया क़सबा बसाकर वहां अपनी राजधानी नियत की^४। प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों में भी ऐसा ही वृत्तांत है, परंतु वहां भामरथा मीणा की मृत्यु पर देवी मीणा के सती होने का कुछ भी उल्लेख नहीं कर देवी मीणा के मारे

ख्यातों और देवी मीणा की स्मृति में देवलिया बसाने की कथा

(१) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ (ई० स० १८८०); पृ० ७६। मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० १६७। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५६। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० ३।

(२) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० ३।

(३) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ (ई० स० १८८०); पृ० ७६। मेजर के० डी० अर्सकिन; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ पृ० १६८। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५५। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ३।

(४) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० २। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५५।

जाने पर उसके नाम से देवलिया क़सबा बसाने का वर्णन किया है^१ ।

मुंहणोत नैणसी रावत विक्रमसिंह के प्रसङ्ग में लिखता है—“उस- (विक्रमसिंह)को राणा उदयसिंह ने अपने देश से निकाल दिया, तब वह गांव बड़ेरी में आसारण नामक मेरों की दादी के पास गया । उस बड़ेरी (वृद्धा) का मेर बड़ा आदर करते थे । पहले तो मेरों ने उसे वहां न ठहरने दिया, परंतु जब उसने सौगंध-शपथ खाकर उनको विश्वास दिलाया, तब वह रहने पाया । अन्त में होली के दिन बीका(विक्रमसिंह) ने दगा कर सब मेरों को मार डाला और देवलिया लिया । आसारण के वंशजों के पास अब तक एक गांव जागीर में है और उनका बड़ा भरोसा है^२ ।”

नैणसी की ख्यात प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों की अपेक्षा प्राचीनता की दृष्टि से विशेष महत्व रखती है । ऐसी दशा में अन्य ख्यातों आदि का सारा कथन कपोल-कल्पित ठहरता है । जैसा कि ऊपर (पृ० १७ में) बतलाया गया है देवलिया पर महारावत सूरजमल के समय ही अधिकार हो गया था । संभव है कि बाघसिंह और रायसिंह का उस ओर अधिक ध्यान न रहने से वहां के आदिम निवासी मीणे उच्छृंखल हो गये हों, जिनको विक्रमसिंह ने, दवाकर अधीन किया हो ।

विक्रमसिंह के कांठल और उसके समीपवर्ती इलाकों पर अधिकार करने के समय उसका पितृव्य कांधल (सैंसमल का पुत्र), जिसको मेवाड़-राज्य की तरफ़ से नौवाहेड़ा की जागीर थी, अपनी जागीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी प्रकार सुरताणसिंह(रणमल का पुत्र और सूरजमल का पौत्र) ने मेवाड़ में प्राप्त करजू की जागीर छोड़कर उसको सहायता दी । इसके पवज़ में विक्रमसिंह ने अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर कांधल को धमोतर की, सुरताणसिंह को

कांधल को धमोतर,
सुरताणसिंह को दोढरथाखेड़ा
और विजयसिंह को खेगेट
की जागीर देना

राज्य की तरफ़ से नौवाहेड़ा की जागीर थी, अपनी जागीर छोड़कर उसके साथ चला गया । इसी प्रकार सुरताणसिंह(रणमल का पुत्र और सूरजमल का पौत्र) ने मेवाड़ में प्राप्त करजू की जागीर

(१) कैप्टेन सी० ई० चेट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ (ई० स० १८८०), पृ० ७६ । मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० २२२ ।

(२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६४-६ ।

ढोढरथाखेड़ा (जिसको अब कल्याणपुरा कहते हैं) की तथा कांधल के भाई उदयसिंह के पुत्र विजयसिंह को खेरोट की जागीरें देकर अपना सरदार बनाया^१ ।

वागड़ के स्वामी महारावल उदयसिंह ने अपने दो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को डूंगरपुर का राज्य दिया था और छोटे पुत्र जगमाल

वासवाडा के स्वामी
प्रतापसिंह की तरफ रहकर
डूंगरपुर के महारावल
आसकरण से युद्ध करना

को (जिसकी माता पर महारावल का अधिक प्रेम था) वागड़ का पूर्वी भाग देकर अपनी विद्यमानता मे ही उसको वांसवाड़ा का पृथक् राजा बना दिया था । वि० सं० १५८४ (ई० स० १५२८) के खानवे

के युद्ध में उदयसिंह का परलोकवास होने पर उन दोनों भाइयों में विरोध हो गया और कई लड़ाइयां हुईं । फिर गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने मही नदी का पूर्वी भाग जगमाल के और पश्चिमी भाग पृथ्वीराज के रखकर यह बखेड़ा तय करा दिया । जगमाल की मृत्यु पर उसका दूसरा पुत्र जयसिंह वांसवाड़े का स्वामी हुआ और ज्येष्ठ पुत्र किशनसिंह तथा उसके वंशज राज्य से वंचित रहे । जयसिंह का देहांत होने पर वांसवाड़े की गद्दी पर प्रतापसिंह बैठा । उसके समय में डूंगरपुर और वांसवाड़ा के बीच फिर विरोध की आग्नि भड़क उठी तथा डूंगरपुर के स्वामी महारावल आसकरण ने वांसवाड़े पर अधिकार कर लिया^२ ।

‘हरिभूषण महाकाव्य’ का कर्त्ता कवि गंगाराम लिखता है—
“महारावल प्रतापसिंह और महारावल विक्रमसिंह धर्म-बंधु (पगड़ी बदल भाई) थे । इसलिए प्रतापसिंह पर विपत्ति देख विक्रमसिंह ने उसकी सहायतार्थ प्रस्थान किया । इस युद्ध में वागड़ के अधिकांश चौहान सरदार आसकरण की तरफ थे, जिनसे मही नदी के तट पर विक्रमसिंह

(१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ल्यात; पृ० ३ । ढोढरथाखेड़ा का नाम पीछे से ठाकुर कल्याणसिंह के नाम पर कल्याणपुरा रक्खा गया ।

(२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ३, भाग १ (डूंगरपुर राज्य का इतिहास), पृ० ६७-८ तथा भाग २ (वांसवाड़ा राज्य का इतिहास), पृ० ७५-६ ।

की सेना का मुक्ताबला हुआ । चौहानों ने बड़ी वीरता से युद्ध कर मही नदी को मृत्यु-क्षेत्र बनाया और अंत में उसने महारावल आसकरण से वांसवाड़ा छुड़ाकर प्रतापसिंह को दे दिया ।”

- (१) अभूदथ क्षत्रकुलाभिमानी वीकाभिधेयः किल तस्य सूनुः ।
यत्खड्गधाराऽभिहतोऽरिवर्गो महीतटे खेलति भूतवर्गैः ॥ १ ॥
- पुराऽऽसकर्णः किल रावलोऽभूत्प्रतापसिंहेन युयोध यत्र ।
वंशालयाधीश्वरधर्मबन्धुः समागतो देवगिरेर्महीशः ॥ ३ ॥
- महाहवं तत्र तयोर्बभूव महीतटेषु प्रसभं समेषु ।
परस्परं प्रासफलैः प्रजघ्नुश्चौहानभूपा रणगीतगीताः ॥ ४ ॥
- समुच्छलत्कच्छतुरङ्गमस्थः स्फुरत्स्फुलिङ्गावलिखङ्गघातैः ।
त्रुट्यत्तनुत्रान् लसदश्ववारान् रणेऽरिवीरानकरोत्स वीकः ॥ ५ ॥
- भिन्नाः पतन्तः करवालिकाभिः समुच्छलद्रक्तचलत्प्रवाहाः ।
चौहान बेहोल (?) गणारणेऽस्मिन्नन्योन्यमेषां घटितं प्रचक्रुः ॥ ७ ॥
- तीरेषु मद्याः पतिताः कबन्धाभीमा विरेजुः करवालहस्ताः ।
सुखं शयानाः किल नीरमध्याद्विनिर्गता मदगुरबालकाः किम् ॥ १२ ॥
- रणस्थलीर्भूपतिरासकर्णस्तत्याज वीकाभुजदण्डभीरुः ।
चलत्किरीटः स्फुरदश्ववारश्चौहानवर्गोऽभिमुखी बभूव ॥ १४ ॥
- जघ्नुः शितैः प्रासफलैः सखेटाश्चौहानभूपारणरङ्गमत्ताः ।
समुल्लसद्बाहुकरालखङ्गाः सुशोणनेत्रा धृतवर्मदेहाः ॥ १५ ॥
- सन्त्रासयन्यः किल दिग्गजालीर्दम्भामकानां ध्वनिभिः प्रवृद्धैः ।
चौहानभूपैश्चतुरङ्गसैन्यो वीकानरेन्द्रोऽपि युयोध भूयः ॥ १६ ॥
- क्षेत्रं प्रतापाय ददौ प्रतप्तो वीकाभुजादण्डलसत्प्रतापैः ।
इत्युक्तवान् सन्निहितः स्ववर्गो मद्याः परं पारमुपाससाद ॥ २० ॥

इस घटना का वृत्तांत संक्षेप से हमने डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य के इतिहासों में दिया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में इस घटना का कुछ भी वर्णन नहीं है। अनुमान होता है कि जब प्रतापसिंह के समय महारावल आसकरण ने किशनसिंह तथा उसके वंशजों को बांसवाड़ा राज्य दिलाने का उद्योग किया, तब उस (आसकरण)-के विरुद्ध विक्रमसिंह को प्रतापसिंह का पक्ष लेकर युद्ध करना पड़ा हो। 'हरिभूषण महाकाव्य' में इस संबंध में विस्तृत वर्णन है, जो अलंकारिक ढंग से है और काव्यों में प्रायः अतिशयोक्ति भी पाई जाती है। इस दृष्टि से वह इस दोष से वंचित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी वह इस युद्ध के प्रसङ्ग में बहुत कुछ प्रकाश डालता है, जिसका ख्यातों में अभाव है। उससे महारावल विक्रमसिंह की वीरता, रण-कुशलता एवं मित्र-वत्सलता का यथेष्ट परिचय मिलता है। वहां इस घटना का कोई संवत् नहीं दिया है। ऐसी दशा में आसकरण और विक्रमसिंह के बीच यह युद्ध किस समय हुआ इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; परंतु आसकरण का राज्य-समय वि० सं० १६०७-१६३६^१ (ई० स० १५५१-१५८०) तक तथा प्रतापसिंह का राज्य-समय वि० सं० १६०७-१६३६^२ (ई० स० १५५०-१५७६) तक निश्चित है और विक्रमसिंह की गद्दीनशीनी वि० सं० १६०६ (ई० स० १५५२) तथा देहांत दामाखेड़ी गांव के उस (विक्रमसिंह) के पुत्र तेजसिंह के वि० सं० १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ई० स० १५६४ ता० १८ अगस्त) के ताम्रपत्र^३ से वि० सं० १६२० (ई० स० १५६३) के आस-पास होना पाया

महान् प्रतापस्य जयस्तदाऽऽसीदभूत्सुरेभ्यो जयपुष्पवृष्टिः ।

सुखं स वंशालयमध्यवर्ती निर्विघ्नमन्तःपुरमंदिरेषु ॥ २१ ॥

सर्ग ६ ।

(१) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास; जि० ३, भाग १ (डूंगरपुर राज्य का इतिहास), पृ० ६६ ।

(२) वही, भाग २ (बांसवाड़ा राज्य का इतिहास), पृ० ८१ ।

(३)श्रीमहारावतजी श्रीतेजसीं(सिं)घजी वचनातु आगे

जाता है। यही संवत् बड़वे की ख्यात में भी दिया है। अनुमानतः आसकरण और विक्रमसिंह के बीच यह युद्ध वि० सं० १६२० (ई० स० १५६३) के पूर्व किसी समय हुआ होगा।

ख्यातों में विक्रमसिंह के देहांत के विषय में मत-भेद है। कोई उसका देहांत वि० सं० १६३३ (ई० स० १५७६) में और कोई वि० सं० १६३५ (ई० स० १५७८) में होना बतलाती है, परंतु विक्रमसिंह का देहांत दोनों कथन विश्वसनीय नहीं है; क्योंकि उसके उत्तराधिकारी तेजसिंह के वि० सं० १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ई० स० १५६४ ता० १८ अगस्त) के ताम्रपत्र में पुरोहित दामा को सूर्य-ग्रहण^१ के अवसर पर दामाखेड़ी गांव दान देने का उल्लेख है, जिससे उसका देहावसान वि० सं० १६२० (ई० स० १५६३) के लगभग होना संभव है।

भरामण परोत दामा जोग्य अत् थने श्रीक्रस्नार्पण सुरज परव महे गाम दमाखेड़ी नीम सीम सुदा जीमाहे जमीन वीगा ११०० अन्यरेसे या चंद्रार्क यावत उदक अघाट कर सारी लागट बलगट टंकी टुसी सहीत नीरदोस करे आपी जणीरी मारा वसरो थई ने चोलण करेगा नहीं। चोलण करे जणी ने चीतोड भागा नु पाप छे। स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरते वसुंधरां (ष)ष्टी वर्स(र्ष) सह(सह)त्राणी(स्त्राणि) विष्टाया(यां) जान्त्र(य)ते कृमी(मि) दुवे श्रीमख.....समत १६२१ रा वर्से भादवा सुदि ११ दीने श्रिस्तु ॥

मूल ताम्रपत्र की छाप से।

(१) उपर्युक्त ताम्रपत्र में दामाखेड़ी गांव सूर्यग्रहण पर पुरोहित दामा को दान करने का उल्लेख है। ग्रहणों का मिलान करने पर वि० सं० १६२१ आषाढ वदि ३० (ई० स० १५६४ ता० ८ जून) गुरुवार को सूर्यग्रहण होना पाया जाता है। जैसा कि प्रायः देखा जाता है, ग्रहण के अवसर पर दान का संकल्प तो कर दिया जाता है, परन्तु यथावकाश सनद पीछे से करादी जाती है। संभव है इस ताम्रपत्र में भी ऐसा ही हुआ हो।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात से ज्ञात होता है कि उस-
(विक्रमसिंह)के चार राणियां थी^१, किंतु एक दूसरी ख्यात में उसके
पांच राणियां होना लिखा है^२। उसके चार पुत्र
विक्रमसिंह की राणियां
और संतति तेजसिंह, सुरजन^३, शार्दूलसिंह^४ एवं किशनदास^५
और किशनकुंवरी नामक पुत्री हुई^६।

रावत विक्रमसिंह वीर, मित्रवत्सल और स्वतंत्रताभिमानी राजा था।
उसको पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करना असह्य था। इसलिए
उसने मेवाड़ के बाहर जाकर अपने बाहुबल से
विक्रमसिंह का व्यक्तित्व कांठल के मीणों एवं अन्य लड़ाकू जातियों पर
विजय प्राप्तकर अपनी भावी संतान के लिए एक स्वतंत्र राज्य कायम किया,

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० २-३। इस ख्यात में विक्रमसिंह
के पुत्रों के नाम तेजसिंह, शार्दूलसिंह, सुरजन, केशवदास और किशनसिंह तथा
पुत्रियों के नाम वल्लभकुंवरी और लालकुंवरी दिये हैं।

(२) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ४।

(३) सुरजन के वंशज प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में रायपुर के
सरदार हैं। उसके पुत्र रामदास को रायपुर की जागीर मिलकर उसका पृथक् ठिकाना
कायम हुआ।

(४) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में शार्दूलसिंह को सीधपुरा
और वैरा गांव महारावत विक्रमसिंह-द्वारा मिलने का उल्लेख है।

(५) प्रतापगढ़ राज्य से मिली हुई एक पुरानी ख्यात में महारावत विक्रमसिंह-
का किशनदास को फांतला की जागीर देने का उल्लेख है एवं उसके लिए ख्यातों में
लिखा है कि वह (किशनदास) महाराणा प्रतापसिंह के समय किसी युद्ध में काम आया
और इस सेवा के बदले में महाराणा ने किशनसिंह के पुत्र को जीरण के पास अग्ररान
गांव दिया, जो इस समय ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत है।

(६) प्रतापगढ़ राज्य की एक-पुरानी ख्यात, पृ० ६। इस ख्यात में केशवदास
का नाम विक्रमसिंह के पुत्रों में है एवं वल्लभकुंवरी और लालकुंवरी के नाम पुत्रियों में
नहीं हैं। 'वीरविनोद' (द्वितीय भाग, पृ० १०५६) में भी उस(विक्रमसिंह)के
पुत्रों के नाम सही होने में बड़वा-भाटों के कथन पर कुछ सदेह प्रकट किया है।

जिसका सूत्रपात सूरजमल के समय में ही हो चुका था। वह समय के अनुसार आचरण करता था। मालवे के मुसलमान हाकिमों के साथ उसने मित्रता का व्यवहार रखा, जिससे उसको अपना राज्य स्थिर करने में कुछ बाधा नहीं हुई। बांसवाड़ा राज्य पर डूंगरपुर के स्वामी आसकरण ने अधिकार किया, उस समय उसने आसकरण से विरोध कर बांसवाड़ा पुनः प्रतापसिंह को दिलाया। वह स्वभाव का उदार और विनम्र था। ख्यातों में लिखा है कि उसने बगवा गांव बसाया और गयासपुर में प्राकार बनवाया। बगवा गांव में उसने छत्री, तालाब, बावड़ी और बाग बनवाये।

चौथा अध्याय

महारावत तेजसिंह से प्रतापसिंह तक



तेजसिंह

राज्य-प्राप्ति
रावत विक्रमसिंह का देहांत होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र तेजसिंह
वि० सं० १६२१ (ई० स० १५६४) के लगभग
देवलिया का स्वामी हुआ^१ ।

दिल्ली पर अपनी हुकूमत दृढ़ करने के पीछे मुगल बादशाह अकबर
ने मालवा में सेना भेज उसे अपने अधिकार में कर लिया । इसके साथ ही
उसने राजपूताना के नरेशों को अपने अधीन
बनाने का प्रयत्न आरंभ किया, जिसमें वह कुछ
सफल भी हुआ । राजपूताना के नरेशों में उस समय
मेवाड़ का स्वामी महाराणा उदयसिंह प्रमुख था ।
हल्दी घाटी के युद्ध में
महारावत के काका काधल
का महाराणा के पक्ष में
लड़कर काम आना
इसलिए बादशाह ने वि० सं० १६२४ (ई० स० १५६८) में चित्तौड़ पर
चढ़ाई कर बहुत दिनों तक युद्ध करने के पश्चात् वहां अधिकार कर लिया ।
चित्तौड़ पर शाही सेना का आक्रमण होने के पूर्व ही महाराणा उदयसिंह
दुर्ग-रक्षा का भार अपने सामन्तों को देकर पश्चिमी पहाड़ों में जा रहा था ।
इसके बाद वह चार वर्ष तक जीवित रहा । उसका उत्तराधिकारी

(१) देखो ऊपर पृ० १०१ । सुहृद्योत नैयासी अपनी ख्यात में विक्रमसिंह
के पीछे उसके पुत्र भाना (भानुसिंह) का गद्दी बैठना लिखता है, जो ठीक नहीं है ।
विक्रमसिंह का पुत्र तेजसिंह था और तेजसिंह का पुत्र भानुसिंह था, जिसका हमने यथा-
प्रसङ्ग उल्लेख किया है । स्वयं तेजसिंह के तीन दानपत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा अन्यत्र भी
उसका वर्णन मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि विक्रमसिंह के पीछे वह देवलिया का स्वामी
हुआ था ।

महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) हुआ, जो दृढ़-प्रतिज्ञ और स्वतंत्रताभिमानि था। उस (महाराणा प्रतापसिंह) ने मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा की। वि० सं० १६३० (ई० स० १५७३) में बादशाह ने आंधेर के कुंवर मानसिंह को मेवाड़ आदि के राजाओं को समझाकर शाही अधीनता में लाने के लिए भेजा। मानसिंह के झुंगरपुर होकर मेवाड़ में पहुंचने का समाचार पाकर महाराणा उसके स्वागतार्थ गोगूदा से उदयसागर गया और उसने रीति के अनुसार कुंवर की पहुनाई की, परंतु भोजन के समय वह स्वयं शरीक न हुआ, जिससे कुंवर मानसिंह बिना भोजन किये ही महाराणा से अप्रसन्न होकर चला गया।

अपने प्रधान सेनापति का अपमान होना बादशाह अकबर को बहुत ही अनुचित जान पड़ा। अतएव उसने महाराणा की धृष्टता का दंड देने के लिए वि० सं० १६३३ (ई० स० १५७६) में कुंवर मानसिंह की अध्यक्षता में अपनी सेना खाना की। मेवाड़ में नाथद्वारे से कुछ दूर खमणोर गांव के पास हल्दीघाटी में महाराणा ने शाही सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, जिसमें दोनों पक्षों के बड़े-बड़े वीर काम आये। सन्ध्या होने पर महाराणा वहां से कोल्हारी गांव में चला गया और शाही सेना गोगूदे में पहुंची। इस युद्ध में महारावत तेजसिंह ने अपने पितृव्य कांधल को महाराणा के पक्ष में लड़ने के लिए भेजा था, जो वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया।

मालवे पर मुगल बादशाह अकबर का अधिकार हो जाने के पीछे देवलिया-राज्य भी मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया और वहां के स्वामी की मालवा सूबे के सरदारों में गणना होने लगी, परंतु उस समय तक महारावत का शाही दरवार से सीधा संबंध नहीं जुड़ा था। उन दिनों मेवाड़ के महाराणा प्रतापसिंह और सम्राट् अकबर की सेना के बीच युद्ध चल रहा

प्रतापगढ़ राज्य की
तत्कालीन स्थिति

था। अपनी पितृभूमि मेवाड़ की ओर स्वभावतः ममता होने के कारण, महारावत की महाराणा प्रतापसिंह की तरफ सहायता अवश्य थी, परंतु शाही सेना की प्रबलता से वह प्रत्यक्ष रूप से महाराणा की सहायता न कर सकता था, तो भी वह इस अवसर पर दुहरी नीति रखकर इधर महाराणा और उधर बादशाह को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता था, जिससे उसके राज्य की हानि न हो। शाही अधिकारियों से मेल-मिलाप रख अपने राज्य की उन्नति करने की उसकी तीव्र इच्छा थी, परंतु स्वयं शाही दरवार में न जाने से वह अपने राज्य की कुछ भी वृद्धि न कर सका।

महारावत तेजसिंह के समय का अधिक वृत्तांत नहीं मिलता है। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १६४४ (ई० सं० १५८७) में उसका हथनारा के पंवार महीड़ा हरराव से युद्ध हुआ था^१ तथा उन्हीं दिनों उसका हतुणया की मगरी नामक स्थान पर भी युद्ध हुआ, जिसमें उस (तेजसिंह) का सरदार खान^२ काम आया^३। पंवार हरराव और सोनगरा नाहर का अधिक पता नहीं चलता। संभव है कि वे देवलिया के आस-पास के कोई ज़र्मीदार हों और अपना इलाका छिन जाने के कारण देवलिया इलाके में उपद्रव करते हों।

ख्यातों में महारावत तेजसिंह का देहांत वि० सं० १६५० (ई० सं० १५९३) में होना लिखा मिलता है। 'वीरविनोद' में उसका मारा जाना लिखा है^४, जिसका अभिप्राय किसी युद्ध में अथवा किसी व्यक्ति-द्वारा मारा जाना हो सकता है, परन्तु

महारावत का देहांत

-
- (१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ४।
 - (२) खान, महारावत वावसिंह का पुत्र था (देखो ऊपर पृ० ८४ टि० १)।
 - (३) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात; पृ० ३।
 - (४) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५६।

ख्यातों में उसका मृत्यु-विषयक कोई वृत्तांत नहीं मिलता ।

महारावत तेजसिंह के छः राणियां थीं । उसके भानुसिंह (भाना) और सिंहा नामक दो कुंवर हुए^१ । उसके समय के दो ताम्रपत्रों-की हमारे पास छापें आई हैं, जिनका समय क्रमशः वि० सं० १६२१ भाद्रपद सुदि ११ (ई० सं० १५६४ ता० १८ अगस्त)^२ तथा वि० सं० १६३६ आषाढ वदि ४ (ई० सं० १५७६ ता० १२ जून)^३ है । उसने देवलिया में वि० सं० १६३५

महारावत की राणिया
और सतति आदि

(१) प्रतापगढ़ राज्य-के बड़वे की ख्यात; पृ० ३ । अन्य राज्यों की बड़वे भाटों की ख्यातों की भांति प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात भी कल्पित नामों से शून्य नहीं है । उसमें दिये हुए राणियों, कुंवरों तथा कुंवरियों के नाम अन्य ख्यातों से नहीं मिलते । इसलिए सत्यासत्य का निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती है । उदाहरण के लिए महारावत तेजसिंह की राणियों के नामों में बड़वे की ख्यात में जो नाम दिये हैं, वे हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य की आई हुई अन्य ख्यात के नामों से नहीं मिलते एवं उसमें उक्त महारावत के पांच राणियां तथा कुंवर भानुसिंह और सिंहा के अतिरिक्त मनभावती नामक कुंवरी भी होना लिखा है, जिसका बड़वे की ख्यात में उल्लेख नहीं है ।

(२) दमाखेड़ी गांव का ब्राह्मण दामा के नाम का ताम्रपत्र । अवतरण के लिए देखो ऊपर पृ० १०० टिप्पण संख्या ३ ।

(३) मा (म) हाराज श्री रावत तेजसी (तेजसिंह) जी वचानातु (त्) म (मेह) ता माहव न (ने) गम (गाम) १ पट्टा करे दीधु वाणी सवत (संवत्) १६३६ वर्षे अषाढ (आषाढ) वद ४..... ।

मूल ताम्रपत्र की छाप से ।

प्रतापगढ़ के राजाओं के प्राप्त शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदि में सबसे पुराने उप-र्युक्त दोनों ताम्रपत्र हैं, जिनमें तेजसिंह की उपाधि 'रावत' और 'महाराज रावत' लिखी है । उसके उत्तराधिकारियों के भी कई लेखों में केवल 'रावत' और 'महाराज रावत' लिखा मिलता है, जिससे पाया जाता है कि उस समय वहां के राजाओं की सम्मान-सूचक उपाधि लिखने का कोई क्रम न था और लेखक जिस प्रकार चाहते लिखने थे ।

(ई० स० १५७८) में तेजसागर तालाव बनवाया। 'हरिभूषण महाकाव्य' में उसके संबंध में लिखा है कि वह वीर, उदार, और गुणग्राहक राजा था। उसके शत्रु उससे लड़ा डरते थे। वह विद्वानों का सत्संग करता था और उसकी राजधानी देवलिया समृद्ध थी।

(१) बभ्रुव वीकात्मजतत्प्रतापः श्रीतेजसिंहः प्रतिभूपशल्यः ।
 पवित्रकीर्तिर्महनीयमूर्तिः क्षत्राम्बुजानामिव चण्डभानुः ॥ २२ ॥
 भूमण्डलं तेन भृशं चक्रासे पुरन्दरेणैव पुरं सुराणाम् ।
 आनीरधि प्रोक्तटेजसेव महीभृता तेन वृतं समन्तात् ॥ २३ ॥
 अनेकभूपोत्तममौलिहीरनीराजितं पादयुगं विरेजे ।
 प्रतापशसिस्वभुजायुगस्य युगान्तचण्डांशुसमस्य तस्य ॥ २४ ॥
 अनेकवैरिव्रजसुन्दरीभिः संस्तूयमानो विनयेन वीरः ।
 आक्रुस्य सिंहासनमुग्रमूर्तिः स्थितः प्रतापानलतापितारिः ॥ २५ ॥
 दन्ताग्रदत्तस्वकराङ्गुलीभिः सालस्यविन्दुस्रवदीक्षणाभिः ।
 क्लेशात्प्रहारे स्वशिरोऽङ्गुलीनां प्रस्फोटनैस्त्वान्मुखांस्त्रुजाभिः ॥ २६ ॥
 अहो भवन्तं करुणा न वाधते प्रसाद एषो विधिदुर्लिपीनाम् ।
 घम्मिल्लचूडाश्रुतिभूपणानामित्थं वमौ त्वं शरणं कृपालो ॥ २७ ॥
 ववाध नालस्यमहो महीशं न चाधयस्तं परि पीडयन्ति ।
 बुधैरनैकैः स निनाय कालमखेदितः खैदितवैरिवर्गः ॥ २८ ॥
 चन्द्रः कलङ्की स कलङ्कहीनः क्षारः समुद्रो मधुराकृतिः सः ।
 स्थिरः सुराणां विटपी चलः सः कष्टोपमेयः स बभ्रुव भूपः ॥ २९ ॥
 वित्ते हि चित्तं न कदापि दत्तं लुब्धो गुणानां गुणदत्तदृष्टिः ।
 यस्तेजसिंहः कलिकल्पवृद्धो नापूरयद् दृष्टिगतं न कं कम् ॥ ३० ॥

सर्ग ६ ।

काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि प्रायः अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग

भानुसिंह

महारावत भानुसिंह, जिसको 'भाना' अथवा 'भवानीसिंह' भी कहते थे, विक्रम संवत् १६५० (ई० स० १५६३) में देवलिया की गद्दी पर बैठा ।

राज्य-प्राप्ति

ग्वालियर राज्य के जीरण और नीमच के परगने, जो इस समय मालवे में हैं, पहले मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत थे । महाराणा उदयसिंह और प्रतापसिंह के राज्य-काल में शाही सेना की चढ़ाइयों के समय वे महाराणा के हाथ से निकल गये और उनपर बादशाही अधिकार हो गया । वहां के शाही थानों पर बादशाह की तरफ से सय्यद लोग

भानुसिंह और शकावत जोधसिंह सीसोदिया के बीच विरोध होना

नियत हुए । महाराणा प्रतापसिंह की तरफ से रावत गोविंददास खंगारोत (बेगमवालों का पूर्वज) नउवे बाघरेड़े (बाठरडे ?) के थाने पर नियत था । वह सय्यदों से लड़कर मारा गया । वि० सं० १६४३ (ई० स० १५८६) में उक्त महाराणा ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया । उस (प्रतापसिंह) के पिछले समय में मेवाड़ पर बादशाही सेना का आक्रमण न हुआ, जिससे उसे अपने देश की स्थिति सुधारने का अवसर मिला और उसने विपत्ति के समय अपना साथ देनेवाले सरदारों आदि की सेवाओं के पवज़ में

करते हैं, जिससे काल पाकर वास्तविकता केवल कवि-कल्पना ही मान ली जाती है । ऐतिहासिक अंश अल्प होने पर भी वे घटनाओं को अपनी रचना में तिल का ताड़ बना कर दिखलाते हैं । कवि गंगाराम ने भी 'हरिभूषणमहाकाव्य' में ऐसा ही किया है, अतएव उक्त काव्य में महारावत तेजसिंह के विषय का जो वर्णन है, वह अति-शयोक्तिपूर्ण है और समय को देखते हुए महारावत तेजसिंह के समय के इतिहास के विपरीत है ।

उन्हें नये सिरे से जागीरें दीं। वि० सं० १६५३ (ई० स० १५६७) में उसका परलोकवास होने पर उसका पुत्र अमरसिंह (प्रथम) मेवाड़ का स्वामी हुआ।

महाराणा उदयसिंह के पौत्र और शक्तिसिंह के पुत्र जोधसिंह^१ ने उन दिनों महाराणा की आज्ञानुसार मोखण, कराड़िया, कुंडल की सादड़ी (छोटी सादड़ी) और जीरण के कुछ गांव ठेके पर लेकर अपने भाई बाघसिंह के साथ वहां रहना आरंभ किया^२। फिर महाराणा ने उसको नीमच और जीरण का पट्टा कर दिया^३। जोधसिंह वीर-प्रकृति का पुरुष था। क्रमशः अपना बल बढ़ाकर उसने देवलिया के गांवों को लूटना आरंभ किया और नीमच से भी वह चौथ मांगने लगा^४। इससे देवलिया के स्वामी भानुसिंह को भय हुआ कि वह देवलिया पर भी कभी दांत लगावेगा। निदान उसने जीरण के शाही फ़ौजदार को बहकाया कि जोधसिंह और बाघसिंह को तुम यहां क्यों रहने देते हो? वे बड़े आपत्तिकारक हैं और तुमको मार डालेंगे^५।

भानुसिंह के शाही अफ़सरों से मेल-मिलाप रखने की नीति से जोधसिंह पहले से ही असंतुष्ट था। भानुसिंह-द्वारा मंदसोर के शाही फ़ौजदार के अपने विरुद्ध भड़काये जाने की खबर पाकर वह क्रुद्ध हो गया और उसकी उस (भानुसिंह) से पूरी शत्रुता हो गई। मंदसोर के शाही फ़ौजदार ने, जो सत्यद था, जोधसिंह के विरुद्ध महाराणा अमरसिंह से शिकायत की, परंतु वहां जोधसिंह का प्रबल प्रभाव होने से उसके विरुद्ध होनेवाली शिकायतों

(१) इसके वंशधर कण्ठोटी (मेवाड़ !) के सरदार हैं।

(२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६५।

(३) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५६।

(४) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६५।

(५) वही, पृ० ६५।

की सुनवाई नहीं हुई^१। इसी बीच भानुसिंह भी महाराणा के पास पहुंचा और वहां एक दिन उसके तथा जोधसिंह के बीच दरबार में ही कहा-सुनी हो गई। महाराणा के समझाने से उस समय तो बात दब गई और भानुसिंह वहां से देवलिया^२ तथा जोधसिंह अपने निवासस्थान को लौट गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद जब जोधसिंह के उपद्रव में कमी न दीख पड़ी तब भानुसिंह मंदसोर के शाही फ़ौजदार मक्खनखां से मिला और दोनों ने अपनी सम्मिलित सेना-द्वारा जोधसिंह को दंड देना निश्चित किया। एक दिन वे दोनों पंद्रह सौ सवारों की भीड़-भाड़ के साथ जोधसिंह पर चढ़ गये। जोधसिंह भी अपने सौ सवारों और दो सौ पैदलों के साथ उनके सामने जा डटा। चीताखेड़े से कुछ दूरी पर एक घट वृक्ष के पास दोनों दलों में लड़ाई हुई, जिसमें सय्यद मक्खन और महारावत भानुसिंह जोधसिंह के हाथ से मारे गये, साथ ही जोधसिंह भी जीवित न बचा^३।

‘हरिभूषण महाकाव्य’ का कर्ता कवि गंगाराम अपने ग्रन्थ में महारावत तेजसिंह के पीछे सिंहा के देवलिया का स्वामी होने और सिंहा की तरफ़ से उसके पितृव्य भानुसिंह के मक्खन की सहायतार्थ शक्तावत जोधसिंह से युद्ध करने का वर्णन करते हुए जोधसिंह और मक्खन (मक्खनखां)

(१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६५ ।

(२) वीरविनोद; द्वितीय भाग; पृ० १०५६ ।

(३) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६५ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५६ । कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० ७६ । के० टी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० १६८ । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात (पृ० ३) में उस (भानुसिंह) का उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) के समय रणवीर (रणबाजप्रां) के साथ की लड़ाई में मारे जाने का उल्लेख है, जो बिल्कुल शलत है। उदयपुर का महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) इस घटना के लगभग सौ वर्ष पीछे वि० सं० १७६७ (ई० स० १७१०) में वहां का स्वामी हुआ था ।

के वीर गति प्राप्त करने का उल्लेख करता है^१; किंतु भानुसिंह के विषय में उसने मौन धारण कर लिया है। ख्यातों और प्रायः सब ही इतिहासवेत्ता तेजसिंह के भानुसिंह और सिंहा नामक पुत्र होना बतलाकर भानुसिंह

- (१) पुरा दशपुराधीशः खानो माखनभूपतिः ।
 चित्रकूटाधिनाथेन युयोध यवनेश्वरः ॥ २ ॥
 मिलिता हिन्दवः सर्वे युद्धाय समुपस्थिताः ।
 तान् विलोक्य तुरुष्केशः सिंहं चानुससार सः ॥ ३ ॥
 तत्पितृव्यो महावीरो भानुसिंहो ययौ रणे ।
 राणासेनाधिपं दृष्ट्वा योधशक्तावतं पुरः ॥ ४ ॥
 बभूव तुमुलं तत्र तयोरन्योन्यमाहवम् ।
 देवदानवगन्धर्वमुनिविस्मयकारकम् ॥ ५ ॥
 खड्गान्निष्कासयामासुः केऽपि चर्मधरा भटाः ।
 विस्फारं घनुषां मध्ये कुर्वाणाः समराजिरे ॥ ६ ॥
 विच्छिन्नबाहवः केऽपि परे मुद्गर-खण्डिताः ।
 एकनेत्राश्चैकपादा विचेलुस्त्वपरे भृशम् ॥ ७ ॥
 पट्टाणाः पातिताः सर्वे यवना अपि यापिताः ।
 मुद्गलाः सादितास्तत्र हप्सिनो निहता रणे ॥ ८ ॥
 सुमुचुः शक्तयः केऽपि मुशलान् लगुडोपलान् ।
 निहता यवनाः सर्वे योधशक्तावतेन ते ॥ ९ ॥
 तोत्रा तोवेति कुर्वाणा भानुसिंहमुपाययुः ।
 मारयन्ति समुक्त्वेऽतिसहाये त्वयि तिष्ठति ॥ १० ॥
 तेषामिति वचः श्रुत्वा खड्गमाकृष्य निर्ययौ ।
 योधमाकारयन्वीरो युगान्तदहनोपमः ॥ ११ ॥
 रुधिरस्रावसञ्जाता वाहिन्यो वाहिता भृशम् ।
 मुण्डकूर्मकवन्धोग्रमद्गुरासिम्भषाकुलाः ॥ १२ ॥

को तेजसिंह का उत्तराधिकारी बतलाते हैं। स्वयं भानुसिंह के वि० सं० १६५१ और १६५२ के ताम्रपत्र मिल चुके हैं। ऐसी अवस्था में गंगाराम का यह कथन कि तेजसिंह के पीछे सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ तथा भानुसिंह, सिंहा का चाचा (तेजसिंह का भाई) था और वह सिंहा की तरफ से जोधसिंह से युद्ध करने गया, स्वीकार करने योग्य नहीं है। नैणसी की ख्यात में, जो प्राचीनता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है,

क्रापि बुम्बारवाः पेतुः क्रापि भीममहारवाः ।
 करिणां गर्जितं क्रापि क्रापि ढक्राघनस्वनाः ॥ १३ ॥
 इति घेरे रणे जाते योधशक्तावतः स्वयम् ।
 युयोध भानुना वीरः सानुमानिव चञ्चलः ॥ १४ ॥
 युध्यमानान् रणे दृष्ट्वा पातयामास तद्गटान् ।
 मृगानां कुलमासाद्य समन्युरिव केसरी ॥ १५ ॥***
 युध्यमानं रणे भानुं दृष्ट्वा योधः समागतः ।
 परस्परमभूद् युद्धं दारुणं वीरयोस्तयोः ॥ २३ ॥
 आदौवारणैस्ततः प्रासैरसिभिस्तदनन्तरम् ।
 पश्चात् कट्टारकैर्युद्धं तयोरिव तयोरभूत् ॥ २४ ॥
 तच्छत्रं भानुना वारणैश्छिन्नं योधोऽपितद्ध्वजम् ।
 उभौ चिच्छिदतुः सद्यः सस्वनं घनुषोर्गुणम् ॥ २५ ॥***
 खड्गमाकृष्य चिच्छेद प्रासं भानुकरस्थितम् ।
 सोऽपि खड्गक्षतं तस्मायुपवीतोचितं ददौ ॥ २७ ॥
 पश्चात्कट्टारिकाघातैः पातितः समराङ्गणे ।
 योधशक्तावतो वीरो गतासुरगताभिधः ॥ २८ ॥
 माखनः खनिमापन्नः शक्त्या योधेन संहतः ।
 राहूरिव पपातोर्व्यां कृष्णेनेव पुरा रणे ॥ २९ ॥

सप्तम सर्ग ।

शक्तावत जोधसिंह के साथ होनेवाले युद्ध में भानुसिंह के मारे जाने का स्पष्ट उल्लेख है। जीरण में उस(भानुसिंह)की स्मारक छत्री बनी हुई है। उसके लेख में भी शक्तावत जोधसिंह के साथ होनेवाले युद्ध में उसके मारे जाने का उल्लेख है। अतएव भानुसिंह का उसी युद्ध में मारा जाना अधिक माननीय है। प्राचीन पंरपरा का अनुयायी होने से गंगाराम ने अपने काव्य में दुःखान्त प्रसङ्ग को जान-बूझकर छोड़ दिया है और देवलिया के स्वामी बाघसिंह, भानुसिंह तथा जसवंतसिंह (जो युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए) के देहांत पर मौन साध लिया है। इसी प्रकार उसने वहां के अन्य नरेशों की भी मृत्यु-वार्ता का उल्लेख नहीं किया, जिससे कहा जा सकता है कि उसने अपने इस काव्य को सुखान्त बनाने का ही लक्ष्य रखा हो।

‘वीरविनोद’ में भी इस युद्ध का वर्णन है, परंतु वहां इस घटना का कोई समय नहीं दिया है, परन्तु महारावत भानुसिंह की छत्री के लेख में वि० सं० १६५४ (ई० स० १५६७) के मार्गशीर्ष^२ में उसका शक्तावत जोधसिंह

(१) द्वितीय भाग, पृ० १०५६ ।

(२) ...मा(महा)राजा धी(धि)राज मा(म)हारावतजी श्री भानाजी देवल्या राजा(जां)रा.....मुना पदराया.....जोद (घ)सीघ(सिंह)जी सग.....या दसोर (मंदसोर).....रजवाड़ दली (दिल्ली) तप (पे) पातसा.....अकबरजी उदेपुर तप (पे) राणा अमरसीघ(सिंह)जी समत (सम्बत्) १६ सौ ५४ सा के (शके) १५१ [६] परवतमानमती अग दीतवार.... ।

मूल लेख की छाप से ।

मेवाड़ का महाराणा अमरसिंह (वीरशिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह का ज्येष्ठ पुत्र), महाराणा प्रताप का परलोकवास होने पर वि० सं० १६५३ माघ सुदि ११ को राजगढ़ी पर बैठा था। समयक्रम पर विचार करने से यह घटना महाराणा अमरसिंह- (प्रथम) के प्रारंभिक समय की हो सकती है।

के साथ होनेवाले युद्ध में काम आना लिखा है। ऐसी दशा में महारावत भानुसिंह का परलोकवास वि० सं० १६५४ के मार्गशीर्ष (ई० स० १५६७ नवंबर अथवा दिसंबर) मास में होना ठीक जान पड़ता है। इसके विरुद्ध ख्यातों तथा प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर में उसका देहांत वि० सं० १६६० (ई० स० १६०३) में होना लिखा है, जो स्वीकार करने के योग्य नहीं है; क्योंकि ख्यातों आदि के संवत् बहुधा कल्पित हैं और पीछे से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर दिये गये हैं।

सर जॉन मालकम अपनी 'रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्स ऑव् मालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स' (कलकत्ता गवर्नमेंट ऑव् इंडिया सेंट्रल पब्लिकेशन ब्रांच—पृ० २२४) में लिखता है कि प्रतापगढ़ राज्य के संस्थापक जीजा रावल का (जिसको शाहजहाँ के समय में मालवे के मुसलमान अफ़सरों की सिफ़ारिश से जागीर मिली थी) पुत्र भीमा रावल मंदसोर के आमिलदार की सहायतार्थ लड़कर मारा गया। वही उसने टिप्पण में सादड़ी के सरदार सूरजमल के मांडू के सुलतान अलाउद्दीन के पास जाने और फिर उसके पुत्र बाघ रावल के चित्तौड़ की रक्षार्थ काम आने एवं उस(बाघ रावल)के पुत्र बायसिंह के पुनः सादड़ी लौट जाने और उसके पुत्र का नाम जीजा रावल होने का उल्लेख किया है। ये सब कथन इतिहास की कसौटी पर निर्मूल ठहरते हैं। मांडू में अलाउद्दीन नाम का कोई सुलतान नहीं हुआ। सूरजमल ने मेवाड़ के विरुद्ध मांडू (मालवा) के सुलतान नासिरुद्दीन की सहायता कर महाराणा रायमल और उसके कुंवर पृथ्वीराज से युद्ध किया था, जिसका वर्णन ऊपर (पृ० ६२-५ में) किया गया है। प्रतापगढ़ के राजाओं की उपाधि 'रावल' न होकर 'रावत' है एवं वहां 'बायसिंह', 'जीजा' और 'भीमा' नाम के

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, पृ० ३। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० ५। कैप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० ७६। मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० १६८। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०२६।

कोई राजा नहीं हुए। बायसिंह रायसिंह का, जीजा बीका (विक्रमसिंह) का, और भीमा तथा भाना भानुसिंह के सूचक हो सकते हैं। इसी प्रकार मालकम का यह कथन कि भीमा अथवा भाना (भानुसिंह) बाघसिंह के पौत्र जीजा अर्थात् बीका (विक्रमसिंह) का पुत्र था निर्मूल है। उक्त रिपोर्ट में दिये हुए प्रतापगढ़ के राजाओं के नाम बायसिंह, जीजा और भीमा अशुद्ध हैं और उसमें दी हुई घटनाएं भी ठीक नहीं हैं। बाघसिंह अकबर की चित्तौड़ पर चढ़ाई होने के तीस वर्ष पूर्व बहादुरशाह की चित्तौड़ की चढ़ाई के समय मेवाड़वालों की तरफ से लड़कर मारा गया था। उक्त रिपोर्ट के अध्ययन करने से प्रकट होता है कि सर जॉन मालकम ने अपनी रिपोर्ट लिखते समय पूर्व-वृत्तांत लिखने में सत्यासत्य की अधिक खोज नहीं की।

महारावत भानुसिंह के वि० सं० १६५१ और १६५२ के निम्नलिखित दो ताम्रपत्र मिले हैं—

महारावत भानुसिंह के
ताम्रपत्र

(१) वि० सं० १६५१ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० सं० १५६४ ता० २४ अक्टोबर) का जोशी श्रीकंठ के नाम का सेवली गांव का ताम्रपत्र, जिसमें उपर्युक्त गांव जोशी श्रीकंठ को कृष्णार्पण करने और ताम्रपत्र महारावत के कोठारी चाचा की आज्ञा से पंचोली केशवदास-द्वारा लिखे जाने का उल्लेख है^१।

(२) वि० सं० १६५२ आषाढ सुदि १ (ई० सं० १५६५ ता० २८ जून) का जोशी नारायण के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत तेजसिंह के अंतिम समय में अमलावदा गांव में संकल्प की हुई पैंतीस बीघा भूमि दान करने का उल्लेख है और दुआ देनेवाले का नाम कोठारी शामिल

(१) श्री महाराज श्री राउत श्री भवानीसिंहजी वचनातु जोसी सीरीकंठ हैमौ० जौ सेवली अघाट करीदीधो.....संवत् १६५१ वरषे मागसर वदि ५.....।

एवं लेखक का नाम पंचोली नेता दिया है^१ ।

बड़वे की ख्यात में महारावत भानुसिंह के केवल एक ही राणी लिखी है और उसका नाम भगवतकुवरी देकर उसको ईडर के राव नारायणदास की पुत्री लिखा है एवं उसका पुत्र महारावत की राणियां सिंहा बतलाया है^२; किंतु एक दूसरी पुरानी ख्यात में उसके दो राणियां एक चौहान वाला की पुत्री समुद्रकुंवरी और दूसरी सोलंकी माला की पुत्री मानकुंवरी होना लिखकर उक्त सोलंकिणी राणी के उदर से कमलकुंवरी और पेपकुंवरी नामक पुत्रियां होने का उल्लेख है^३ । ख्यातों की परस्पर विभिन्नता को देखते हुए इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में दिया हुआ महारावत भानुसिंह के सिंहा नामक पुत्र होने का कथन ठीक नहीं है; क्योंकि उसमें ही महारावत तेजसिंह के प्रसङ्ग में सिंहा को तेजसिंह का पुत्र बतलाया है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । मुंहणोत नैणसी की ख्यात में तथा अन्यत्र^४ सिंहा को तेजसिंह का पुत्र लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि सिंहा भानुसिंह का छोटा भाई था । वह महारावत भानुसिंह के पीछे देवलिया का स्वामी अर्थात् भानुसिंह का उत्तराधिकारी हुआ । राजपूताना के राज्यों में जब बड़े भाई के पीछे छोटा भाई गद्दी पर

(१) महाराज श्री रावत भानजी वचनातु जोसी नराणजी जोग आप्रच । मु वीगा ३५) आके पैतीस रावतु श्री तेजसीजी रे आतर सभ्यरा उदक करी थी, ज्या गाम अमलावदा मांहे.....उदक आघाट तांवापत्र करे दीधी...समत १६५२ वरषे आसड़सुद १... ।

ताम्रपत्र की छाप से ।

(२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ३ ।

(३) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ५ ।

(४) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६५ । वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५७ ।

बैठता है, तब चारण और भाट उस(बड़े भाई)को पिता के स्थान पर मानकर गद्दी बैठनेवाले छोटे भाई को आशीष देते हैं । इसी क्रम से प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में सिंहा को भानुसिंह का पुत्र लिखा गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है ।

महारावत भानुसिंह का भी और कोई वृत्तांत नहीं मिला, जिससे उसके जीवन पर विशेष प्रकाश पड़े । उसके संबंध का जो वृत्तांत ऊपर लिखा गया है, उससे तो यही प्रकट होता है कि वीर और दानी होने के साथ ही वह अदूरदर्शी था । वह कुछ ही वर्ष राज्य करने के उपरांत मारा गया ।

महारावत भानुसिंह
का व्यक्तित्व

मेजर के० डी० अर्सकिन ने उसके समय में शाही अफसर महावतख़ां के देवलिया में जाकर रहने का उल्लेख किया है^१, परंतु घटनाक्रम पर विचार करने से यह कथन ठीक नहीं जंचता; क्योंकि भानुसिंह, मुगल सम्राट् अकबर का समकालीन था और उसके जीवनकाल में ही वह मारा गया । फ़ारसी तबारीख़ों में बादशाह अकबर के समय महावतख़ां नाम के किसी सेनापति के विद्रोही होने का उल्लेख नहीं है । जहांगीर के पिछले समय में उसके प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष महावतख़ां ने बादशाह से विद्रोहाचरण किया था, जिसका हम महारावत सिंहा के प्रसङ्ग में वर्णन करेंगे ।

सिंहा

महारावत भानुसिंह का देहांत होने पर वि० सं० १६५४ (ई० स० १५९७) में उसका छोटा भाई सिंहा देवलिया के राज्य-प्राप्ति राज्य-सिंहासन पर बैठा^२ ।

(१) मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़, पृ० १६८ ।

(२) ऐसी भी जनश्रुति है कि जब भानुसिंह, जोधसिंह से युद्ध करता हुआ जीरण के पास काम आया, उस समय उसका छोटा भाई सिंहा अपने ननिहाल में था । उसकी अनुपस्थिति का अवसर पाकर महारावत विक्रमसिंह(वीका) का पौत्र और कृष्णदास(किशनदास) का पुत्र सांवलदास, जिसके क्वांतला की जागीर थी और जो

मुगल बादशाहत की अधीनता स्वीकार न करने से मेवाड़ के महाराणाओं से बादशाह अकबर असंतुष्ट रहा और उनपर शाही सेना के महाराणा अमरसिंह का आक्रमण जारी थे, ऐसे समय में भानुसिंह के महारावत के लिए टीका भेजना मक्खनखां की सहायतार्थ काम आने से विरोध बढ़ने की संभावना देख महाराणा अमरसिंह ने उस- (भानुसिंह)के भाई सिंहा को गद्दीनशीनी का टीका भेज आश्वासन के रूप में कहलाया कि भानुसिंह और जोधसिंह दोनों हमारे भाई ही मरे हैं । अब जोधसिंह के पुत्र नाहर और भाखरसी का जिन गांवों पर अधिकार है उनमें किसी प्रकार का दखल न देना^१ । इसपर सिंहा ने अपनी स्थिति पर विचार कर महाराणा की बात मान ली और जोधसिंह के पुत्रों से कोई छेड़-छाड़ न की । बादशाह अकबर ने उधर का अच्छा बंदोबस्त करने के लिए जीरण और नीमच की जागीर रामपुरा के सीसोदिया राव दुर्गा को, जो शाही सेवक बन गया था, प्रदान कर दी^२ । उसका महाराणा से भी मेल था, इसलिए उसने महाराणा को कुछ गांव देकर उसका समाधान कर दिया^३ । तदनन्तर भानुसिंह के मंदसोर के शाही सेनाध्यक्ष मक्खनखां की सहायतार्थ मारे जाने से बादशाह जहांगीर के समय इस सेवा के पुरस्कार में महारावत सिंहा

देवलिया-राज्य का सारा राज्य कार्य करता था, सरदारों आदि को मिलाकर वहां का स्वामी बन बैठा । जब सिंहा को भानुसिंह की मृत्यु और सांवलदास की राज्य-प्राप्ति का समाचार मिला तो वह परिस्थिति को अपने विरुद्ध देख कुछ समय के लिए चुप हो बैठा । फिर उसने धमोतर के सरदार को अपनी ओर मिलाकर कुछ समय बाद एक दिन छल से देवलिया में प्रवेश किया और वहां अधिकार कर लिया । फिर उसके पक्षवाले सरदारों ने सांवलदास को मार डाला और उसके वंशजों से भांतला की जागीर छीन ली । संभव है कि सांवलदास ने सिंहा की अविद्यमानता का अवसर पाकर देवलिया का राजा बनने की चेष्टा की हो और उसी में उसका प्राणांत हुआ हो । जब तक इस विषय का कोई अन्य प्रमाण न मिले इस सबध में अधिक प्रकाश नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ख्यातों में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है ।

(१) मुंहखोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६५-६ ।

(२) वही, पृ० ६५-६ ।

को कुंडाल का परगना जागीर में प्राप्त हुआ^१ ।

बादशाह अकबर की महाराणा प्रतापसिंह को अधीन बनाने की कामना सफल नहीं हुई। फिर उक्त महाराणा के देहांत के पीछे उसके

वसाह और अरणोद परगने उत्तराधिकारी महाराणा अमरसिंह (प्रथम) पर
का फरमान कुवर कर्ण- वि० सं० १६५७ (ई० स० १६००) में बादशाह
सिंह के नाम होना ने अपने शाहज़ादे सलीम (जहांगीर) को भेजा;

किंतु वह असफल होकर लौटा। तदनन्तर वि० सं० १६६० (ई० स० १६०३) में बादशाह ने पुनः शाहज़ादे को मेवाड़ पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी, किन्तु पहली बार के आक्रमण की कठिनाइयों का स्मरण कर वह किनारा कर गया। वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में बादशाह अकबर की मृत्यु हुई और उसके स्थान पर शाहज़ादा सलीम बादशाह हुआ। उसने अपने पिता के मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट करने के संकल्प को पूरा करने की इच्छा से उसी वर्ष अपने शाहज़ादे परवेज़ की अधीनता में एक बड़ी सेना उधर रवाना की। महाराणा ने शाही सेना का बड़ी वीरता से मुकाबला किया, जिससे शाहज़ादा परास्त होकर लौटा। बादशाह ने अपनी सेना के असफल होकर लौटने पर कई बार मेवाड़ पर सेनाएं भेजी, परंतु महाराणा इससे निराश न हुआ और लड़ता ही रहा। अंत में बादशाह ने वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में शाहज़ादे

(१) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन ख्यात; पृ० ६। सर जॉन मालकम ने 'रिपोर्ट ऑन दि प्रोविंस ऑफ् मालवा एंड एड्ज्वॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स (पृ० २२४)' में लिखा है कि इस घटना के बदले में बादशाह की तरफ से १२ गांव उस (भानुसिंह) के पुत्र जसवंतसिंह को दिये गये। सर जॉन मालकम के उपर्युक्त लेख से ख्यात के कथन की बहुत कुछ पुष्टि होती है, परंतु वहां जसवंतसिंह को भीमा (भानुसिंह) का पुत्र वतलाया है, जो ठीक नहीं है। भीमा (भानुसिंह) नि.संतान मरा था और उसके पीछे उसका भाई सिंहा देवलिया का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र जसवंतसिंह था, यह निश्चित है। महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था। अतएव उपर्युक्त कुंडाल की जागीर अर्थात् १२ गांव, जिनका सर मालकम ने उल्लेख किया है, बादशाह जहांगीर-द्वारा महारावत सिंहा को मिलना ही संभव है।

खुर्रम (शाहजहां) को एक बड़ी सेना के साथ महाराणा पर खाना किया। शाहजहां ने मेवाड़ में पहुंचकर चारों तरफ के नाके-घाटे बंद कर दिये और रसद का जाना भी रोक दिया। उसने मुख्य-मुख्य स्थलों पर सुदृढ़ धाने नियत कर महाराणा को घेर लिया, तो भी महाराणा ने शाही सेना से मुकाबला करना न छोड़ा। वह इस आपत्ति से बिलकुल न घबराया और यथा-साध्य लड़ता ही रहा। शाही सेना की लगातार चढ़ाइयों से महाराणा के सरदारों की संख्या घटती जाती थी और उन्हें भय होने लगा कि शाही सेना-द्वारा घिरकर वे मारे जावेंगे तथा उनके बाल-बच्चे पकड़ लिये जावेंगे। इस डांवा-डोल स्थिति को देख सरदारों ने महाराणा के कुंवर कर्णसिंह की सलाह लेकर शाहजहां के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसके स्वीकार होने पर महाराणा के सामने यह बात प्रकट की गई। महाराणा को विवश होकर अपनी इच्छा के विरुद्ध यह बात स्वीकार करनी पड़ी और ज्येष्ठ राजकुमार को शाही दरवार में भेजने की मुख्य शर्त पर वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१५) में संधि हो गई। फिर शाहजहां खुर्रम, कुंवर कर्णसिंह को लेकर बादशाह के पास गया, जिसने उसका बड़ा सम्मान किया और मेवाड़ से गये हुए इलाकों के अतिरिक्त रतलाम, वसाड़, अरणोद, झुंजरपुर, बांसवाड़ा आदि का फरमान भी ता० २२ रबीउस्सानी हि० स० १०२४ (वि० सं० १६७२ ज्येष्ठ वदि ६ = ई० स० १६१५ ता० ११ मई) को उक्त कुंवर के नाम कर दिया^१।

बादशाह जहांगीर के पिछले समय में उसका शाहजहां खुर्रम तो बारी हो ही रहा था, परंतु कई कारणों से अपने प्रधान सेनापति महावतखान पर भी बादशाह की नाराजगी हो गई। उसका खजाना जप्त कर लिया गया एवं खानखाना को अजमेर का सूबा जागीर में दिया जाकर वि० सं० १६८३

महावतखा का देवलिया में जाकर रहना

(१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० १, पृ० ५०३। मूल फरमान के लिए देखो धीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० २३६-४६।

(२) मुंशी देवीप्रसाद, जहांगीरनामा, पृ० ५८८-६।

(ई० स० १६२६) के लगभग वह महावतख़ां को मारने के लिए नियुक्त किया गया। इसपर महावतख़ां प्राण-रक्षा के लिए इधर-उधर भटकने लगा। उसके उदयपुर-राज्य के पहाड़ों में होकर देवलिया पहुंचने पर महारावत सिंहा ने उसको सम्मान-पूर्वक अपने यहां रक्खा^१ और प्रसिद्ध है कि देवलिया से विदा होते समय उसने महारावत को इस सौजन्य के बदले में एक अंगुठी भेंट की^२, जिसका मूल्य साठ हजार रुपये के लगभग था।

फ़ारसी तवारीख़ों से यह ज्ञात नहीं होता कि महावतख़ां बादशाह की अप्रसन्नता होने पर कहां-कहां रहा था, परंतु उसका राजपीपला के मार्ग से दक्षिण में जाने का 'हिस्ट्री ऑफ़ जहांगीर'^३ और 'जहांगीरनामे'^४ में भी उल्लेख मिलता है। इससे अनुमान होता है कि वह मालवे की तरफ़ होता हुआ ही दक्षिण में शाहज़ादे खुर्रम के पास गया था। देवलिया मालवे से मिला हुआ है। पहाड़ी प्रांत होने से वह सुरक्षित स्थान समझा जाता है तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ़ जाते समय मार्ग में पड़ता है। इसलिए पहाड़ी मार्ग से होते हुए उसका देवलिया की तरफ़ जाना और वहां महारावत का आश्रय पाना संभव है। पहाड़ी प्रदेश होने तथा वहां का जलवायु ख़राब होने से मुसलमानी सेना का उस ओर कम ही जाना होता था। महावतख़ां का देवलिया में रहने का कथन महारावत प्रतापसिंह के समय बनी हुई 'प्रतापप्रशस्ति' (खंडित काव्य) में भी है, जो इस घटना के

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५७। 'वीरविनोद' में महावतख़ां का महारावत जसवंतसिंह के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है। महावतख़ां वि० सं० १६८३ में विद्रोही हुआ था। उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था, जैसा कि ग़यासपुर की बग़जारों की बावड़ी के शिलालेख से प्रकट है। महारावत सिंहा बादशाह जहांगीर का समकालीन था, इसलिए उसके समय में ही महावतख़ां का देवलिया में रहना संभव है।

(२) वीरविनोद (द्वितीय भाग, पृ० २८६) में भी महावतख़ां-द्वारा अंगुठी देने का उल्लेख है।

(३) डॉक्टर वेनीप्रसाद-कृत, पृ० ४३०।

(४) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० ५६६।

लगभग पचास वर्ष पीछे की बनी हुई है। ऐसी स्थिति में महारावत सिंहा के समय ही महावतखां का देवलिया में रहने का कथन विश्वसनीय है^१। इसके विरुद्ध मेजर के० डी० अर्सकिन-कृत 'गेज़ेटियर ऑफ़ प्रतापगढ़' में महावतखां का महारावत भानुसिंह के समय देवलिया में रहने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है^२।

'वीरविनोद' में महारावत सिंहा का वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में देहांत होना लिखा है^३; किन्तु गयासपुर की बावड़ी के वि० सं० १६८४ वैशाख सुदि ३^४ (ई० स० १६२७ ता० ८ अप्रैल) के शिलालेख से उसका उक्त संवत् तक विद्यमान होना पाया जाता है। उदयपुर के महाराणा राजसिंह के बनवाये हुए राजसमुद्र तालाब के 'राजप्रशस्ति'-नामक बृहत् काव्य और 'अमरकाव्य' में महाराणा जगतसिंह (प्रथम) के प्रसङ्ग में उक्त

महारावत सिंहा का
परलोकवास

(१) श्रीमत्सूरकुले प्रतापनृपतिर्दाता न चित्रं पुरा

श्रीसिंहप्रपितामहेन शरणं संरक्षितं साहतः ।

श्रेष्ठो भोवतखान एव वसुधानाथान्नवापप्रभोः ।

शाजानात्सुखमापतुष्टिमधिकां कीर्तिं पृथिव्यां नृपः ॥ ८ ॥

प्रताप-प्रशस्ति (खंडित काव्य) ।

उपर्युक्त श्लोक में उल्लिखित 'भोवतखान नवाप', 'महावतखां' का और 'शाजान', 'बादशाह शाहजहां' का सूचक है।

(२) देखो ऊपर पृ० ११८ ।

(३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५७ ।

(४)सवत (संवत्) १६८४ वर्षे वेसष (वैशाख) सुदि ३ राउत श्रीसिंघा अघेह श्रीग्यासपा (पु) रग्रामे तीर्थे वावयं । राउत सेघो (सिंघा) विजयराज्ये आभ्यन्तर वणजारा जातीय नायक गिरो ॥

मूल शिलालेख की नकल से ।

महाराणा का महारावत जसवंतसिंह के समय देवलिया पर सेना भेजने का वर्णन वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) की घटनाओं में हुआ है, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। ऐसी स्थिति में महारावत सिंहा का घरलोकवास वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) के लगभग मानना पड़ेगा और ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की तथा वहां से प्राप्त एक दूसरी पुरानी ख्यात से भी पाया जाता है^१।

बड़वे की ख्यात में महारावत सिंहा के १३ राणियां और दो कुंवर जसवंतसिंह तथा जगन्नाथसिंह होने का उल्लेख है^२। एक दूसरी ख्यात में राणियों की संख्या तो उतनी ही दी है, परंतु उनके एवं उनके पिता आदि के नाम बड़वे की ख्यात से नहीं मिलते। उसके कुंवरों के नाम जसवंतसिंह, जगन्नाथसिंह, माधवसिंह और पुत्रियों के नाम लदाकुंवरी, राजकुंवरी^३ तथा सामंत-

महारावत की राणिया
और सतति

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ४। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० ६।

(२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ४। जगन्नाथसिंह के वंशजों में नागदी का ठिकाना है।

(३) तेजसुतसिंहकी सुता सो तीजी सीसोदनी ॥

व्याह्यो राजकुमरि प्रतापगढ़ लग्नकाल ॥

कर्मवती नाम एक कन्या भई ताकै पीछै,

व्याह्यो जसवंत जाहि जोघपुरको नृपाल ॥ १४ ॥

वंशभास्कर; पृ० २५५६।

राजकुंवरी की वनचार्ह हुई वृंदी में नाहर कौंस नाम की बावड़ी है। उसमें वि० सं० १७०१ वैशाख वदि १ (ई० स० १६६४ ता० १ अप्रैल) का निम्नलिखित शिलालेख लगा हुआ है—

.....संवत १७२१ वैशाख वदि १ महाराजाधिराज हाड़ा दिवाण रावजी श्रीसत्रसाल (शत्रुसाल) जी की राणीजी श्रीसीसोदणीजी राजकुंवरीजी रावतजी श्रीसीघोजी गढ़ देवल्याको घणी तीकी बेटी नै

कुंवरी दिये हैं'। बूंदी राज्य के मिश्रण कवि सूर्यमल-रचित 'वंशभास्कर'-नामक वृहद् ग्रंथ से उसके गंगाकुंवरी नामक पुत्री का होना भी पाया जाता है, जिसका विवाह वहां के राव भोज के पुत्र मनोहरदास से हुआ था^२।

महारावत सिंहा का अधिक इतिहास उपलब्ध नहीं होता। उसके समय के केवल नीचे लिखे दो लेख मिले हैं, जिनसे उसका समय निश्चित करने के अतिरिक्त और कुछ इतिहास प्रकट नहीं होता है—

(१) वि० सं० १६७६ कार्तिक सुदि ११ (ई० स० १६२२ ता० ४ नवंबर) सोमवार का जोशी ईसरदास के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें बहु राठोड़ तथा बहुरणी खानण का ३१ बीघा भूमि सूर्य-ग्रहण के अवसर पर दान करने का उल्लेख है^३।

बाग बावडी करि परनाया ई राणीजी कै बेटी बाइ करमैतीजी त्या परणाइ छै गढ जोधपुर को धणी महाराजाजी श्रीजसवंतसिधजी राठोड़
..... ।

मूल शिलालेख की छाप से।

(१) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात, पृ० ६।

(२) ...क्रम दुव व्याह मनोहर के किय,

तैह प्रभु राम सुनहु जिम जे किय ॥ ६६ ॥

सीसोदनि प्रथम सिंहसुता

जो गंगा अभिघान गुनजुता... ॥ ६७ ॥

पृ० २४३१-३२।

(३) महाराज श्रीरावत सीगाजी वचनातु जोसी इसरदास योग्य अप्रंच खेत वीगा ३१ अंके अकतीस दीदा जेरी वगत खेत वीगा ११ बहुजी राठोड़ कमल्या महे दीदा खेत वीगा २० बहुजी रणी धानण महे घर पेती रु भडा सो दीदो अणी वगते वीगा ३१ सुरजपरब महे दीदा उदक अघाट कर दीदां मारा वंसरो कोही कद करसी नहीं स्वदत परदत

(२) वि० सं० १६८४ वैशाख सुदि ३ (ई० सं० १६२७ ता० ८ अप्रैल) का गयासपुर की बावड़ी का शिलालेख, जिसमें महारावत सिंहा के समय आभ्यन्तर बणजारा जाति के नायक गिरा-द्वारा उक्त बावड़ी के बनवाये जाने का उल्लेख है^१ ।

महारावत सिंहा नीतिमान राजा था और वह युद्ध की अपेक्षा मेल को अधिक पसंद करता था । मेवाड़ और देवलिया राज्यों की सीमा मिली हुई होने से समय-समय पर सीमा-संबंधी बखेड़े हो जाते थे; पर महारावत सिंहा ने बुद्धिमत्ता से कोई झगड़ा बढ़ने न दिया और मेवाड़ के महाराणाओं से मेल रख अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ की । उसके किसी युद्ध में भाग लेने के उदाहरण देखने में नहीं आये । उसने बादशाह जहांगीर के कोप-भाजन सरदार महावतखानों को अपने यहाँ रखकर शरणागतवत्सलता का परिचय दिया । मुंहणोत नैणसी की ख्यात से यह अधिक पाया जाता है कि उसने सोनगरे चौहानों से ८४ गांव छीन लिये थे^२ । उसने शाही दरबार से अपना संपर्क न बढ़ाया । यदि वह अन्य राजपूत नरेशों की भांति शाही दरबार से सम्बन्ध बढ़ाता, तो बहुत कुछ लाभ उठा सकता था ।

जसवंतसिंह

महारावत सिंहा का देहांत होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतसिंह वि० सं० १६८५ (ई० सं० १६२८) के लगभग देवलिया-राज्य का स्वामी हुआ^३ ।

राज्य-प्राप्ति

वा यो हरेत वसुधरा षष्ठी वष सहस्राणी वीष्टायां जायते करमी संवत् १६७६ वरषे काती सुद ११ वार चोम दीने..... ।

मूल ताम्रपत्र की छाप से ।


(१) मूललेख के लिए देखो ऊपर पृ० १२३ टि० ४ ।

(२) मुंहणोत नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६३ ।

(३) महारावत जसवंतसिंह के नाम का एक ताम्रपत्र वि० सं० १६७३ वैशाख



महारावत जसवंतसिंह



वादशाह जहांगीर से वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१५) में संधि होने के पीछे उदयपुर का महाराणा अमरसिंह (प्रथम) पांच वर्ष तक उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) से महारावत का विरोध होना जीवित रहा । उसको वादशाह से संधि करने से इतनी ग्लानि हुई कि उसने राज्य-भार अपने ज्येष्ठ राजकुमार कर्णसिंह को सौंपकर एकांत-वास स्वीकार कर लिया । वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२०) में उसका देहांत होने पर कुंवर कर्णसिंह महाराणा हुआ । उसने अपना समय देश को समृद्ध करने में लगाकर अन्य बाहरी राज्यों से छेड़-छाड़ न की । वि० सं० १६८४ कार्तिक वदि ३० (ई० स० १६२७ ता० २८ अक्टोबर) को वादशाह जहांगीर का देहांत हो गया और उसका पुत्र खुर्रम, शाहजहां नाम से वादशाह हुआ । उसी वर्ष के फाल्गुन (ई० स० १६२८ मार्च) मास में महाराणा कर्णसिंह का भी परलोकवास हो गया और उसका कुंवर जगतसिंह उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ । वादशाह जहांगीर के पिछले दिनों में शाहज्जादगी के समय खुर्रम विद्रोही होकर उदयपुर में रहा था, इसलिए महाराणा जगतसिंह (प्रथम) वादशाह शाहजहां को अपने अनुकूल समझ राज्यसिंहासन पाते ही वादशाह जहांगीर के वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१५) के फ़रमान के अनुसार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के राज्यों को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु उन (डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के राज्यों) को महाराणा के अधीन होना स्वीकार न था, इसलिये वे अपने-

वदि ३० (ई० स० १६१६ ता० ६ अप्रैल) का मिला है, जिसमें जोशी श्रीकंड को अरण्योद गांव में ज़मीन बीघा ३५ पैंतीस मंदाकिनी पर सूर्य-ग्रहण में दान देने का उल्लेख है । इस ताम्रपत्र में वैशाख वदि ३० को सोमवार लिखा है, परंतु उस दिन सोमवार नहीं, शनिवार था और सूर्य ग्रहण भी न था । ग़यासपुर की बावड़ी के वि० सं० १६८४ वैशाख सुदि ३ (ई० स० १६२७ ता० ८ अप्रैल) के शिलालेख से प्रकट है कि उस समय महारावत सिंहा विद्यमान था । ऐसी अवस्था में उस शिलालेख से ११ वर्ष पूर्व जसवंतसिंह (सिंहा का पुत्र) महारावत नहीं हो सकता एवं वार और ग्रहण का मिलान न होने से इस ताम्रपत्र की वास्तविकता में संदेह है ।

अपने राज्यों का कुंवर कर्णसिंह के नाम फ़रमान होने के समय से ही शाही दरबार से अपना पृथक् संबंध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे। महारावत सिंहा के देहांत के पीछे शाहजहां के राज्य-काल में महारावत जसवंतसिंह भी दरबार में महाबतख़ां की प्रधानता समझ महाराणा की इच्छा के विरुद्ध चलने लगा, क्योंकि बसाड़ और अरणोद के परगने कर्णसिंह के नाम लिखे जाने से वह (जसवंतसिंह) मेवाड़वालों से प्रसन्न न था।

महाराणा कर्णसिंह के समय से ही बसाड़ परगने के मोड़ी (पान-मोड़ी) गांव के थाने पर रावत जसवंतसिंह शक्तावत (नरहरदास का पुत्र) नियत था। महारावत जसवंतसिंह ने मंदसोर के फ़ौजदार जानिसारख़ां को बहकाया^३ कि बसाड़ का परगना उपजाऊ है, इसलिये उसे जागीर में लिखवालो। इसपर उसने प्रयत्न कर बसाड़ के परगने का बादशाह शाहजहां से अपने नाम फ़रमान करवा लिया, परन्तु जसवन्तसिंह शक्तावत ने

(१) इसका असली नाम ज़मानाबेग था और यह काबुल-निवासी ग़ोरबेग का पुत्र था। यह बादशाह अक्तबर के समय पांचसौ सवारों का मंसबदार बना और बादशाह जहांगीर के समय बहुत उच्च पद पर पहुंच गया था। पीछे से बादशाह की इसपर अप्रसन्नता हुई, जिससे यह कुछ समय तक इधर-उधर भटकता रहा। फिर शाहजहां के बादशाह होने पर पुनः इसे उच्च पद प्राप्त हुआ। वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में दक्षिण में इसकी मृत्यु हुई।

(२) रावत जसवंतसिंह शक्तावत, उदयपुर के महाराणा उदयसिंह के पुत्र और प्रतापसिंह के छोटे भाई शक्तिंसिंह का प्रपौत्र और अचलदास का पौत्र था। अचलदास का पुत्र नरहरदास हुआ, जिसका ज्येष्ठ पुत्र जसवंतसिंह था। इसके वंशजों में मुख्य वानसी के रावत हैं, जो प्रथम वर्ग के सरदार हैं। मुहम्मद नैणसी ने अपनी ख्यात में शक्तिंसिंह के वंशजों का वंशवृत्त दिया है (ख्यात, प्रथम भाग पृ० ६७)। उसमें अचलदास के पुत्रों में से केवल नारायणदास और केसरीसिंह का उल्लेख कर उनके वंशजों के ही नाम दिये हैं, परंतु वानसी ठिकाने की ख्यात से स्पष्ट है कि अचलदास के ११ पुत्र थे, जिनमें से नरहरदास उस (अचलदास) का उत्तराधिकारी हुआ। उसमें केसरीसिंह का नाम नहीं है, जो संभवतः ख्यात-लेखकों की असावधानी के कारण छूट गया हो।

(३) मुहम्मद नैणसी की ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६६। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५७।

वहां उसका अधिकार न होने दिया। फिर जब जानिसारखां उक्त परगने पर अधिकार करने के लिए अपनी सेना लेकर गया, उस समय महारावत जसवंतसिंह ने भी अपने राजपूत उसके साथ कर दिये। इसपर जसवंतसिंह शक्तावत मोड़ी के थाने के राजपूतों को लेकर जानिसारखां से भिड़ गया, जिसमें वह (जसवंतसिंह शक्तावत) अपने कुटुंबी कान्ह, सादूल (नरहरोत), जगमाल (बाघावत), पीथा (बाघावत) एवं पूरबिया सबलसिंह आदि सहित मारा गया और महारावत के भी कई आदमी काम आये^१। महाराणा को जानिसारखां और महारावत जसवंतसिंह के राजपूतों के मोड़ी के थाने पर चढ़ आने और उसमें शक्तावत जसवंतसिंह के काम आने का समाचार सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने मंत्री अक्षयराज^२ को देवलिया पर सेना लेकर जाने की आज्ञा दी^३ एवं उधर बादशाह से जानिसारखां की ज्यादती की शिकायत भी करवाई।

जब जानिसारखां की ज्यादती की शिकायत बादशाह शाहजहां के पास महाराणा के वकीलों-द्वारा पेश हुई तो उसने जानिसारखां के नाम

(१) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०५७।

(२) यह ओसवाल जाति के कावड़िया गोत्र के प्रसिद्ध महाजन भामाशाह का पौत्र और जीवाशाह का पुत्र था (देखो, मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जिल्द १, पृ० ४७५, जि० २ पृ० ६६२-४)।

(३) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६६। नैणसी का यह भी कथन है कि महाराणा की आज्ञा पाकर अक्षयराज ससैन्य धरियावद तक पहुंच गया था, परंतु आगे नहीं बढ़ा। संभव है शाही दरबार में महारावत का पक्ष होने से देवलिया पर सेना भेज अधिकार करने में उसे बादशाह की अप्रसन्नता का भय हुआ हो, अतएव मुसाहबों के निवेदन करने पर महाराणा ने देवलिया पर सेना भेजना स्थागित रख, जानिसारखां और महारावत की अनुचित कार्यवाही की शाही दरबार में शिकायत कर पहले बसाड़ पर अधिकार करना और फिर शक्तावत जसवंतसिंह का बदला लेने के लिए देवलिया पर सेना भेजना ठीक समझा हो।

आज्ञा-पत्र भेजा कि वह वसाड़ परगने पर दखल न करे और महाराणा के नाम ता० १७ आज़र सन् जुलूस १ (हि० स० १०३८ ता० १२, रबी उस्सानी = वि० सं० १६८५ मार्गशीर्ष सुदि १३ = ई० स० १६२८ ता० २६ नवम्बर) को महाराणा के नाम इस आशय का फ़रमान लिखा—“हमारे अहलकारों को यह मालूम न था कि परगना वसाड़ उस(महाराणा)की अगली जागीर में शामिल है, इसलिए जानिसारखां की जागीर में बहाल किया गया था। अब यह बात मालूम होने पर पहले के अनुसार वसाड़ का परगना उस(महाराणा)को प्रदान किया जाता है और जानिसारखां को दूसरी जागीर दी जावेगी। इस मामले में जानिसारखां के नाम फ़रमान जारी हुआ है कि परगना वसाड़ उस(महाराणा)से ताहुक रखता है, इस वास्ते उसको उस(महाराणा)के कब्ज़े में छोड़कर इस बाबत लड़ाई-भगड़ा न करे। उस लड़ाई और फ़िसाद से जो उस(महाराणा)के आदमियों और जानिसारखां के बीच हुआ, वादशाही लोगों को ताज्जुब हुआ। जब कि उस(महाराणा)का काका और वकील शाही दरवार में विद्यमान थे, उचित था कि पहले इस मामले को शाही दरवार में पेश किया जाता और फिर जैसा हुक्म होता वैसा करते। विश्वास है कि उस(महाराणा)को इस कार्यवाही पर इत्तिला न होगी। मुनासिब है कि वह अपने आदमियों को तब तक रोके, जब तक कि ऐसे मामले शाही दरवार में पेश न हो जायँ।”

शाही दरवार से वसाड़ के परगने पर अधिकार बनाये रखने का महाराणा ने पुनः फ़रमान लिखवाकर वहां अधिकार कर लिया,

(१) मूल फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०५८-६।

(२) वसाड़ का परगना वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) तक महाराणा के अधिकार में रहा। फिर वादशाही अफ़सर पैज़ारखां (जानिसारखां) ने महाराणा के सरदार रावत केसरीसिंह शक़तवत को मारकर वहां पर अधिकार जमाया (मुंहणोत नैणसी की रयात; प्रथम भाग, पृ० ७२)। महाराणा जगतसिंह की नीति से वादशाह शाहजहां थोड़े ही समय बाद अप्रसन्न हो गया था। उसने वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) में फूलिया, जीरण, भैंसरोड, नीमच, वसाड़, सुणोर और डूंगरपुर को मेवाड़ से पृथक्

महाराणा जगतसिंह का महारावत को उदयपुर में बुलाकर मरवाना परंतु उसके हृदय में जानिसारखां के साथ वसाइ पर अधिकार करने में महारावत जसवंतसिंह के अपने आदमी भेजने की बात खटकती थी। उसने इस बात को दवाकर जसवंतसिंह शक्तावत का बदला लेने के लिए महारावत को उदयपुर बुलाया। इसपर महारावत अपने ज्येष्ठ पुत्र महासिंह को साथ लेकर उदयपुर गया। महाराणा ने उसका चंपा वाग में मुक्काम करवाया और एक दिन रात्रि के समय राठोड़ रामसिंह^१ को सेना-सहित भेजकर वाग पर घेरा दिलवा दिया। महारावत भी मरने-मारने का इरादा कर अपने राजपूतों के साथ महाराणा की सेना के सम्मुख हुआ और कुंवर महासिंह सहित वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया^२। प्रतापगढ़ राज्य की

कर दिये थे (वही, पृ० ७२)। केसरीसिंह शक्तावत के लिए देखो ऊपर पृ० १२८ टिप्पण २।

(१) राठोड़ रामसिंह, जोधपुर के राव चंद्रसेन का प्रपौत्र, उग्रसेन का पौत्र और कर्मसेन का पुत्र था। वह महाराणा जगतसिंह के साथ रिश्तेदारी होने से मेवाड़ में जाकर रहा था और वहां उसे जोजावर का पटा जागीर में मिला था। मेवाड़ में रहते समय उसने कई युद्धों में भाग लिया था। स्वभाव का वीर होने के कारण महाराणा के दरवार में उसका अच्छा सम्मान था। महाराणा की सेवा त्यागकर बादशाह शाहजहा के चौदहवें सन् जुलूस (वि० सं० १६६७ = ई० स० १६४०) में वह शाही दरवार में जाकर मंसबदार बना। प्रारंभ में उसको एक हज़ारी ज्ञात व छःसौ सवारों का मंसब मिला। फिर बढ़ते-बढ़ते शाहजहां के समय में उसका मंसब तीन हज़ार ज्ञात और पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया। उसने शाही सेना में रहकर कई युद्धों में पूर्ण वीरता प्रदर्शित की। वि० स० १७१५ (ई० स० १६५८) में जब शाहजहां के पुत्रों में परस्पर कलह का सूत्रपात हुआ, तब समूनगर के युद्ध में वह शाहजहादे दाराशिकोह के पक्ष में शाही सेना में रहकर शाहजहादे औरंगज़ेब और मुराद के मुक़ाबले में बड़ी वीरता से युद्ध करता हुआ मुराद के तीर से मारा गया। अकाल के समय उसने बुधातुर लोगों को रोटियां बांटी थीं, जिससे वह 'रामसिंह रोटला' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब वूदी राज्य में उसके वंशजों का एक ठिकाना 'वरवाड़ा' है।

(२) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ५२२।

ख्यातों में इसका अधिक वर्णन नहीं है। वहां केवल महारावत और कुंवर महासिंह के उदयपुर में काम आने का ही उल्लेख है। कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें'—नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उपर्युक्त युद्ध में महारावत जसवंतसिंह की राठोड़ सुजानसिंह भगवानदासोत के हाथ मृत्यु हुई।

'वीरवीनोद' के कर्ता महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने अपने इतिहास में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है, जो इस प्रकार है—

“देवलिया का जसवंतसिंह, सिंहा की गद्दी पर वि० सं० १६७६ (हि० सं० १०३१=ई० सं० १६२२) में बैठा था। जब वह महावतखां की तरफ़दारी से उदयपुर के हुकम की वरखिलाफ़ी कर सरकशी करने लगा, तब कई दफ़े लिखा गया, लेकिन उसने हिमायत से जगतसिंह के हुकम को विल्कुल न माना। महाराणा ने किसी आदमी को भेजकर तलह्नी के साथ रावत को उदयपुर बुलवाया। जसवंतसिंह के दिल में महाराणा की तरफ़ से खटका होने के कारण अपने छोटे बेटे हरिसिंह को देवलिया का कुल बंदोबस्त सौंपकर वह बड़े बेटे महासिंह तथा एक हजार अच्छे राजपूतों के साथ उदयपुर गया और चंपा बाग़ में डेरा किया, जो महाराणा कर्णसिंह का बनवाया हुआ शहर से एक मील के फ़ासले पर पूर्व की तरफ़ है। जसवंतसिंह को महाराणा ने यहां की फ़र्मावदारी के खिलाफ़ न रहने की बाबत बहुतसी नसीहत की, लेकिन उसके दिल में महावतखां की हिमायत का जोर भरा हुआ था, जिससे महाराणा की मन्शा से खिलाफ़ जबाब दिया। महाराणा ने अपने सलाहकारों से पूछा तो सबने अर्ज की कि यदि जसवंतसिंह यहां से चला गया तो आपकी हुकूमत से विल्कुल अलहदा हो जावेगा। तब महाराणा ने अपने सलाहकारों के कहने पर अमल करके अपने बड़प्पन को बट्टा लगानेवाली बात यानी जसवंतसिंह को मार डालना इख्तियार किया।

“महाराणा को मुनासिव था कि जसवंतसिंह को अपने यहां से विदा

करके देवलिया पर फ़ौज भेजते, लेकिन उन्होंने धोखे के साथ कार्रवाई की और रामसिंह राठोड़ को फ़ौज देकर आधी रात के वक़्त चंपा बाग़ में महारावत को घेर लेने का हुक़्म दिया। रामसिंह ने वैसा ही किया। जसवंतसिंह मय अपने कुंवर महासिंह व एक हज़ार राजपूतों के अच्छी तरह लड़कर मारा गया। महाराणा के बहुत से राजपूत काम आये। यह भगड़ा विक्रमी १६८५ (हि० १०३८ = ई० १६२८) में हुआ।”

‘वीरविनोद’ के ग्यारहवें प्रकरण में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसङ्ग में उक्त कविराजा ने इस घटना पर अधिक प्रकाश डालकर लिखा है—“बादशाह ने जानिसारखां को लिख भेजा कि परगने वसाड़ पर दखल न करे। शाहजहां जानता था कि कैसी-कैसी ताक़त काम में लाने पर महाराणा उदयपुर का फ़साद दूर हुआ है। अब छोटी बात के लिए उसी आग को भड़काना अज़लमंदी का काम नहीं। इसके सिवाय बादशाह का भी गुरु तख़्तनशीनी का अहद था। इसलिए जानिसारखां को धमकाया और महाराणा को नसीहतों का फ़रमान लिख भेजा, परंतु देवलिया के रावत जसवंतसिंह से महाराणा बहुत नाराज़ रहे और उससे जसवंतसिंह शकावत का बदला लेना चाहा। महावतखां की हिमायत के सबब महाराणा को देवलिया पर फ़ौजकशी करने का मौका न मिला। तब धीरे-धीरे रावत जसवंतसिंह को धोखा दिया और विक्रमी १६६० (?) [हि० १०४३ = ई० १६३३] में उसे मय उसके बेटे महासिंह के उदयपुर बुलाया। उसे पूरा विश्वास नहीं था, इससे वह एक हज़ार चुने हुए राजपूत साथ ले गया और चंपा बाग़ में डेरा किया। राठोड़ रामसिंह कर्मसेनोत को, जो महाराणा की बहिन का बेटा था, महाराणा ने रात के वक़्त फ़ौज देकर भेजा। उसने चम्पाबाग़ पर घेरा डाला और तोपें व सोकड़ों की गाड़ियां मोर्चों पर जमा दीं। रावत जसवंतसिंह

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३१८-६।

(२) इन गाड़ियों में गोली बारूद से भरी हुई बंदूकें रहती थीं, जिनकी संख्या सौ तथा दो सौ तक भी होती थी। जब शत्रु-सैन्य से लड़ाई का अवसर होता, उस समय चारों तरफ़ से घेरा डालने के लिए ऐसी गाड़िया खड़ी करदी जातीं

केसरिया पोशाक के साथ सिर पर सेहरा और तुलसी की मंजरी लगाकर चंपा वाग से बाहर निकला और अपने साथियों-सहित महाराणा की फौज पर दूट पड़ा, परंतु तोप और सोकड़े की गाड़ियों के कारण सबके सब भुन गये, तोंभी किसी-किसी ने रामसिंह को ललकारा और तलवारें चलाई। आखिरकार महारावत जसवंतसिंह अपने बेटे महासिंह और एक हज़ार राजपूतों-सहित बहादुरी के साथ मारा गया और महाराणा की इस द्रोहिही से बड़ी बदनामी हुई।”

‘हरिभूषण महाकाव्य’ का कर्ता कवि गंगाराम इस युद्ध का विचित्र प्रकार से वर्णन करता है। उसका कथन है—“महारावत जसवंतसिंह महाराणा जगतसिंह के दरवार में आधे सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस समय कुछ सरदारों ने जसवंतसिंह को नज़राना कर दिया, जिससे महाराणा क्रुद्ध हो गया और महारावत को मारने की गुप्त मन्त्रणा कर उसने राठोड़ रामसिंह को इस काम के लिए नियत किया। महाराणा की आज्ञा पाकर रामसिंह देवलिया की तरफ़ विदा हुआ और उसने गुप्त रूप से देवलिया जाने का मार्ग रोक दिया। महारावत भी देवलिया जाने को आगे बढ़ा और मार्ग में रामसिंह को लड़ने के लिए उद्यत देख विश्वासघाती जान उसने उससे युद्ध न किया; किंतु कुंवर महासिंह के साथ उस (रामसिंह) का युद्ध हुआ, जिसमें वह (रामसिंह) परास्त हुआ। इसपर महाराणा ने अप्रसन्न होकर रामसिंह को अपने यहां से निकाल दिया।”

और उनमें क्रमानुसार बंदूकें इस प्रकार सटी हुई रहती थीं कि एक बार बत्ती बगाने पर सब बंदूकें एक साथ चल जायं। इन बंदूकों से निकली हुई गोलियां दूर-दूर तक जाकर शत्रु-सैन्य को विदलित करती हुई अधिकांशतः उन्हें नष्ट कर देती थीं।

(वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६०)।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६० ।

(२) एकस्मिन् समये रराज विलसन् राणासभायां नृपः
कान्त्या भूमिभृतोऽपरानघरयंस्तस्यार्घसिंहासने ।

‘प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात’^१, बांकीदास-कृत ‘ऐतिहासिक चर्चे’^२,

नानादेशनिवासिनां क्षितिभृतां मृत्यैश्च मुखैर्यदा
नत्वोपायनमग्रतो विनिहतं श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः ॥ ३ ॥

दृष्ट्वा क्रोधहुताशने निपतितः श्रीचित्रकूटाधिपोऽ-
प्येतत्कर्णसूतो वभूव बलिनां कर्णेषु कर्णेजपः ।
वीरः कोऽपि ममास्ति सांप्रतममुं यो हन्ति मध्येसमं
विश्वासेन समुत्थितोऽनुचितकृद्रामः स्वयं सज्जितः ॥ ४ ॥

दत्ताज्ञोऽथ जगाम देवलपुरं पन्थानमग्रे ततो
बध्वा चोरसखश्च रामनृपतिर्विश्वासघातोत्सुकः ।
दृष्ट्वा श्रीजसवंतमागतमयं खड्गैकमित्रं रणे
निखिंशैः प्रतिबोधयन्सचकितः संप्राप तस्यान्तिकम् ॥ ५ ॥

संख्यं तत्र तयोरभून्मिलितयोरन्योन्यमत्यद्भुतं
वीराणां तदनन्तरं कथमिदं को वेति कस्यसि रे ।
भूयः श्रीजसवंतसिंहविभूनेत्येक्तुं तदोवाचसः
कुप्तो राणनृपोऽहमस्मि सुभटो रामोऽरिहिसाग्रणीः ॥ ६ ॥

संग्रामे किल भारते बहुतरं कृत्वा रणं वीर्यवान्
गाङ्गेयो विरराम चार्जुनमपि दृष्ट्वा शिखण्डान्वितम् ।
खड्गेनैव हतं हि रे तव यशस्तस्मान्मया सङ्गरे
विश्वासोपहतस्य दुर्मुख मुख नालोकनीयं च ते ॥ ७ ॥

पश्चान्माहकुमारकेण बहुभिर्विक्रान्तमन्तर्लस-
न्मानेन प्रमुग्णा भटैरथ तदा भग्नः स रामः स्वयम् ।
तच्छ्रुत्वाऽऽशु चक्रोप राणनृपतिर्निष्क्रासयामास तं
देशान्मलेच्छपुरेषु खेलतितरामद्याप्यगम्तीशवत् ॥ ८ ॥

सर्ग ८ ।

(१) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ७ ।

(२) संख्या ३३७, १११५, १५६६-१६०१ ।

‘वीरविनोद’^१, ‘मालकम की रिपोर्ट’^२, एवं ‘प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियरों’^३, आदि में महारावत जसवंतसिंह का उदयपुर में महाराणा जगतसिंह की सेना से लड़कर मारे जाने का उल्लेख है, जिसका समर्थन नैणसी की ख्यात से भी होता है^४, जो उपर्युक्त पुस्तकों में अधिक प्राचीन और महारावत हरिसिंह के समय की संगृहीत है। इनके अतिरिक्त ‘अमरकाव्य’^५ और ‘राजप्रशस्ति महाकाव्य’^६ में भी उसके महाराणा राजसिंह से लड़कर मारे

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३१८-९ और १०६० ।

(२) सर जॉन मालकम, रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविन्स ऑव् मालवा एंड एड्जवाइ-
निंग डिस्ट्रिक्ट्स, पृ० २२४ ।

(३) कैप्टेन सी० ई० येट; गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० ७९ । मेजर के०
डी० अर्सेकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० १९८ ।

(४) प्रथम भाग, पृ० ९६ ।

(५) पूर्णे षोडशके शते च उदिते पंचाग्रकाशीतिके
राणोक्त्योत्कटरामसिंह इति यो राठोडचूडामणिः ।
प्रोद्दंडं जसवंतरावतपरं कुंतैर्जघान द्रुतं
वीरं देवलियाप(ति) किल महासिहाख्यपुत्रान्वितं ॥
तदनुदेवलियानगरस्य वा समरंगनटैश्च महाभटैः ॥
रचितमेव विखंडनमंजसा जनगरौश्च विलुटनमुत्कटैः ॥
स रामसिंहो जसवंतसंज्ञं तं रावतं पुत्रयुतं निहत्य ।
चक्रे जगत्सहनूपस्य तोषं संतोषपोषं समवाप तस्मात् ॥

अमर काव्य ।

(६) जगत्सिहाज्ञया यातो राठोडोरामसिंहकः ।

प्रतिदेवलियां सेनायुक्तो रावतमुद्भटं ॥ २० ॥

जसवन्तं मानसिंहपुत्रयुक्तं जघान सः ।

पुर्यां देवलियायां च लुटनं रचितं जनैः ॥ २१ ॥

सर्ग पांचवां ।

राजप्रशस्ति महाकाव्य में कुंवर मानसिंह के महारावत जसवन्तसिंह के साथ

जाने का उल्लेख है। इसके विपरीत 'हरिभूषण महाकाव्य' में कवि गंगाराम ने महारावत और कुंवर महासिंह की मृत्युवार्त्ता को छोड़कर महारावत का रामसिंह राठोड़ से युद्ध न करने एवं महासिंह का रामसिंह से युद्ध होने पर उस (रामसिंह) के परास्त होने का वर्णन करते हुए महाराणा का रामसिंह से अप्रसन्न होकर उसको अपने यहां से निकालने का वर्णन किया है, जो माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कथन परंपरागत जनश्रुति से भी विरुद्ध है। कवि गंगाराम ने अपने काव्य में देवलिया के किसी राजा का मृत्यु-प्रसङ्ग नहीं दिया है, जिससे हमारा तो यही अनुमान है कि नाटकों की भांति उसने अपनी रचना को सुखान्त बनाने का ही लक्ष्य रखा था, जैसा कि हम पहले भी लिख चुके हैं^१।

महारावत जसवंतसिंह, उदयपुर में महाराणा की सेना से किस वर्ष लड़कर मारा गया, इस विषय में भी मत भेद है। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातें^२, माल्कम की रिपोर्ट, प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर^३, कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक वातें'^४ आदि में इस घटना का वि० सं० १६६० (ई० सं० १६३३) में होना लिखा है; परंतु 'अमरकाव्य'^५ और राजप्रशस्ति महाकाव्य^६ में इस युद्ध का वि० सं० १६८५ (ई० सं० १६२८) में होना बतलाया है। स्वयं कविराजा श्यामलदास ने वीरविनोद में राजप्रशस्ति

काम आने का उल्लेख है, जो ठीक नहीं है। मानसिंह, महारावत प्रतापसिंह के समय तक विद्यमान था। अमरकाव्य से स्पष्ट है कि महारावत जसवंतसिंह के साथ कुंवर महासिंह काम आया था, जैसा कि उपर्युक्त अवतरण में उल्लिखित है।

(१) देखो ऊपर पृ० ११४ ।

(२) प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात, पृ० ७ ।

(३) मेजर के० डी० अर्मकिन; गैज़ेटियर ऑफ् प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० १६८ ।

(४) संख्या ३३७, १११५ और १५६६ ।

(५) देखो, ऊपर पृ० १३६, टिप्पण ५ ।

(६) देखो, ऊपर पृ० १३६, टिप्पण ६ ।

आदि के अनुसार एक स्थल पर वि० सं० १६८५^१ और दूसरे स्थल पर वि० सं० १६६०^२ में इस घटना के घटित होने का उल्लेख किया है। इस विभिन्न कथन का निर्णय करने के लिए और भी प्रमाणों की आवश्यकता है, परंतु वे अप्राप्य हैं। ऐसी स्थिति में अमरकाव्य और राजप्रशस्ति महाकाव्य में वर्णित संवत् १६८५ ही ठीक मानना पड़ेगा, क्योंकि उपर्युक्त काव्य इस घटना के थोड़े ही समय पीछे के बने हुए हैं एवं उनमें प्रत्येक घटनाएं यथा क्रम लिखी गई हैं।

महारावत जसवंतसिंह के आठ राणियां थीं। उसके महारसिंह, हरिसिंह, मानसिंह^३, केसरीसिंह^४, उदयसिंह नामक पांच कुंवर और रूपकुंवरी तथा सूरजकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई^५। उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया, इसलिये उसकी जीवन संबंधी महत्वप्रद घटनाओं पर प्रकाश डालना नितान्त असंभव है, तो भी यह कहा जा सकता है कि

महारावत की सतति
आदि

(१) देखो, ऊपर पृ० १३३।

(२) देखो, ऊपर पृ० १३३।

(३) मानसिंह को अरणोद की जागीर मिली थी और वह महारावत प्रतापसिंह के समय तक विद्यमान था। प्रतापप्रशस्ति (खंडित काव्य) में इसकी बहुत कुछ प्रशंसा की गई है।

(४) इसके वंशजों के अधिकार में झांतला का ठिकाना प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में है।

(५) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० ७। बड़वे की ख्यात में सूरजकुंवरी का नाम न होकर 'हरकुंवरी' नामक दूसरी कुंवरी बतलाई है, पृ० ४। प्रतापगढ़ राज्य की उपर्युक्त पुरानी ख्यात और बड़वे की ख्यात में जो राणियों के नाम दिये हैं, उनमें से कुछ नाम नहीं मिलते और न उनके पिता आदि के नामों का ही मिलान होता है, परन्तु उसके एक राणी चंपाकुंवरी, चौहान खान की पुत्री थी, जिसने देवलिया में गोवर्धननाथ का मंदिर बनवाकर वि० सं० १७०५ (ई० स० १६४८) में उसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इस राणी का नाम दोनों ख्यातों में मिलता है और गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति में भी यही नाम दिया है और महारावत हरिसिंह का उक्त राणी के उदर से उत्पन्न होना बतलाया है।

वह ज्ञात्र-धर्म से पराङ्गमुख न था और उसमें स्वात्माभिमान की मात्रा विद्यमान थी। महाराणा की विशाल सेना-द्वारा अचानक रात्रि में घेरे जाने पर भी वह विचलित न हुआ और वीरता पूर्वक लड़कर मारा गया। वह भाषा साहित्य का ज्ञाता और कवि था। प्रतापगढ़ राज्य से उसके रचे हुए कुछ दोहों का संग्रह प्राप्त हुआ है, जिससे जान पडता है कि वह शृङ्गार युक्त रचना करता था और उसकी रचना सुंदर होती थी।

(१) महारावत जसवंतसिंह-रचित दोहों को उसके पौत्र महारावत प्रतापसिंह ने एकत्रित करवाकर अपने पढ़ने के लिए सुन्दर चिकने कागज पर पुस्तकाकार लिखवाया था जिसके अंतमें लेखक का नाम और संवत् नीचे लिखे अनुसार दिया है—

“इति श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराजश्रीजसवन्तस्यंघजीकृत दूहा सम्पूर्णं । महादीवाण श्रीप्रतापसंघजीपठनार्थे विद्याशिरोमणिजी वचनात् लिखितं पन्यास सुन्दरसागरेण । संवत् १७४६ वर्षे चैत्रसितत्रयोदश्याम्”॥

प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने उक्त महारावत तथा उसके पौत्र महारावत प्रतापसिंह-रचित दोहों को वहां के वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी की आज्ञानुसार वि० सं० १९६५ (ई० स० १९३८) में ‘काव्य-कुसुम’ नाम से प्रकाशित किया है, जिनके अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि महारावत जसवंतसिंह की भाषाकाव्य की रचना में अच्छी गति थी। उसके दोहों में अधिकांश नायका भेद और नख-शिख घर्षण है। रचना अलकारयुक्त और अनूठी उपमाओं से पूर्ण है। उदाहरण के लिए नीचे उसके कुछ दोहे उद्धृत किये जाते हैं—

मुक्तमाल हिय देत रुचि, दृग पहुंचे सुतिपार ।

ता परि हूं मोहति रहै, सो यह कोन विचार ॥

यहूँ अचरज देख्यौ दृगनि, कहि आवत कछु नाहि ।

विजुली मे वारिज प्रगट, जुगल मीन तिहि मांहि ॥

प्रेम-लाज-पानिप-भरे, भरे-तरुनता जोत ।

अनिमिष लोचन रस-भरे, सौहें कापर होत ॥

हरिभूषण महाकाव्य में उक्त महारावत को शत्रुओं पर कुल्हाड़ा चलाने में कुशल, स्वरूपवान, स्वाभिमानी और दानी राजा बतलाया^१ है, जो संभव है, परंतु कवि गंगाराम का महारावत जसवंतसिंह के लिए यह कथन कि प्रतिदिन एक करोड़ पैदल और एक लाख कच्छी सवार नक्कारे की आवाज होते ही उसके चरणों में सिर नमाते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण है ।

सुधा ऋत ससि सब कहै, नई रीति यह आहि ।
 चंद लगे जु चक्रोर है, विष डारत ये ताहि ॥
 तरुनि सरोवर कुच कमल, अलि ऊपर ये स्याम ।
 कैधौ सरवस आप धरि, छाप दई है काम ॥
 भौह धनुष मनमथ गहै, तिरछी चितवनि बानि ।
 फूलन को आवध कहा, ऐसे करत निदानि ॥
 मुग्धा-तन त्रिवली बनी, रोमावलि के संग ।
 डोरी गहि पौरी मनौ, अब ही चढ्यौ अनंग ॥
 अरुन वदन अति रोस ते, सतर भौह नहीं धीर ।
 लाल कमल ता पर मनौ, भौर रहै करि भीर ॥

काव्यकुसुम ।

- (१) आसीच्छ्रीजसवन्तसिंहनृपतिः सिंहात्मजो वीर्यवा-
 न्वैरिब्रातकुठारपातकुशलः स्फूर्जत्प्रतापानिलः ।
 नेमुः कोटिपदातयः स्वगृहिणः श्रुत्वैक दम्भामकं
 लक्षं कच्छतुरङ्गमादिनिवहा नित्यं हि यस्य प्रभोः ॥ १ ॥
 कान्त्या मन्मथमिद्धितैर्मधुरिपुं कीर्त्या सुधाशुं धिया
 वागीशं बहुना घनेन धनपं वीर्येण जम्भापहम् ।
 शक्त्या शक्तिधरं क्रुधा हुतवहं मानेन दुर्योधनं ।
 दानेन प्रचुरेण कर्णमपि यो विस्मारयन् संवभौ ॥ २ ॥

सर्ग आठवां ।



महारावत हरिसिंह

हरिसिंह

महारावत हरिसिंह, जसवंतसिंह का दूसरा पुत्र था । उसका जन्म उक्त महारावत (जसवंतसिंह) की राणी चौहान खान की पुत्री चंपाकुंवरी के उदर से हुआ था^१ । जब महारावत जसवंतसिंह, महाराणा जगतसिंह के बुलाने पर उदयपुर गया, तब वह अपने ज्येष्ठ पुत्र महारसिंह को तो अपने साथ ले गया था और छोटे पुत्र हरिसिंह को महाराणा की तरफ से धोखा होने के खयाल से देवलिया में छोड़ गया था^२ । वि० सं० १६२५ (ई० सं० १६२८) में उदयपुर में महाराणा की सेना-द्वारा जसवंतसिंह और कुंवर महारसिंह के मारे जाने का समाचार देवलिया में पहुंचने पर धमोतर के ठाकुर जोधसिंह (गोपालदास का पुत्र) ने हरिसिंह की गद्दीनशीनी की रसम पूरी की^३ ।

राज्य प्राप्ति

उस समय उदयपुर के महाराणा जगतसिंह के कोप से बचने का महाराव के लिए बादशाही दरवार की शरण प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन न था । इसलिए गद्दीनशीनी के उपरांत ठाकुर जोधसिंह^४ ने शीघ्रता पूर्वक उसको शाही दरवार में लेजाना ही उचित समझा

महाराणा का देवलिया पर सेना भेजना

(१) श्रीसिंहरावतजनुजसवन्तपत्नी

चौहाणवंशवरमूषणखानपुत्री ।

श्रीरावतेन्द्रहरिसिंहकरावमाता

चारुपा इति व्यधित सा त्रिदशप्रतिष्ठाम् ॥

देवलिया के गोवर्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति ।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३१८ ।

(३) मुंहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, पृ० ६६ । वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६० ।

(४) एक ख्यात में महारावत हरिसिंह के समय देवलिया पर महाराणा की

क्योंकि वहां महाबतख़ां की मित्रता के कारण महारावत का भी परिचय था। उधर महाराणा ने, जो देवलियावालों से अत्यंत अप्रसन्न था और उक्त राज्य को नष्ट करना चाहता था, राठोड़ रामसिंह के साथ देवलिया पर सेना खाना की, जिसने राजधानी देवलिया को लूटकर बरबाद किया^१। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ख्यातों में देवलिया पर महाराणा की सेना जाने का कुछ भी उल्लेख नहीं है, किंतु अमरकाव्य से प्रकट है कि महाराणा की सेना के देवलिया जाने पर वहां वालों ने उसका मुक्ताबला किया था^२; परंतु महाराणा की बड़ी सेना के आगे उसकी कामयाबी नहीं हुई।

सेना आने के समय उसके साथ धमोतर के ठाकुर गोपालदास का भी नाम दिया है और जोधसिंह को कुंवर लिखा है। वहां यह उल्लेख है कि मेवाड़ की सेना देवलिया में आने पर जब महारावत हरिसिंह दिल्ली गया, उस समय गोपालदास और उसके पुत्र जोधसिंह के अतिरिक्त महारावत का भाई केसरीसिंह भी उसके साथ विद्यमान था। वहां दिल्ली में गार्थे मारने के सम्बन्ध में क्रसाइयों से उसका झगड़ा हो गया, जिसमें केसरीसिंह मारा गया। बादशाह ने उक्त स्थान पर गोबध बन्द कर दिया और वहां उसकी आज्ञा से महारावत ने राममंदिर बनवाया। बादशाह अक्रबर के समय भारत में गौ-बध बन्द हो गया था और शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया था। ऐसी स्थिति में शाहजहां के समय गोबध का जारी रहना और महारावत का, जो शाही दरवार में अपने राज्य की प्राप्ति के लिए गया था, वहां इस संबध में लड़ाई करना कुछ विपरीत जान पड़ता है। इस विषय में जब तक कोई पुष्ट प्रमाण न मिले वास्तविकता पर प्रकाश पड़ना असंभव है।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ३१६ और पृ० १०६० । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ५२२ । राजप्रशस्ति महाकाव्य में महाराणा की सेना-द्वारा देवलिया लूटने का निम्नलिखित उल्लेख है—

पुर्यां देवलियायां च लुंठनं रचितं जनैः ॥ २१ ॥

सर्ग पांचवां ।

(२) तदनु देवलियानगरस्य वा समररंगनैश्च महाभटैः ।

रचितमेव विखंडनमंजसा जनगरौश्च विलुंठनमुत्कटैः ॥

अमरकाव्य ।

वह बादशाह शाहजहां की गद्दीनशीनी का आरंभिक युग था और महाराणा का भी शाही दरबार में अच्छा प्रभाव था। तथापि बादशाह महाराणा से खिंच गया क्योंकि उन्हीं दिनों उस-
 महारावत का शाही सेना के (महाराणा) ने डूंगरपुर के स्वामी महारावल
 साथ जाकर देवलिया पर अधिकार करना पुंजराज के समय वहां सेना भेज जंगी कार्यवाही
 की थी। फलतः बादशाह शाहजहां ने महारावत हरिसिंह को अपने अमीरों
 में प्रविष्टकर मंसब आदि से उसका सम्मान बढ़ाया^१, एवं शाही सेना

(१) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर बादशाह ने उसको सात हज़ारी मन्सब, 'महाराजा-धिराज-महारावत' की उपाधि, निशान आदि प्रदान किये। इस कथन की पुष्टि कैप्टेन सी० ई० शेट के 'गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़' से भी होती है। उसमें लिखा है कि शाहजहां ने महारावत हरिसिंह को खासा खिलअत, प्रदानकर नौ लाख रुपये आय की कांठल की जागीर का फ़रमान उसके नाम कर दिया एवं पन्द्रह हज़ार रुपये वार्षिक खिराज़ दाखिल करना स्थिर हुआ। साथ ही 'महाराजाधिराज-महारावत' की उपाधि-सहित सात हज़ारी मन्सब भी उसको मिला और मन्दसोर के हाकिम को मेवाड़ की सेना को हटाकर देवलिया पर उसका अधिकार कराने का हुकम दिया गया। उसने देवलिया पर अधिकार करने के पीछे बसाड, आमलसर, अमलावदा, पानमोड़ी और मगरोदा पर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया (पृ० ७६)। मेजर के० डी० अर्सकिन ने भी अपने 'गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़ स्टेट' (पृ० १६८) में संक्षेप में इन बातों का उल्लेख किया है। इनके विरुद्ध सर जॉन माल्कम अपनी रिपोर्ट ऑन दि प्राविस ऑव मालवा एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स (पृ० २२४-५) में महारावत हरिसिंह को बादशाह औरंगज़ेब से सनद, उच्च उपाधि, खिलअत मंडा आदि मिलना लिखता है, किंतु तत्सामयिक फ़ारसी तवारीख़ों बादशाहनामा और औरंगज़ेबनामा में इस सम्बन्ध का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। शाहजहां के समय के मंसबदारों की सूची में भी उसका कहीं नाम नहीं है और न इस सम्बन्ध का कोई फ़रमान प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है। ऐसी दशा में इसका ठीक निर्णय होना कठिन है तथापि प्रतापगढ़ राज्य में महारावत हरिसिंह के नाम के बादशाह शाहजहा और औरंगज़ेब के समय के कई फ़रमान, शाहजादों के निशान आदि विद्यमान हैं, जिनको देखने से कहा जाता है कि वह बादशाह शाहजहां का विश्वास पात्र था। साथ ही वह शक्तिशाली भी था, जिससे शाहज़ादों ने पारस्परिक युद्ध में उसको अपनी-अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया था। उसके पुत्र प्रतापसिंह और पौत्र

साथ देकर उसको देवलिया पर अधिकार करने को रवाना किया^१। इसपर महाराणा ने अपनी सेना को देवलिया से हटा लिया। फिर महाराणा ने धरियावद का परगना (जो मेवाड़वालों की तरफ से सादड़ी छूट जाने पर भी देवलियावालों के पास चला आता था^२) जप्त कर लिया, जिसके लिए महारावत ने शाही दरबार में बहुत कुछ उद्योग किया परन्तु उसमें उसको सफलता नहीं हुई।

पृथ्वीसिंह को भी शाही दरबार से मन्सब मिले थे, जिससे अनुमान होता है कि महारावत हरिसिंह को भी कोई मन्सब अवश्य मिला होगा।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६१। नैणसी लिखता है कि महारावत हरिसिंह के बादशाह के पास जाने पर देवलिया महाराणा के अधिकार से निकाल दिया गया एवं महारावत की नौकरी उज्जैन और अहमदाबाद की तरफ नियत की गई (ख्यात; प्रथम भाग, पृ० ६७)।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६१। महारावत विक्रमसिंह के समय से ही उसकी मेवाड़ की सादड़ी आदि की जागीर छूट गई थी, फिर धरियावद उसके वंशजों के पास कैसे रहा, इसका ख्याती आदि से कुछ पता नहीं चलता। 'वीरविनोद' के उपर्युक्त कथन से तो यह अनुमान होता है कि विक्रमसिंह की मेवाड़ की जागीर में से सादड़ी आदि का कुछ इलाका ही महाराणा उदयसिंह ने जप्त किया होगा और धरियावद आदि का अंश उसके अधिकार में बना रहा होगा, जिससे संतुष्ट न होकर विक्रमसिंह ने कांठल में रहना अश्रितयार किया, परन्तु धरियावद पर उसने अपना अधिकार बनाये रखा और समय-समय पर देवलिया के राजाओं की तरफ से महाराणाओं को शाही चढ़ाइयों के समय सहायता मिलती रही और इसी कारण से महाराणा प्रतापसिंह, अमरसिंह और कर्णसिंह ने उससे छेड़-छाड़ न की। फिर महाराणा जगतसिंह ने महारावत हरिसिंह के शाही सेना लेकर पहुंचने पर धरियावद खालसे में मिला लिया, जो लगभग एक सौ वर्ष पीछे देवलियावालों को मेवाड़ की तरफ से पुनः प्राप्त हुआ, जिसका सविस्तर वर्णन आगे किया जायगा। कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि महारावत हरिसिंह ने देवलिया पर अधिकार हो जाने के पीछे बत्तीस गांवों में से बरे-बरदा और स्मांतला परगना मेवाड़ में से दवा लिया था। संभव है मेवाड़ के महाराणाओं पर बादशाह की नाराजगी होने पर उसने शाही फरमान के द्वारा ही उन्हें कब्जे में किया होगा, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में अब तक पर्याप्त और विश्वसनीय सामग्री नहीं मिली है, जिससे निश्चित मत प्रकट किया जा सके।

‘वीरविनोद’ के कर्ता कविराजा श्यामलदास का कथन है—‘महारावत वाघसिंह से लेकर सिंहा तक महाराणा के फ़र्मावर्दार और खैरखाह रहे और बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बहादुरी दिखलाई । अगर महाराणा जगतसिंह जसवन्तसिंह को धोखे से न मार डालते, तो हरिसिंह महावतख़ां का वसीला ढूंढ़कर बादशाही नौकर बनने की कोशिश नहीं करता; क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रामपुरा के रईस चित्तौड़ छूटने के बाद अक़बर बादशाह से जा मिले थे, लेकिन देवलियावाले इस बात के इस्तिहार करने को बहुत बुरा समझते थे’ ।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों आदि से यह स्पष्ट नहीं होता कि महारावत हरिसिंह ने शाही सेना की सहायता से किस वर्ष देवलिया पर अधिकार किया, पर मसलाणा (मचलाणा) गांव के वि० सं० १६६६ पौष सुदि ११ (ई० स० १६४२ ता० २१ दिसंबर) के ताम्रपत्र^२ से प्रकट होता है कि उक्त संवत् में महारावत हरिसिंह का वहां पर अधिकार था और उसने उपर्युक्त गांव दान किया । संभव है कि इसके पहले ही वह अपने साथ शाही सेना लाया हो । महावतख़ां की, जिसका महारावत के साथ पूरा ताल्लुक था, दक्षिण में वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में मृत्यु हुई । ऐसी अवस्था में उसका वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) के पूर्व ही देवलिया पर अधिकार होजाने का अनुमान होता है । किन्तु वसाड़ और अरणोद के परगने औरंगज़ेब के समय महारावत हरिसिंह को मिलना पाया जाता है, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा ।

देवलिया राज्य से मेवाड़ की सेना का उत्पात मिटाने के पीछे महारावत का प्रायः शाही दरवार में आना-जाना होता रहा । वि० सं० १७०१

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६१ ।

(२) मचलाणा गांव का बाबा हंसपुरी के नाम का ताम्रपत्र । यह ताम्रपत्र इस समय अप्राप्य है । पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने हमारे पास इस ताम्रपत्र की प्रतिलिपि भेजी है, जिससे पाया जाता है कि यह ताम्रपत्र जोशी हरजी के दुपु से पचोली गोविंद ने लिखा था ।

(ई० स० १६४४) में वह पुनः शाही दरबार में गया और आगरे रहते समय वि० सं० १७०१ चैत्र सुदि ५ (ई० स० १६४४-ता० ३ मार्च) को उसने ठीकरा गांव दुबे जगन्नाथ और इंदर को प्रदान किया था^१ ।

प्रतापगढ़ राज्य के पुराने संग्रह में महारावत हरिसिंह के समय के बने हुए कई चित्र हैं, जिनमें एक बादशाह शाहजहां और उस(हरिसिंह)का चित्र है । उस चित्र के पीछे उसी समय की लिखी हुई यह इवारत है कि वि० सं० १७०५ (ई० स० १६४८) में बादशाह शाहजहां ने उसे खिलअत, हाथी, घोड़ा, नालकी, सरपेच, हीरे की पहंचियां, मोतियों की कंठी, आमली, कलंगी आदि प्रदान कीं ।

इसी वर्ष उक्त महारावत की किसी कार्य के विषय में बादशाह की सेवा में अर्जी पेश होने पर उसके उत्तर में सन् जुलूस २२ ता० २ सफर हि० स० १०५६ (वि० सं० १७०५ फाल्गुन सुदि ४=ई० स० १६४६ ता० ५ फरवरी) को शाहजादे दाराशिकोह ने बादशाह की आज्ञानुसार महारावत के नाम निम्न लिखित आशय का निशान भेजा—“उसकी दख्खास्त, जो बादशाह की सेवा में भेजी गई, अबलोकन हो गई है और हमने उस(हरिसिंह)की सहायतार्थ गैरतखां को लिख दिया है, जो उचित कार्यवाही करेगा । उसको चाहिये कि वह उत्साह के साथ सेवा करता रहे^३ ।”

(१) महाराज श्री रावत श्रीहरीसंघजी वचनातु आगे दुबे जगन्नाथ दुबे इंदर (इंदर) जी जोग थांत्रे गांम १ मोजे ठीकरो मया करे त्रा (तां) वापत्रे आचंद्रारक (चंद्रार्क) दी दो बेठ बराड़ माफ आगरा मांहे दी दो दुए श्रीमुख हजूर संवतू १७०१ चेत सुदि ५ ।

मूल तांबापत्र की छाप से ।

(२) बादशाह शाहजहां और महारावत हरिसिंह के उपर्युक्त चित्र के लेख से । इस चित्र में बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा हुआ है और सामने महारावत हरिसिंह खड़ा है ।

(३) शाहजादे दाराशिकोह के निशान के अंग्रेजी अनुवाद से उपर्युक्त सारांश

चार वर्ष पीछे महारावत की उत्तम सेवाओं के विषय में शाही अफसरों की तरफ से सिफारिशें पेश हुईं, जिससे प्रसन्न होकर सन् जुलूस २६ ता० १४ रमजान हि० स० १०६२ (वि० सं० १७०६ श्रावण सुदि १५= ई० स० १६५२ ता० ६ अगस्त) को बादशाह की तरफ से उसके नाम शाही सरदार मुहम्मद तुरां और मुहम्मद मुरार-द्वारा यह आज्ञा पहुंची कि उसकी असीम स्वामी-भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर यह आज्ञा दी जाती है कि वह तत्काल इस दरबार में उपस्थित हो^१ । इसपर महारावत शाही दरबार में गया और कई महीनों तक बादशाह शाहजहां की सेवा में रहा । बादशाह ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मंदसोर इलाक़े का चालीस हजार दाम आय का कोटड़ी परगना दीवानी और माली स्वत्वों के साथ जो जानबाजख़ां^२ की जागीर में था, उस(महारावत हरिसिंह)को प्रदान करने का सन् जुलूस २६ ता० २० रवि-उल्-अव्वल हि० १०६३ (वि० सं० १७०६ फाल्गुन वदि ७ = ई० स० १६५३ ता० ६ फरवरी) को फ़रमान जारी कर दिया^३ ।

उद्धृत किया गया है । असली निशान फ़ारसी भाषा में है और उसपर 'अल्लादिर मुहम्मद दाराशिकोह बिन शाहजहा बादशाह गाज़ी' की छाप है ।

(१) मूल फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से उद्धृत ।

(२) जानबाजख़ां, बादशाह शाहजहां के समय डेढ़ हज़ार ज्ञात और एक हज़ार सवार का मंसबदार था । संभव है कि यह मालवे की तरफ का कोई मुसलमान हाकिम हो और उसके मरजाने या उसकी जागीर जन्त हो जाने पर बादशाह की तरफ़ से कोटड़ी का परगना महारावत को प्रदान किया गया हो ।

(३) बादशाह शाहजहां के मूल फ़रमान का अंग्रेज़ी अनुवाद । यह फ़रमान उस समय की प्रचलित राज भाषा फ़ारसी में है और उसपर बादशाह शाहजहां की बड़ी गोल मुद्रा लगी हुई है, जिसमें जहांगीर से लगाकर अमीर तैमूर तक के बादशाह शाहजहा के सब ही पूर्वजों के नाम अंकित हैं । मुगल बादशाहों के समय में जो जागीरें और तनख्वाहें मसब के एवज़ में दी जाती थीं, उनकी आय का विवरण दामों में लिखा जाता था और चालीस दाम का एक रुपया माना जाता था एवं जागीर के दीवानी और माली स्वत्व ही मिलना फ़रमानों में लिखा जाता था । शाहजहां के दरबार में महारावत हरिसिंह की पहुंच थी और बादशाह की तरफ से फ़रमान तथा शाहजादों की तरफ़ से उसको निशान लिखे जाने से स्पष्ट है कि वह साम्राज्य का विश्वासपात्र सेवक था ।

वि० सं० १७१० (ई०स० १६५३) में बादशाह ने शाहस्ताख़ां के स्थान पर शाहज़ादे मुरादबख़्श को गुजरात का सूबेदार नियत किया ।

महारावत की शाहज़ादे
मुराद के साथ नियुक्ति

तब उक्त शाहज़ादे ने महारावत के नाम सन् जुलूस

२७ ता० २३ सफर हि० १०६४ (वि० सं० १७१०

माघ वदि १० = ई० स० १६५४ ता० ३ जनवरी) को

निम्नलिखित आशय का निशान भेजा—हमारे प्रस्थान का दिन सन्निकट होने के कारण तुम्हें रुख़सत नहीं दी जा सकी है, इसलिये तुम जहां हो वहीं ठहरे रहो । यह जानकर तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिये कि तुम्हारी सेवाओं और राजभक्ति का उचित पुरस्कार दिया जायगा^१ ।

फिर जब शाहज़ादा मुरादबख़्श अहमदाबाद की तरफ़ रवाना हुआ तो सन् जुलूस २७ ता० ६ जमादि-उल् अख़्त हि० १०६४ (वि० सं० १७११ चैत्र सुदि १२ = ई० स० १६५४ ता० १६ मार्च) को महारावत को सूचना दी कि हम ता० २२ रबि उस्सानी (वि० सं० १७१० चैत्र वदि ६ = ता० २ मार्च) को बादशाह की खिदमत से रुख़सत हासिल करके शान और शौकत के साथ खाती चांदे (चांदा घाटी) के मार्ग से उज्जैन जा रहे हैं । कुछ दिन वहां ठहरकर अहमदाबाद जायंगे । तुम्हारी बहादुरी, अच्छे काम एवं बहुत से आदमियों के एकत्रित करने का वृत्तांत हमने बादशाह की सेवा में अच्छी तरह प्रकट कर दिया है । ईश्वर ने चाहा तो अच्छा परिणाम निकलेगा । इस समय तुम्हें गुजरात पर मुकर्रर करके अपने साथ लिये जाते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ गुजरात के सम्बन्ध में बादशाह से निवेदन किया गया है, उसको दिखलाकर वह अपनी मित्रता और शुभ-चिंतकी बतलावे एवं खाती चांदे (चांदा घाटी) की तरफ़ आकर हमारी सेवा में हाज़िर हों^२ ।

इसपर महारावत शाहज़ादे के पास उपस्थित हो गया । तदनन्तर शाहज़ादे ने उसके नाम सन् जुलूस २८ ता० १५ जमादि उस्सानी (ज्येष्ठ

(१) शाहज़ादे मुरादबख़्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद ।

(२) शाहज़ादे मुरादबख़्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद ।

वदि २=ता० २३ अप्रैल) को निशान भेज सूचित किया कि तुम्हारी नियुक्ति सूबे अहमदाबाद पर की गई है । इसलिए आज्ञापत्र के पहुंचते ही तत्काल अपनी जमीयत के साथ उज्जैन से सूबे अहमदाबाद में पहुंच अपनी नियुक्ति का हाल पूछ लो एवं इस विषय में सख्त ताकीद समझकर आज्ञा के विरुद्ध न करो^१ ।

बादशाह शाहजहां वि० सं० १७१४ (ई० स० १६५७) में अधिक बीमार हो गया । उसकी अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजादे दाराशिकोह पर अत्यधिक कृपा थी, इसलिए वह सदा बादशाह शाहजादे दाराशिकोह और मुराद का महारावत को अपनी-अपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न करना के पास रहता था । बादशाह की बीमारी के दिनों में उक्त शाहजादे ने कागजों का आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए उस (बादशाह) की मृत्यु का झूठा संवाद तमाम भारत में फैल गया, जिससे बादशाह के अन्य तीनों शाहजादे भी बादशाह बनने के लिए आतुर हो गए^२ । इस अवसर पर शाहजादे दाराशिकोह ने सन् जुलूस ३१ ता० ३ मोहर्रम हि० १०६८ (वि० १७१४ आश्विन सुदि ४-५ = ई० स० १६५७ ता० १ अक्टोबर) को महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा—“हम तुमको अपना विश्वासपात्र समझते हैं, इसलिए अपने हृदय को कावू में रखकर विश्वासपात्रता एवं ताबेदारी के मार्ग में स्थित रहे^३” ।

उधर शाहजादे मुरादबख्श ने महारावत को, जिससे उसका गुजरात में रहते हुए निकट संपर्क रह चुका था, सन् जुलूस ३१ ता० १२ मोहर्रम हि० १०६८ (वि० सं० १७१४ आश्विन सुदि १३ = ई० स० १६५७ ता० १० अक्टोबर) को लिखा “जब से हमारी सेवाओं से विमुख हुए हो तब से अभी तक तुमने अपने समाचार की अर्जियाँ नहीं भेजी । हमको तुम्हारी मित्रता से यह आशा न थी । अपनी दोस्ती को वादे के मुआफिक

(१) शाहजादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद ।

(२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १६६ ।

(३) शाहजादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद ।

स्मरण रखो और बादशाही मिहरवानी को अपने पुराने दस्तूर के अनुकूल ही समझ एवं गुजरे हुए तरीके को छोड़कर मिहरवानी और सेवा के मार्ग में दृढ़ रहो, जिसका परिणाम अच्छा होगा” ।

बादशाह शाहजहां की बीमारी सात आठ दिन तक भयंकर रही । उसके पीछे उसका स्वास्थ्य क्रमशः ठीक होने लगा और आश्विन वदि २ (ता० १४ सितंबर) को उसने शाही मुलाजिमों की सलाम ली^२ । कार्तिक वदि ३ तथा ५ (ता० १५ तथा १७ अक्टोबर) को बादशाह ने दिल्ली के महल के झरोके में बैठकर जनता को दर्शन दिये^३ । तदनंतर जब उसका स्वास्थ्य विल्कुल सुधर गया तो वह जल-वायु परिवर्तनार्थ आगरे गया । उन्ही दिनों गुजरात में रहते हुए शाहजादे मुरादबख्श ने, सबसे छोटा शाहजादा होने पर भी अपने को बादशाह घोषित किया । इसकी खबर बादशाह को मिलने पर उसने उधर विशेष ध्यान न दिया और पहले शाहजादे शुजाअ को सजा देना चाहा, जो सिंहासन-प्राप्ति के लोभ से बंगाल से आगे बढ़कर बनारस तक पहुंच गया था । अतएव बड़े शाहजादे दाराशिकोह के पुत्र सुलेमानशिकोह को कई बड़े-बड़े अफसरों सहित शुजाअ के मुकाबले को रवाना किया । उसके पहुंचने पर शुजाअ ने मुकाबला न किया और भाग गया एवं अपने कुसूरों की माफ़ी की अर्ज़ी बादशाह के पास भेज दी, जिसपर बादशाह ने उसके अपराध क्षमा कर सुलेमानशिकोह को अपने पास बुला लिया । बादशाह मुरादबख्श की कार्यवाही को टाल देना चाहता था, परन्तु दाराशिकोह के दबाव में आकर उसने उसको फरमान भेजा “तुम्हारे पिछले कुसूरों को माफ़कर तुम्हें बराड़ की जागीर दी जाती है, इसलिए वहां चले जाओ” । उसी समय शाहजादे औरंगजेब के पास यह आज्ञा पहुंची कि तुम वहां का लश्कर भेज दो । तब औरंगजेब के जो बीजापुर की मुहिम पूरी करने को जानेवाला था, बीजापुरवालों से सुलह

(१) शाहजादे मुरादबख्श के फ़ारसी निशान का अंग्रेजी अनुवाद ।

(२) मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १६३ ।

(३) वही, पृ० १६५ ।

कर वापस लौट गया। उसकी सेना में इस आज्ञा से खलवली मच गई और उसके साथ रहनेवाले कितने ही अफसर उसका साथ छोड़कर चल दिये^१।

शाहजादे मुरादवख्श और औरंगजेब ने उपर्युक्त आज्ञाओं की मंसुखी के लिए बादशाह के पास अर्जियां भेज दीं, परन्तु वे दाराशिकोह के दबाव से मंजूर न हुई और दाराशिकोह के कथनानुसार जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह को वि० सं० १७१४ फाल्गुन वदि ८ (ई० स० १६५८ ता० १५ फरवरी) को मालवे के सूबे पर नियत कर कासिमख्त्रां को अहमदाबाद की सूबेदारी देकर उधर रवाना किया तथा ये हिदायतें की गई कि दोनों सरदार उज्जैन जाकर मिलें और यदि मुरादवख्श बराड़ न जावे तो उससे अहमदाबाद खाली करवाले^२। इस अवसर पर दाराशिकोह ने ता० ६ रज्जव (वि० सं० १७१५ चैत्र सुदि १० = ई० स० १६५८ ता० ३ अप्रैल) को महारावत हरिसिंह के पास इस आशय का निशान भेजा “मशहूर राजाओं में चुना हुआ, उमरावों में बड़े हीसलेवाला, बड़ी सलतनत का कारकुन और बिहतर, बादशाहत के अमानतदार, बहुत मिहखानियों के लायक महाराजा जसवन्तसिंह अपने फतहमंद लश्कर के साथ, कमनसीब, हक को न पहचाननेवाले और गुनहगार नामुराद कमवख्त को सज़ा देने के लिए रवाना हो गया है। इसलिए यह शाही फ़रमान तुम्हारे नाम जारी किया जाता है कि तुम भी इस मौके को हाथ से न जाने दो ताकि वह कमनसीब भाग न जाय। पेसा न हो कि तुम्हारे इलाके से वह बाहर निकल जाय। जो कुछ तुमसे हो सके उसमें कमी न करो एवं जैसा कि उस(मुराद?)के शिकस्त पाने तथा भागने पर लश्कर और उसके आदमियों की लूटमार को हमने माफ कर दिया था, उसी प्रकार तुम भी उस अपराधी कमनसीब की चीजों और सामान को मय उसके हमराहियों के समान के क़ब्जा पाने पर माफ किए जाओगे। हम जान बूझकर यह लूट माफ करते हैं

(१) मुंशी देवीप्रसाद, शाहजहा नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १७१-७४।

(२) वही, पृ० १७५।

और यदि परमेश्वर ने चाहा तो इस सेवा को पूरी करने के बाद बादशाही कृपा तुम पर होगी और तुम अपने बराबरवालों तथा पासवालों में इज्जत हासिल करोगे” ।

बराड़ न जाने की अवस्था में अहमदाबाद को खाली कराने की शाही आज्ञा को सुनकर शाहज़ादा मुराद महाराजा जसवंतसिंह के उज्जैन दाराशिकोह को परास्त कर पहुंचने पर एक बड़ी सेना के साथ मुक्काबले के लिए जा डटा, परंतु फिर अकेले लड़ना महाराज को सुखेरी खेड़ा देना उचित न समझ वह शाहजादे औरंगजेब से, जो दक्षिण से बादशाह की खुशी पृच्छने के लिए आगरे जाने के बहाने से आ रहा था, जा मिला । उस समय औरंगजेब ने उस (मुराद) को ही बादशाह बनाने का लालच दिया । फिर दोनों शाहज़ादों ने आगे बढ़ना चाहा, पर महाराजा जसवन्तसिंह ने उन्हें रोक दिया । वि० सं० १७१५ वैशाख वदि ८ (ई० स० १६५८ ता० १५ अप्रैल) को उज्जैन से सात कोस दूर धर्मातपुर में (जिसका औरंगजेब ने फतिहाबाद नाम रक्खा) दोनों शाहज़ादों का महाराजा जसवन्तसिंह और कासिमखां आदि शाही अफसरों से मुक्काबला हुआ । शाहज़ादों की फौज ने शाही सेना को घेर लिया, जिससे कई बड़े-बड़े अफसर और सहस्रों सैनिक मारे गये । कासिमखां पहले ही औरंगजेब से मिल गया था । जब जसवन्तसिंह के पास थोड़ी सेना रह गई तो उसके सरदारों ने उसे उस युद्ध-क्षेत्र से हटने के लिए विवश किया । फिर दोनों शाहज़ादे अपनी सम्मिलित सेना के साथ आगरे की तरफ बढ़े । उधर से शाहज़ादा दाराशिकोह भी बड़ी सेना के साथ मुक्काबले को पहुंचा । समूनगर (आगरे के पास) में वि० सं० १७१५ ज्येष्ठ सुदि ७ (ई० स० १६५८ ता० २६ मई) को दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें दाराशिकोह की हार हुई^२ ।

(१) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान का अंग्रेज़ी अनुवाद ।

(२) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहां नामा, तीसरा हिस्सा, पृ० १७६ । वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ३४४-४८ ।

शाहज़ादों के पारस्परिक संघर्ष में महारावत हरिसिंह को अपनी-अपनी तरफ़ मिलाने के लिए दाराशिकोह और मुराद दोनों ने प्रयत्न किये परन्तु उस (हरिसिंह) ने उस विषम परिस्थिति में किसी का साथ देना उचित न समझा शाहज़ादों के उपर्युक्त किसी युद्ध में भाग न लिया और अपनी अनुपस्थिति की उनके पास अर्जियां भेज दीं। ससूनगर में विजय प्राप्त करने के तीसरे दिन शाहज़ादे मुराद ने महारावत की जागीर में परगना सुखेरीखेड़ा बढ़ाकर, सिरोपाव के साथ निम्नलिखित आशय का ता० ६ शावान हि० १०६८ (वैशाख सुदि ११ = ता० ३ मई) को निशान भेजा—

“शाही सेना में उपस्थित होने की उसकी अर्जी हमारे पास पहुंच चुकी है। इस संबंध में यहां से फ़रमान लिखा जा रहा है, इससे उसको पूर्ण संतोष हो जायगा। हमने उसके न आने का अपराध माफ़ कर दिया है। मंदसोर के शाही परगने से यह फ़रमान जारी किया जाता है। इसके अनुसार वह (हरिसिंह) ५०० सवारों के साथ शाही सेनाध्यक्ष के शामिल होकर उस ज़िले की रक्षा का भार अपने ऊपर ले। फ़िलहाल उसे मंदसोर का परगना सुखेरी वरूशा जाता है और एक सिरोपाव भी उसके पास भेजा जाता है।”

उपर्युक्त निशान महारावत के पास पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद शाहज़ादे औरंगज़ेब ने अपने वृद्ध पिता शाहजहां बादशाह को आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया। हि० स० १०६८ औरंगज़ेब का बसाठ और गयासपुर के परगने महाराणा को देना ता० ४ शव्वाल (वि० सं० १७१५ आषाढ सुदि ५ (ई० स० १६५८ ता० २५ जून) को मथुरा के मुक्ताम पर उसने शाहज़ादे मुराद को भी अपने शिविर में बुलाकर शराब पिलाने के बाद कैद कर दिया। फिर वह दाराशिकोह का पीछा करता हुआ दिल्ली पहुंचा, जहां उसने ता० २१ जुलाई (श्रावण सुदि २) को अपने को बादशाह घोषित किया।

जब औरंगज़ेब दक्षिण में शाहजहां की बीमारी का समाचार पाकर

(१) शाहज़ादे मुरादवश के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से।

बादशाह बनने का मनसूबा बांध रहा था, उस समय उसने मेवाड़ के महाराणा राजसिंह को अपने पक्ष में कर लिया था, जिसने शाहजादों के पारस्परिक युद्धों में उसको सहायता दी। इससे प्रेरित होकर औरंगज़ेब ने बादशाह बनने पर महाराणा के पास पांच लाख रुपये नक़द भेजे और मनसब में एक हज़ार ज़ात और एक हज़ार सवारों की वृद्धि कर उसका मनसब छः हज़ार ज़ात और छः हज़ार सवार कर दिया। साथ ही शाहजहाँ के समय मेवाड़ से छीने हुए बदनोर और मांडलगढ़ के परगनों के अतिरिक्त डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसाड़, गयासपुर आदि बाहरी इलाक़े भी उसके राज्य में मिलाये जाने का ता० १७ ज़िल्काद हि० स० १०६८ (वि० सं० १७१५ भाद्रपद वदि ४ = ई० स० १६५८ ता० ७ अगस्त) को उसने फ़रमान कर दिया, जिसके अनुसार देवलिया राज्य के दोनों परगने (बसाड़ और गयासपुर) मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत हो गये^१।

शाहज़ादा दाराशिकोह सिंघ की तरफ़ से कच्छ में होता हुआ अहमदाबाद पहुँचा, जहाँ उसको कुछ आर्थिक सहायता मिली और उसका सैन्य-बल भी बढ़ गया। जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह ने भी उस समय उसको सहायता देना स्वीकार किया, जिससे वह वहाँ से खाना होकर अजमेर की तरफ़ आगे बढ़ा। इस अवसर पर उक्त शाहज़ादे से महारावत हरिसिंह ने भी मिल जाना चाहा। इसपर दाराशिकोह ने ता० १६ जमादि-उल्अव्वल हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१५ फादगुन वदि २ = ई० स० १६५६ ता० ३० जनवरी) को महारावत के नाम नीचे लिखे आशय का निशान भेजा—

“.....तुम्हारी अर्ज़ी मिल गई है। तुमको आज्ञा दी जाती है कि शीघ्र जितने आदमी एकत्र हो सकें, उन्हें लेकर शाही दरबार में उपस्थित हो। तुम्हारे पहुँचने पर तुम पर शाही कृपाओं की वर्षा की जायगी तथा

(१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ५३८। मूल फ़रमान के लिए देखो वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४२५-३१।

तुम्हारे शत्रुओं की ज़र्मीदारी भी तुम्हें ही सौंप दी जायगी । अतपश्च तुमको शीघ्रातिशीघ्र आना चाहिये^१ ।”

इसके थोड़े ही दिनों बाद फिर उक्त शाहज़ादे ने जितनी सेना एकत्रित हो सके, उसके साथ शीघ्र पहुंचने का ता० २७ जमादि-उल्-अव्वल हि० स० १०६६ (फाल्गुन वदि १४ = ता० १० फ़रवरी) को महारावत के नाम निम्नलिखित आशय का निशान भेजा—

“इन दिनों तुम्हारे हाल हमने अपने मुसाहिवों से सुने, इसलिय आज्ञा दी जाती है कि तुम्हारी जागीर के परगने यदि दूसरे की जागीर में न चले गये हों तो उनपर किसी को दखल न करने दो और पुराने रिवाज के मुआफ़िक़ उनपर क़ाबिज़ रह कर निहायत इतमीनान के साथ हमारे हुज़ूर में हाज़िर हो या अपने बेटे को एक बड़ी और अच्छी सेना के साथ हमारे पास भेजो ताकि हमारे हुज़ूर में हाज़िर होकर वह हमारी क़ुपाओं को प्राप्त करे । इस बारे में देर न हो^२ ।”

गयासपुर और वसाड़ (वसावर) के परगनों का फ़रमान तो शाही दरबार से महाराणा के नाम हो गया, परंतु महारावत हरिसिंह ने उसकी अवहेलना की । इसपर क्रुद्ध होकर महाराणा ने महाराणा राजसिंह का देवलिया पर सेना, भेजना वि० सं० १७१६ (ई० स० १६५६) में अपने प्रधान कायस्थ फ़तहचंद को, जो उन दिनों वांसवाड़े के महारावल समरसिंह को अधीन करने के लिए गया हुआ था, एक बड़ी सेना के साथ देवलिया पर जाने की आज्ञा दी । फ़तहचंद वांसवाड़े का कार्य समाप्त कर वहां के रावल को लेकर उदयपुर गया और वहां से देवलिया पहुंचा । उसके देवलिया की तरफ़ आने का समाचार पाकर महारावत बादशाह के सम्मुख अपने मामले को पेश करने के लिए दिल्ली गया । महारावत की अविद्यमानता का अवसर पाकर फ़तहचंद ने वहां

(१) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से ।

(२) शाहज़ादे दाराशिकोह के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से ।

पर अधिकार कर लूट-मार की' ।

बेड़वास की बावड़ी की प्रशस्ति^१ से प्रकट है कि महारावत की माता देश की वरवादी देख अपने पौत्र प्रतापसिंह के साथ फ़तहचंद के पास उपस्थित हुई और पांच हजार रुपये एवं एक हथिनी देकर उसने उससे संधि कर ली। फिर फ़तहचंद कुंवर प्रतापसिंह को लेकर महाराणा के पास उपस्थित हुआ। राजप्रशस्ति महाकाव्य^३ से भी इसकी पुष्टि होती है, परन्तु उसमें बीस हजार रुपये दिया जाना लिखा है।

महारावत-द्वारा की गई महाराणा की शिकायत का बादशाह पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा; क्योंकि बादशाह उन दिनों अपने भाइयों के भगड़े महाराणा राजसिंह के पास मिटाने में संलग्न था। साथ ही सिंहासनारूढ़ होने के समय उसको महाराणा से सहायता मिली थी इसलिये उसने उससे विगाड़कर उसको असंतुष्ट करना ठीक नहीं समझा। यदि उस समय वह इस बात पर महाराणा को

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४३५ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जिल्द २, पृ० ५४०-१ ।

(२) वि० सं० १७२५ की बेड़वास की बावड़ी की प्रशस्ति । यह बावड़ी उदयपुर से देवारी की तरफ जानेवाले मार्ग में बनी हुई है । मंत्री फ़तहचंद ने इसको बनवाकर यहां उक्त प्रशस्ति लगवाई थी ।

(३) श्रीराजसिंहवचनात् फतेचंदः स ठक्कुरः ॥

चक्रे देवलियाभंग हरिसिंहः पलायितः ॥ २१ ॥

हरिसिंहस्य माता तु गृहीत्वा पौत्रमागता ॥

प्रतापसिंहं विदधे प्रसन्नं राणमंत्रिणं ॥ २२ ॥

रूप्यमुद्रासहस्राणि विंशत्याख्यानि हस्तिनी ।

दंडं प्रकल्प्य स्वल्पं स फतेचंदो दयामयः ॥ २३ ॥

राणोद्रचरणाभ्यर्णे आनयामास तं बलात् ।

प्रतापसिंहं जातस्तत् फतेचंदः प्रभोः प्रियः ॥ २४ ॥

सर्ग आठवां ।

रुष्ट कर लेता तो संभव था कि महाराणा उसके विरुद्ध हो जाता और इस तरह उसके विरोधियों का बल बढ़ जाता। महारावत असफल होकर अपनी राजधानी को लौट गया। उसको अपने देश में आये थोड़ा ही समय हुआ था कि वि० सं० १७१६ के श्रावण (ई० स० १६५६ जुलाई) मास में महाराणा का बसाड़ की तरफ़ दौरा हुआ। महाराणा जगतसिंह-द्वारा उदयपुर में महारावत जसवंतसिंह पर सेना भेज घेराडाल देने से उस- (हरिसिंह) को महाराणा पर विश्वास न रहा था, इसलिए वह महाराणा के पास उपस्थित होने में संकोच करने लगा। फिर महाराणा के प्रतिष्ठित चार बड़े सरदारों—भाला राज सुलतानसिंह (सादड़ीवालों का पूर्वज), चौहान राव सबलसिंह (बेदलावालों का पूर्वज), चूडावत रावत रघुनाथ-सिंह (सलूंवरवालों का पूर्वज) और शक्तावत महाराज मुहकमसिंह (भींडरवालों का पूर्वज)—के विश्वास दिलाने पर वह महाराणा की सेवा में उपस्थित हो गया और उसने गयासपुर एवं बसावर (बसाड़) के परगनों का दावा छोड़कर^१ महाराणा से मेल कर लिया। इस घटना का राजप्रश-स्ति महाकाव्य में भी वर्णन मिलता है और उसमें महारावत का महाराणा के पास उपस्थित होकर पचास हज़ार रुपये नज़र करने का भी उल्लेख है^२।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ४३५-३६।

(२) शते सप्तदशे पूर्णे वर्षे शोडषनामके ॥

श्रावणे तु वसाडाख्यदेशं दृष्टुं नृपो ययौ ॥ ६ ॥

भटैरुद्भटै रावलाद्यैर्वलाढ्यैः प्रचंडश्च वेतंडवर्यैरुपेता ॥

गृहीत्वा महावाहिनी राजसिंहः प्रतस्थे वसाडप्रदेशेक्षणाय ॥ १० ॥

ततो दुंदुभिः प्रोच्चशब्दैर्जिताब्दारवैः पार्श्वदेशस्थितानां जनानां ॥

विदीर्णानि वच्चांसि वक्तो विभिन्नं महारावतस्यापि नश्यद्वलस्य ॥ ११ ॥

भालोद्यत्सुलतानाख्यं चौहाणं तं महाबलं ॥

रावं सबलसिंहाख्यं रघुनाथाख्यरावतं ॥ १२ ॥

कृष्णागढ़ (किशनगढ़) और रूपनगर के राजा मानसिंह की बहिन चारुमती अत्यंत सुंदरी थी, जिससे बादशाह श्रीरंगजेव स्वयं विवाह करना चाहता था; परंतु वल्लभ-सम्प्रदाय की कट्टर अनु-
 महारावत को पुन. गयासपुर और बसाड़ आदि परगने मिलना यायी होने के कारण उसने मुसलमान बादशाह से विवाह करने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझ
 महाराणा राजसिंह के पास पत्र भेज अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इसपर वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६०) में महाराणा ने वहां जाकर उक्त राज-
 कुमारी से विवाह कर लिया। बसावर (बसाड़) और गयासपुर के परगने मेवाड़ में मिल जाने से महारावत हरिसिंह महाराणा से असंतुष्ट था। अब शाही कृपा प्राप्त करने का यह अच्छा अवसर जान उसने बादशाह के पास जाकर महाराणा के रूपनगर पहुंच विवाह करने तथा उसके देवलिया घर जुल्म करने की शिकायत की, जिसपर बादशाह ने महाराणा पर बिना आज्ञा रूपनगर में विवाह करने आदि का अपराध लगाकर गयासपुर तथा बसाड़ के परगने मेवाड़ से पृथक् कर पुनः महारावत हरिसिंह को प्रदान कर दिये^१। इसपर महाराणा ने महारावत पर सेना भेजनी चाही, परंतु मुसाहबों की सलाह से उसने यह विचार स्थगित रख कोठारिया के

चोडावतं हकमूसिंहं शक्तावत्तोत्तमं तथा ॥

एतान्पुरोगमान् कृत्वा एतेषां बाहुमाश्रयन् ॥ १३ ॥

स रावतो हरीसिंहो ययौ देवलियापुरात् ॥

आगत्य राजसिंहस्य राजेंद्रस्य पदे पतत् ॥ १४ ॥

रूप्यमुद्रा सुपंचाशत्सहस्राणि न्यवेदयत् ॥

मनरावत नामानं करिणं करिणीमपि ॥ १५ ॥

राजप्रशस्ति महाकाव्य; सर्ग आठवां ।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ५३६ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ५४२ ।

रावत रुक्मांगद के पुत्र उदयकर्ण चौहान के साथ बादशाह के पास निम्न-लिखित आशय की अर्जी भेजी—

“मैंने आपकी शाहजादगी के शुभ समय से ही विशुद्ध भावनाओं के साथ विशेष कृपाओं के प्राप्त करने की आशाएं रखी हैं। अब यह आदेश प्राप्त होने पर कि हरिसिंह निरपराध था, हमने उसको बसावर और गयासपुर के परगने प्रदान किये हैं। अकबर और जहांगीर के समय से ही देवलिया मेरे पूर्वजों की हुकूमत में था। शाहजहां के समय दूसरी तरह हुआ, वह भी निवेदन हुआ होगा और इन परगनों को प्रदान करने के समय भी भाई अरसी (अरिसिंह महाराणा जगतसिंह प्रथम का दूसरा पुत्र) ने तीन-चार बार निवेदन किया। इसपर आज्ञा हुई कि बादशाहों का हुकम सिकंदर की दीवार के समान मजबूत है, वह कदापि नहीं बदलेगा, हृदय में विश्वास रख अधिकार करें। इस संबंध में इसी अभिप्राय की दो-तीन बार प्रार्थनाएं भेजकर निवेदन किया गया उसपर फ़रमान प्राप्त हुआ कि जिस तरह जानो अधिकार करो और काका जयसिंह के साथ भी यही संदेश प्राप्त हुआ।

“तदनुसार मैंने अपने कर्मचारियों को कतिपय राजपूतों-सहित उन परगनों में भेजा। उसपर हरिसिंह ने आज्ञा के विरुद्ध बिना सोच-विचार किये बुरे अभिप्राय से परगनों की प्रजा को उभाड़कर शोर मचाया। वह थोड़े दिनों बाद उन परगनों को विल्कुल उजाड़कर आप भी चला गया और अपने मनुष्यों को वहां छोड़ गया कि उस जगह को कभी आवाद न होने दें। आवश्यकता समझ शाही आज्ञानुसार एक जमीयत भी उस जगह भेजी। हरिसिंह प्रजा को उजाड़कर पहाड़ों में फिरता था। उसने खरीफ़ की फ़सल को तो इस तरह खोया और रबी की फ़सल को भी खराब कर प्रजा को दुःखित किया। उसने दोनों साखों को पेसा खोया कि एक दाम भी उन परगनों का मेरे हाथ नहीं आया। जमीयत के खर्च और भंगट से मुझको बहुत हानि हुई और अब पेसी आज्ञा हुई है। उस व्यक्ति को जो आज्ञा के विरुद्ध करे पेसा हुकम हो और वह व्यक्ति

जो राजभक्ति में तत्पर रहा हो, उसे ऐसी आज्ञा हो। इस स्थिति में कुछ इलाज नहीं। न्याय आपके हाथ है। बाक़ी वृत्तांत हरिसिंह को परगनों के प्रदान करने का उदयकर्ण चौहान को खाना करने के पीछे प्रकट हुआ, इसलिए उस संबंध में वह जो निवेदन करे उसे स्वीकार किया जावे।”

महाराणा की इस प्रार्थना से प्रकट है कि बसावर और गयासपुर के परगनों पर महाराणा को अधिकार करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और महारावत हरिसिंह की तरफ़ से बाधाएं उपस्थित की गईं, जिससे महाराणा को हानि उठानी पड़ी। महारावत का बसावर और गयासपुर पर कब अधिकार हुआ यह स्पष्ट नहीं है; किंतु महाराणा के कृष्णगढ़ विवाह करने जाने का समय राजप्रशस्ति में वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६०) दिया है और चौहान उदयकर्ण वि० सं० १७१८ (ई० स० १६६१) में महाराणा का प्रार्थनापत्र लेकर पहुंचा था, अतएव वि० सं० १७१८ (ई० स० १६६१) के लगभग उसका बसावर और गयासपुर पर अधिकार हो जाना संभव है।

शाही दरबार में महाराणा की तरफ़ से यह प्रार्थनापत्र उदयकर्ण ने पेश किया, परंतु बादशाह पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा और बसावर तथा गयासपुर पर महारावत का अधिकार स्थिर रहा। बादशाह ने महाराणा की तसल्ली के लिए फ़रमान और ख़ासा ख़िलअत देकर उदयकर्ण को ख़सत दी और उसके साथ एक शाही अफ़सर भी भेजा, जिसने महाराणा को इस विषय में बहुत कुछ समझाया, तो भी महाराणा ने सेमलिया गांव से अपना थाना नहीं हटाया। इसपर महारावत ने अपने कुंवर प्रतापसिंह तथा अमरसिंह को बादशाही सेवा में भेजने की इच्छा प्रकट कर वहां से महाराणा का थाना हटा लेने की दरखास्त की।

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ४४०-२ ।

(२) वही, द्वितीय भाग, पृ० ४४२-३ ।

शाही सरदार राजा रघुनाथ ने ता० २ रमजान सन् जुलूस ५ हि० स० १०७२ (वि० सं० १७१६ वैशाख सुदि ३ = ई० स० १६६२ ता० १० अप्रैल) को महारावत के नाम निम्नलिखित आशय का उत्तर भेजा—

“इन दिनों जो पत्र तुमने अपने बेटे प्रतापसिंह तथा अमरसिंह को रवाना करने और उनको बादशाही सेवकों की सूची में शुमार किये जाने के संबंध में भेजा है, उसमें यह भी प्रकट किया है कि पहले राणा राजसिंह ने अपने मनुष्यों को बसाड़ परगने के गांव सेमलिया में, जो मेरे मुतल्लिक है, मुकर्रर किया था। उन आदमियों ने जुल्म कर रक्खा है और बांसवाड़ा के ज़र्मींदार समरसी के बेटे^१ ने भी राणा राजसिंह के इशारे से थाना कायम किया था। बादशाह की सेवा में उपस्थित करने पर यह हुक्म सादिर हुआ है कि हमारा फ़रमान पहुंचने पर अपने बेटे प्रतापसिंह तथा अमरसिंह को बादशाह की सेवा में भेज दो, जिनसे हालात दर्याप्त करने के बाद बादशाही कृपा हो सकेगी। तुम्हारी इच्छा के मुताबिक हमने राणा

(१) महाराणा राजसिंह (प्रथम) ने वि० सं० १७१६ (ई० स० १६२६) में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल समरसिंह को अपने अधीन बनाया था, जिसका उसके मंत्री फ़तहचंद की बनवाई हुई वेदवास की बावड़ी की वि० सं० १७२५ (ई० स० १६६८) की प्रशस्ति और राजप्रशस्ति महाकाव्य में उल्लेख है। संभव है महारावल की तरफ से उसका कुंवर कुशलसिंह, जो समरसिंह के पीछे वहां का स्वामी हुआ, कुंवरपदे में महाराणा की सेवा में रहता हो और उसको महाराणा ने उधर नियत किया हो। वि० सं० १७१७ (अमांत) भाद्रपद (पूर्णिमांत आश्विन) चदि १४ (ई० स० १६६० ता० २३ सितंबर) को महारावल समरसिंह का देहांत होने पर कुशलसिंह बांसवाड़े का स्वामी बना। इसके पीछे भी उसने कुछ समय तक महाराणा से संबंध बनाये रखकर वि० सं० १७१८ (ई० स० १६६१) में सेमलिया में महाराणा के संकेत से अपना थाना कायम रखा होगा। अनुमान होता है कि जब तक महाराणा राजसिंह पर बादशाह औरंगज़ेब की नाराज़गी नहीं हुई, तब तक महारावल कुशलसिंह महाराणा के प्रतिकूल नहीं हुआ। वि० सं० १७१७ (ई० स० १६६०) में चारुमती से कृष्णगढ़ में महाराणा का विवाह होने के बाद बादशाह उससे अप्रसन्न हो गया और उसकी अप्रसन्नता बढ़ती ही रही। इस अवसर पर महारावल कुशलसिंह भी महाराणा से प्रतिकूल हो गया होगा।

राजसिंह को मौजे सेमलिया से अपने आदमियों को हटा लेने के लिए हुकम जारी करा दिया है और इस विषय में सैयद नवाज़िशख़ाने भी निवेदन किया है कि फ़रमान के मुताबिक़ राणा राजसिंह को लिख दिया गया था कि अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को सेमलिया से हटा ले, जिसकी तांमिल में उसने अपनी जमीयत और समरसी के बेटे को वहां से हटा दिया है। अब उक्त मौजे में कोई नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने अधिकार में कर लो और उचित प्रबंध कर वहां के निवासियों की तसल्ली का प्रयत्न करो।”

इसके थोड़े ही समय पीछे महारावत के पास बादशाह का इस आशय का फ़रमान पहुंचा—“तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी कुतुबुद्दीनख़ां की मारफ़त हमारे मुलाहज़े से गुज़री। तुमने जो अपने बेटे को हमारी सेवा में भेजने को लिखा है, उसकी मंजूरी दी जाती है। तुम्हें चाहिये कि अपने बेटे को हमारी सेवा में भेज दो। बाद दर्याफ़त हाल उसकी तसल्ली की जायगी और शाही कृपा से इज्जत दी जाकर ख़िलअत बख़शी जायगी।”

इसपर महारावत ने अपने कुंवरो को शाही सेवा में रवाना किया, जिसका परिणाम लाभदायक हुआ और महाराणा की ओर से गयासपुर और बसावर के परगने मिलने के संबंध में बहुत कुछ प्रयत्न होने पर भी बादशाह ने उस ओर ध्यान न दिया। फिर महारावत ने अहमदाबाद के सूबे में अपनी नियुक्ति होने की बादशाही दरबार में प्रार्थना की। इसपर ता० २६ शव्वाल सन् जुलूस ७ हि० स० १०७४ (-वि० सं० १७२१ ज्येष्ठ सुदि १ = ई० स० १६६४ ता० १६ मई) को वज़ीर ने महारावत को लिखा—“बसाड़ परगने के वहाल रहने और उसके अहमदाबाद में नियुक्त किये जाने के संबंध में परधाना भेजने के लिए उसने जो अर्ज़ी भेजी, वह मिल गई है। परगना वहाल रक्खा जाता है, पर अहमदाबाद में उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मालवा सूबे के अन्तर्गत है। उसे उसी सूबे में,

(-१) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान के हिन्दी अनुवाद से।

(-२) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान के हिन्दी अनुवाद से।

जिसमें वह है, अच्छी सेवा करनी चाहिये' ।”

महारावत हरिसिंह की कर्तव्यनिष्ठा और राजभक्ति की शाही कर्म-चारियों ने समय-समय पर प्रशंसा की थी । ता० २५ रमज़ान सन् जुलूस १५ हि० स० १०८२ (वि० सं० १७२८ माघ वदि १२ = ई० स० १६७२ ता० १६ जनवरी) को शाहज़ादे मुहम्मद मुअज़्ज़म ने महारावत के नाम निशान भेज लिखा—“तुम्हारी उच्च स्वामिभक्ति का परिचय बादशाही कृपापात्र मोहब्बतख़ां-द्वारा मिल गया है । तुमको चाहिये कि सदा ऐसे ही बने रहो और समय-समय पर अपनी कुशलता का समाचार भेजते रहो^१ ।”

महारावत हरिसिंह का पिछला इतिहास अप्राप्य है । उसका वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) के लगभग परलोकवास हुआ^३ । उसके साथ उसकी दो राणियां राठोड़ आनंदकुंवरी और गौड़ मानकुंवरी (अजबकुंवरी) सती हुई^४ । कुछ स्थल पर उसका परलोकवास वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७५) में होना लिखा है एवं वि० सं० १७३२ वैशाख सुदि १५ (ई० स० १६७५ ता० २६ अप्रैल) की डोराणा गांव की सनद भी-उसके समय की ही बतलाई जाती है; परन्तु इसके विपरीत देवलिया की भोगीदास की बावड़ी की वि० सं० १७३१ फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६७५ ता० २१ फ़रवरी) रविवार की प्रशस्ति^५

(१) वज़ीर...ख़ां के महारावत हरिसिंह के नाम के फ़ारसी पत्र के अंग्रेज़ी अनुवाद से ।

(२) शाहज़ादे मुअज़्ज़म के फ़ारसी निशान के अंग्रेज़ी अनुवाद से ।

(३) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ५ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० ८ । वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६२ ।

(४) प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात, पृ० ८ ।

(५) संवत् १७३१ फाल्गुण सुद ७ रविवासे.....

में उस समय महारावत प्रतापसिंह के राजा होने का उल्लेख है। श्रावणादि वि० सं० १७३१ (चैत्रादि १७३२) ज्येष्ठ सुदि १० (ई० स० १६७५ ता० २४ मई) सोमवार की लिखी हुई 'कुंडप्रदीप' और श्रावणादि वि० सं० १७३१ (चैत्रादि १७३२) आषाढ वदि ७ (ई० स० १६७५ ता० ४ जून) शुक्रवार की लिखी हुई 'शाख-दीपिका' नामक पुस्तकों में उस समय महारावत प्रतापसिंह को वहां का स्वामी बतलाया है। ऐसी स्थिति में महारावत हरिसिंह का देहांत वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) के आस पास होना मानना पड़ेगा। डोराणा गांव की मूल सनद हमारे देखने में नहीं आई है अतएव उसकी सत्यता के विषय में सन्देह ही है।

उसके दस राणियां थीं, जिनसे पांच कुंवर—प्रतापसिंह, अमरसिंह^३,

...रावतश्रीप्रतापसिंहजीविजयराज्ये शीशोद्यावंशे राजश्रीगोपालजीतत्सुत जोघाजी तस्यात्मजराजश्रीभोगीदासजी

मूल प्रशस्ति की छाप से।

(१) संवत् १७३१ वर्षे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ सोमवासरे देवदुर्गे रावतश्रीप्रतापसिंघविजयराज्ये आमेटाज्ञातीयभट्टविद्या-धरतत्सुतभट्टमनोहरतत्सुतेन शोमजीभट्टेन लिखितं पुस्तकमिदम् ॥

मूल पुस्तक का अंतिम भाग।

(२) संवत् १७३१ वर्षे आषाढमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ शुक्रवासरे देवदुर्गे रावतश्रीप्रतापसिंघविजयराज्ये

मूल पुस्तक का अंतिम भाग।

(३) अमरसिंह के वंशधरों के ठिकाने साखथली और बगदावद रहे। फिर साखथली के ठाकुर दत्तपतसिंह का पुत्र मोहब्बतसिंह उपर्युक्त अमरसिंह के भाई मोहकमसिंह के प्रपौत्र हिम्मतसिंह का उत्तराधिकारी होकर सालिमगढ़ का स्वामी बना, इमलिय कुड़ स्थलों पर सालिमगढ़वालों को अमरसिंह का वंशधर भी लिखा है।

मोहकमसिंह^१, माधवसिंह^२ तथा आनन्दसिंह—एवं तीन कुंवरियां—

महारावत की सति

कल्याणकुंवरी, कुशलकुंवरी और सौभाग्यकुंवरी—
हुई^३। उनमें से कुशलकुंवरी का विवाह बीकानेर

के स्वामी महाराजा अनूरसिंह (राठोड़) से हुआ था, जिसके उदर से कुंवर स्वरूपसिंह का जन्म हुआ, जो वि० सं० १७५५ (ई० सं० १६६८) में उक्त महाराजा का परलोकवास होने पर बीकानेर राज्य का स्वामी हुआ^४। प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात (पृ० ४-५) में कुंवर प्रतापसिंह का महारावत हरिसिंह की राणी हाड़ी मनभावनदे के उदर से, अमरसिंह का भाली जसकुंवरी के उदर से, मोहकमसिंह का राठोड़ मेड़तणी अनोपकुंवरी से और माधवसिंह का गौड़ अजबकुंवरी से जन्म होना बतलाया है, परंतु प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात (पृ० ८) में महारावत हरिसिंह की केवल नौ राणियों के ही नाम दिये हैं एवं उसमें कुंवर प्रतापसिंह, अमरसिंह, मोहकमसिंह और माधवसिंह के ही नाम होकर आनन्दसिंह का नाम नहीं है तथा उसकी कुंवरियों के नामों में कुशलकुंवरी और सौभाग्यकुंवरी के नाम न होकर अनोपकुंवरी और

(१) मोहकमसिंह बड़ा वीर राजपूत था। कृष्णागढ़ के स्वामी महाराजा बहादुरसिंह रचित 'रावत प्रतापसिंह ने मोहकमसिंह हरिसिंहोत देवगढ़ राधणीरी वार्ता' नामक पुस्तक में उस(मोहकमसिंह)की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है, जिसका आगे उल्लेख किया जायगा। उसके वंशधरों का ठिकाना सालिमगढ़ है। उसका मूल वंश उसके प्रपौत्र हिम्मतसिंह से नष्ट हो गया। तब उस(मोहकमसिंह)के भाई अमरसिंह के वंशधर दलसिंह का पुत्र मोहबतसिंह साखथली से आकर सालिमगढ़ का स्वामी हुआ। तब से अब तक उसके वंशधरों का वहां अधिकार है, जो प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में हैं।

(२) माधवसिंह के वंशधर अचलावदा के ठाकुर और प्रतापगढ़ राज्य के प्रथम वर्ग के सरदारों में है।

(३) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ४-५।

(४) दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र ५८। मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द ५, प्रथम खण्ड, पृ० २७३।

पद्मकुंवरी नाम दिये हैं। इसी प्रकार उसमें महारावत हरिसिंह की गौड़ राणी धर्मकुंवरी (विठ्ठलदास की पुत्री) से कुंवर प्रतापसिंह का जन्म होना लिखा है। इसके विपरीत महारावत प्रतापसिंह (हरिसिंह का पुत्र) के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १५ (ई० स० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटण्या गांव के मेहता जयदेव के नाम के संस्कृत दानपत्र^१ एवं 'प्रताप-प्रशस्ति'^२ (खंडित काव्य) में उस (प्रतापसिंह) की माता का नाम मनभावती दिया है, जो अधिक विश्वसनीय है। पाटण्या गांव के दानपत्र और 'प्रताप-प्रशस्ति' में उस (मनभावती, प्रतापसिंह की माता) के पितृकुल का परिचय नहीं दिया है, जिससे इस विषय पर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। ख्यातों में प्रतापगढ़ राज्य के पहले के राजाओं की राणियों और उनके पितृकुल का परिचय परस्पर नहीं मिलता। इसी प्रकार महारावत हरिसिंह की राणियों और उनके पितृकुल, संतति आदि के नाम भी परस्पर नहीं मिलते हैं। वंश-भास्कर से ज्ञात होता है कि उस- (हरिसिंह) के भातुलदेवी नामक कुंवरी भी थी, जिसका विवाह बूंदी के स्वामी राव भावसिंह हाड़ा से हुआ था^३, पर ख्यातों में भातुलदेवी का नाम

(१)तेन महाराजेनैकदा गङ्गालक्ष्मीसमानस्वमातृमहाराज्ञी-
श्रीमनभावतीजीभासमानायां ।

मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से।

(२) माताश्रीमनभावतीविरचितं दिव्यैर्जलैः पूरितं
मेघैर्मानसरः पवित्रजनतासेव्यं मनोहारि तत् ।
यत्राम्राः परितः फलन्ति हि सदा पुण्यप्रभावाद्दिवो
दिव्यं मानसरो विहाय नितरामायान्ति देवानिशम् ॥

(३) दूजी हरि की सुता प्रतापगढ़ सीसोदनी
भातुलादि देवी नाम व्याहो अधिके उच्चाह...॥ १२ ॥

नहीं है ।

महारावत हरिसिंह ने देवलिया में महल और उसकी माता चंपाकुंवरी ने देवलिया में गोवर्द्धननाथ का मन्दिर, बावड़ी और वाटिका बनवाई थी । उपर्युक्त मंदिर की वि० सं० १७०५ वैशाख सुदि १५ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रैल) गुरुवार को प्रतिष्ठा होकर वहां प्रशस्ति लगवाई गई, जिससे पाया जाता है कि उस अवसर पर राजमाता ने स्वर्ण का तुलादान किया एवं एक गांव, एक हजार गायें, दस महादान और एक सहस्र ब्राह्मण दम्पतियों को वस्त्रदान दिया और एक लाख व्यक्तियों को भोजन करवाया था ।

महारावत ने लगभग ४५ वर्ष तक राज्य किया । उसके समय के

(१) संमत १७०५ वर्षे शके १५७० प्रवर्तमाने उत्तरायणगते श्रीसूर्ये वैशाखमासे शुक्लपक्षे पूर्णमास्यां तिथौ गुरुवासरे मालवखण्डे-श्वरमहाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहजीविजयराज्ये देवदुर्गराजधान्यां रावत-श्रीजसवन्तजीभार्या चहुआण चांपाजी देवल बावड़ी वाग करी ने प्रतिष्ठा कीधी । तत्समये दान दीघा तुलादान गाम एक । गौ सहस्र । दश महादान । लक्ष भोजन.....ब्राह्मण सहस्र एक दम्पति वस्त्र दीघा... ।

आरामवापीत्रिदशप्रतिष्ठाम्

हेम्नां तुलां षोडशदानयुक्ताम् ।

हरिर्नृपः सर्वमिदं जनन्या

सहस्रगौदानमकारयच्च ॥ २ ॥

श्रीचित्रकूटेश्वरराणखेमासुतोऽभवद्रावतसूर्यमल्लः ।

तस्याष्टमः श्रीहरिसिंहदेवो राजेश्वरो राजति देवदुर्गे ॥ ३ ॥

मूल प्रशस्ति की प्रतिलिपि से ।

उपर्युक्त कार्यों को देखते हुए अनुमान होता है कि देवलिया राज्य उस समय समृद्धिपूर्ण था। उसके समय के वि० सं० १६६६ से १७०५ (ई० सं० १६४२-१६४८) तक के पांच लेखों की छापें तथा प्रतिलिपियां हमारे पास आई हैं, जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार है —

महारावत के समय के
ताम्रपत्र और शिलालेख

समृद्धिपूर्ण था। उसके समय के वि० सं० १६६६ से १७०५ (ई० सं० १६४२-१६४८) तक के पांच लेखों की छापें तथा प्रतिलिपियां हमारे पास आई हैं,

जिनका सारांश नीचे लिखे अनुसार है —

(१) वि० सं० १६६६ पौष सुदि ११ (ई० सं० १६४२ ता० २१ दिसंबर) का मचलाणा गांव का दानपत्र, जिसमें उपर्युक्त गांव महंत हंसपुरी गोसाईं को पुण्य करने का उल्लेख है।

(२) वि० सं० १७०१ चैत्र सुदि ५ (ई० सं० १६४४ ता० ३ मार्च) का ठीकरा गांव का दानपत्र, जिसमें आगरे में रहते समय उपर्युक्त गांव दुबे जगन्नाथ और इंद्र को देने का उल्लेख है^१।

(३) वि० सं० १७०५ वैशाख सुदि १५ (ई० सं० १६४८ ता० २७ अप्रैल) गुरुवार की देवलिया के गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है^२।

(४) वि० सं० १७०७(?) वैशाख सुदि १५ (ई० सं० १६५० ता० ५ मई)^३ का भट्ट विश्वनाथ के नाम का कीटखेड़ी गांव का दानपत्र, जिसमें राजमाता चौहान के वनवाये हुए गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा पर उपर्युक्त गांव दान देने का उल्लेख है। यह ताम्रपत्र शाह वर्षा^४ के कहने से लिखा गया था

(१) देखो, ऊपर पृ० १४६ टिप्पण १।

(२) मूल प्रशस्ति के लिए देखो ऊपर पृ० १६७ टिप्पण १।

(३) इस ताम्रपत्र में गुरुवार दिया है, पर वि० सं० १७०७ वैशाख सुदि १५ को गुरुवार नहीं आता। वि० सं० १७०५ वैशाख सुदि १५ (ई० सं० १६४८ ता० २७ अप्रैल) को गुरुवार था और घटनाक्रम पर विचार करने से भी यही ठीक जान पड़ता है। संभव है ताम्रपत्र की नक़ल करने में १७०५ के स्थान में १७०७ हो गया हो।

(४) शाह वर्षा हूंबड़ जाति का वैश्य था और जैनों की दिगंबर शाखा का अनुयायी था। 'हरिभूषण महाकाव्य' में कवि गंगाराम ने उसकी अच्छी प्रशंसा की है।

और उसमें अक्षर खोदनेवाले सुनार का नाम केशव खुदा हुआ है एवं अंत में दो संस्कृत श्लोक हैं, जिनमें से दूसरे में विश्वनाथ को 'दीक्षागुरु' की उपाधि देने का उल्लेख है' ।

वह महारावत हरिसिंह का मंत्री था । प्रसिद्ध है कि उसने महारावत हरिसिंह की आज्ञानुसार सागवाड़ा (डूंगरपुर राज्य) से एक सहस्र हूंबदों को बुलाकर कांठल में आबाद किया था । वर्षा के वंशज वर्षावत कहलाते हैं ।

(१) महाराज रावत श्रीहरिसिंहजी वचनात् भट विश्वनाथ जोग्य मोटो प्रसाद कीधो । मया करेने गाम १ मोजे कीटखेडी दीधो उदक आघाट तांबापत्र करे दीधो देवल प्रतिष्ठा हुई जदी माताजी चहुआन रे देहरे दीधो आप दत्तेषु परदत्तेषु ये लुम्बन्ति वसुन्धराम ते नरा नरकं यान्ति यावच्चन्द्र दिवाकरौ । अणी गाम री कदी कपीत कर लागट व- राड कोई करवा न पावे । संवत १७०७(?) वर्षे मास वैसाख सुदि १५ पुनम दिने गुरू लखतं स्वहस्ते दुवे साह वर्षा । आचंद्रार्क यावत् श्री गोइन्द रे पट्टे पीठी री पीठी दीधौ खोदयो सोनी केशव ।

श्रीसिंहरावतसुतो यशवन्तसिंह-

स्तत्संभवो विजयते हरिसिंहदेवः ।

तेन व्यधायि सुरसन्नमहाप्रतिष्ठा

श्रीदेवदुर्गपुरिमालवराजधान्याम् ॥ १ ॥

तदा सोऽदात् कीटखेडी ग्रामं ब्रह्मास्पदं च यद् ।

विश्वनाथाय त्रिदुषे दत्वा दीक्षागुरोः पदम् ॥ २ ॥

मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ।

विश्वनाथ जाति का तरवादी मेवाड़ा ब्राह्मण था । उपर्युक्त ताम्रपत्र में उसको भट्ट लिखा है, जो उसकी उपाधि हो । 'हरिभूषण महाकाव्य' में कवि गगाराम ने उसको व्याकरण, न्याय, मीमांसा दर्शन आदि शाखों का ज्ञाता बतलाया है । इसी प्रकार महारावत प्रतापसिंह की प्रशंसा में पंडित कल्याण ने उक्त महारावत के समय प्रशस्ति की रचना की, उसमें भी उसका प्रशंसात्मक उल्लेख किया है ।

महारावत हरिसिंह के दानपत्रों आदि की जो तालिका प्रतापगढ़ से पंडित जगन्नाथ शास्त्री-द्वारा प्राप्त हुई, उसमें उसके वि० सं० १६६७ माघ सुदि १० (ई० स० १६४१ ता० ११ जनवरी) के एक दानपत्र का उल्लेख है। इसी प्रकार वि० सं० १७०५ वैशाख सुदि १५ (ई० स० १६४८ ता० २७ अप्रैल) गुरुवार के दानपत्र में उसका माधव भट्ट को हरिद्वार में भूमि दान करने का उल्लेख है तथा वि० सं० १७२० वैशाख सुदि ११ (ई० स० १६६३ ता० ७ मई) के दानपत्र में भी उस (माधव भट्ट) को परतावखेड़ा और वसाड़ दान करना लिखा है। इन दानपत्रों की छापें अथवा प्रतिलिपियां हमारे पास नहीं आई हैं, तो भी यह कहा जा सकता है कि महारावत हरिसिंह को वसाड़ का परगना वि० सं० १७२० (ई० स० १६६३) के पूर्व मिल गया था। उक्त महारावत के इसके पीछे के भी दानपत्र मिले हैं। उनमें से एक में छुन्याखेड़ी गांव में देराश्री पमाद को दस बीघा भूमि दान करने का उल्लेख है। उसकी छाप हमारे पास आई है, किन्तु उसमें खुदा हुआ-सम्बत् अस्पष्ट है।

महारावत हरिसिंह विद्वान् राजा था। उसकी सभा में अच्छे-अच्छे विद्वान् रहा करते थे, जिनका वह पूर्ण सम्मान करता था। उसने स्वयं

महारावत का साहित्या-
नुराग

अपने दरबारी कवि पंडित जयदेव-रचित 'हरिविजय नाटक' पर 'सुबोधिनी' टीका बनाई थी तथा व्याकरण पर 'हरिसारस्वत' की वि० सं० १७२२

कीटखेड़ी गांव कई वर्ष पूर्व राज्याधिकार में आ गया था। उसे परलोकवासी महारावत रघुनाथसिंह ने अजमेर के सुप्रसिद्ध राजवैद्य पंडित रामदयालु शर्मा और उसके सुयोग्य पुत्र डॉक्टर अंबालाल शर्मा आयुर्वेद-शास्त्री को अपनी अस्वस्थता के अवसर पर सुचारु रूप से चिकित्सा करने के पुरस्कार में संवत् १६८३ (ई० स० १६२६) में प्रदान किया।

(१) हरिममलमुपाम्य दिव्यरूपं जलधिसुताच्छ्रवपुःसमाश्रिताङ्गम् ।
वरहरिविजये विरच्यतेऽस्मिन् स्तुत हरिणा हरिणा सुबोधिनीयम् ॥

(ई० स० १६६५) में रचना की थी' । उसके साहित्यानुराग से प्रेरित होकर उसके समय में उसके आश्रित विद्वानों-द्वारा कई ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें से कुछ का पता लगा है, जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है—

हरिभूषण महाकाव्य—इसका रचयिता माधव भट्ट का पुत्र गंगाराम अपने को मेदपाटीय भट्ट (भट्टमेवाड़ा ब्राह्मण) लिखता है' । यह काव्य अपूर्ण है और इसके नौ सर्ग हैं । प्रत्येक सर्ग के अंत में 'इति श्री' देकर उसने अपना परिचय दिया है, किन्तु नवें सर्ग में 'इति श्री' नहीं है और महारावत हरिसिंह के राजकुमार प्रतापसिंह का अधूरा वर्णन है । यह काव्य देवलिया के महारावत हरिसिंह तक्र के राजाओं के इतिहास पर कुछ-कुछ प्रकाश डालता है, जिसका यथा-प्रसङ्ग ऊपर उल्लेख किया गया है । महारावत हरिसिंह के वर्णन में इसमें राजकुमार प्रतापसिंह, पुरोहित कल्याणदास, कथाव्यास गोदाभट्ट, सभापंडित विश्वनाथ, मंत्री शाह वर्पा, कोषाध्यक्ष केशव एवं महारावत के दो सेवकों कल्लु और योत्र का भी उल्लेख है । ग्रंथ के अपूर्ण होने से इसके रचना-काल का पता नहीं चलता । इसमें उसने राजकुमार प्रतापसिंह को बालक बतलाया है

इति श्रीमत्सांघिविग्रहिक-शिरोरत्नमुख्यविद्वद्वृन्दारकपुरन्दरश्रीमहा-
सजाधिराजश्रीहरिसिंहविरचितायां सुबोधिन्यां सप्तमोऽङ्कः ।

(१-) श्रीमच्छ्रीयश्वन्तभूपतिलकश्चास्पल्लदेवी च यं
प्रासूतामलविग्रहं ग्रहगणाधीशप्रभं भासुरम् ।

तेन श्रीजयदेवभूसुरसखेनोद्यद्गुणेनोद्धटे

श्रीमच्छ्रीहरिभूजेति रचिते सारस्वते तद्धिताः ।

द्वि-द्वि-सप्तेन्दु-संख्येऽब्दे (१७२२) मासे दामोदरे वरे ।

सारस्वतमदोऽकारि हरिणा हरितुष्टये ॥

इति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजदेवदुर्गाधीशसांघिविग्रहिक-राजतश्री-
हरिसिंहदेवविरचितं सारस्वतम् ॥

और उसकी वाण-विद्या की प्रशंसा की है, अतएव इस काव्य की रचना के समय प्रतापसिंह के १०-१२ वर्ष का होने का अनुमान होता है। राजकुमार प्रतापसिंह के वि० सं० १७१६ (ई० स० १६६२) में शाही दरवार में जाने के संबंध के एक पत्र का ऊपर उल्लेख किया गया है। उस समय उसकी आयु कम से कम २० वर्ष होनी चाहिये, इस अनुमान से 'हरिभूषण महाकाव्य' का रचना-काल वि० सं० १७१०-१७१२ (ई० स० १६५३-१६५५) के बीच हो सकता है।

हरिविजय नाटक—यह नाटक पंडित जयदेव ने महारावत हरिसिंह के नाम पर देवलिया में रचा था और महारावत के सभासदों के अवलोकनार्थ वहां इसका अभिनय भी हुआ था। इसमें कृष्ण-द्वारा रुक्मिणीहरण का प्रसङ्ग है। इसका रचना-काल शक संवत् १५७६ (वि० सं० १७१४=ई० स० १६५७) का कार्तिक मास दिया है^२। जयदेव तरवाड़ी-मेवाड़ा ब्राह्मण था और मेहता उसकी उपाधि थी। उक्त महारावत ने उसको अपनी रचना में 'भूसुरसखा' शब्द से संबोधन किया है। उसका उल्लेख पाटण्या गांव के महारावत

(१) उद्यन्निर्मलमेदपाटविलसद्वशैकचूडामणि

श्रीमन्माधवभट्टसूरितनयो दिक्चक्रविख्यातधीः ।

गङ्गाराममहाकविवर्यरचयत् काव्यं सुधासोदरं

तस्मिच्छ्रीहरिभूषणे सुचरिते सर्गोह्यगादष्टमः ॥ ४३ ॥

सर्ग आठवां ।

(२) कविवरजयदेवदिव्यगुम्फे नृपहरिसिंहसमाजदर्शनीये ।

इति हरिविजयेऽस्तुसप्तमाङ्कोवितमहो हरिविश्वनाथतुष्टयै ॥

संसाराभयलिप्सुना गुणगृहं श्रीमन्महानाटकं

विद्वच्छ्रीजयदेवकेन नगरे श्रीदेवदुर्गे कृतम् ।

शाके नंदहयेषुचंद्रकमिते(१५७६)पक्षे सिते कार्तिके

संपूर्ण खलु रूपकं हरिगुणं भूयाद्हरिप्रीतये ॥

प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३३ (ई० स० १६७७) के संस्कृत दानपत्र में भी है। वह संस्कृत का अच्छा विद्वान् था। 'हरिविजय नाटक' में उसने प्रसिद्ध बापारावल (कालभोज) और उसके पुत्र खुम्माण का उल्लेख करते हुए महाराणा मोकल के पुत्र क्षेमकरण से लगाकर सूरजमल, बाघसिंह, रामसिंह, विक्रमसिंह, तेजसिंह, सिंहा, जसवंतसिंह, हरिसिंह, तथा उसके कुंवर प्रतापसिंह का संक्षेप से उल्लेख किया है। इससे पाया जाता है कि उसको इतिहास का भी ज्ञान था।

विष्णु सहस्रनाम की टीका—महाभारत के भीष्मपर्व में भगवान् विष्णु के सहस्र नामों का वर्णन है, जिनका प्रत्येक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से पाठ करता है। इसकी टीका उपर्युक्त कवि जयदेव ने वि० सं० १७२४ आश्विन कृष्ण ६ (ई० स० १६६७ ता० २६ अगस्त) को की थी।

(१) गुणगृहं जयदेवमहीसुरः स कृतवान् मननव्यपदेशतः ।
हरिमहीपतितुष्टिकरामिमां सुविवृतिं हरिनामसहस्रगाम् ॥
आसीत्सिंघनृपो नृपालविलसद्भालावलीभूषण-
स्तज्जः श्रीयशवन्त रावत इति ख्यातः प्रभुर्भुजाम् ॥
तज्जः श्रीहरिसिंहरावत इति प्राप्तः प्रथां भूतले
तेनेयं विवृतिः कृता द्विजवचः प्रत्यारवाडम्बरैः ॥
वेदद्वयद्रिकुहायने (१७२४) ऽश्वयुजि मास्यंगे तिथौ कृष्णगे
पूर्णेयं विवृतिर्हेरुगुणलसन्नाम्नां जगद्भानिधेः ।
यस्यान्तःसरसीरुहे विलसति प्रोद्बोधहंसोऽनिशं
चन्द्रार्कानलदीप्तरश्मिविततिप्रध्वस्तभावान्घकृत् ॥

इति श्रीमद्गौतमेश्वरपालितललितदुर्गमदुर्गविभूषणश्रीदेवगणेश्वर-
महाराजाधिराजरावतश्रीहरिसिंहदेवकारिता श्रीजगदीश्वरसहस्रनामसुविवृतिः
संपूर्णा ।

हेमाद्रिप्रयोग—मूल-ग्रंथ प्रसिद्ध विद्वान् हेमाद्रि ने बनाया था। प्रतापगढ़ के पंडित जगन्नाथ शास्त्री की भेजी हुई महारावत हरिसिंह के समय की निर्मित पुस्तकों की सूची में 'हेमाद्रिप्रयोग' का नाम होकर उसके आरंभ का श्लोक दिया है, जिससे ज्ञात होता है कि उपर्युक्त पंडित जयदेव ने महारावत हरिसिंह के समय हेमाद्रि के मूल ग्रंथ के आधार पर उसे परिवर्तित कर संक्षिप्त रूप में बनाया हो^१।

हृदयप्रकाश—हृदयेश-रचित यह संगीत का ग्रंथ अधिकतर नष्ट हो गया है, जिससे इसका रचना-काल और ग्रंथकर्ता का विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका, परंतु इसके कुछ पत्रे मिल गये हैं, जिनसे इसका महारावत हरिसिंह के समय बनना पाया जाता है^२।

गोपालार्चनचंद्रिका—संभवतः यह विष्णुपूजा संबंधी ग्रंथ हो। इसके रचयिता ने अपना नाम न देकर अपने को कृष्ण मिश्र का पुत्र बतलाया है। इसकी रचना का समय शक संवत् १५८३ (विक्रम संवत् १७१८) श्रावण वदि ४ (ई० स० १६६१ ता० ५ जुलाई) दिया है और महारावत हरिसिंह की आज्ञा से इसकी रचना होने का उल्लेख किया है^३।

(१) जयदेवेन रचितः प्रयोगः पापनाशनः ।

भूमुजा हरिसिंहेन कृतः श्रीकृष्णवासरे ।

(२) संगीतशास्त्रसर्वस्वमसाधारणगोचरः ।

वीणादौ रागमेलादिर्हृदयेशेन कथ्यते ॥

इति श्रीमहाराजाधिराज-महाराजश्रीदेवदुर्गाधीशश्रीहरिसिंहविजयराज्ये
श्रीहृदयनारायणदेवविरचितो हृदयप्रकाशः ।

(३) शाकेवहिगजार्चि(र्चि)भूमिसहिते पद्ये च शुक्लेतरे

मासेश्रावणसंज्ञिके शशि(?)दिने श्रीमच्चतुर्थ्यातिथौ ।

आदेशान्नृहरेर्नृपस्य कृतिनामानन्दसंदायिनी

गोपालार्चनचन्द्रिकां रचितवान् कंसारिमिश्रात्मजः ॥

हरिपिंगल—यह ग्रंथ काव्यरचना के लक्षणों पर कवि जोग ने वि० सं० १७२० (चैत्रादि १७२१) ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० सं० १६६४ ता० १६ मई) गुरुवार को बनाया था। कवि जोग का इस ग्रंथ में परिचय नहीं है, परंतु रचना से वह भाषा साहित्य का प्रौढ़ विद्वान् ज्ञात होता है। उसने भाषा साहित्य के प्रायः अनेक ग्रंथों का मञ्जन कर उक्त ग्रंथ की रचना की थी ॥

महारावत हरिसिंह विद्वान् और गुणग्राहक नरेश था। प्रतापगढ़ के नरेशों में सर्वप्रथम उसने ही शाही दरबार से अपना संबंध बढ़ाकर मेवाड़ राज्य के अधिकार में गये हुए अपने राज्य को मुक्त किया। वह बादशाह शाहजहां और उसके शाहज्जानों का पूर्ण विश्वासपात्र था। नीतिकुशल होने के कारण उसने शाहज्जानों के किसी युद्ध में भाग न लिया। वह ईश्वरभक्त, मेधावी और योग्य शासक था। अपने राज्य को संपन्न करने के लिए उसने अन्य राज्यों से व्यापारियों को बुलाकर अपने यहां बसाया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरी। वह दानशील और उदार राजा था। गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने अपनी माता से स्वर्ण की तुला करवाई थी। उसका आस-पास के अन्य राजाओं से मित्रता का व्यवहार था। अपनी रचना में उसने 'सांधिविग्रहिक' उपाधि से अपने को अलंकृत किया है, जिससे पाया जाता है कि उसको ऐसी कोई उपाधि प्राप्त हुई हो। वह विद्वानों का सम्मान कर उनको अपने यहां रखता था, जिससे उसके समय

(१) जे जे कवियण जिहमें तिण तिण करे प्रणाम ।

जोगे पिंगल बांधिओ दे हरिपिंगल नाम ॥

पुष गुर पंचम जेठ सुद अमरत योग विचार ।

सतरहशे विशे समत हरिपिंगल विशतार ॥

रावत हरे रचाविओ हरिपिंगल सानन्द ।

छन्द जवाहर पाराविण चुण चुण ल्यो कवि-अंद ॥

में कई ग्रंथों की रचना हुई। राज्य अधिक बड़ा न होने पर भी उसने अपने समय में कितने ही गांव ब्राह्मणों आदि को दान में दिये थे। उसका शरीर सुगठित और बलिष्ठ था। कवि गंगाराम ने 'हरिभूषण-महाकाव्य' की उसके नाम पर रचनाकर उसमें उसकी बहुत कुछ प्रशंसा की है, जो अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी उसके गुणों पर अच्छा प्रकाश डालती है।

(१) नोष्णीशं शिरसि स्थितं दशशतच्छिद्रोऽपि नो कञ्चुको
मालिन्यं न मुखे न चास्य सहगो दारिद्र्यनामा सखा ।
नो जानन्त्यवलोकितानपि पतींश्चित्रं कवीनां स्त्रियः
शक्रादप्यधिकान्मनोभवतनूंस्त्वदानलीलायितात् ॥ १७ ॥

येषां वेशमनि जीर्णकोद्रवकरैः क्षुद्रोदरं पूर्यते
क्षुन्निद्रां हरते विमोचयति सा तन्द्रापराधीनता ।
वीर श्रीहरिसिंह तेऽपि कवयस्त्वदानलीलायिता-
न्मातङ्गाधिपमारुहन्ति तुरगान्कृत्वा पुरः सज्जितान् ॥ १८ ॥

को वा तिष्ठति भूपतिः प्रथमतः श्रीदेवलेन्द्रप्रभोः
साम्यं किञ्चिदुपैति वीर भवतो भूमण्डलाखण्डल ।

युद्धक्रुद्धपिनद्धवर्मसुभटे यत्खड्गसंघट्टनाद्
अश्यद्वहिकर्णैकदेशवडवावहिर्दहत्यम्बुधिम् ॥ २१ ॥

युद्धे कर्मणि हस्तचर्मणि दृढं देहोल्लसद्धर्मणि
प्रारूढे त्वयि वाहिनीबलिकरेऽत्युच्चैस्तुरुष्कार्वणि ।

दृष्ट्वाऽनेकमहीशसुन्दरवरानायन्ति देवाङ्गना
धूलीदुर्गमुपेत्य भानुरवति स्वीयं वपुः प्रायशः ॥ २५ ॥



महारावत प्रतापसिंह

प्रतापसिंह

वि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) के लगभग महारावत हरिसिंह
का परलोकवास हो जाने पर उसका ज्येष्ठ कुंवर
राज्य-प्राप्ति प्रतापसिंह देवलिया का स्वामी हुआ ।

उसकी गद्दीनशीनी के थोड़े ही दिनों बाद बादशाह औरंगजेब ने
सन जुलूस १७ (हि० सन् १०८५ = वि० सं० १७३१ = ई० स० १६७४) में
उसको चार सौ ज्ञात और तीन सौ सवारों का
मंसब देकर तनखाह के एवज़ में जागीर तथा खिल-
अत प्रदानकर ता० ८ रबीउस्सानी (आषाढ सुदि
१० = ता० ३ जुलाई) को उसके पास इस आशय का फ़रमान भेजा—“तुमने
अपनी अर्ज़ी में जागीर सौंपी जाने के संबंध में प्रार्थना कर चार वर्ष के भीतर
७०००० रुपये सूबे मालवे के शाही खज़ाने में दाखिल करना स्वीकार किया
है । अपनी तरफ़ से कृपा दिखलाने के लिए हमने तुमको ४०० ज्ञात और
३०० सवारों का मंसब देने के साथ ही जागीर और खिलअत वरूशी है ।
इसकी पहुंच से सूचित करो । मालवे के सूबे के नाज़िम को प्रसन्न करने
का तुमको पूरा उद्योग करना चाहिये । ”

महारावत प्रतापसिंह की गद्दीनशीनी के पीछे सात वर्ष तक मेवाड़
में महाराणा राजसिंह राज्य करता रहा । उक्त महाराणा और महारावत
शाही दरवार से महाराणा प्रतापसिंह के बीच झगड़ा बना ही रहा । महा-
रावत ने इस सम्बन्ध में शाही दरवार में अपनी
की तक्रार की जाच के फ़रियाद पहुंचाई । इसपर बादशाह औरंगजेब ने
लिए शेख़ इनायतुल्ला का तहकीकात के लिए शेख़ इनायतुल्ला को नियत
भेजा जाना किया और महारावत के नाम नीचे लिखा आह्वापत्र भेजा—

“इन दिनों तुम्हारी भेजी हुई अर्ज़ी से तुम्हारी और राणा राजसिंह
की लड़ाई का हाल ज्ञात हुआ । हमारे हुज़ूर से यह हुकम दिया जाता है कि

(१) बादशाह औरंगजेब के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद ।

हमारा आदमी जाकर इस बात की तहकीकात करे। इसलिए शेख इनायतुल्ला नियत किया जाता है कि वह पूरा हाल मालूम कर जो वास्तविकता हो वह हमारे सामने निवेदन करे। यदि अभी तक युद्ध हो रहा हो तो शेख उसे रोक देगा। उम्मेद है कि हमारी आज्ञा के अनुसार कार्य किया जायगा।”

मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने बादशाह की इच्छा के विरुद्ध श्रीनाथजी आदि की मूर्तियों को मेवाड़ में रखा; जज़िया के संबंध में बादशाह को बड़ा कठोर पत्र लिखा और जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह के बालक पुत्र अजीतसिंह को अपने यहां आश्रय दिया। इन सब कारणों से बादशाह महाराणा से अप्रसन्न हो गया और उसने

मेवाड़ पर बादशाह औरंगजेब की चढ़ाई और महारावत के नाम पर फरमान पहुंचना

उसको सज़ा देने का विचार कर अपने शाहज़ादों को, जो बाहिर सूबों पर नियत थे, मेवाड़ में सेना-सहित जाने की आज्ञा भेजी। फिर वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में बादशाह ने स्वयं अजमेर जाकर मेवाड़ पर चढ़ाई की। इस अवसर पर सन् जुलूस २३ (हि० सन् १०६० = वि० सं० १७३६ = ई० स० १६७६) में बादशाह ने महारावत के नाम नीचे लिखा फ़रमान भेजा—

“ता० ७ ज़िल्काद (मार्गशीर्ष सुदि ६ = ता० १ दिसंबर) को हमारी बहादुर सेना राणा राजसिंह को सज़ा देने के लिए अजमेर से प्रस्थान करेगी। इसलिए यह फ़रमान भेजा जाता है कि राणा के इलाक़े को लूटने के लिए अपने आदमी नियत कर दो और स्वयं मंदसोर में रहकर हमारी सेना के लिए रसद का प्रबंध करो, क्योंकि हम ता० २१ ज़िल्काद (पौष वदि ८ = ता० १५ दिसंबर) को खाना होकर मंदसोर पहुंचेंगे। राणा से बदला लेने की तुम्हारी सदैव इच्छा रही है, अतएव यह अवसर तुम्हें सौभाग्य से मिल गया है। तुम्हें चाहिये कि राणा के इलाक़े में, जो तुम्हारी ज़र्मांदारी से मिला हुआ है, लूट से बरी न समझो और जिस क़द्र लूट-खसोट तुमसे उसके इलाक़े में हो सके उसमें कमी न करो। इस काम को बादशाही आज्ञा के अनुसार अपनी

प्रतिष्ठा-वृद्धि का कारण समझो, तथा स्वामीभक्ति-पूर्ण सेवा-भावना से शाही कृपा और पुरस्कारों के उम्मेदवार रहो। जिस मार्ग से हम मंदसोर जाते हैं, देवलिया वहां से छः-सात कोस रहता है। तुम हमारे मंदसोर पहुंचने पर अच्छे आदमियों के साथ उपस्थित होकर हमारे दर्शनों का लाभ प्राप्त करो और नियत की हुई सेवा को अपनी उन्नति का उत्तम साधन समझो।”

इसपर महारावत प्रतापसिंह भी अपनी सेना-सहित मंदसोर में बादशाह के पहुंचने पर शाही सेना के शामिल हो गया। फिर वहां से बादशाह ने अपनी विशाल-सेना के साथ मेवाड़ में प्रवेश किया और उदयसागर तक जा पहुंचा। शाहजादे मुअज्जम, आजम और अकबर भी मेवाड़ में पहुंच गये और बादशाह की आज्ञानुसार भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्होंने महाराणा राजसिंह पर आक्रमण किया। कई महीनों तक शाही फौज और महाराणा की सेना के बीच युद्ध होता रहा। जब बादशाह को शीघ्र मेवाड़ के युद्ध में विजय-प्राप्ति की-आशा न दीख पड़ी तो वह वहां से पीछा चित्तौड़ होता हुआ अजमेर लौट गया। उसने मेवाड़ को विजय करने का भार शाहजादे मुअज्जम, आजम और अकबर पर छोड़ा, जो महाराणा के हमलों को रोकने एवं उसपर आक्रमण कर उसका बल तोड़ देने के लिए नियत थे। इस अवसर पर मारवाड़ के राठोड़ सरदार वीर दुर्गादास आदि भी मेवाड़ में रहने के कारण महाराणा के साथ थे। राठोड़ों और सीसोदियों की सम्मिलित सेना ने शाही फौज का वीरतापूर्वक मुक्तावला किया। महाराणा के कुंवर जयसिंह ने चित्तौड़ के पास शाही सेना पर आक्रमण कर उसको छिन्न-भिन्न किया। कुंवर भीमसिंह ने गुजरात में जाकर शाही इलाक़े को खूब लूटा और कई मसजिदों को गिरवा दिया। महाराणा के मन्त्री दयालदास ने भी मालवे में जाकर लूट-मार मचाई, जिससे अधिक दिनों तक शाही सेना के पैर मेवाड़ में न टिक सके और शाहजादे भी हिम्मत हार गये।

(१) बादशाह औरंगज़ेब के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद ।

महारावत प्रतापसिंह, इस युद्ध के समय बादशाह के पक्ष में था और संभवतः मालवे की तरफ़ नियत था। उसने अपनी कारगुज़ारी की दख्ख्वास्त शाहज़ादे मुअज़्ज़म के पास, जो देवारी (उदयसागर के निकट) में नियत था, भेजी। उसके उत्तर में सन् जुलूस २३ ता० २ शवान (हि० सन् १०६१ = वि० सं० १७३७ भाद्रपद सुदि ३ = ई० स० १६८० ता० १७ अगस्त) को उक्त शाहज़ादे ने महारावत के नाम इस आशय का निशान भेजा—
 “तुमने अपनी सेवाओं की पुस्तगी के लिए हमारे मुसाहबों के द्वारा अर्ज़ा भेज हमारे पास उपस्थित होने की इच्छा प्रकट की है, इसलिए हमने अपने विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित कर्मचारी वृंदावन के द्वारा तुमको हाज़िर होने की इजाज़त दी है। उम्मेद है कि तुम रवाना हो गये होगे। अगर रवाना न हुए हो तो अब फ़ौरन हाज़िर हो^३।”

शाहज़ादों ने महाराणा पर विजय पाने के लिए यथासाध्य उद्योग किया, परन्तु उसमें उनको सफलता न मिली। इसी बीच महाराणा राजसिंह वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) में परलोक सिंधारा और उसका कुंवर जयसिंह मेवाड़ का महाराणा हुआ। उसने भी अपने पिता की भांति शाही सेना से युद्ध जारी रखा और बादशाह के घर में भगड़ा मचाने के लिए दुर्गादास आदि राजपूतों ने शाहज़ादे अकबर को बादशाह बनाने का लालच देकर अपनी तरफ़ मिला लिया, परन्तु इस प्रयत्न में उन्हें सफलता न मिली। उन दिनों दक्षिण में मरहटों का उपद्रव बढ़ रहा था, इसलिए राजपूताने के उपद्रव को मिटाकर बादशाह शीघ्रतापूर्वक उधर जाने को उत्सुक था। निदान महाराणा के कुटुंबी श्यामसिंह (गरीबदास का पुत्र, जो शाही सेवा में रहता था) के द्वारा संधि कर लेने का सन्देश पहुंचने पर वि० सं० १७३८ (ई० स० १६८१) में बादशाह और महाराणा जयसिंह के बीच संधि हो गई। तब शाही सेना मेवाड़ से लौट गई।

बादशाह और महाराणा के बीच की लड़ाई के समय महारावत प्रतापसिंह, शाही सेना में किस स्थान पर नियत था और उसने युद्ध में

(१) शाहज़ादे मुअज़्ज़म के फ़ारसी निशान का अनुवाद।

कैसी वीरता दिखलाई, इसका पता नहीं चलता। बादशाह के उपर्युक्त फ़रमान से तो यही जान पड़ता है कि देवलिया से मिले हुए महाराणा के इलाक़े को लूटने आदि के लिए ही उसकी नियुक्ति की गई हो।

प्रतापगढ़ राज्य के कुशलपुरा गांव में, जो भांतला ठिकाने का गांव है, एक स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर वि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) का लेख खुदा है। उसका सारांश यह है कि वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) में रावत महासिंह मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसका स्मारक वि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) में राव (त) देवीसिंह ने बनवाया^१।

रावत महासिंह और देवीसिंह कहां के सरदार थे, प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त ऐतिहासिक साधनों से इसका पता नहीं चलता; परंतु उदयपुर राज्य के संबंध की प्राप्त ऐतिहासिक सामग्री से पाया जाता है कि उदयपुर पर बादशाह औरंगज़ेब की चढ़ाई हुई, उस समय महाराणा की सेना में बेगूं का सरदार रावत महासिंह चूडावत भी विद्यमान था एवं जब महाराणा की सेना का शाहज़ादे अक़बर की फ़ौज से मुकाबला हुआ, उस समय उसने बड़ी वीरता दिखलाई थी। शाहज़ादा अक़बर इस युद्ध के समय चित्तौड़ से लगाकर नीमच, मंदसौर और उदयपुर तक महाराणा की सेना से लड़ने, रसद लूटने, रिश्रया को पकड़कर कैद करने आदि के लिए नियत था। कुशलपुरा गांव नीमच से मिला हुआ है। संभव है रावत महासिंह के उधर से बढ़कर शाही सेना पर आक्रमण करने पर वह शाही फ़ौज और प्रतापगढ़ राज्य की सेना से, जो विशेषतः मालवे की ओर नियुक्त थी, लड़कर काम आया हो तथा उसका स्मारक उसके वंशज देवीसिंह ने, जो वि० सं० १७६८ (ई० स० १७११) में विद्यमान था, कुशलपुरा में बनवाया हो।

(१) संवत् १७३७ रावत श्री महासींघजी राम कयो बायां च्यार काठा चढ्या संवत् १७६८ चौतरो वगयो रावत(वत) श्री देवीसींघजी
..... ।

मूल शिलालेख की छाप से।

शाहज़ादे आज़म के द्वारा महाराणा जयसिंह और बादशाह औरंग-जेब के बीच संधि हो जाने पर बादशाह को उधर का खटका न रहा। फिर

शाहज़ादे मुअज़्ज़म का महारावत के नाम निशान भेजना उसने दक्षिण की तरफ़ कूच किया। इस अवसर पर महारावत प्रतापसिंह ने अपना वकील भेज शाही दरवार में कई बातें निवेदन करवाईं। इस पर शाहज़ादे मुअज़्ज़म ने सन् जुलूस २५ ता० १७ रमज़ान (हि० स० १०६२ = वि० सं० १७३२ = द्वितीय आश्विन वदि ३ = ई० स० १६८१ ता० २० सितम्बर) को निशान भेज लिखा—“तुम्हारा जैसा भरोसा है, उसी प्रकार सेवाओं का वृत्तांत तुम्हारे वकील के द्वारा हमको हमारे मुसाहबों से मालूम हुआ। इसलिए तुम्हारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए यह आज्ञापत्र भेजा जाता है। उचित है कि हृदय में विश्वास रख अपने आदिमियों को एकत्र कर हमारे उधर आने के समय हाज़िर हो और अच्छी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करो। कुछ समय तक हमारी सेना में रहने के बाद तुम्हारी इच्छा के अनुसार मंसब और जागीर प्रदान की जायगी।”

इस निशान के ऊपरी भाग में शाहज़ादे ने अपने हाथ से यह भी लिखा कि हमारी आज्ञा के अनुसार उस प्रदेश में हमारे पहुंचने तक जहां तक तुमसे बन सके भगड़े और लड़ाई को मिटाओ, जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। इससे पाया जाता है कि उधर कोई लड़ाई-भगड़े चल रहे हों, जिनको मिटाने के लिए महारावत को शाहज़ादे ने ताकीद की हो, पर यह भगड़े और फ़िसाद किनके साथ चल रहे थे इसका कुछ पता नहीं चलता।

महारावत प्रतापसिंह का इसके पीछे शाही दरवार से कैसा सम्बन्ध रहा और उसके मंसब, जागीर आदि में कितनी वृद्धि हुई, इस विषय का फ़ारसी तवारीखों, ख्यातों और तत्समयक पत्रों आदि से कुछ भी हाल ज्ञात नहीं हो सका। संभव तो यही जान पड़ता है कि महारावत विशेषकर मालवे की तरफ़ रहा हो और उस प्रान्त की रक्षा तथा वहां के

पारस्परिक झगड़े मिटाने का भार उसके ऊपर रहा हो, जैसा कि सन् जुलूस ३२ ता० ६ शव्वाल (हि० १०६६ = वि० सं० १७४५ श्रावण सुदि ७ = ई० स० १६८८ ता० २४ जुलाई) के निम्नलिखित पत्र से, जो उसके नाम शाही दरबार से पहुंचा था, पाया जाता है—

“तुम्हारी अर्ज़ी अबलोकन हुई । तुम्हारे लेखानुसार शाही कृपा के साथ भीर जैनुल्आबदीन के नाम आझापत्र जारी किया जाता है । तुमको चाहिये कि जो काम पेश आवे उसमें पूरी सहायता करो और उस सेवा को शाही कृपा का साधन समझो ।”

राजधानी देवलिया के चारों ओर पहाड़ियां होने से वह स्थान अधिक आवादी बढ़ने के उपयुक्त न था एवं वहां का जलवायु भी आरोग्यप्रद न था^२ । अतएव महारावत प्रतापसिंह ने महारावत का प्रतापगढ़ का करवा आवाद करना वि० सं० १७५५ (ई० स० १६६६) के आस-पास अपने नाम पर समान भूमि पर, जहां पहले डोडे-रिया खेड़ा था, प्रतापगढ़ करवा बसाकर वहां रहना अख्तियार किया^३, जो इस समय राज्य की राजधानी है ।

मेवाड़ के स्वामी महाराणा जयसिंह ने अपने राज्य-काल में देवलिया-राज्य से किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न की, जिससे देवलिया-राज्य में सुख-शांति रही और महारावत को अपना देश का महारावत से छेड़-छाड़ आवाद करने का अवसर मिला । वि० सं० १७५५ (ई० स० १६६८) में उक्त महाराणा का देहांत करना

(१) मूल फ़ारसी पत्र का अनुवाद ।

(२) नैयासी का कथन है कि जाजली और जाखम नदियां देवलिया के पहाड़ों से निकलती और देवलिया से पांच कोस (१० मील) दूर उदयपुर के मार्ग में पड़ती हैं । उनका जल यहां तक खराब है कि पीनेवाला तो रोगग्रस्त होता ही है, परन्तु जो उस नले के जल में होकर जाता है वह भी कष्ट पाता है (मुंहयोत नैयासी की ख्यात; भाग १, पृ० ६३) ।

(३) मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० २२२ (राज-पुस्ताना गैज़ेटियर, जि० २ ए के अन्तर्गत) ।

हो गया और उसका कुंवर अमरसिंह (दूसरा) वहां का महाराणा हुआ। अपनी गद्दीनशीनी के अवसर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अधीशों के स्वयं टीका लेकर न पहुंचने के कारण अमरसिंह ने अप्रसन्न होकर तीनों जगह सेनाएं भेजने की आज्ञा दी। डूंगरपुर में सेना पहुंचने पर महारावल खुम्राणसिंह ने महाराणा की सेना से मुन्नाबला किया और शाही दरवार में महाराणा की शिकायत की। इसी प्रकार बांसवाड़ा के स्वामी अजबसिंह ने भी वहां सेना पहुंचने पर महाराणा की शिकायत की, जिससे महाराणा ने फिर अपनी जंगी कार्रवाई रोक दी। महाराणा की सेना के उस समय प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर उसने वहां क्या-क्या बिगाड़ किया और उस सेना का सेनापति कौन था, इसका वृत्तान्त कहीं नहीं मिलता, परंतु शाही सेवक केशवदास के हि० सं० ११११ (वि० सं० १७५६ = ई० सं० १६६६) के महाराणा अमरसिंह के नाम के पत्र से प्रकट है कि महाराणा की सेना ने देवलिया के इलाक़े में भी जाकर लूटसान किया था, जिसकी शिकायत महारावत प्रतापसिंह की तरफ से बादशाह के पास होने पर, उस (केशवदास) ने महाराणा को शुरू गद्दीनशीनी के समय ऐसी कार्रवाई करने से मना किया था। इसपर महाराणा ने फिर देवलिया के स्वामी से छेड़-छाड़ न की, परंतु महाराणा और महारावत के बीच वैमनस्य बना ही रहा।

प्रतापगढ़ राज्य से पिपलोदा ठिकाने (मालवे) की सीमा मिली हुई है। उन्हीं दिनों वहां के डोड़िये राजपूतों ने उहंडता कर लूट-मार आरंभ

महारावत की पिपलोदे पर
चढ़ाई

की और एक ब्राह्मण को मार डाला एवं उसकी संपत्ति लूट ली। महारावत ने डोड़ियों को कहलाया

कि ब्राह्मण को मारकर तुमने बड़ा भारी पाप किया है, इसलिए भविष्य में ऐसा काम करना छोड़ दो और लूटा हुआ माल लौटा दो। इस बात को डोड़ियों ने स्वीकार न किया और सामना करने को उद्यत हो गये। इसपर महारावत ने अपने राजपूतों को लेकर

पिपलोदे पर चढ़ाई की और वहां के दुर्ग को घेर लिया। डोडियों ने भी धीरतापूर्वक महारावत की सेना का मुक्ताबला किया। अन्त में महारावत के भाई मोहकमसिंह ने किले में प्रवेश कर वहां अधिकार कर लिया। फिर डोडियों ने अपने अपराध के लिए क्षमा याचना कर लूट-मार न करने की प्रतिज्ञा की। तब महारावत ने उनको माफ़कर पीछा उनका इलाक़ा उन्हें सौंप दिया^१।

बादशाह औरंगज़ेब के समय शाहज़ादे मुअज़्ज़म का दूसरा पुत्र अज़ीमुश्शान बंगाल की तरफ़ नियत था। उसने बादशाह की तरफ़ से अपने पास रहनेवाले एक नाज़िर को, जो महारावत का शेरबुलंदखां को अपने यहाँ आश्रय देना बादशाह का कृपापात्र और ख़बरनवीसी का कार्य करता था, अपने सेवक शेरबुलंदखां-द्वारा मरवा डाला। इसपर बादशाह ने शेरबुलंदखां को बंदी करने का हुक्म भेजा, जिससे अज़ीमुश्शान को बड़ी चिंता हुई। फिर उसने महारावत प्रतापसिंह के नाम पत्र भेजा कि शेरबुलंदखां को वहां आश्रय दिया जावे। अज़ीमुश्शान के इस पत्र के पहुंचने पर महारावत के सरदारों में दो दल हो गये। एक शेरबुलंदखां को आश्रय देने के पक्ष में और दूसरा इसके विपक्ष में था। अंत में महारावत के भाई मोहकमसिंह-द्वारा दृढ़ सम्मति मिलने पर महारावत ने मोहकमसिंह को ही शेरबुलंदखां के स्वागत को भेजकर उसे अपने यहां बुला लिया^२।

वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०६) में बांसवाड़ा के स्वामी महारावल अजबसिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र भीमसिंह वहां का स्वामी हुआ, परंतु उन दिनों बादशाह औरंगज़ेब के दक्षिण में होने और फिर उसकी वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में मृत्यु हो जाने तथा शाह-

बादशाह का महारावत को शाही दरवार में बुलाना

(१) महाराज बहादुरसिंह, रावत प्रतापसिंह ने मोहोकमसिंह हरिसिंघोत, देवगढ़ रा धरणी री चार्ता, पृ० २६-६६ ।

(२) वही, पृ० १६-२५ ।

ज़ादे मुअज़्ज़म (शाह आलम बहादुरशाह) और आज़म के बीच तख्त के लिए झगड़ा होने आदि कारणों से वांसवाड़ा और देवलिया के स्वामी शाही दरवार में नहीं जा सके थे। बहादुरशाह ने बादशाह बनने पर ई० स० १७०८ के जनवरी (वि० सं० १७६४ माघ) मास में इन दोनों राज्यों के नरेशों को शाही दरवार में लाने के लिए दो शाही सेवकों को भेजा। इससे अनुमान होता है कि महाराजत शाही दरवार में गया हो, पर इससे आगे का वृत्तांत अप्राप्य है।

ऊपर बतलाया गया है कि वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में दक्षिण में बादशाह श्रीरंगजेव का देहांत हो गया। उस समय उसके दोनों शाह-महाराजा अजीतसिंह और सवाई जयसिंह का देवलिया में जाना ज़ादे मुअज़्ज़म और आज़म के बीच बादशाह बनने के लिए वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में जजाओ के मैदान में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें शाहज़ादे मुअज़्ज़म की विजय हुई और आज़म मारा गया। फिर मुअज़्ज़म अपना नाम शाहआलम बहादुरशाह रखकर मुगल साम्राज्य का स्वामी हुआ। जजाओ के युद्ध में आंवेर का स्वामी महाराजा सवाई जयसिंह आज़म के पक्ष में और उसका भाई विजयसिंह मुअज़्ज़म के पक्ष में रहकर लड़ा था। इस कारण बहादुरशाह ने बादशाह बनने पर जयसिंह के स्थान में विजयसिंह को आंवेर का स्वामी बनाना चाहा। उन्हीं दिनों जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह ने श्रीरंगजेव की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर अपने राज्य से शाही खालसा उठा दिया। इससे बहादुरशाह ने अजीतसिंह को दंड देकर जोधपुर पर पुनः अधिकार करने एवं आंवेर विजयसिंह को दिलाने के लिए अपने शाहज़ादे अज़ीमुद्दौल्ला और खानखाना मुनइमखां आदि को ससैन्य रवाना किया और आप भी अजमेर होता हुआ जोधपुर के समीप जा पहुंचा। उस समय अजीतसिंह ने शाही सेना से मुकाबला करने में हानि समझ बादशाह के पास उपस्थित होना ही ठीक

(१) बहादुरशाह के राज्य समय के अफ़वारत-इ-दरबार-इ-मुअज़्ज़म से।

ये अफ़वारत जयपुर राज्य के संग्रह में सुरक्षित हैं।

समझा। बादशाह ने उसका पहले का अपराध क्षमाकर उसको साढ़े तीन हज़ारी मंसब देकर जागीर में सौजत, सिवाणा और फलोधी के परगनों का फ़रमान कर दिया एवं जोधपुर तथा मेड़ता आदि पर शाही खालसा भेज दिया। वहीं आंबेरे से सवाई जयसिंह भी जाकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। बादशाह ने उस (जयसिंह) की सेवा स्वीकार कर उसको अपने सरदारों में शुमार किया और आंबेरे पर हुसेनअलीख़ां को बंदोबस्त के लिए भेज दिया। फिर बहादुरशाह वहां से दोनों राजाओं को साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंचा। उन्हीं दिनों बहादुरशाह के पास उसके भाई कामबख़्श के दक्षिण में अपने को बादशाह घोषित कर फ़साद उठाने की ख़बर पहुंची। निदान वह कामबख़्श को सज़ा देने के लिए दक्षिण की ओर रवाना हुआ। उस समय राठोड़ दुर्गादास-सहित महाराजा अजीतसिंह और सवाई जयसिंह अपने-अपने राज्य मिलने की आशा से मंडेश्वर (मंडलेश्वर, नर्मदा के तट पर) तक बादशाह के साथ रहे, परंतु जब देखा कि राज्य मिलने की कोई आशा नहीं है और उनपर बादशाह की तरफ़ से निगरानी की जाती है, तब उसे बिना सूचना दिये ही वे अपने डेरे-डंडे वहाँ छोड़कर उदयपुर की ओर चले गये। मार्ग में देवलिया में पहुंचने पर महारावत प्रतापसिंह ने उनका उचित आतिथ्य कर उन्हें उदयपुर को रवाना किया, जहाँ महाराणा अमरसिंह (दूसरा) ने उन्हें अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रक्खा।

उदयपुर में उनके पहुंचने की ख़बर पाकर शाहज़ादे मुईजुद्दीन जहाँ-दारशाह ने महाराणा को लिखा कि उन्हें अपने पास नौकर न रक्खे और

उन्हें समझा दे कि वे बादशाह के पास अर्ज़ियां भेजें, मैं उनके अपराध क्षमा करा दूंगा और जागीरें दिलवा दूंगा। वहां से महाराणा अमरसिंह की सहायता पाकर महाराजा अजीतसिंह ने जोधपुर आदि पर और सवाई जयसिंह ने आंबेरे आदि पर अपना अधिकार कर लिया। उन दिनों बादशाह, काम-

किशनगढ़ के राजा राजसिंह का देवलिया जाकर रहना

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ७६८-७८। जोधपुर राज्य की ख्यात, वि० २, पृ० ८३-४।

वर्ष को पराजित करने में व्यस्त था, इसलिए उन्होंने यह अवसर उपयुक्त देख शाही इलाक़े में भी उपद्रव करना चाहा। तब रूपनगढ़ (किशनगढ़) का स्वामी राजा राजसिंह (जो बादशाह का आज्ञाकारी सेवक था) उक्त दोनों राजाओं का साथ न देने से अपने इलाक़े की भी बरबादी समझ देवलिया में चला गया और जब तक उनका उपद्रव शांत नहीं हुआ, वह वहां के महारावत का मेहमान रहा। इस बीच उसने उपर्युक्त दोनों राजाओं के उपद्रवों को मिटाने के लिए उनके इलाक़े के फ़रमान उनके नाम हो जाने की बादशाह के पास शाहज़ादे अज़ीमुशशान-द्वारा अज़ीं भेजी, जो स्वीकृत होकर दोनों राजाओं के नाम के शाही फ़रमान उसके पास बादशाह की ओर से पहुंच गये। उनको लेकर वह देवलिया से विदा हुआ और उसने उक्त दोनों राजाओं को शाही फ़रमान देकर बढ़ता हुआ उपद्रव रोक दिया^१।

लगभग ३५ वर्ष राज्य करने के पश्चात् अनुमान ७५ वर्ष की आयु में महारावत प्रतापसिंह का देहांत हुआ। एक जगह उसके देहांत का समय महारावत का परलोकवास वि० सं० १७६४ पौष वदि ३ (ई० सं० १७०७ ता० ३० नवंबर) दिया है^२, जो ठीक नहीं है, क्योंकि “जोधपुर राज्य की ख्यात” एवं “वीरविनोद” के अनुसार, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, वि० सं० १७६५ के ज्येष्ठ मास (ई० सं० १७०८ मई) के प्रारंभ में महाराजा अजीतसिंह तथा महाराजा सवाई जयसिंह के देवलिया में जाने पर महारावत प्रतापसिंह का उनका आतिथ्य करना स्पष्ट है^३। ऐसी अवस्था में वि० सं० १७६४ (ई० सं० १७०८) में उसका परलोकवास होना माना नहीं जा सकता। संभव है कि महारावत प्रतापसिंह का देहांत वि० सं० १७६५ के ज्येष्ठ (ई० सं० १७०८ मई) मास के पीछे किसी समय हुआ हो और ख्यात-लेखकों ने वि० सं० १७६५

(१) जोधपुर राज्य की ख्यात; द्वितीय भाग, पृ० ६०। “वीरविनोद” से पाया जाता है कि महाराजा अमरसिंह (दूसरा) ने भी इस सम्बन्ध में यथेष्ट प्रयत्न किया था (द्वि० भा०, पृ० ७७३-८)।

(२) पंडित जगन्नाथ शास्त्री; कान्यकुसुम (प्रस्तावना); पृ० २२।

(३) देगो ऊपर पृ० १८७, टिप्पण १।

(ई० स० १७०८) के स्थान पर वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) लिख दिया हो।

महारावत प्रतापसिंह के दस राणियां थीं, जिनमें एक चीकानेर के स्वामी महाराजा कर्णसिंह की पौत्री और पद्मसिंह की पुत्री प्रेमकुंवरी थीं।

महारावत की राणियां
और संतति

इस विवाह के अवसर पर महारावत ने चारण-
भाटों आदि को बहुत कुछ द्रव्य देकर बड़ी उदा-
रता प्रकट की थी^३। उसके पृथ्वीसिंह, कीर्तिसिंह^४

भीमसिंह, दौलतसिंह और इंद्रसिंह नामक पांच कुंवर हुए^५।

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ५-६। प्रतापगढ़ से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में उक्त महारावत के केवल ६ राणियां होने का उल्लेख है।

(२) प्रतापगढ़ से प्राप्त पुरानी ख्यात, पृ० ६। इस ख्यात में महारावत की राणियों के जो नाम दिये हैं, वे बड़वे की ख्यात से नहीं मिलते एवं बड़वे की ख्यात में महारावत की रतौड़ राणी प्रेमकुंवरी का नाम ही नहीं है। उस (प्रतापसिंह) के साथ उसकी दो राणियां—गौड़ धर्मकुंवरी, जो अजमेर के प्रसिद्ध राजा विहलदास की पुत्री और गोपालदास की पौत्री थी तथा कड़वाही विजयकुंवरी, जो अमरसिंह की पौत्री और सब्वासिंह की पुत्री थी, सती हुईं।

(३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६२।

(-४) मालवे के सूवेदार शायस्ताखां की ता० ३ शावान सन् जुलूस ४७, हि० स० १११४ (वि० सं० १७२६ पौष सुदि ५ = ई० स० १७०२ ता० १२ दिसंबर) की रिपोर्ट से प्रकट है कि महारावत प्रतापसिंह का छोटा पुत्र कीर्तिसिंह मालवे के शाही सूवेदार के पास (संभवतः देवलिया की सेना के साथ) रहा करता था और उन दिनों महाराणा अमरसिंह (दूसग) की रामपुरा पर चढ़ाई होने का संवाद सुन वह देवलिया चला गया था, जिसका कारण यहाँ हो सकता है कि उन दिनों उक्त महाराणा की देवलिया पर भी सेना भेजने की अवसर फैल रही हो (वीरविनोद; जि० २, पृ० ७४७-४८)।

(५) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात; पृ० ५। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक पुरानी ख्यात में महारावत के कुंवरों में दौलतसिंह का नाम नहीं है एवं उसकी तीन कुंवरियों के नाम बनेकुंवरी, सौमान्यकुंवरी और फूलकुंवरी दिये हैं। “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६२) में महारावत की पुत्रियों में से एक का विवाह जोधपुर के स्वामी महाराजा अजीतसिंह से होने का उल्लेख है, जो अन्य किसी ख्यात के आधार पर है। हमारे पास प्रतापगढ़ राज्य से जो ख्यातें आई हैं, उनमें कहीं इस विषय का उल्लेख नहीं है। “वीरविनोद” में जोधपुर राज्य की ख्यात के आधार पर महारावत प्रतापसिंह के कुंवर पृथ्वीसिंह की पुत्री का विवाह महाराजा अजीतसिंह से होना मानकर

महारावत लोकोपयोगी कार्यों की तरफ पूर्ण रुचि रखता था। उसने देवलिया में प्रतापवाच नामक बावड़ी और वास बनवाया। यह बावड़ी देवलिया के जलाशयों में सबसे उत्कृष्ट है और अकाल के समय इस बावड़ी से देवलिया के निवासियों का काम चलता है। उसकी माता मनभावती ने केशव भटेवरा के निरीक्षण में मानसरोवर नामक सुरम्य जलाशय, जिसके आस-पास आम्रवृक्षों की प्रचुरता थी, बनवाया^१। उसकी राणी पाटमदे (धर्मकुंवरी) ने भी देवलिया में एक बावड़ी बनवाई तथा धमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास^२ ने भी वहां एक बावड़ी बनवाकर उक्त महारावत के समय उसका वास्तु-संस्कार किया था।

पहले की बात का खंडन किया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिये "जोधपुर राज्य की ख्यात" से मिलान करने पर पाया जाता है कि महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में जोधपुर पर अधिकार होने के पूर्व देवलिया में हुआ था और उसके उदर से कुंवर उदोतसिंह का जन्म हुआ था, जो बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पीछे जोधपुर पर अधिकार होने के समय विद्यमान था। उसके पीछे वि० सं० १७६६ (ई० स० १७०९) में उक्त महाराजा ने देवलिया में जाकर फिर अपना विवाह किया था। जोधपुर राज्य की ख्यात में जहां महाराजा अजीतसिंह की राणियों के नाम दिये हैं, वहां उसकी दो राणियों का देवलिया की होना बतलाकर एक को महारावत पृथ्वीसिंह की कुंवरी और प्रतापसिंह की पौत्री लिखा है, किंतु उसका नाम नहीं दिया है और दूसरी का कुछ भी परिचय नहीं दिया है। मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत जोधपुर के राजाओं की राणियों और कुंवरों की नामावली में भी उक्त महाराजा के देवलिया की दो राणियां होना लिखा है, परंतु उनके नाम नहीं दिये हैं एवं एक राणी का वि० सं० १७८१ आषाढ़ सुदि ९ (ई० स० १७२४ ता० १९ जून) को विवाह होना लिखा है। ख्यातों के उपर्युक्त विभिन्न लेखों से इसका ठीक-ठीक निर्णय होना कठिन है; परंतु यह कहा जा सकता है कि महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह महारावत प्रतापसिंह की विद्यमानता में, जैसा कि कर्नल टॉड ने (जि० २, पृ० १०१० में) लिखा है, वि० सं० १७५३ (ई० स० १६९६) में उसकी किसी पुत्री अथवा पौत्री से हुआ हो और दो विवाह उक्त महाराजा के देवलिया की राजकुमारियों से पीछे से भी हुए हों।

(१) देखो ऊपर पृ० १६६ टिप्पण संख्या २।

(२) देखो ऊपर पृ० १६३ टिप्पण संख्या ५।

अपने पिता हरिसिंह की भांति महारावत प्रतापसिंह भी विद्याप्रेमी था। वह विद्वानों को आश्रय देकर अपने यहां रखता और उनका सम्मान करता था। उसके राज्य-काल में कितने ग्रंथों का निर्माण हुआ इसका तो पता नहीं चलता, परंतु उसके समय में कल्याण कवि-रचित "प्रताप प्रशस्ति" नामक खंडित काव्य की रचना होने तथा अन्य जगह उसकी राजसभा में रहनेवाले विद्वान् सोमजीभट्ट, मन्नाभट्ट, विश्वनाथ, मेहता जयदेव, मेहता हरिदेव, भगवान-कवि, नृसिंहनागर, केशव पौराणिक, संतोपराय, रामकृष्ण, रामजी बाटी, विजयसूरि, नरू आदि का उल्लेख मिलता है। महारावत स्वयं भाषा में काव्य-रचना किया करता था। उसके रचे हुए कुछ दोहे प्राप्त हुए हैं, जो "काव्य कुसुम" के द्वितीय भाग में मुद्रित हुए हैं। दोहे अधिकतर भक्ति तथा ज्ञान संबंधी हैं एवं उनसे महारावत की अध्यात्म की तरफ रुचि होना प्रकट होता है। उसके बनाये हुए दोहों में कुछ शृंगार रस के भी हैं। रचना सरल है और विभन्न अलंकारों का उनमें अच्छा समावेश है। कुछ दोहों में उसने अपने पिता महारावत हरिसिंह की दानशीलता की प्रशंसा करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से मेवाड़ के स्वामी महाराणा जगतसिंह (प्रथम) के बाद उसको स्थान दिया है^१, जिससे पाया जाता है कि वह अपने पिता की विद्यमानता एवं महाराणा जगतसिंह के देहांत अर्थात् वि० सं० १७०६ (ई० सं० १६५२) के पूर्व ही काव्य-रचना करने लग गया था। उसके बनाये हुए दोहों में भगवान कवि, हरिदेव, संतोपराय आदि की स्तुति की है, जिनके सत्संग से संभव है उसको काव्य संबंधी ज्ञान हुआ हो।

महारावत प्रतापसिंह के समय के वि० सं० १७३१ से १७६४ (ई० सं० १६७५ से १७०७) तक के कई दानपत्र और शिलालेख मिले हैं, जिनमें से

(१) हरि-इंद जसवंत-सिंघरा, बहु देणा दातार ।

जिण दिन नहिं राणो जगो, तिण दिन तो शिर भार ॥

काव्य कुसुम; भाग २, पृ० २ ।

महारावत के समय के
शिलालेख और दानपत्र

कुछ दानपत्रों की नकलें और शिलालेखों की छापें
हमारे पास आई हैं, जिनका आशय नीचे लिखे
अनुसार है—

(१) वि० सं० १७३१ फाल्गुन सुदि ७ (ई० स० १६७५ ता० २१
फ़रवरी) रविवार का देवलिया में भोगीदासजी की बावड़ी के ताक में लगा
हुआ शिलालेख, जिसमें सीसोदिया वंशी गोपाल के पौत्र और जोधा के
पुत्र भोगीदास का उक्त बावड़ी बनवाकर महारावत प्रतापसिंह के राज्य-
काल में उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है^१ ।

(२) वि० सं० १७३२ फाल्गुन वदि १३ (ई० स० १६७६ ता० १ फ़रवरी)
का मागसा गांव का गढ़वी गोकल के नाम का दानपत्र, जिसमें मागसा
गांव चारण गोकल को उक्त महारावत-द्वारा मिलने का उल्लेख है ।

(३) पाटण्या गांव का वि० सं० १७३३ माघ सुदि १५ (ई०-स०
१६७७ ता० ७ फ़रवरी) का दानपत्र, जिसमें महारावत प्रतापसिंह का पाट-
ण्या गांव मेहता जयदेव को दान करने का उल्लेख है^२ । यह दानपत्र संस्कृत

(१) देखो ऊपर पृ० १६३ टिप्पण संख्या ५ ।

(२)महेद्रसमेन श्रीमहाराजाधिराजमहाराजरावतश्री-
प्रतापसिंहदेवेनालोच्येदमुक्तं । वाताभ्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमात्र-
मधुरोविषयोपभोगः । प्राणास्तृणाग्रजलविंदुसमा नराणां धर्मः सखा पर-
महो परलोक्याने । तथा । या स्वसन्ननि पद्मेपिदिनावधि विराजते इन्दिरा
मन्दिरे न्यस्य कथं स्थास्यति सा चिरमितो निःसारं संसारमाकलय्य
सहेतुकसकलदुःखनाशकसकलनित्यानित्यसुखसाधकसाधनाग्रेसरकृतोभयै-
कादशीत्रितोद्यापने यमाघशुक्लैका[द]श्यां मया प्रतापसिंहनृपेण महत्तर-
जयदेवद्विजाय मतिपतृदत्तविद्यारायापरनाम्ने पाटणपुराख्यो ग्रामः स्वसीमा-
वृक्षपर्वतजलाशयकार्बुक्कहल[इमं]राजामात्यादि सर्वलागटस्वीयपरकीय-
टंकीचतुराघाटैः सह पञ्चशताधिकनिवर्तनोपेतः स्वस्तिपत्रेण चंद्रार्क-
यावत् श्रीकृष्णापर्णेन दानवाक्येन दत्तः.....वैजवापायनसगोत्रः

में है और इतिहास के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसके प्रारंभ में गुहिल से लगाकर भर्तृभट्ट तक गुहिल राजाओं के नाम दिये हैं और फिर क्षेमकरण से लगाकर हरिसिंह तक प्रतापगढ़ के नरेशों का यथाक्रम वर्णन दिया है। इसके अतिरिक्त महारावत की माता, पट्टराज्ञी, राजकुमारों, भाइयों, सरदारों, राजगुरु, राजकवियों, मंत्रियों आदि के नाम भी उसमें मिलते हैं।

(४) वि० सं० १७५३ श्रावण सुदि २ (ई० स० १६६६ ता० २१ जुलाई) का देवलिया (देवगढ़) के कोतवाली चवूतरे के पास लगा हुआ शिलालेख, जिसमें महारावत-द्वारा प्रत्येक चतुर्दशी को जानवर मारने और मांस बेचने की मनाई का उल्लेख है ।

महारावत प्रतापसिंह वीर, दानशील, साहसी, उदार और विद्वान् राजा था। वह विद्वानों को आदरपूर्वक अपने राज्य में रखकर उनका यथोचित सम्मान करता था, जिससे उसके राज्य-काल में भी वहां साहित्यिक जीवन बना रहा। उसने शाही दरवार से अपना संबंध समयानुकूल रखा और संभव है कि युद्ध आदि अवसरों पर भी शाही सेना के साथ उसने अपनी फ़ौज भेजी हो।

राजपूताने के बीकानेर और जोधपुर राज्यों से वैवाहिक संबंध जोड़कर उसने मेल बढ़ाया। उदयपुर के महाराणाओं से भी उसने विरोध

प्रतापसिंहदेवो पाटणपुरग्रामं प्रतापपुराख्यां विधाय पञ्चशताधिकनिवर्त-
नोपेतं वत्ससगोत्राय हरिदेव शिवदेव रंगदेव गोपालदेवादि पुत्रपौत्रादि
सहिताय महत्तरजयदेवशर्मणो इत्याचन्द्रार्क्यावत् प्रददे.... ।

संवत् १७३३ वर्षे माघ सुदि पूर्णिमास्यां लिखितमिदम् । सोनी हीरो ।

मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ।

(१) इस लेख के अतिरिक्त उक्त महारावत के समय का देवलिया में बड़े जैन मंदिर के बाहिर एक पापाण लेख लगा हुआ है, जिसके संवत्, मिति आदि का भाग विस गया है।

नहीं बढ़ने दिया, जो उसकी बुद्धिमत्ता का सूचक है^१। उदार स्वभाव का राजा होने के कारण उसने वीकानेर में विवाह के अवसर पर त्याग आदि वंटवाने में अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। वह धर्मात्मा और दयालु राजा था। प्रजा की भावनाओं का वह सदा आदर करता तथा उत्तम आचरण रखता था। फलतः उसने देवलिया में प्रत्येक अष्टमी को कुम्हारों-द्वारा आवा न पकाने एवं चतुर्दशी को जीव-हिंसा न करने और मांस न बेचने की आज्ञा जारी कर पाषाण-लेख लगवा दिये थे। इन कार्यों से पाया जाता है कि उसके राज्य-काल में वहां जैन धर्मावलंबियों का पूरा प्रभाव रहा होगा। महारावत के ऐसे कार्यों से बाहिर से आकर उसके राज्य में व्यापारी लोग बसने लगे, जिससे राज्य में समृद्धि बढ़ी और थोड़े ही दिनों में उसका बसाया हुआ प्रतापगढ़ क़स्बा अच्छा आवाद हो गया एवं देवलिया की

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६२। प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों में कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि मेवाड़ के महाराजाओं ने बादशाही सेवा स्वीकार कर लेने के कारण अप्रसन्न होकर कांठल का इलाका जोधपुर के कुंवर रामसिंह को दहेज में दे दिया, जिसपर वह वहां अधिकार करने के लिए गया, परंतु महारावत के एक पिपाड़ा राजपूत के द्वारा मारा गया। उसकी छत्री बमोतर में अंबामाता के पास विद्यमान है। इस कथन की पुष्टि किसी शिलालेख अथवा उदयपुर और जोधपुर राज्य के इतिहासों से नहीं होती। देवलिया का राज्य सोलहवीं शताब्दी में स्थापित हो गया था और वह एक प्रकार से स्वतंत्र था। मुगल बादशाहों के समय उसका शाही दरवार से संबंध था। जहांगीर और औरंगज़ेब के समय उसके कुछ परगनों का मेवाड़ के महाराजाओं के नाम फरमान भी हुआ, परंतु उनका अधिकार वहां अस्थायी ही रहा और फिर वे बादशाही दरवार से देवलियावालों को मिल गये। इस अवस्था में मेवाड़ के महाराजाओं का यह राज्य अपने दामाद जोधपुर के राजकुमार रामसिंह को दे देने और उसके वहां जाने पर मारे जाने की बात निर्मूल है। अंबामाता में, जहां रामसिंह की छत्री चलाई जाती है, कोई लेख नहीं है, न जोधपुर राज्य की ख्यातों में महारावत प्रतापसिंह के समकालीन राजकुमारों की नामावली में रामसिंह का नाम है। अतएव उपर्युक्त कथन में सदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस राज्य पर अधिकार नाम मात्र का न हो, वह राज्य दहेज में देना अस्वाभाविक बात है। संभव है इस छत्री का संबंध मालवे के किसी राठोड़ राजा या राजकुमार से हो, जिसके राज्य की सीमा प्रतापगढ़ राज्य से मिलती हो।

भी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर आगे जाकर वहां कई भव्य जिनालय बने । देव-लिया राज्य उसके समय में सम्पन्न रहा । उसका कांठल के मीलों पर पूरा आतंक था एवं चोर और लुटेरों को यथेष्ट दंड देकर उसने सर्वत्र शांति की स्थापना की । एक बार डोड़ियों ने एक ब्राह्मण को मार डाला, जिस-पर उसने डोड़ियों के गढ़ पिपलोदा पर चढ़ाई कर अपराधियों को दंड देने में किंचित् भी विलंब न किया । शरणागत-वत्सलता को वह क्षत्रियों का मुख्य धर्म समझता था । उसने बादशाह औरंगज़ेब के पौत्र और बहा-दुरशाह के पुत्र अज़ीमुश्शान के भेजे हुए शेरबुलंदख़ां नामक शाही सेवक को अपनी शरण में रखकर निर्भीकता का परिचय दिया । वह पूर्ण पितृभक्त और कर्त्तव्यपरायण राजा था । भाषा काव्य में उसकी गति अञ्छी थी और रचना सरल होती थी । लोकोपयोगी कार्यों की ओर रुचि होने से उसके राज्य-समय में कई सार्वजनिक स्थानों का निर्माण हुआ । विष्णु का परमभक्त होने के कारण उसने श्रीकृष्ण नाम का साढ़े तीन करोड़ जप करवाया था^१, जिसकी समाप्ति उसने पूर्ण धूमधाम से कर सहस्रों रुपये व्यय-किये थे । उसका रतलाम के स्वामी से भी युद्ध होना ख्यातों में लिखा है, परंतु रतलाम के इतिहास से इसकी पुष्टि नहीं होती तो भी रतलामवालों के साथ युद्ध होने के संबंध में वहां निम्नलिखित पद्य प्रसिद्ध है—

पातल थारा पीथला मत भेजे रतलाम ।

राठोड़े कागद लिख्यो महर करो दीवाण ॥

(१) प्राकाशीन्नितरां प्रतापनृपतिः श्रीदेवदुर्गे वरे

स्मारं स्मारमनन्तनामविलसत्सार्धत्रिकोटिव्रतम् ।

तस्योद्यापनमद्भुतं च कृतवान् यादृङ् निबंधान् बहून्


दृष्ट्वा तादृगिहोच्यते हरिपर श्रीमानसिहाज्ञया ॥

रामकृष्ण, नाम माहात्म्य ।

कवि कल्याण-रचित 'प्रताप-प्रशस्ति' खंडित काव्य में उसकी माता मनभावती, मुख्य राणी पाटमदे, उसके पितृव्य मानसिंह, धमोतर के ठाकुर जोगीदास तथा उसके पुत्र जसकरण, जोगीदास के भाई भोगीदास और रायपूरवालों के पूर्वज दलपत, तुलसीदास, खेरोंटवालों के पूर्वज रूपसिंह, कल्याणपुरावालों के पूर्वज रणछोड़, भांतलावालों के पूर्वज कुशलसिंह, मंत्री वर्द्धमान, उदयभान हूंवड़, गुरीवदास एवं महारावत के छोटे भाई अमरसिंह, मोहकमसिंह और माधवसिंह का भी परिचय दिया है।

(१) "प्रताप प्रशस्ति" में उसका रचना-काल नहीं दिया है; पर उसमें धमोतर के ठाकुर जोगीदास के भाई भोगीदास का उल्लेख है। देवलिया में भोगीदास के दो स्मारक लेख मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि वि० सं० १७३६ आषाढ वदि ३ (ई० स० १६७६ ता० १६ जून) को भोगीदास का देहांत हुआ। अतएव वि० सं० १७३० और १७३६ के बीच "प्रताप प्रशस्ति" की रचना होना संभव है।





महारावत पृथ्वीसिंह

पांचवां अध्याय

महारावत पृथ्वीसिंह से सामन्तसिंह तक

पृथ्वीसिंह

महारावत प्रतापसिंह का परलोकवास होने पर वि० सं० १७६५
राज्य-प्राप्ति (ई० स० १७०८) के लगभग उसका कुंवर पृथ्वी-
सिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ ।

जोधपुर के स्वामी महाराजा अजीतसिंह का एक विवाह महारावत
प्रतापसिंह की विद्यमानता में, महारावत पृथ्वीसिंह की राजकुमारी
महारावत की पुत्री का (कल्याणकुंवरी ?) से, जबकि उक्त महाराजा का
जोधपुर के महाराजा के जालोर में निवास था, वि० सं० १७५३ (ई० स०
साथ विवाह होना १६६६) में हुआ था^१ । महाराजा ने पुनः देवलिया
में जाकर वि० सं० १७६६ चैत्र सुदि १२ (ई० स० १७०६ ता० ११ मार्च)
को महाराजा पृथ्वीसिंह की छोटी राजकुमारी (अनूपकुंवरी ?) से विवाह
किया ।

जोधपुर राज्य की ख्यात में इस संबंध में लिखा है कि उन दिनों
अजमेर के सूबेदार शुजा ने महाराजा अजीतसिंह को जोधपुर से अजमेर
बुलवाकर धोखे से मार डालना चाहा । इस कार्य की सफलता के लिए
उसने महाराजा अजीतसिंह के पास समाचार भेजा कि बादशाह ने यह
सूबा मुझसे उतारकर फ़ीरोज़ख़ां के बेटे को दिया है । इसलिए मैं यहां से
अपने घर जाता हूँ और फ़ीरोज़ख़ां का बेटा डरकर उज्जैन से आगरे गया

(१) डॉ०; राजस्थान, जि० २, पृ० १०१० ।

है, जहां से वह मौक़ा होने पर अपनी जमीयत के साथ आवेगा। इसलिए अजमेर आकर आप यहां अधिकार कर लें। महाराजा अजीतसिंह यह समाचार मिलते ही अजमेर पहुंचा और कुछ दूर एक गांव में अपनी सेना के साथ ठहर गया। अजमेर में जब उसे खाई में शाही सेना के मोर्चे होने का हाल ज्ञात हुआ तो वह शुजाखां का कपट-व्यवहार जान गया। फिर महाराजा ने अजमेर को घेर लिया। महाराजा और शुजाखां की सेनाओं के बीच युद्ध भी हुआ। अंत में जब शुजाखां ने नगर की हालत खराब देखी तो सुलह का प्रयत्न किया और रूपनगर के राजा राजसिंह के समझाने से महाराजा ने एक हाथी, ८ घोड़े और ४५००० रुपये नक़द लेकर वहां से घेरा उठा दिया। तदनन्तर वह वहां से सीधा देवलिया गया और बिना लग्न के ही उसने वि० सं० १७६६ चैत्र सुदि १२ (ई० स० १७०६ ता० ११ मार्च) को महारावत पृथ्वीसिंह की पुत्री से विवाह किया।

ख्यात के इस कथन की पुष्टि बादशाह के राज्य समय के सन् जुलूस ३ ता० ४ सफ़र हि० स० ११२१ (वि० सं० १७६६ प्रथम वैशाख सुदि ६ = ई० स० १७०६ ता० ४ अप्रैल) के 'अख़बारात-इ-दरवार-इ-मुअल्ला' से भी होती है। उसमें लिखा है कि अजमेर के निवासियों की संपत्ति लूटने के बाद अजीतसिंह ने वहां का घेरा उठा लिया और फिर वह बीस हज़ार सवारों के साथ मालवे में देवलिया के पृथ्वीसिंह के यहां विवाह के लिए गया।

महारावत प्रतापसिंह ने जिस प्रकार शाही दरवार से अपना संबंध रखा था, उसी प्रकार महारावत पृथ्वीसिंह ने भी मुग़ल बादशाह से अपना संबंध बनाये रखा। फिर बसाड़ का परगना, जो चगतानखां को दे दिया गया था, बादशाह शाह-आलम बहादुरशाह ने महारावत प्रतापसिंह का देहांत हो जाने से पुनः महारावत पृथ्वीसिंह के नाम पर बहाल कर दिया और सन् जुलूस ३ हि० स० ११२१ ता० ५ जमादिउल्लाख़िर (वि० सं० १७६६ श्रावण सुदि ७ = ई० स० १७०६ ता० १ अगस्त) को बसाड़

की प्रजा तथा अधिकारियों के नाम निम्नलिखित आशय का आज्ञापत्र जारी किया—

“बसाड़ परगने के, जो सूवा मालवे में सरकार मंदसोर के ताल्लुक है, चौधरियों, कानूनगो, प्रजाजनों और काश्तकारों को मालूम हो कि ४३६५८०० दाम की आय के परगने चगतानग्रां बहादुर आदि से लेकर आधी साख सियालू तुर्की वर्ष के प्रारम्भ से देवलिया के रावत प्रतापसिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह की जागीर में कर दिये गये हैं। इसलिए उचित है कि माल और दीवानी के स्वत्वों से जो आय हो, वह पूर्णरूप से क्रायदे और दस्तूर के अनुसार उक्त रावत को देते रहो और उसकी ताबेदारी से बाहिर न रहो।”

महारावत पृथ्वीसिंह का मंसब प्रारंभ में ५०० ज़ात और ५०० सवारों का नियत हुआ था। अपने सन् जुलूस ५ ता० ६ शव्वाल हि० ११२३ (वि० सं० १७६८ कार्तिक सुदि ८ = ई० स० १७११ ता० ६ नवंबर) को बादशाह शाहआलम बहादुरशाह ने महारावत के मंसब में ५०० ज़ात और दो सौ सवारों की वृद्धि कर उसका मंसब एक हज़ार ज़ात और ७०० सवार का कर दिया^१।

वि० सं० १७६८ (ई० स० १७१२) में बादशाह शाहआलम बहादुरशाह की मृत्यु हो जाने पर उसका बड़ा शाहज़ादा जहांदारशाह बादशाह हुआ। महारावत पृथ्वीसिंह का उक्त बादशाह से भी अच्छा संबंध रहा। फलतः बसाड़ के परगने का फ़रमान, जो बहादुरशाह के समय हुआ था, बादशाह जहांदारशाह ने भी बहाल रखा तथा सन् जुलूस २ ता० १६ रबीउलअव्वल हि० स० ११२४ (वि० सं० १७६६ वैशाख वदि २ = ई० स० १७१२ ता० १२ अप्रैल) को वज़ीर आसफ़ुद्दौला ने मीर

जहांदारशाह के पास से
बसाड़ परगने का
फ़रमान होना

(१) बादशाह बहादुरशाह के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद ।

(२) बहादुरशाह के राज्य-समय के अख़बारात इ-दरवार-इ-मुअल्ला से ।

कज्जन (मंदसोर का हाकिम) के नाम नीचे लिखा आह्लापत्र प्रेषित किया—

“वसाङ्ग परगने की ४१२५८०० दाम की जागीर प्रतापसिंह के पुत्र पृथ्वीसिंह को दी गई है। अतएव तुम्हें (मीर कज्जन को) लिखा जाता है कि उधर के ज़मींदारों को आह्ला दो कि सब बक्राया ठीक-ठीक चुका दें।”

जहांदारशाह एक वर्ष भी राज्य न करने पाया था कि उस (जहांदारशाह) को उसके छोटे भाई अज़ीमुद्दौला (शाहआलम बहादुरशाह

महारावत के नाम वादशाह
फरखसियर का फरमान

का छोटा पुत्र) के शाहज़ादे फरखसियर ने हराकर मुग़ल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया।

इस अवसर पर महारावत पृथ्वीसिंह ने वादशाह के नाम अज़ीं भेजी। उसके उत्तर में वादशाह ने फ़रमान भेज महारावत को लिखा कि तुम्हारी भेजी हुई अज़ीं, जो मित्रता का विश्वास दिलाने के लिए लिखी गई है, हमारे समीप रहनेवालों के द्वारा हमारी नज़र से गुज़री। हमारा असीम अनुग्रह अपने ऊपर समझकर अज़ीयां भेजते रहो।

इसके पीछे महारावत पृथ्वीसिंह के नाम सन् जुलूस २ ता० ८ रबी-उल्अव्वल हि० स० ११२६ (वि० सं० १७७१ चैत्र सुदि १० = ई० स० १७१४ ता० १४ मार्च) को वादशाह की ओर से उसके पास नीचे लिखा फ़रमान पहुंचा—

“अपने वरावरवालों में चुने हुए रावत राव पृथ्वीसिंह को वादशाही कृपा का उम्मेदवार रहकर ज्ञात हो कि इस शुभ और अच्छे समय में परमेश्वर की कृपा से हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई है। इसलिए इस अच्छे समय में राजा बहादुर (किशनगढ़ का राजा राजसिंह^३) के

(१) वादशाह जहांदारशाह के फ़ारसी फ़रमान का अनुवाद।

(२) वादशाह फरखसियर के फारसी फरमान का अनुवाद।

(३) राजा राजसिंह, किशनगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र और रूपसिंह का पौत्र था। वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०६) में मानसिंह का देहांत हो जाने

निवेदन करने पर यह आज्ञा तुम्हारी प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिए भेजी जाती है ।
सदैव स्वामिभक्ति के मार्ग में सुदृढ़ और दत्तचित्त रहकर हमारी कृपाओं
को अपने लिए लाभदायक समझो ।”

उन्हीं दिनों जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास से ता० २७
ज़िल्काद सन् जुलूस २ हि० स० ११२६ (वि० सं० १७७१ मार्गशीर्ष वदि
१४ = ई० स० १७१४ ता० २४ नवंबर) को समाचार
पहुंचा कि भगवतीदास दरकारे ने खबर भेजी है
कि दुश्मन नर्मदा के निकट पहुंच गये हैं^२ । इस

महारावत का शाही इलाके
में लूट-मार करना

पर वह वहाँ का स्वामी हुआ था । उसका शाही दरवार में अच्छा प्रभाव था, क्योंकि
उसने जजाओं के युद्ध में बादशाह बहादुरशाह की तरफ रहकर अच्छी वीरता दिखलाई
थी, जिससे पीछे से उसे बहादुरशाह ने “राजा बहादुर” की उपाधि दी थी (वृंद कवि;
सत्यरूपक, पृ० २६) । वह देवलिया-प्रतापगढ़ के स्वामी का दौहित्र होने से फर्रुखसि-
यर के समय देवलिया-प्रतापगढ़ के राजाओं का मददगार था । इस कारण से महारावत
पृथ्वीसिंह ने उस(राजसिंह)के द्वारा ही शाही दरवार में अर्ज़ी भेजी होगी। “वशभास्कर”
(जि० ४, पृ० ३०६४) से प्रकट है कि फर्रुखसियर को मारने के पद्यन्त्र में कोटा का
महाराव भीमसिंह तथा किशनगढ़ का स्वामी राजसिंह, कृतघ्न होकर महाराजा
अजीतसिंह और सैयद बंधुओं से मिल गये थे ।

(१) बादशाह फर्रुखसियर के महारावत पृथ्वीसिंह के नाम के फारसी फ़रमान
का अनुवाद ।

(२) फर्रुखसियर के समय के अख़बारात-इ-दरवार-इ-मुअल्ला से । उपर्युक्त
संवाद से प्रकट है कि बादशाह फर्रुखसियर के समय दक्षिण की तरफ से बढ़कर मरहटे
मालवे में प्रवेश करना चाहते थे । वि० सं० १७६६ के माघ (ई० स० १७१३ फ़रवरी)
मास में फर्रुखसियर ने सिंहासनारूढ़ होते ही आंवेर के महाराजा सवाई जयसिंह को
मालवे का सूवेदार नियतकर आज्ञापत्र भेजा कि वह आंवेर से सीधा उज्जैन जाकर
उधर का प्रबंध करे (डॉ० रघुवीरसिंह, मालवा इन ट्रान्ज़िशन, पृ० ६६ एवं मालवा
में युगांतर, पृ० १०६) । “वंशभास्कर” (जि० ४, पृ० ३०४२-३) से पाया जाता
है कि रूपनगर (किशनगढ़ राज्य) के स्वामी महाराजा राजसिंह की सलाह से बादशाह
ने महाराजा सवाई जयसिंह को उज्जैन का सूवेदार बनाया था और वह वि० सं० १७७०
(ई० स० १७१४) में वृद्धी होता हुआ उज्जैन की तरफ गया था ।

कारण नरयाना (? नौलाना) का जर्मींदार शिवसिंह^१, देवलिया का पृथ्वी-सिंह^२ तथा रामपुरा का खुशहालसिंह (कुशलसिंह) और बदनसिंह^३, शाही परगनों में लूट-मार मचा रहे हैं। वहां का फ़ौजदार मुहम्मदख़ां पृथक् किये जाने के कारण उनको रोकने में विशेष कार्य नहीं कर रहा है। यदि नया फ़ौजदार मुहम्मदख़ां वहां शीघ्र भेज दिया जाय तो अच्छा हो। इस-पर बादशाह ने लतीफ़ुल्लाख़ां को आज्ञा दी कि वह फ़ौजदार को शीघ्र जाने को कहे^४।

बादशाहत की कमज़ोर हालत और अपने पर बादशाह की नाराज़गी देखकर महारावत पृथ्वीसिंह को अपना राज्य बचाने की चिंता हो गई।

(१) इंदौर राज्य के देपालपुर ज़िले में नर्मदा के किनारे नौलाना नाम का चौहानों का छोटा ठिकाना है। संभव है उपर्युक्त नरयाना इसी नौलाना का सूचक हो और उस समय शिवसिंह वहां का सरदार रहा हो।

(२) महारावत पृथ्वीसिंह को इसके पूर्व ही बादशाह फ़र्रुख़सियर ने 'रावत-राव' की उपाधि दे दी थी, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। फिर उसके विद्रोह-चरण कर शाही इलाके में लूट-मार मचाने की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इसका कोई कारण देखने में नहीं आया। अनुमान होता है कि महाराजा सवाई जयसिंह के मालवे में पहुँचने पर वहां उस (महारावत) का उपर्युक्त महाराजा से मेल नहीं रहा, जिसपर महाराजा-द्वारा बादशाह के पास शिकायत होने से महारावत के सम्मान में क्षमी हुई हो, तब महारावत ने लूट-मार करना श्रारंभ किया हो।

(३) खुशहालसिंह (कुशलसिंह) रामपुरा के चंद्रावत (सीसोदिया) राव गोपालसिंह का कुटुंबी और बदनसिंह उस (गोपालसिंह) का पौत्र था। जहांदरशाह के समय बदनसिंह का पिता रत्नसिंह (जिसका बादशाह औरंगज़ेब के समय मुसलमान हो जाने से इसलामख़ां नाम हुआ) मालवे के सूबेदार अमानतख़ां से लड़कर मारा गया। तब गोपालसिंह ने, जो औरंगज़ेब के समय से ही रामपुरे की गद्दी से वंचित हो गया था, पीछा रामपुरे पर अधिकार करना चाहा, परंतु शाही दरवार से रुकावट हुई, जिससे अनुमान होता है कि खुशहालसिंह और बदनसिंह ने मालवे में लूट-मार श्रारंभ की हो।

(४) बादशाह फ़र्रुख़सियर के समय के अन्नवारात-इ-दरवार-इ-मुअल्ला से।

महारावत का अपने कुंवर
पहाड़सिंह को उदयपुर
भेजना

उस समय राजपूताना के नरेशों में महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) बड़ा ही मिलनसार था। वह बादशाह से भी अच्छा संबंध रखकर फ़ायदा उठाना चाहता था और उधर मरहटों से भी उसका मेल था। राजपूताना के प्रमुख राज्य जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि के नरेशों से उसका व्यवहार अच्छा था। वि० सं० १७७३ (ई० सं० १७१६) के लगभग महारावत पृथ्वीसिंह के ज्येष्ठ कुंवर पहाड़सिंह ने भी उदयपुर जाकर पहले के सब द्वेष को मिटा दिया। महाराणा ने उसको धरियावद का परगना देने की आज्ञा दी, किन्तु उक्त कुंवर का उदयपुर में रहते समय ही परलोकवास हो गया^१।

इस संबंध में महाराजा सवाई जयसिंह के पास वहां के खबरनवीसों ने ता० ६ शबाल सन् जुलूस ४ हि० सं० ११२८ (वि० सं० १७७३ आश्विन सुदि ७ = ई० सं० १७१६ ता० १२ सितंबर) को यह समाचार भेजा कि मंदसोर सरकार की घटना से यह पता लगा है कि अपने पुत्र के राणा संग्रामसिंह (दूसरा) के पास चले जाने के कारण रुपयों की कमी हो जाने का चहाना कर देवलिया के रावत पृथ्वीसिंह ने अपनी जागीर के महाजनों से रुपयों की मांग की है। इस वजह से वहां के बहुत से गरीब और असमर्थ लोग भाग गये और भाग रहे हैं एवं उसके आगमन से चोहरे आदि व्यापारी भी भाग गये हैं। इसपर बादशाह ने शमसुद्दौला खानदौरां को (महाराजा जयसिंह से) दर्याफ्त करने का हुक्म दिया^२।

महारावत पृथ्वीसिंह की उपर्युक्त कार्यवाही से अनुमान होता है कि बादशाह फ़र्रुखसियर की पीछे से उसपर अप्रसन्नता हो गई। ता० ४ ज़िलिहज सन् जुलूस ४ हि० सं० ११२८ (वि० सं० १७७३ मार्गशीर्ष सुदि ५ = ई० १७१६ ता० ८ नवंबर) को आंचेर (जयपुर) के राजा सवाई जयसिंह और वूंटी के महाराव

आंचेर और वूंटी के नरेशों का
बादशाह से महारावत की
शिकायत करना

(१) धीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६३ ।

(२) बादशाह फ़र्रुखसियर के समय के शबबारात-इ-दरवार-इ-गुधरला से ।

राजा बुधसिंह की बादशाह के पास अर्जियां पहुंचीं कि देवलिया-प्रतापगढ़ का पृथ्वीसिंह शाही सेवकों के साथ ठीक आचरण नहीं कर रहा है और देवलिया के अहलकारों को रखने में शाही अफसरों का बाधक हो रहा है। इसके उत्तर में शाही दरबार से उक्त दोनों राजाओं के पास पृथ्वीसिंह की बेजा कार्रवाई रोकने के लिए फ़रमान भेजा गया।

ता० १२ ज़िल्हज सन् जुलूस ४ हि० स० ११२८ (वि० सं० १७७३ मार्गशीर्ष सुदि १३ = ई० स० १७१६ ता० १६ नवंबर) को बादशाह के पास अर्जी पहुंची कि देवलिया के ज़मींदार पृथ्वीसिंह के पास शाही सनद नहीं पहुंची है और वह अपनी जागीर के इलाके पर अधिकृत है। पहले वह सरकार में ८००० रुपये देता था और नाज़िम के पास जावते के लिए पैदल और सवारों को रखता था। अब वह अपना कार्य नहीं कर रहा है एवं उसने बादशाही ज़मीन पर अधिकार कर लिया है। इसपर बादशाह ने कुतुबुल्मुल्क को इस विषय में जांच करने की आज्ञा दी।

बादशाह फ़र्रुखसियर के समय उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) ने चन्द्रावतों का रामपुरे का इलाका अपने नाम पर लिखवा

(१) बादशाह फ़र्रुखसियर के समय के अख़बार-इ-दरबार-इ-मुअल्ला से। उपर्युक्त संवाद से स्पष्ट है कि बादशाह फ़र्रुखसियर की महारावत पृथ्वीसिंह पर अप्रसन्नता हो गई थी, जिससे बादशाह ने वहां पर ज़वती भेज दी, परंतु महारावत ने शाही अहलकारों का अधिकार नहीं होने दिया।

(२) वही। बादशाह फ़र्रुखसियर के राज्यांभ में बूंदी का महाराव राजा बुधसिंह शाही दरबार में नहीं गया था। इसपर बादशाह ने नाराज़ होकर बूंदी का राज्य कोटा के महाराव भीमसिंह को प्रदान कर दिया। इसलिए महाराव राजा बुधसिंह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालवे में रहकर बादशाह को प्रसन्न कर पुनः राज्य-पाने का प्रयत्न करता था। “वंशभास्कर” में वि० सं० १७७२ (ई० स० १७१५) के मार्गशीर्ष मास में बुधसिंह को पीछा बूंदी का राज्य मिलने का उल्लेख है (जि० ३, पृ० ३०५३) है। इस संवाद से पाया जाता है कि वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) के पीछे भी महाराव राजा बुधसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह के साथ मालवे की ओर रहा होगा।

मंत्री विहारीदास का रामपुरे
से लौटते समय देवलिया
में ठहरना

लिया था तथा उक्त बादशाह के पांचवे राज्य वर्ष
वि० सं० १७७४ (ई० सं० १७१७) में उसको
डूंगरपुर और वांसवाड़ा राज्यों का फ़रमान भी
मिल गया था । इसपर महाराणा ने उन तीनों
जगहों पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए मंत्री विहारीदास
पंचोली को ससैन्य रवाना किया । डूंगरपुर और वांसवाड़ा के नरेशों
ने दूरदर्शिता से काम लेकर महाराणा का बड़प्पन स्वीकार किया
और फिर वहां से वह सेना रामपुरा पहुंची और जब वहां का मामला
तय हो गया तब वहां से मंत्री विहारीदास, राठोड़ वीर दुर्गादास को
वहां के प्रबंध का भार सौंपकर रवाना हो गया । फिर देवलिया, वांसवाड़ा,
डूंगरपुर आदि स्थानों में ठहरता हुआ आश्विन सुदि १० को वह उदयपुर
पहुंचा^१ । अनुमान होता है कि महारावत पृथ्वीसिंह का कुंवर पहाड़सिंह
वि० सं० १७७३ (ई० सं० १७१६) में देवलिया से उदयपुर चला गया था,
इस कारण से महाराणा की सेना ने वहां कुछ भी कार्यवाही न की । “वीर-
विनोद” के इस कथन में कि कुंवर पहाड़सिंह का उदयपुर में रहते समय
परलोकवास हुआ^२, यदि कोई तथ्य हो तो यही मानना पड़ेगा कि वि०
सं० १७७४ (ई० सं० १७१७) में भी उक्त कुंवर उदयपुर गया था, क्योंकि
देवलिया के बड़े जैन मंदिर की वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० सं०
१७१८ ता० २ फ़रवरी) रविवार की प्रशस्ति^३ में महारावत पृथ्वीसिंह और

(१) राठोड़ दुर्गादास का महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) के मंत्री पंचोली
विहारीदास के नाम का वि० सं० १७७४ कार्तिक वदि ६ (ई० सं० १७१७ ता० १४
अक्टोबर) भोमवार का पत्र (वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६६३-४) ।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६३ ।

(३) संवत् १७७४ वर्षे शक्रे १६३६ प्रवर्तमाने माह (माघ) सुदि
१३ रवौ श्रीदेवगढनगरे महाराजघान्यां महाराजाधिराजमहारावतश्रीप्रथवी-
(पृथ्वी) सिंघजीविजयीराज्ये कुंवरश्रीपहाडसिंघविराजमाने..... ।

देवलिया के बड़े जैन मंदिर के भीतर लगी हुई प्रशस्ति ।

कुंवर पहाड़सिंह के नाम अंकित हैं। इससे पाया जाता है कि उक्त सम्वत् के माघ सुदि १३ तक तो उक्त कुंवर जीवित था। इसके बाद ही उसका उदयपुर में रहते समय देहांत होना संभव है।

महारावत के उत्तराधिकारी कुंवर पहाड़सिंह^१ का उसकी विद्यमानता में वि० सं० १७७५ (ई० सं० १७१८) के लगभग देहांत हो गया, जिसका महारावत

(१) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में जहां महारावत पृथ्वीसिंह के पुत्रों के नाम दिये हैं, वहां पहाड़सिंह का नाम प्रथम और फिर उम्मेदसिंह, पद्मसिंह, कल्याणसिंह आदि नाम दिये हैं। इससे पाया जाता है कि पहाड़सिंह, महारावत का ज्येष्ठ पुत्र था, परंतु प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात का कथन इसके विपरीत है और उससे पद्मसिंह का पृथ्वीसिंह के पीछे गद्दी बैठने का संदेह हो सकता है, इसलिए “वीरविनोद” के लेखक ने (पृ० १०६३ टिप्पण १ में) इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत किया है। पद्मसिंह के राजगद्दी पर बैठने का अन्य जगह उल्लेख नहीं मिलता। वस्तुतः पृथ्वीसिंह के बाद उसका पौत्र संग्रामसिंह, जिसको रामसिंह भी कहते थे, गद्दी बैठा था। उसके कुछ दानपत्र भी मिले हैं। समय क्रम को देखते हुए पद्मसिंह का गद्दी पर बैठना सिद्ध नहीं होता।

बढ़वे की ख्यात में कुंवर पद्मसिंह की पत्नी का नाम भी दिया है। उसमें पहाड़सिंह का नाम पृथ्वीसिंह के तीसरे पुत्र के रूप में लिखा है एवं पहाड़सिंह की पत्नी और उसके पुत्र संग्रामसिंह (रामसिंह) का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात (पृ० १०) में पहाड़सिंह को पद्मसिंह का पुत्र बतलाकर संग्रामसिंह (रामसिंह) को पहाड़सिंह का पुत्र लिखा है, पर महारावत पृथ्वीसिंह के समय के वि० सं० १७६६ (ई० सं० १७१२) और वि० सं० १७७४ (ई० सं० १७१७) के शिलालेखों में पहाड़सिंह का नाम महारावत के नाम के साथ लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि पहाड़सिंह, पृथ्वीसिंह का वास्तविक उत्तराधिकारी था, जिससे उसका नाम शिलालेखों में खोदा गया। संभव है वि० सं० १७६६ (ई० सं० १७१२) के पूर्व कुंवर पद्मसिंह का देहांत हो गया हो, तब उसके स्थान पर पहाड़सिंह, जिसको बढ़वे की ख्यात में पृथ्वीसिंह का तीसरा पुत्र बतलाया है, प्रचलित प्रथा के अनुसार पद्मसिंह की स्त्री के दत्तक विठलाकर प्रतापगढ़ राज्य का भावी उत्तराधिकारी निर्वाचित किया गया हो। इस अवस्था में, जैसी कि प्रयाली है, वह पद्मसिंह का पुत्र भी लिखा जा सकता है, परन्तु जब तक यथेष्ट प्रमाण न मिले, इस संबंध में निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता।

महारावत का देहात

को बड़ा दुःख हुआ और वह विशेष न जिया तथा वि० सं० १७७५ (ई० स० १७१८) में परलोक सिधारा। “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में महारावत का देहांत वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में दिया है, जो ठीक नहीं है; क्योंकि वि० सं० १७७५ (ई० स० १७१८) तक उसके विद्यमान होने के कई लेख मिल चुके हैं, जो नीचे दिये गये हैं। उसके ६ राणियां थीं, जिनमें से एक विजयकुंवरी वीकानेर के महाराजा कर्णसिंह की पौत्री और पद्मसिंह की पुत्री थी^१। उसकी राणियों से पद्मसिंह, कल्याणसिंह, पहाड़सिंह, उम्मेदासिंह, गोपालसिंह और गुमानसिंह नामक ६ कुंवर तथा कल्याणकुंवरी, पद्मकुंवरी, अनूपकुंवरी, रत्नकुंवरी एवं सूरजकुंवरी नामक पांच पुत्रियां हुई^२।

महारावत के समय के
शिलालेख और दानपत्र

महारावत पृथ्वीसिंह के समय के कई दानपत्र और शिलालेख मिले हैं^३, जिनमें से कुछ इतिहास के लिए उपयोगी हैं। उनका सारांश यहां दिया जाता है—

(१) वि० सं० १७६५ आषाढ सुदि ६ (ई० स० १७०८ ता० १२ जून)

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ६। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात, पृ० १०।

(२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात पृ० ६। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात, पृ० १०। “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में महारावत पृथ्वीसिंह के कुंवरों के नाम इस क्रम से दिये हैं—पहाड़सिंह, उम्मेदासिंह, पद्मसिंह, कल्याणसिंह और गोपालसिंह। उसमें गुमानसिंह का नाम नहीं है। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात में महारावत की राणियों की संख्या देवल ६ दी है, जिनमें से चार राणियों के नाम और उनके वंश आदि बड़वे की ख्यात से मिलते हैं, वाक्री नाम और उनके पितृकुल परस्पर नहीं मिलते। राजकुमारी रत्नकुंवरी तथा सूरजकुंवरी के नाम भी उपर्युक्त ख्यात में नहीं हैं। ख्यातों की पारस्परिक विभिन्नता को देखते हुए यह कहना कठिन है कि उनमें से किसका कथन सही है, पर यह स्पष्ट है कि अट्टारहवीं शताब्दी तक बड़वे, भाटों को वास्तविकता का विलकुल ज्ञान नहीं था।

(३) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों और दानपत्रों की छापों में उसके समय

का विलाईखेडु गांव का दानपत्र, जिसमें उक्त गांव गढ़वी चारण नाथा को प्रदान करने का उल्लेख है और उक्त दानपत्र में लेखक का नाम विद्या-शिरोमणि राय देकर शाह वर्द्धमान-द्वारा आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने का उल्लेख है ।

(२) वि० सं० १७६५ आषाढ सुदि १५ (ई० स० १७०८ ता० २१ जून) का मोरभर गांव का ताम्रपत्र, जिसमें विद्या-शिरोमणि राय गोपाल को महारावत प्रतापसिंह-कथित उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख है एवं उसमें लेखक का नाम कोठारी लाला दिया है ।

(३) वि० सं० १७६६ कार्तिक सुदि १३ (ई० स० १७१२ ता० ३१ अक्टो-बर) का दानपत्र, जिसमें अमलावद गांव में वर्द्धमान के खेतों में से १८ बीघा ज़मीन जोशी नाथू को देने का उल्लेख है । इस दानपत्र का लेखक कोठारी किशन दिया है एवं इसपर जो उर्दू मुहर लगी हुई है, उसमें “बादशाह जहांदारशाह गाज़ी हि० स० ११२६” और “फ़िदवी पृथ्वीसिंह रावत राव” अंकित है ।

का एक ताम्रपत्र वि० सं० १७६४ पौष वदि का भी दिया है । उसमें महारावत पृथ्वीसिंह का जोशी किशना को ६१ बीघा ज़मीन जीमखेड़ा खेड़ी में रघुनाथ के यज्ञोपवीत में माता झाली (महारावत प्रतापसिंह की राणी) -द्वारा पुण्य देने का उल्लेख है; परंतु महारावत प्रतापसिंह के प्रसङ्ग में ऊपर पृ० १८७ में बतलाया गया है कि वि० सं० १७६५ के ज्येष्ठ मास में जब बादशाह बहादुरशाह का साथ छोड़कर मालवे से जोधपुर का महाराजा अजीतसिंह और जयपुर का महाराजा सवाई जयसिंह देवलिया होते हुए उदयपुर में पहुंचे उस समय महारावत प्रतापसिंह विद्यमान था । इस अवस्था में वि० सं० १७६४ के पौष वदि में पृथ्वीसिंह देवलिया का स्वामी नहीं हो सकता । इस अवस्था में उपर्युक्त ताम्रपत्र की वास्तविकता में सन्देह होना स्वाभाविक है ।

(१) उपर्युक्त ताम्रपत्र पर फारसी अक्षरों में जो छाप खुदी हुई है, उसमें बादशाह जहांदारशाह का नाम देकर हि० स० ११२६ अंकित है और फ़िदवी रावत राव पृथ्वीसिंह दिया है । जहांदारशाह हि० स० ११२४ (वि० सं० १७६६ = ई० स० १७१२) में बहादुरशाह की मृत्यु हो जाने पर अपने भाइयों को हराकर बादशाह हुआ, परंतु नौ महीने बाद ही फर्हानसियर ने उससे सल्तनत छीन ली । इस अवस्था में हि० स० ११२६ में जहांदारशाह बादशाह नहीं हो सकता । संभव है कि छाप में अंकित ६ का अङ्क ४ हो और उसको ६ पढ़ लिया गया हो । इस छाप को देखते हुए यह

(४) वि० सं० १७६६ फाल्गुन सुदि ५ (ई० स० १७१३ ता० १८ फरवरी) का देवलिया के बड़े जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमें कुंवर पहाड़सिंह और शाह वर्द्धमान के नाम अंकित हैं तथा तेलियों को प्रत्येक पंचमी तिथि पालने (घानी न जोतने) की आज्ञा दी गई है ।

(५) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० स० १७१८ ता० २ फरवरी) का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमें तेलियों को वर्ष भर में ४४ दिन तेल की घानी चलाने का निषेध किया गया है ।

(६) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (१७१८ ता० २ फरवरी) रविवार

अनुमान होता है कि महारावत पृथ्वीसिंह को 'रावत राव' का खिताब जहांदारशाह ने दिया हो, परंतु शीघ्र ही उससे राज्य छिन गया। फिर फर्रुखसियर ने बादशाह बनने पर उक्त खिताब को बहाल रक्खा, जिससे फर्रुखसियर द्वारा यह खिताब मिलने की बात प्रसिद्ध हुई और इसी प्रसिद्धि के आधार पर उदयपुर के महाराणा अरिसिंह ने भी अपने वि० सं० १८२८ फाल्गुन वदि ६ (ई० स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के परवाने में उक्त खिताब महारावत पृथ्वीसिंह को बादशाह फर्रुखसियर-द्वारा मिलने का समर्थन किया है (वीरविनोद, द्वितीय भाग, १०६४-५) ।

(१) संवत् १७६६ फाल्गुन सुदि ५ महाराजश्री रावतश्रीप्रथी-
(पृथ्वी) सींघजी कुंअर श्रीपहाड़सींघजी वचनातु ।

मूल शिलालेख की छाप से ।

(२) स्वस्त (स्ति) श्री संवत् १७७ [४] वर्षे माघसुदि १३ रवौ श्रीदेवगढ़नगरे महारावत श्रीप्रथी (पृथ्वी) सिंघजी विजेराज्ये साह रहीआ जीवराज तथा पंच महाजन तेलीआं पासे पुंन धर्म अर्थ पालाव्युं समस्त तेलीए राजी थई ने पाल्यु तेनी वगत १ पजुसण सुतांवर दन । पजुसण दीगंवर दन १० । १ उली २ चैत्र सुदि ७ थी दन । आसोज सुदि ७ थी दन ६ । १ अठाई । असाठ सुद ८ थी दन ८ । जुमले दन ४४ अके चुंआलीस कोई घानी जोते [ते] श्रीजी[नो] खुनी ।

मूल शिलालेख की छाप से ।

की देवलिया के बड़े जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें शाह वर्षा के पुत्र शाह वर्द्धमान-द्वारा मल्लिनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा होने का उल्लेख है और महारावत पृथ्वीसिंह और उसके कुंवर पहाड़सिंह के नाम दिये हैं^१। इससे प्रकट है कि वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी) तक तो उक्त कुंवर विद्यमान था।

(७) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० स० १७१८ ता० २ फ़रवरी) रविवार की देवलिया के छोटे जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें देवलिया-निवासी हूँवड़ जाति के मात्रेश्वर गोत्रीय अमात्य शाह रहिआ और उसके पुत्र जीवराज आदि का अपने कुटुंब-सहित मूलनायक पार्श्वनाथ का विंव स्थापित करने का उल्लेख है^२।

(८) वि० सं० १७७४ माघ सुदि १४ (ई० स० १७१८ ता० ३ फ़रवरी) का देवलिया के छोटे जैन मंदिर के बाहर का शिलालेख, जिसमें पर्यूपणों अर्थात् अप्रमी, चतुर्दशी और आदित्यवार को शराव की भट्टियां निकालने और शराव पिलाने का निषेध किया गया है^३।

(१) देखो ऊपर पृ० २०५ टि० ३।

(२) ...संवत् १७७४ वर्षे। शाके १६३६ प्रवर्त्तमान्ये। ऊत्तरा-
यनगते श्रीसूर्ये। माहा मांगल्यप्रदे मासोत्तममासे। शुभकारिमाघमासे।
शुक्लपक्षे। त्रयोदशतिथौ। रविवासरे। श्रीमन्मालवदेशे। काठल मंडले।
राणाश्रीहमीरवंशविभूषण। महाराजाधिराज। महारावत श्रीप्रथिसिंघजी
विजयराज्ये। श्रीमद्देवगढ़ नगर वास्तव्य। हुवड ज्ञातीय। लघुशाखायां।
मात्रेश्वर गोत्रे.....अमात्यपद धारि। साह श्री रहिआ.....लघुभ्राता।
साहश्री जीवराज।.....इत्यादि सकल कुटुंब युतेन। श्रीमद्देवगढ़ नगरे।
मूलनायक श्रीविघ्नहर पार्श्वनाथस्य विंव स्थापितं.....॥

मूल शिलालेख की छाप से।

(३) स्वस्त श्री संवत् १७७४ वर्षे। माहासु[द] १४ श्रीदेवगढ़
नगरे। महारावत श्रीश्रीप्रथीसिंघजी वजेराज्ये। साह रहीआ जीवराज।

(६) वि० सं० १७७५ मार्गशीर्ष वदि १२ (ई० सं० १७१८ ता० ८ नवंबर) का वांगाखेड़ी गांव का ताम्रपत्र, जिसमें उक्त गांव मेहता रंगदेव को देने का उल्लेख है । ताम्रपत्र में लेखक का नाम विद्याशिरोमणि का पुत्र गोपाल दिया है और मेहता द्वारिकादास, हारमेड़ राजसिंह और शाह जीवराज के द्वारा महारावत की आज्ञा होने पर उसके लिखे जाने का उल्लेख है । उसमें महारावत पृथ्वीसिंह को महाराजाधिराज, महाराज, महारावत और महारावतेंद्र लिखा है तथा उसके अंतिम भाग में उक्त महारावत की राणी वीरपुरी का पलथाणा में दस बीघा क्षेत्र देने का भी उल्लेख है^१ ।

महारावत पृथ्वीसिंह धर्मशील, दानी, उदार और विवेक-शील राजा था । मुगल साम्राज्य की स्थिति विगड़ती हुई देख उसने पुराने वैमनस्य को मिटाकर उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह से पुनः मेल बढ़ाया, जिससे उसकी नीतिबद्धता का परिचय मिलता है । उसने वर्ष में कई दिन मादक पदार्थ शराब की बिक्री एवं शराब की भट्टी निकालने का निषेध किया था । इसी प्रकार उसने

महारावत का व्यक्तित्व

तथा पंच माहाजने । कलाल पासे पुंन्यर्थे धरमार्थे । पलाव्युं । ते समस्त कलाले राजी थई न इं पाल्यु छे तेनी बीगत वइ ॥ थोक ४ पलाव्या १ पजुसण सेतंवरी दिन ८ पालवा १ पजुसण दीगंबर दिन १० जुंमले दिन १८ । १ चउदस २४ आठम २४ वरस १ दन ४८ वरस १ ना दीतवार जे आवे ते पालवाणी विगते पले सही । दिन एतलामां हेइ कोई भाटी गालइ । तथा दारु पावइ ते श्री जीनो खूंनी रूपीआ १५ भरे स्ही ।

मूल शिलालेख की छाप से ।

(१)स्वस्ति श्रीमन्महाराजाधिराज महाराज श्रीमहाराव-
[त] श्रीमहारावतेंद्र श्री पृथ्वीसिंहजी वचनातु ।

मूल शिलालेख की छाप से ।

वर्ष में कई दिन तेल की घानी चलाने की मनाही करवाई थी। स्वभावतः मुगलों की अधीनता उसको अप्रिय थी, क्योंकि देवलिया राज्य के शाही अधीनता में रहने पर भी जागीर आदि का कुछ अधिक लाभ नहीं हुआ था और धरियावद का पैतृक परगना भी छूट गया था। इसलिए अपने पिछले समय में उसने शाहंशाह के प्रतिकूल आचरण करना आरंभ किया। अपने पूर्वजों की भांति वह भी विद्वानों का आदर करता और निर्वाह के लिए उन्हें जीविका में गांव आदि देकर उनका सम्मान करता था, जैसा कि उसके दानपत्रों से प्रकट है। बादशाह फर्रुखसियर के राज्यकाल में उसके दिल्ली जाकर निशान, रावतराव का खिताब एवं टकसाल चलाने की इजाजत भी प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है, परन्तु उसके समय में टकसाल प्रचलित होना पाया नहीं जाता। कुछ स्थल पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि रतलाम के राठोड़ों-द्वारा कोटड़ी में थाना स्थापित करने पर उसका

(१) कैप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़, पृ० ८० । मेजर के० डी० अर्सकिन-कूत "गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट" (पृ० १६८) में महारावत पृथ्वीसिंह के बादशाह शाहआलम बहादुरशाह की सेवा में पहुंचने पर उसका अच्छा सम्मान होने एवं ख्यातों के आधार पर उस (पृथ्वीसिंह)को उक्त बादशाह-द्वारा सिक्का बनाने का स्वत्व प्राप्त होने का उल्लेख है, परन्तु कुछ स्थल पर महारावत पृथ्वीसिंह को बादशाह फर्रुखसियर-द्वारा यह सम्मान मिलना लिखा है। सीतामऊ राज्य के विद्याप्रेमी महाराजकुमार डॉक्टर रघुवीरसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी० ने लिखा है कि उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए दूसरा कोई विश्वसनीय आधार नहीं मिलता। ऊपरी दृष्टि से भी यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के अधीन किसी भी राज्य को ऐसा अधिकार मिलना असम्भव है (मालवा इन ट्रान्ज़िशन, पृ० १२६ टिप्पण ४ । मालवा में युगान्तर; पृ० १४० टिप्पण २)। सर जॉन माल्कम ने, जो आज से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व मालवे का उच्च अधिकारी था, परिश्रमपूर्वक मालवा के संबंध की सुविस्तृत रिपोर्ट तैयार कर भारत के तत्कालीन गवर्नर-जेनरल मार्किंस ऑव् हेस्टिंग्स के पास भेजी थी। उसमें बादशाह मुहम्मदशाह के समय महारावत सालिमसिंह का सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त करना लिखा है (पृ० २२५), पर यह कथन भी ठीक नहीं प्रतीत होता। सर माल्कम के समय महारावत पृथ्वीसिंह को शाहआलम अथवा फर्रुखसियर-द्वारा सिक्का ढालने की आज्ञा होने की बात प्रसिद्ध न थी। यदि यह बात प्रसिद्ध होती

वहां के राठोड़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें उनकी हार होकर उनका नकारा महारावत के हाथ लगा, जो रणजीत नकारा कहलाता है और अब तक प्रतापगढ़ राज्य में विद्यमान है^१ ।

संग्रामसिंह

महारावत पृथ्वीसिंह के कुंवर पहाड़सिंह का, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, कुंवरपदे में ही परलोकवास हो गया था; अतएव उस-
(पृथ्वीसिंह) का देहांत होने पर कुंवर पहाड़सिंह
महारावत की गद्दीनशानी और मृत्यु का पुत्र संग्रामसिंह, जिसको रामसिंह भी कहते थे, वि० सं० १७७५ (ई० सं० १७१८) में देवलिया की गद्दी पर बैठा, परंतु उसने अधिक समय तक राज्य नहीं किया

तो वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख अवश्य करता । मुहम्मदशाह हि० सं० ११३१ (वि० सं० १७७६ = ई० सं० १७१९) में दिल्ली का स्वामी हुआ और हि० सं० ११६१ (वि० सं० १८०५ = ई० सं० १७४८) में उसकी मृत्यु हुई । प्रतापगढ़ का स्वामी महारावत सालिमसिंह वि० सं० १८१४ (ई० सं० १७५७) में गद्दी पर बैठा और वि० सं० १८३१ (ई० सं० १७७४) में परलोक सिंधारा । ऐसी अवस्था में सालिमसिंह को मुहम्मदशाह-द्वारा सिक्का बनाने की आज्ञा मिलने की वान भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सालिमसिंह मुहम्मदशाह का समकालीन न था । वस्तुतः सालिमशाही सिक्का, जिसकी वावत उपर्युक्त वर्णन है, शाहआलम द्वितीय (वि० सं० १८१६-१८६३ = ई० सं० १७५९-१८०६) के समय सन् जुलूस २५ हि० सं० ११६६ में महारावत सामन्तसिंह के समय प्रतापगढ़ में बनना आरंभ हुआ, जिसपर शाहआलम का नाम होने और शाहआलम और सालिमसिंह नाम एकसा होने से वह 'शाहआलमशाही' के स्थान में 'सालिमशाही' प्रसिद्ध हो गया, जैसा कि हम ऊपर पृ० १४ में बतला चुके हैं । यह सभव है कि शाहआलम दूसरे के समय महारावत सालिमसिंह ने सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त की हो । फिर उसका देहांत हो जाने से, जैसा कि सिक्के पर उल्लेख है, उक्त बादशाह के २५ वें सन् जुलूस में महारावत सामन्तसिंह ने यह सिक्का जारी किया हो ।

(१) कैप्टेन सी० ई० येट, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़; पृ० ८० । मेजर के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव् प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० १६८ ।

और वि० सं० १७७६ (ई० स० १७१६) में उसकी निःसंतान मृत्यु हो गई ।

उसके समय के वि० सं० १७७६ आषाढ वदि २^१ (ई० स० १७१६ ता० २४ मई) और आषाढ वदि ६^१ (ई० स० १७१६ ता० ३१ मई)

(१) श्री मन्महाराजाधिराज महारावतजी श्रीसंग्रामसिंहजी वचनातु जोशी रोडाजी सुष (ख) रामजी जोग्य यत् षे (खे) त वीधा ६१ एकाणु श्री प्रथीसिंहजी तथा पहाड़सिंह दीधा छै जे मे आ चंद्रार्क यावत उदक आघाटे पाले दीधी । जेरा विगत वीधा ६० वर मंडल अरघोदये चंद्र ग्रहणे दीधा वीधा ३१ अमलावदे पहाड़ जी निमिच जोमले ६१ [वीधा] जेम दीधी..... । दुए साह जीवराज मेता द्वारिकादास लिषि (खि) तं विद्या शिरोमणि राय संवत १७७६ वर्षे.....आषाढ वदि २.....

मूल ताम्रपत्र की छाप से ।

(२) महारावतेंद्र श्रीसंग्रामसिंहजी वचनातु जोशी रोडाजी सुष (ख) रामजी जोग्य यत् गाम अमलावद माहें गोहरा वालु षे (खे) - त वीगा १३) अंके तेरे मा झालीजी थाने दीदु गोतमजी माहे दीदु जे मे आ चंद्रार्क यावत कृष्णार्पणे दीदु जी टकी लागट (त) वल (त) माफ करे दीदाजी.....लिषि (खि) तं विद्या शिरोमणि रायजी दुए सा जीवराज में [ह] ता द्वारकादासजी संवत १७७६ वर्षे असाढ वदि ६ दीने ।

मूल ताम्रपत्र की छाप से ।

प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों की सूची में महारावत उम्मेदसिंह का संवत् १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ (ई० स० १७१६ ता० १५ मई) का एक ताम्रपत्र और बतलाया है, परंतु उसकी छाप अथवा प्रतिलिपि हमारे देखने में नहीं आई । ऐसी अवस्था में उक्त ताम्रपत्र की वास्तविकता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि वह ताम्रपत्र सही हो तो संवत् १७७६ (ई० स० १७१६) के आषाढ में संग्रामसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी नहीं हो सकता और उपर्युक्त दोनों ताम्रपत्र कृत्रिम ठहरेंगे,



महारावत उम्मेदसिंह

महारावत के समय के
ताम्रपत्र

के दो ताम्रपत्र मिले हैं, जिनसे पाया जाता है कि उपर्युक्त संवत् के आषाढ मास के पीछे उसका देहांत हुआ हो, जैसा कि ख्यातों में उल्लेख है^१। “वीरविनोद” में वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में उसकी गद्दीनशीनी और इसके छः महीने बाद मृत्यु होने का उल्लेख है^२, जो ठीक नहीं है; क्योंकि वि० सं० १७७५ मार्गशीर्ष वदि १२ (ई० स० १७१८ ता० ८ नवंबर) का तो महारावत पृथ्वीसिंह का ताम्रपत्र मिल चुका है, जिसका उल्लेख ऊपर आ गया है^३।

उम्मेदसिंह

ऊपर लिखा जा चुका है कि महारावत संग्रामसिंह के कोई संतान नहीं थी। इसपर सरदारों आदि ने उस(संग्रामसिंह)के पितृव्य उम्मेद-
राज्यप्राप्ति और देहात
सिंह को, जो महारावत पृथ्वीसिंह का छोटा पुत्र था, वि० सं० १७७६^४ (ई० स० १७१९) में

परन्तु इन दोनों ताम्रपत्रों में उल्लिखित व्यक्ति विद्याशिरोमणि राय, शाह जीवराज और मेहता द्वारिकादास, महारावत संग्रामसिंह के समकालीन थे। ऐसी स्थिति में बिना किसी पुष्ट प्रमाण के इन दोनों ताम्रपत्रों की वास्तविकता में संदेह करना निर्मूल है।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात और वहां से आई हुई प्राचीन ख्यात में महारावत संग्रामसिंह की राणियों के नाम नहीं हैं और उपर्युक्त प्राचीन ख्यात (पृ० १०) में उसकी बालक अवस्था में अविवाहित मृत्यु होना बतलाया है।

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ७ । प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात; पृ० १० ।

(२) द्वितीय भाग, पृ० १०६३ ।

(३) देखो ऊपर पृ० २११, टि० १ ।

(४) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में महारावत उम्मेदसिंह की गद्दीनशीनी का संवत् १७७४ (ई० स० १७१७) दिया है, जो ठीक नहीं है। वि० सं० १७७६ (ई० स० १७१९) के महारावत संग्रामसिंह के दानपत्र मिल चुके हैं, अतएव वि० सं० १७७४ (ई० स० १७१७) में उम्मेदसिंह का गद्दी पर बैठना संभव नहीं है।

राजगद्दी पर विठलाया । वह भी अधिक समय तक राज्यसुख का उपभोग न कर सका और वि० सं० १७७८^१ (ई० स० १७२१) में उसकी मृत्यु हो गई ।

प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों और ताम्रपत्रों की सूची में उस्-
(उम्मेदसिंह) का सबसे पहला लेख वि० सं० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७^२ (ई०

महारावत के शिलालेख
और दानपत्र

स० १७१६ ता० १५ मई) और अंतिम लेख

वि० सं० १७७७ माघ वदि ३०^३ (ई० स० १७२१

ता० १६ जनवरी) का दिया है । वि० सं० १७७७

श्राषाढ सुदि १५^४ (ई० स० १७२० ता० ८ जुलाई) के उसके ताम्रपत्र

की छाप तथा उसी वर्ष के मार्गशीर्ष वदि ५^५ (ता० ८ नवम्बर) बुधवार

के ताम्रपत्र की प्रतिलिपि हमारे पास आई हैं, जिनसे उसका समय

निश्चित करने के अतिरिक्त और कोई वृत्तांत ज्ञात नहीं होता ।

(१) महारावत गोपालसिंह के सबसे पहले वि० सं० १७७८ वैशाख सुदि १ (ई० स० १७२१ ता० १६ अप्रैल) के दानपत्र का प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची में उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि वि० सं० १७७८ (ई० स० १७२१) के प्रारंभ में गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हो चुका था ।

इसकी पुष्टि उक्त महारावत के वि० सं० १७७८ श्रावण सुदि १३ (ई० स० १७२१ ता० २६ जुलाई) बुधवार के सेखड़ी गांव के गोसाईं गंगागिरि के नाम के दानपत्र से भी होती है, जिसमें उसके उदयपुर जाने और वहां यह दानपत्र लिखाने का उल्लेख है ।

(२) देखो ऊपर पृ० २१४, टि० २ ।

(३) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त शिलालेखों की सूची से ।

(४) जोशी रोड़ा सुखराम के नाम बसाढ़ में ३५ बीघा ज़मीन देने के संबंध के ताम्रपत्र की मूल छाप से ।

(५) भाट फत्ता के नाम के महारावत उम्मेदसिंह के ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से । तिथि और वार का मिलान करने पर उस दिन (मार्गशीर्ष वदि ५ को) बुधवार के स्थान में मंगलवार आता है ।

वि० सं० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ७ के ताम्रपत्र के संबंध में हम ऊपर अपना मत प्रकट कर चुके हैं^१ ।

महारावत उम्मेदसिंह दानी राजा था । उसने अपने अल्प शासन-फाल में कई व्यक्तियों को गांव और भूमि दी एवं भाट फत्ता को कुंवरपदे की सेवा में वेलाली गांव, जो पहले महारावत की राणियां और संतति मेहडु रणछोड चारण का था, देकर उसके पवज में रणछोड को संचई गांव दिया था । उक्त महारावत जे पुष्कर-यात्रा के अवसर पर भूमिदान भी किया था । प्रतापगढ़ राज्य के षड़वे की ख्यात में उसके चार राणियां और एक कुंवरी अमृतकुंवरी होने का उल्लेख है^२ ।

(१) देखो ऊपर पृ० २१४, टि० २ ।

(२) पृ० ७ । “जोधपुर राज्य की ख्यात” (द्वितीय भाग, पृ० ११६) में लिखा है कि सीसोदिया उम्मेदसिंह जगतसिंहोत की राठोड़ पत्नी देवलिया छूट जाने पर जोधपुर चली गई । उसके दो पुत्र सालिमसिंह और खुमाणसिंह थे । महाराजा अजीतसिंह उस (उम्मेदसिंह की पत्नी) का सहोदर भगिनी के समान आदर करता था । जब वि० सं० १७८१ आषाढ सुदि १३ (ई० स० १७२४ ता० २३ जून) को महाराजा अजीतसिंह अपने पुत्र बख्तसिंह-द्वारा मार डाला गया, तब उसके साथ उसकी जिन राणियों, सेवकों आदि ने अग्नि में जलकर प्राण विसर्जन किये उनमें उम्मेदसिंह की पत्नी भी थी । उक्त ख्यात का यह कथन कहां तक ठीक है, इसके विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से इसका समर्थन नहीं होता है । “जोधपुर राज्य की ख्यात” का यह कथन कि उम्मेदसिंह जगतसिंह का पुत्र था, निर्मूल है; कारण वहां जगतसिंह नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ । प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात से पाया जाता है कि वहां के महारावत उम्मेदसिंह के राठोड़ कुल की तीन राणियां थीं । समभव है कि उसकी इन राणियों में से कोई जोधपुर जाकर भी रही हो । वहां ऐसी भी प्रसिद्धि है कि महारावत उम्मेदसिंह की मृत्यु के समय उसकी एक राणी केसरकुंवरी (कड़वाहा राजावत कुशलसिंह की पुत्री) अपने बालक-पुत्र सालिमसिंह को प्राणभय से कुछ लोगों के बहकाने पर जयपुर की तरफ लेकर चली गई । इसपर कल्याणपुरा के सरदार फ़तहसिंह की सम्मति से उम्मेदसिंह का छोटा भाई गोपालसिंह देवलिया राज्य का स्वामी हो गया । इससे तो यही निष्कर्ष निकलता

गोपालसिंह

वि० सं० १७७८ (ई० स० १७२१) में अपने ज्येष्ठ भ्राता उम्मेदसिंह का परलोकवास होने पर महारावत गोपालसिंह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ और उसी वर्ष उसने उदयपुर जाकर^१ वहां के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) से मुलाकात कर अपनी गद्दीनशीनी की रसम को सुदृढ़ कर लिया, क्योंकि कुछ कारणों से उसको भगड़ा होने की आशंका थी ।

राज्य-प्राप्ति

हैं कि उम्मेदसिंह का पुत्र सालिमसिंह बाल्यावस्था के कारण राज्याधिकार से वंचित रह गए और उसका चाचा गोपालसिंह (उम्मेदसिंह का भाई) कुछ सरदारों को मिलाकर राज्य का स्वामी बन बैठा ।

मुंशी देवीप्रसाद-द्वारा संगृहीत जोधपुर के राजाओं, राणियों, कुंवरो, कुंवरियों आदि की नामावली की पुस्तक से पाया जाता है कि वि० सं० १७८१ आषाढ सुदि ६ (ई० स० १७२४ ता० १६ जून) को देवलिया की एक राजकुमारी से जोधपुर में ही महाराजा अजीतसिंह का विवाह हुआ था एवं इसके कुछ (चार) दिन बाद ही उक्त महाराजा अपने पुत्र बल्लसिंह के हाथ से मारा गया । अनुमान होता है कि वह उम्मेदसिंह की ही कोई पुत्री हो, जिसका नाम बड़वे की ख्यात में अमृतकुंवरी दिया है ।

(१) श्रीमहाराजाधिराज महारावतजी श्रीगोपालसिंहजी बचनातु गुसाईं श्रीगंगागिरजी जोग्य यत् मोजे गाम १ सेखड़ी गांव भूमिहरा तथा ठकरावद तीरेरी गाम नाथूखेड़ी पहेली रावत श्रीप्रथीसिंहजी संवत् १७७३ रा जेठ सुदि १५ रे दिन चढावी जीरे बदले रावत श्रीगोपालसिंहजी उदेपुर पधारचा मठे जदी गाम सेखड़ी कथकावल रहित लागट विलगट रहित उदक आघाट करे दीधी । मारा वंश रे कोई चोलण करसी नहीं । स्वदत्त परदत्त वा ये हरन्ति वसुंधरा षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्टायं जायते कृमिः । दुए शाह चंद्रभाणजी प्रेरक ठाकर फतेसिंहजी, लिखावत राव रिणछोड़दासजी मामा रामचंदजी उदेपुर मांहे हुकम थी लिखायो । संवत् १७७८ सावण सुदि १३ बुधे

मूल ताम्रपत्र की प्रतिलिपि से ।

उन दिनों मुगल बादशाहत की स्थिति बहुत ही गंभीर हो रही थी। फ़र्रुखसियर के सैयद बंधुओं-द्वारा बंदी बनाकर कठिन यातना देने के उपरांत मरवा डालने से मुगल साम्राज्य को बड़ा मुगल बादशाहत की तत्कालीन स्थिति धक्का लगा और चारों तरफ अराजकता फैल गई। सैयदों ने औरंगज़ेब के वंशधरों में से ही रफ़ीउद्दरजात^१ और रफ़ीउद्दौला^२ को क्रमशः दिल्ली के तख्त पर बैठाया, किन्तु सात महीनों में ही वे दोनों व्याधिग्रस्त होकर काल कवलित हो गये। रफ़ीउद्दौला के समय कतिपय व्यक्तियों ने औरंगज़ेब के शाहज़ादे अकबर के पुत्र निकोसियर को आगरे में बादशाह बनाया, जहाँ वह कैद था, परंतु इसमें उनको सफलता न हुई और सैयद बंधुओं ने वहाँ पहुंच निकोसियर को पुनः कैद कर लिया तथा उसके सहायकों को दंड देकर अपना मार्ग निष्कंटक कर लिया। फिर उन्होंने रफ़ीउद्दौला के निःसंतान मर जाने पर बहादुरशाह के शाहज़ादे जहांशाह के पुत्र रोशनअख्तर को वि० सं० १७७६ (ई० सं० १७१६) में मुहम्मदशाह नाम रख बादशाह बनाया, परंतु सुव्यवस्था स्थापित न हो सकी। यह अवसर मरहटों को अपनी शक्ति बढ़ाने में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ और उनके उत्तरी भारत में आक्रमण होने लगे।

(१) रफ़ीउद्दरजात, बादशाह बहादुरशाह के तीसरे शाहज़ादे रफ़ीउश्शान का पुत्र था। बादशाह फ़र्रुखसियर को बंदी बनाने के पीछे सैयद बंधुओं ने हि० सं० ११३१ ता० ६ रबीउस्सानी (वि० सं० १७७५ फाल्गुन सुदि १० = ई० सं० १७१६ ता० १८ फरवरी) को उसको दिल्ली के तख्त पर बिठलाकर उसका नाम “शम्सुद्दीन अब्दुल्बरकत रफ़ीउद्दरजात” रखा। तख्तनशीनी के समय वह रोगग्रस्त था, जिससे तीन मास बाद ही उसकी मृत्यु हुई।

(२) रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात का बड़ा भाई था। ता० २० रज्जब हि० ११३१ (वि० सं० १७७६ आपाठ वदि ६ = ई० सं० १७१६ ता० २६ मई) को वह “शम्सुद्दीन रफ़ीउद्दौला मुहम्मद शाहजहांसानी” नाम से दिल्ली का स्वामी हुआ और उसी वर्ष ता० ७ जिल्काद (प्रथम आश्विन सुदि ६ = ता० ११ सितंबर) को उसका देहांत हुआ।

मालवे में मरहटों का सबसे पहला आक्रमण वि० सं० १७५६^१ (ई० स० १६६६) में बादशाह औरंगज़ेब की विद्यमानता में हुआ था, पर वह आक्रमण केवल शाही इलाके में लूट-मारकर दक्षिण मरहटों का उत्थान से बादशाह का ध्यान हटाने के लिए ही था ।

औरंगज़ेब के जीवन-काल में दक्षिण में मरहटों के साथ की लड़ाइयां जारी रही और उसकी मृत्यु के साथ ही उनमें कमी आ गई। पच्चीस वर्ष से दोनों दल निरन्तर युद्ध कर रहे थे । अब उनका थक जाना स्वाभाविक था । उन दिनों मरहटों में भी कुछ गृह-कलह उत्पन्न हो गया, पर वे शीघ्र ही चेत गये। इसके विपरीत मुग़ल साम्राज्य में ऐसी शिथिलता उत्पन्न हुई कि मुग़ल अपनी सत्ता को सुदृढ़ न कर सके । छत्रपति शिवाजी ने भारत में पुनः जिस हिन्दू-साम्राज्य की नींव डाली थी, उसको दृढ़ करने का वह उपयुक्त समय था; क्योंकि उन दिनों शिवाजी के संस्थापित सतारा राज्य के स्वामी शाहू का मंत्री पेशवा बाजीराव^२ बल्लाल योग्य व्यक्ति था । उसके समय में राजा शाहू

(१) डॉ० रवुवीरसिंह, मालवा में युगांतर; पृ० ६०-१ । यह आक्रमण मरहटों के एक सेनापति कृष्णाजी सावंत ने किया था । उसके साथ उस समय पन्द्रह हजार सवार थे और नर्मदा नदी पारकर वह धामुनी इलाके में लूट मारकर वापिस चला गया ।

(२) पेशवा जाति के ब्राह्मण थे । औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद शाहज़ादे आजमशाह ने मरहटा राजा शंभा के पुत्र शाहू को कैद से छोड़ दिया । फिर उसने सेना एकत्र कर सतारा पर अधिकार किया । तदनन्तर शाहू ने वि० सं० १७७१ (ई० स० १७१४) में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा (प्रधान) का पद दिया । उस- (बालाजी) ने राजा शाहू के समय अपने अधिकारों को बढ़ा लिया । वि० सं० १७७७ (ई० स० १७२०) में बालाजी की मृत्यु हुई और उसका पुत्र बाजीराव बल्लाल पेशवा बना, जिसने मरहटों का प्रभाव उत्तरी भारत में फैलाकर मालवा पर अधिकार किया और राजपूताना तथा मुग़ल साम्राज्य पर मरहटों का आतंक स्थापित कर दिया । वि० सं० १७६७ वैशाख सुदि १ (ई० स० १७४० ता० १६ अप्रैल) को बाजीराव का देहांत होने पर उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसने राजा शाहू के मरने पर (जब रामराजा का पुत्र शिवाजी (दूसरा) कोल्हापुर से गोद आकर सतारा राज्य का स्वामी बना) पूना में रहना स्थिर कर पृथक् राज्य की सृष्टि की और सतारा

केवल नाममात्र का शासक रह गया और पेशवा का प्रताप इतना बढ़ा कि दिल्ली के मुगल बादशाह भी उसको हर प्रकार से प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पेशवा के सेनापति मल्हारराव होल्कर^१, राणोजी सिंधिया^२ और

पर शिवाजी का अधिकार रहा, परंतु वह सतारा के राजा को ही अपना मालिक मानता रहा।

(१) होल्कर राज-वंश के लिए इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। इस वंश में मल्हारराव होल्कर अठारहवीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ। मल्हारराव होल्कर का जन्म वि० सं० १७५० (ई० स० १६६३) के लगभग हुआ। उसका बाल्यकाल बढ़ी विपत्ति में गुज़रा। उसका पिता उसको छोटी अवस्था में छोड़कर मर गया था, इसलिए उसका पालन-पोषण उसके मामा नारायणराव के यहां हुआ, जिसको उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) की तरफ से बड़ा की जागीर मिली थी। फिर वह अपने मामा के पास २५ सवारों की टोली का अरुसर बना और बढ़ते-बढ़ते पेशवा के मुख्य सेनापतियों में हो गया। उसने केवल दक्षिण भारत के युद्धों में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की अनेक लड़ाइयों में समय समय पर बढ़ी वीरता दिखलाई थी। मालवा में पेशवा का अधिकार होने पर उसको वहां एक बढ़ी आय की जागीर मिली। अनन्तर उसने अपने वंशजों के लिए इंदौर राज्य की स्थापना की। वि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६) में उसका देहांत हुआ। होल गांव में रहने से यह राजवंश होल्कर कहलाता है।

(२) सिंधिया वंश के राजा नागवंशी क्षत्रिय हैं। महाराष्ट्र में सिंदे गांव में निवास होने से वे सिंदे (सिंधिया) कहलाने लगे। इस वंश की एक कन्या का विवाह प्रसिद्ध राजा शिवाजी के पौत्र राजा शाहू से हुआ था। मध्यभारत में ग्वालियर का विशाल राज्य सिंधिया के अधिकार में है, जिसका सस्थापक राणोजी सिंधिया था। प्रारंभ में वह पेशवा के छोटे नौकरों में था, परंतु धीरे-धीरे उच्च पद पर पहुंचा और पेशवा के प्रधान सेनापतियों में हो गया। उसने मालवा में मरहटा राज्य स्थापित करने में पूर्ण वीरता दिखलाई थी। वह पेशवा की तरफ से संपूर्ण अधिकारों के साथ दिल्ली के बादशाह के पास भेजा गया था, जहां उसने पेशवा और मुगल साम्राज्य के साथ होनेवाले संधिपत्र पर पेशवा के प्रतिनिधि की हैसियत से हस्ताक्षर किये थे। वि० सं० १८०२ श्रावण सुदि २ (ई० स० १७४५ ता० १६ जुलाई) को शुजालपुर में राणोजी की मृत्यु हुई। फिर उसका पुत्र जयश्याम अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ, जिसको जोधपुर के महाराजा विजयसिंह ने वि० सं० १८१२ (ई० स० १७५५) में छल से मरवाया।

आनंदराव पंवार युद्ध-निपुण थे, जिन्होंने थोड़े समय में ही भारत में मरहटों का आतंक जमा दिया। शाही सेना के साथ दक्षिण में निरन्तर पच्चीस वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहने के कारण मरहटों की आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं रही थी एवं वे ऋणग्रस्त भी थे, इसलिए प्रारंभ में उन्होंने उत्तर भारत के आक्रमणों में धन बटोरने की ही नीति रखी और फिर उन्होंने मालवे में बढ़कर वहां पर अधिकार किया, जैसा आगे बतलाया जायगा।

मुगल साम्राज्य की निर्वलता के समय राजपूताना के राजाओं की भी अपने-अपने राज्य बढ़ाने की लालसा जाग उठी। उनमें उदयपुर, जयपुर और जोधपुर के नरेशों के नाम उल्लेखनीय हैं, पर उदयपुर के महाराणा तो स्वयं शाही दरवार में कभी न गये, जिससे मुगल साम्राज्य की राजनीति में उनका कुछ हाथ न रहा। आंबेरे (जयपुर) के महाराजा सवाई जयसिंह तथा जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह का वि० सं० १७६५ (ई० स० १७०८) के पीछे मुगल साम्राज्य के उलट-फेर में बड़ा हाथ रहा, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई। उस समय के मुगलों के इतिहास में आंबेरे और जोधपुर के नरेशों का महत्वपूर्ण स्थान है। बादशाह की तरफ से मरहटों के आक्रमणों को रोकने के लिए जयसिंह को मालवे^२

(१) धार के परमार राजा मालवे के प्रसिद्ध परमारों के वंशधर हैं। महाराष्ट्र में उनका निवास होने से वे मरहटा कहलाये। इस राज्य का संस्थापक ऊदाजी पंवार हुआ, जो सतारा के राजा शाहू का बड़ा विश्वासपात्र सेवक था। पेशवा बाजीराव के उन्नतिकाल में उसका उक्त पेशवा से मतभेद रहता था, इसलिए मरहटा-राज्य के विस्तार में पूर्ण रूप से भाग लेने पर भी उसको कोई बड़ी जागीर नहीं मिली और अपनी जागीर से भी उसे संबंध त्यागना पड़ा। फिर पेशवा ने वि० सं० १७८६ (ई० स० १७३२) के लगभग उसका सब अधिकार उसके छोटे भाई आनंदराव को दिया, जो अपने भाई के समान वीर था। वि० सं० १८०६ (ई० स० १७४६) में उसकी मृत्यु होना पाया जाता है।

(२) सवाई जयसिंह की मालवे की प्रथम सूबेदारी लगभग पांच वर्ष तक

और अजीतसिंह को गुजरात^१ का भार सौंपा गया। अजीतसिंह तथा बादशाहों के बीच मन-मुटाव बना ही रहता था। अंत में वह इसी कारण से अपने छोटे कुंवर बख्तसिंह-द्वारा वि० सं० १७८१ (ई० स० १७२४) में मारा गया^२। फिर उसका ज्येष्ठ कुंवर अभयसिंह जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ, जो साम्राज्य-भक्त बना रहा। मुहम्मदशाह के समय वह गुजरात का सूबेदार भी बनाया गया^३, परंतु अपने कर्मचारियों की लूट-खसोट के कारण वहां सुव्यवस्था स्थापित न कर सका। फिर भी गुजरात की तरफ से मरहटों को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। वि० सं० १७६५ (ई० स० १७०८) में उदयपुर, जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए संधि भी की^४; किन्तु जयसिंह की राजनैतिक

ई० स० १७१३ फरवरी से ई० स० १७१७ नवंबर (वि० सं० १७६६-१७७४) तक रही थी (डॉ० रघुवीरसिंह, मालवा इन्टरनैशनल, पृ० ६६-१०१)।

(१) गुजरात की सूबेदारी महाराजा अजीतसिंह को वि० सं० १७७१ (ई० स० १७१५) में मिली थी, और वह लगभग दो वर्ष अर्थात् वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) तक वहां का सूबेदार रहा था (बंबई गैज़ेटियर, भा० १, खं० १, पृ० २६६)।

(२) टॉड, राजस्थान, जि० २, पृ० ८५६-६७, १०२८-२९। जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० २, पृ० ११५। वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ८४२।

(३) महाराजा अभयसिंह वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में गुजरात का सूबेदार हुआ और वि० सं० १७९४ (ई० स० १७३७) तक वह सूबा उसके नाम पर रहा। वि० सं० १७९० (ई० स० १७३३) के पीछे उक्त महाराजा गुजरात में नहीं गया और उसके कर्मचारी भंडारी रत्नसी आदि ही वहां का प्रबन्ध करते रहे (वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० ८४४-७)।

(४) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ६०४-५। इस सन्धि का आशय मुख्यतः उदयपुर की राजकुमारी का महत्व प्रमाणित करना था। मुगल बादशाहों के साथ कुछ राजपूताने के राज्यों ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर लिया था, जिसपर महाराणा प्रतापसिंह ने जयपुर आदि राज्यों से विवाह-सम्बन्ध बन्द कर दिया। उसको पुनः जारी करने के लिए यह इत्तहारनामा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह से लिखवाया गया था। वस्तुतः इस संधिपत्र से कोई राजनैतिक महत्व सिद्ध नहीं हुआ और उदयपुर तथा जयपुर राज्य को इस इत्तहार के कारण जयसिंह की मृत्यु के बाद

चालों से वह कागज़ का रद्दी टुकड़ा ही रद्दी। स्वार्थपरता और पारस्परिक वैमनस्य से जयपुर और जोधपुर के नरेश शीघ्र ही उपर्युक्त संधि से पराङ्मुख हो गये एवं एक दूसरे का विनाश चाहने लगे। उदयपुर का महाराणा उनके पारस्परिक वैमनस्य को मिटाने का प्रयत्न करता था, पर वह बढ़ता ही गया। इससे कहा जा सकता है कि राजपूताना के राज्यों में उस समय कोई राजा नेतृत्व के योग्य नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी द्वेष से राजपूताना के राज्यों की दशा हीन हो गई।

इस अशांतिमय वातावरण में छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व लुप्त होने की पूरी संभावना थी। अस्तु, संगठन-शक्ति की भावना छोटे-छोटे राज्यों में भी जागृत होकर वे बड़े राज्यों का सहारा ढूंढने लगे। उदयपुर राज्य, प्रतापगढ़ राज्य के समीप होने एवं वहां के राजाओं के एक ही वंश के

महारावत को धरियावद
का परगना मिलना

होने के कारण उनमें कभी मेल और कभी-कभी वैमनस्य भी हो जाता था; किंतु आपत्तिकाल के समय देवलिया राज्य, उदयपुर राज्य को सहायता देकर अपने कर्त्तव्य का पालन करता था। इसके एवज़ में वहां के रावत को धरियावद की जागीर मिली थी, जो महारावत हरिसिंह के समय जाती रही। ऊपर बतलाया जा चुका है कि महारावत पृथ्वीसिंह ने उदयपुर राज्य से पुनः अपना राजनैतिक संबंध जोड़ा था और धरियावद का परगना पीछा मिलने की बात स्थिर हो गई थी, परंतु उक्त महारावत और उसके कुंवर का देहांत हो जाने एवं वहां उसके दो उत्तराधिकारियों के थोड़े समय तक ही राज्य करने से धरियावद का परगना नहीं मिल सका था। महारावत गोपालसिंह ने राज्यासन पर बैठते ही पुनः धरियावद का परगना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न आरंभ किया और अपने कुंवर सालिमसिंह को उदयपुर भेजा। इसी प्रकार उसने पेशवा वाजीराव का अभ्युदय देख उससे

दु खटायी परिणाम भोगना पड़ा, जिसका हम उदयपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप से उल्लेख कर चुके हैं।

(१) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में उपर्युक्त धरियावद का परगना

भी भिन्नता कर ली', क्योंकि देवलिया राज्य मालवे से मिला हुआ होने से उसको मरहटों से भी अच्छा सम्बन्ध रखने की आवश्यकता थी।

वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में डूंगरपुर के महारावल रामसिंह का देहांत होने पर उसका कुंवर शिवसिंह वहां की गद्दी पर बैठा। उस समय उदयपुर राज्य की सेना ने डूंगरपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया और चार लाख रुपयों आदि का रक़ा लिखवाकर वहां से लौटी^२। प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि महाराणा की सेना के डूंगरपुर को घेर लेने पर महारावत गोपालसिंह ने महाराणा की सेना के आदमियों से बात-चीत कर वहां का घेरा उठवाया^३। इस कथन का समर्थन उदयपुर और डूंगरपुर राज्य की ख्यातों से नहीं होता, परन्तु यह संभव है कि महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) और उक्त महारावत का अच्छा संबंध होने से उसने डूंगरपुर के स्वामी शिवसिंह तथा महाराणा के बीच संधि करवाकर वहां का घेरा उठवा दिया हो।

महाराणा अरिसिंह (वि० सं० १८१७ से १८२६ = ई० स० १७६१ से १७७३) के राज्य-काल में महारावत सालिमसिंह को मेवाड़ के गृह-युद्ध के समय की गई सेवा के उपलक्ष्य में मिलने का उल्लेख है, परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि वहां महारावत पृथ्वीसिंह को मिली हुई 'रावत राव' की उपाधि प्रयोग में लाने की महाराणा अरिसिंह की सनद तो दी गई, किंतु धरियावद परगने की कोई सनद नहीं दी और न धरियावद परगना मिलने का सम्बन्ध और मास दिया है। यदि वस्तुतः धरियावद का परगना सालिमसिंह को मिला होता तो उसकी सनद अवश्य उद्धृत की जाती एवं वर्ष तथा मास भी दिया जाता। हमारा अनुमान है कि मेवाड़ में महाराणा अरिसिंह के समय होनेवाले गृह-युद्ध के कई वर्ष पूर्व धरियावद का परगना महारावत गोपालसिंह को मिल चुका था, जिसके कारण ही गोपालसिंह ने उदयपुर में विशेष रूप से आना जाना जारी किया।

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६३।

(२) वही, द्वितीय भाग, पृ० १०११।

(३) वही, द्वितीय भाग, पृ० १०६३।

मालवे में होनेवाले मरहटों के आक्रमणों को शाही सेना ने रोकने का यथासाध्य प्रयत्न किया और आंबेर का स्वामी सवाई जयसिंह भी इस कार्य के लिए नियत किया गया, परंतु इसमें मालवे के लिए मरहटों की सफलता नहीं हुई और मरहटों की शक्ति बढ़ती लड़ाइयाँ गई। इस असफलता का मुख्य कारण शाही अफ़सरोँ का पारस्परिक मनोमालिन्य, ईर्ष्या और स्वार्थ-परायणता ही थी। उस समय स्वामी-सेवक के भाव नष्ट होने लगे थे और शाही अफ़सरोँ में से अधिकांश विद्रोही होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा में थे। ऐसी स्थिति में असफलता होना स्वाभाविक था। मालवे की भांति उन दिनों मरहटों के गुजरात में भी आक्रमण होने लगे, जिससे स्थायी शांति का होना कठिन हो गया। प्रतापगढ़ राज्य मालवा के अंतर्गत था और उसके चारों तरफ़ संघर्ष मच रहा था, तथापि वह महारावत गोपालसिंह के कुशल-शासन से अक्षुण्ण रहा। इतिहास के प्रसङ्ग को भिलाने के लिए संक्षेप में हम यहां मालवे में बादशाह मुहम्मदशाह के समय जो उलट-फेर हुए, उनका वर्णन करते हैं—

फ़र्रुखसियर की मृत्यु के पीछे सैयदों ने निज़ामुल्मुल्क को वि० सं० १७७५ फाल्गुन सुदि १२ (ई० स० १७१६ ता० २० फ़रवरी) को मालवे का सूबेदार बनाया। ई० स० १७२२ ता० ३० अगस्त (वि० सं० १७७६ भाद्रपद वदि ३०) तक वह वहां का सूबेदार रहा। फिर बादशाह मुहम्मदशाह के समय सैयदों का दमन होने के पीछे निज़ामुल्मुल्क तो वज़ीर बनाया गया और राजा गिरधर वहादुर मालवे का सूबेदार नियत हुआ, परंतु वह पूरा एक वर्ष भी वहां न रहने पाया था कि बादशाह ने निज़ामुल्मुल्क पर ही मालवे का भार डाल दिया। निज़ामुल्मुल्क की शक्ति उस समय बहुत बढ़ गई थी, जिसको बादशाह ने भयावह जान पुनः राजा गिरधर वहादुर की वि० सं० १७८२ प्रथम आषाढ सुदि ३ (ई० स० १७२५ ता० २ जून) को मालवे के सूबे पर नियुक्ति की। राजा गिरधर वहादुर इलाहाबाद के सूबेदार छुधीलेराम नागर (ब्राह्मण) का भतीजा था

और साम्राज्य-भक्त था। उसने मालवा में मरहटों का प्रभाव न बढ़ने देने के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया और अंत में वह आमभर्रा में मरहटों से युद्ध करता हुआ ई० स० १७२८ ता० २६ नवंबर (वि० सं० १७८५ मार्गशीर्ष सुदि ६) को मारा गया। उसके बाद उसका पुत्र भवानीराम मालवे का सूवेदार बनाया गया। उसने भी मरहटों को मालवा में न बढ़ने देने का उद्योग किया, किन्तु आवश्यक सहायता न मिलने से वह असफल रहा। मालवा ही नहीं अपितु गुजरात में भी मरहटों के आक्रमण होते देख वादशाह मुहम्मदशाह को बड़ी चिंता हुई। वि० सं० १७८६ (ई० स० १७२६) में उसने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालवे का सूवेदार बनाया और सैन्य-संगठन के लिए तेरह लाख रुपये भी दिये, परन्तु वह अपनी मेल-मिलाप की नीति से कुछ दे-दिलाकर मरहटों का वहां से कब्जा उठाना चाहता था। उस समय मालवा में मरहट्टे मुकासा नामक कर उगाहते थे, इसलिए वहां से उनका यह अधिकार उठाने एवं उनके आक्रमणों को रोकने के लिए जब वह (जयसिंह) मालवे की तरफ आगे बढ़ा तो उसके साथ वहां के प्रायः सब राजा उपस्थित हो गये^१। फिर वह उज्जैन से मांडू की तरफ बढ़ा और ई० स० १७३० के जनवरी (वि० सं० १७८६ माघ) मास में उसने वह किला मरहटों से खाली करवा लिया^२। महाराजा जयसिंह का विचार मरहटों से मालवा खाली करवाकर उसे अपने राज्य में मिलाने का था। इस बात को ताड़कर राजपूताना के नरेश उससे शंकित रहते थे, क्योंकि उन्हीं दिनों उसने वृंदा से राव बुधसिंह को हटाकर दलेलसिंह को वहां का स्वामी बना दिया था^३ और रामपुरे का परगना भी चंद्रावतों (सीसोदियों की एक शाखा) से जूत करवाकर

(१) डॉ० रघुवीरसिंह, मालवा इन ट्रांज़िशन, पृ० १७८। मालवा में युगान्तर; पृ० २००। सूर्यमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३१३७-३८।

(२) सूर्यमल; वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३१३८। डॉ० रघुवीरसिंह; मालवा में युगान्तर; पृ० २०१। मालवा इन ट्रांज़िशन, पृ० १७८।

(३) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३१३२-३६।

महाराणा संग्रामसिंह से अपने छोटे कुंवर माधवसिंह को दिलवा दिया था^१।

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६७४-५ । मालवा में रामपुरा चंद्रावत सीसोदियों का प्राचीन स्थान है । मालवे के सुलतान होशंग के समय इस ठिकाने की स्थापना हुई और बहुत समय तक इसका वहां के सुलतानों से संबंध रहा । फिर मेवाड़ के उत्कर्ष के पिछले समय में यहां के स्वामी मेवाड़ राज्य के अधीन हो गये और राव दुर्गभान ने कई युद्धों में महाराणा उदयसिंह का साथ दिया । जब वि० सं० १६२४ (ई० स० १५६७) में बादशाह अकबर की चित्तौड़ पर चढ़ाई हुई उस समय वह रामपुरा पर भी शाही आक्रमण होने के भय से चित्तौड़ में चला गया था । तदनंतर उक्त दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाने पर दुर्गभान ने भी शाही अधीनता स्वीकार की और बादशाह अकबर से लगाकर मुहम्मदशाह तक दुर्गभान एवं उसके वंशधर साम्राज्य के भक्त रहे तथा युद्ध के अवसरों पर उन्होंने मुसलमान बादशाहों को पूरी सहायता पहुंचाई । बादशाह औरंगजेब के समय दुर्गभान के वंशज गोपालसिंह ने, जब वह (बादशाह) दक्षिण में मरहटों की सेना से लड़ने में व्यस्त था, अच्छा पराक्रम दिखलाया था । शाही नौकरों के बहकानों से उस (गोपालसिंह) के पुत्र रत्नसिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया । इसपर बादशाह ने उसका नाम इस्लामखां रखकर रामपुरा का नाम इस्लामपुरा कर दिया । इस गडबड़ी में रत्नसिंह को रामपुरा से निकालने के लिए गोपालसिंह ने बहुत झगड़ा किया और उदयपुर के महाराणा अमरसिंह (दूसरा) को भी अपना सहायक बनाया । जहांदारशाह के समय रत्नसिंह शाही सेना से लड़कर मारा गया । तब गोपालसिंह ने वहां पर पुनः अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की । इसी बीच महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) ने वह इलाका बादशाह फर्रुखसियर के समय अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न कर उक्त बादशाह से रामपुरे का फरमान अपने नाम करा लिया । फिर उसने सेना भेजकर अपनी अधीनता में रहने के इत्क़रार पर आधा इलाका चंद्रावतों के पास रहने दिया और आधा अपने खालसे में मिलाकर वहां के प्रबंध के लिए राठोड़ दुर्गादास को नियत किया । फिर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वह इलाका महाराणा से वि० सं० १७८६ (ई० स० १७२६) में अपने छोटे पुत्र माधवसिंह (जो महाराजा का भानजा था) के नाम लिखवा लिया । जयसिंह की मृत्यु पर जयपुर के राज्य की प्राप्ति के लिए मेवाड़ राज्य ने कई बार माधवसिंह की सहायतार्थ सेना रवाना की, जिसमें महारराव होल्कर आदि भी थे । अंत में ईश्वरीसिंह की मृत्यु पर माधवसिंह जयपुर का स्वामी हुआ । फिर भी उसने रामपुरा पर अपना अधिकार कुछ दिनों तक और बनाये रखा और वि० सं० १८१७ (ई० स० १७६०) के आस पास वह ठिकाना महारराव होल्कर को जयपुर पर अधिकार कराने के एवज़ में दे दिया ।

मांडू पर अधिकार करने के थोड़े ही दिनों पीछे जयसिंह मालवे का कार्य अपूर्ण छोड़कर अपनी राजधानी को लौट गया और साम्राज्य एवं अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया, किन्तु मरहटों के साथ उसकी वात-चीत चलती रही। उसका कुछ परिणाम निकलनेवाला ही था कि इसी बीच उसके स्थान पर मुहम्मद वंगश वहां का सूबेदार बना दिया गया। उधर मरहटों ने जब जयसिंह के साथ जारी की हुई वात-चीत का परिणाम न निकलता देखा और मुहम्मद वंगश की कार्यवाहियां अपने विपरीत समझीं तो पुनः मालवे पर आक्रमण जारी कर दिये, जिससे वहां की स्थिति गंभीर हो गई और उसे मुहम्मद वंगश सम्हाल नहीं सका; क्योंकि शाही दरबार से उसको यथेष्ट सहायता नहीं मिली तथा निज़ाम आदि अन्य शाही अमीरों ने भी (जिन्होंने उसको सहायता देने का क़रार किया था) अवसर आने पर मौन साध लिया। अंत में वि० सं० १७८६ (ई० सं० १७३२) में तीसरी बार पुनः जयसिंह मालवे का सूबेदार बनाया गया। फ़रवरी मास में, जब जयसिंह मंदसोर के पास ठहरा हुआ था, होल्कर और सिंधिया ने उस (जयसिंह) को घेर लिया। यह समाचार सुनकर बादशाह ने स्वयं सेना के साथ मालवे की तरफ़ प्रस्थान कर दिया, जिसका संवाद पाने पर जयसिंह के साथी राजपूतों का भी उत्साह बढ़ गया और वे मरहटों के मुकाबले को आगे बढ़े। फिर मल्हारराव होल्कर और जयसिंह के बीच छोटा सा युद्ध भी हो गया, जिसमें मल्हारराव होल्कर को वहां से हट जाना पड़ा। जयसिंह ने होल्कर का पीछा किया, परंतु उसकी कुशलता से वह (जयसिंह) स्वयं धिर गया^१। बादशाह तब तक राजधानी से थोड़ी दूर ही आगे बढ़ा था और सहायक सेना भी उस समय तक न पहुंची थी। अतएव विवश होकर उस (जयसिंह) को मरहटे सेनापतियों से संधि का प्रस्ताव चलाना पड़ा। निदान दो किशतों में पांच लाख रुपये लेकर मालवा

(१) डॉ० रघुवीरसिंह; मालवा इन ट्रांज़िशन; पृ० २२४। मालवा में युगान्तर, पृ० २५५।

छोड़ने की शर्त पर उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह के धायभाई राव नगराज^१ की मध्यस्थता में संधि हो गई। जयसिंह का मरहटों को विश्वास न था, इसलिए दो लाख रुपये तो एक महीने बाद और तीन लाख रुपये मालवा छोड़कर मरहटी सेना के गुजरात की सीमा पर पहुंच जाने पर मरहटों को देने का इकरारनामा वि० सं० १७८६ चैत्र वदि ६ (ई० स० १७३३ ता० २७ फ़रवरी) को धायभाई नगराज ने मरहटा सेनापति मल्हारराव होल्कर, राणोजी सिंधिया और आनंदराव पंवार के नाम लिख दिया। ऐसी तहरीर उन तीनों सेनापतियों की तरफ़ से भी नगराज के नाम लिखी गई। फिर मरहटे सेनापतियों ने उस समय इकरार का पालनकर मालवा से अपनी सेना हटा ली और नगराज ने भी इकरार के अनुसार उन्हें रुपये देकर रसीदें ले लीं^२। इसके बाद महाराजा जयसिंह की मालवा की तरफ़ से चिंता मिट गई और वह वहां से लौट गया। उसके वहां से लौटने के छः महीने बाद ही मरहटों ने पुनः मालवे पर धावा किया और वि० सं० १७६१ वैशाख वदि ३० (ई० स० १७३४ ता० २२ अप्रैल) को बुधसिंह की सहायतार्थ मरहटे सेनापति रामचंद्र, मल्हारराव होल्कर, राणोजी सिंधिया और आनंदराव पवार ने दलेलसिंह को वहां से निकालने के लिए उस (दलेलसिंह) के भाई प्रतापसिंह के छः लाख रुपये देने का इकरार करने पर वृन्दी पर चढ़ाई की और वहां से दलेलसिंह का अधिकार उठा दिया, परन्तु थोड़े दिनों बाद ही जयसिंह ने वहां पुनः दलेलसिंह का

(१) नगराज गूजर जाति का था और महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) का धायभाई था। वह महाराणा का पूर्ण विश्वासपात्र होने से मुसाहब के पद तक पहुंच गया था। युद्ध के अवसरों पर महाराणा की सेना का सेनापतित्व भी बहुधा धही किया करता था। वीर और नीतिकुशल व्यक्ति होने से महाराणा ने उसका सम्मान बढ़ाने के लिए उसे 'राव' की उपाधि प्रदान की थी। इस समय महाराणा ने सवाई जयसिंह के लिखने पर अपनी सेना के साथ उसको मरहटों की गति रोकने के लिए भेजा था। फ़लतः उसने मध्यस्थ बनकर उपर्युक्त समझौता करवा दिया।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १२१६।

अधिकार करा दिया^१ ।

राजपूताने में मरहटों के हस्तक्षेप करने का यह पहला अवसर था। उन्ही दिनों उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) का देहांत^२ होकर उसका कुंवर जगतसिंह (दूसरा) राजगद्दी पर बैठा। मेवाड़ राज्य की सीमा मालवे से मिली हुई होने के कारण वहां के महाराणाओं को मरहटों के बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा भय था, इसलिए संग्रामसिंह और जगतसिंह मरहटों से मेल रखते थे एवं उन्होंने महाराव होल्कर के साले नारायणराव को बूढ़ा की जागीर भी दी थी और उस (नारायणराव) के दक्षिण में चले जाने पर उक्त परगने की आय भी उसके पास पहुंचा दी जाती थी^३। पूर्वी राजपूताना के इस आक्रमण से वहां के नरेशों की भी आंखें खुलीं। अतएव वि० सं० १७६१ श्रावण वदि १३ (ई० स० १७३४ ता० १७ जुलाई) को मेवाड़ के हुरडा गांव में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, चूंदी, करोली आदि के राजा एकत्रित हुए और उन्होंने सलाहकर परस्पर एकता रखने, एक के शत्रु को सबका शत्रु समझने एवं बरसात के चाद रामपुरा में अपनी-अपनी सेना के साथ एकत्र होने का इकरारनामा लिखा; किंतु पारस्परिक फूट और स्वार्थ-परता की भावनाओं के कारण इस इकरारनामे का कुछ भी परिणाम नहीं निकला^४ ।

(१) वंशभास्कर, चतुर्थ भाग, पृ० ३२१६-२० ।

(२) महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) वि० सं० १७६० माघ वदि ३ (ई० स० १७३४ ता० ११ जनवरी) को परलोक सिंधारा और उसी दिन उसके कुंवर जगतसिंह (द्वितीय) ने राज्यासीन होकर वि० सं० १७६१ ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० १७३४ ता० ३ जून) को अपना राज्याभिषेकोत्सव किया ।

(३) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १२१८ ।

(४) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६२८-६। “वंशभास्कर” (चतुर्थ भाग, पृ० ३२२७) में हुरडा के मुकाम पर वि० सं० १७६१ के कार्तिक (ई० स० १७३४ अक्टोबर) मास में और “जोधपुर राज्य की ख्यात” (जि० २, पृ० १४२) में वि० सं० १७६२ (ई० स० १७२५) में राजपूताने के सब राजाओं का एकत्र होना लिखा है, जो ठीक नहीं है । उदयपुर में असली इकरारनामा मौजूद है,

उसी वर्ष के नवंबर मास में वज़ीर कमरुद्दीन^१ ने मरहटों को दवाने के लिए मालवे की ओर प्रस्थान किया और दूसरी तरफ़ से खानदौरा^२ भी जिसमें श्रावण मास में सब राजाओं का एकत्र होना लिखा है और “वीरविनोद” तथा कर्नल टॉड ने भी वि० सं० १७६१ का श्रावण मास ही दिया है।

(१) यह एतमादुद्दौला मुहम्मद अमीनख़ां का पुत्र और निज़ामुल्मुल्क आसफ़-जाह का भतीजा था। इसका असली नाम मीर मुहम्मद फ़ाज़िल लिखा मिलता है। बादशाह मुहम्मदशाह ने निज़ामुल्मुल्क चिनकलीचख़ां आसफ़जाह के वज़ीर का पद परित्याग करने पर वि० सं० १७६१ (ई० स० १७३४) में इसको अपना वज़ीर बनाया और एतमादुद्दौला नवाब कमरुद्दीनख़ां बहादुर नसरतजङ्ग की उपाधि से विभूषित किया। वि० सं० १८०४ चैत्र वदि ८ (ई० स० १७४८ ता० ११ मार्च) को मुहम्मदशाह के राज्य-काल में अहमदशाह अब्दाली (दुर्रानी) के आक्रमण के समय सरहिंद के युद्ध में इसकी मृत्यु हुई। “मेमोरंडम ऑन इंडियन स्टेट्स” तथा ए० वेदी वेल्लू-कृत “रूलिंग चीफ़्स, गोवल्स एंड ज़मींदारस ऑफ़ इंडिया” आदि पुस्तकों में हैदराबाद के निज़ाम को उपर्युक्त वज़ीर कमरुद्दीन का वंशधर लिखकर उसका उपनाम चिनकलीचख़ां लिखा है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकांश स्थलों पर उसे चिनकलीचख़ां का ही वंशज बतलाया है, जिसका उपनाम निज़ामुल्मुल्क था।

(२) खानदौरा का पूरा नाम अब्दुलसमंदख़ां था और इसकी पूरी उपाधि “नवाब शम्सुद्दौला बहादुरजंग” थी। यह ख़्वाजा अब्दुलकरीम का पुत्र था। बादशाह औरंगज़ेब के समय इसने प्रारंभ में छः सौ सवारों का मंसब पाया, जो बढ़ते-बढ़ते पंद्रह सौ सवारों तक पहुंच गया। जहांदारशाह ने इसको सात हज़ारी मंसबदार बनाकर “अलीजग” का खिताब दिया। फ़र्रुख़सियर के समय यह लाहोर का सूबेदार था। जब उक्त बादशाह ने सिखों के विरुद्ध इसको सेना देकर भेजा, तब इसने सिखों को परास्त कर वंदा वैरागी को कैद किया। मुहम्मदशाह के समय यह गुलतान का सूबेदार बनाया गया और इसको “अमीरुलउमरा शम्सुद्दौला” की उपाधि मिली। वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में भारत पर नादिरशाह की चढ़ाई के समय यह मारा गया। यह महाराजा सवाई जयसिंह का पूरा पक्षपाती एवं साम्राज्य का भी भङ्ग रहा। मरहटों का उत्थान देख यह उनसे मेल करना चाहता था और वस्तुतः वाजीराव बल्लाल को मालवे की सूबेदारी इसकी सिफारिश से ही मिली थी। शाही अमीर निज़ामुल्मुल्क आसफ़जाह, वज़ीरुल्मुल्क कमरुद्दीनख़ां, बुर्हानुल्मुल्क, सआदतख़ां आदि के अनैक्य, राजपूत राजाओं की महत्वाकांक्षा तथा राज्य-वृद्धि की लालसा एवं मरहटों का उत्कर्ष देख यह बार-बार समझौते की चेष्टा किया करता था, क्योंकि उस समय सलतनत की हालत कमज़ोर थी।

मरहटों से समझौते के लिए
देवलिया के समीप एकत्र
होने की विफल
योजना

मरहटों को दवाने के लिए आगे बढ़ा, जिसके साथ
सवाई जयसिंह, कोटा का महाराव दुर्जनसाल,
जोधपुर का महाराजा अभयसिंह आदि भी विद्य-
मान थे^१। मरहटा-दल ने शाही सेना को घेरकर
रसद का मार्ग रोक दिया और कोटा, बूंदी की तरफ़ होते हुए
उन्होंने जयपुर तथा जोधपुर राज्य में पहुँचकर लूट-मार आरंभ की। छः
मास तक शाही फ़ौज मरहटों की सेना का पीछा कर उसको दवाने में व्यस्त
रही, परंतु इससे मरहटों की गति मंद न हुई। उनका सैन्य-संगठन और
परिचालन इतना अच्छा था कि शाही फ़ौज घिर गई और उसकी बड़ी
हानि हुई। अंत में महाराजा जयसिंह के परामर्श के अनुसार खानदौरा ने
उस समय सिंधिया और होल्कर से संधि कर चौथ के बार्डस लाख
रुपये देना स्वीकार किया^२। कर्नल टॉड-कूत “राजस्थान” में महाराणा
जगतसिंह (दूसरा) का अपने मन्त्री बिहारीदास के नाम वि० सं०
१७६१ आश्विन (ई० सं० १७३४) में भेजा हुआ पत्र दिया है, जिससे
प्रकट है कि महाराणा ने इस अवसर पर आश्विन मास के पूर्व ही अपने
मन्त्री पंचोली बिहारीदास को ससैन्य भेज दिया था। इस पत्र में उसने
लिखा था—“मरहटों का मामला अच्छी तरह से तय किया जाय एवं इस
संबंध में विचार-विमर्ष के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होना स्थिर हो
तो देवलिया के समीप एकत्र होना बुद्धिमानी नहीं होगी। तुम अपने साथ
की सेना की संख्या कम कर दो, जिससे रुपयों की आवश्यकता न होगी।
रामपुरा का कार्य गत वर्ष की भांति तय किया जाय और दौलतसिंह^३ को

(१) वंशभास्कर, चतुर्थ भाग, पृ० ३२२७। जोधपुर राज्य की ख्यात, जि०
२, पृ० १४४। मालवा इन ट्रांज़िशन, पृ० २३१। मालवा में युगान्तर, पृ० २६२।

(२) मालवा इन ट्रांज़िशन, पृ० २३२। मालवा में युगान्तर, पृ० २६३।

(३) “वंशभास्कर” (चतुर्थ भाग, पृ० ३२२५-२६) से पाया जाता है कि यह
परमार जाति का राजपूत और महाराणा का सरदार था। संभव है कि यह महाराणा
की तरफ़ से मरहटों के पास वकील के रूप में रहता हो।

कह दिया जाय कि फिर ऐसा अवसर न हो।” इससे अनुमान होता है कि मरहटों का उपद्रव देवलिया राज्य के निकट तक पहुंच गया था और संभव है कि वह मरहटी सेना के आवागमन के कारण उपद्रवों से सुरक्षित न हो एवं मरहटों तथा राजा लोगों के परामर्श के निमित्त देवलिया के आस-पास एकत्र होने से उक्त राज्य तथा वहाँ की प्रजा को कष्ट होने की संभावना हो।

बादशाह की तरफ से मालवे में मरहटों की गति रोके जाने और चौथ की वसूली के स्वत्व की बाबत कोई बात तय न होने से पेशवा बाजीराव पेशवा के राजपूताना में पहुचने पर महाराज का उसके पास जाना किसी भी दशा में मालवे के संबंध में सम्मानपूर्ण समझौता करने को उत्सुक था। उसने इसके लिए उदयपुर और जयपुर के राजाओं को अपनी ओर मिलाकर कोई मार्ग निकालना चाहा। वैसे तो उक्त दोनों राज्यों का मरहटों से मेल था, पर क्रियात्मक रूप से वे मरहटों का साथ न देते थे। कहा जाता है कि शाही दरवार में मरहटों से मिलावट रखने की सवाई जयसिंह की पूर्ण शिकायत हो रही थी, इसलिए उसको शाही दरबार से घृणा हो गई और वह मरहटों को उकसाने लगा। फलतः पेशवा ने इस अवसर से लाभ उठाने के लिए अपनी माता को, जो गया आदि की यात्रा के हेतु जानेवाली थी, मार्ग में उदयपुर तथा जयपुर के राजाओं के पास भेजना स्थिर किया और वि० सं० १७६२ (ई० स० १७३५) में महाराणा के वकील जयसिंह शक्तावत^३ के साथ उसको रवाना कर उस (जयसिंह) को आदेश दिया कि वह महाराणा से निवेदन कर सवाई जयसिंह को कहलादे कि वह शाही इलाक़े में राहदारी और तीर्थ

(१) टॉड, राजस्थान; जि० १, पृ० ४६१-२।

(२) जयसिंह शक्तावत मेवाड़ में पीपलिया के ठिकानेवालों का पूर्वज था। उसके पिता शक्तावत बाघसिंह को महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) ने छत्रपति राजा शाहू की सहायतार्थ भेजा था। शाहू के यहाँ बाघसिंह का बड़ा सम्मान था। उसकी मृत्यु के बाद जयसिंह वहाँ रहकर महाराणा की तरफ से राजदूत का कार्य करता था।

कर माफ़ कराने की व्यवस्था कर दे। तदनन्तर जयसिंह शक्तावत पेशवा की माता के साथ उदयपुर गया और उसने महाराणा से सब वृत्तांत निवेदन किया^१। ता० ६ मई (ज्येष्ठ वदि १०) को पेशवा की माता के उदयपुर पहुंचने पर महाराणा ने उसकी अग्रगामिता कर बड़ा सम्मान किया। फिर वहां से नाथद्वारा होती हुई वह जयपुर गई^२। महाराणा ने उसके साथ जयपुर तक शक्तावत जयसिंह और सलूंवर के रावत केसरीसिंह को भेजा^३, जिन्होंने सवाई जयसिंह से कहकर पेशवा की माता से राहदारी और तीर्थ-कर न लेने की व्यवस्था करवा दी।

सवाई जयसिंह की गुप्त अभिसंधि जारी थी, इसी बीच उदयपुर और जयपुर में जाने पर पेशवा की माता का अच्छा सम्मान हुआ, जिसका उसपर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर उसने स्वयं उन दोनों जगहों के राजाओं के पास उपस्थित होकर चौथ और मालवा आदि का मामला तय कर लेना चाहा। बादशाह मुहम्मदशाह भी साम्राज्य की स्थिति नाजुक देख पेशवा का मामला निबटाना चाहता था और सवाई जयसिंह की मारफ़त ही, जो मालवे का सूबेदार था^४, इसकी बात चल रही थी। निदान पेशवा के पास

(१) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३२२२-२४।

(२) मालवा इन ट्रांज़िशन; पृ० २३३। मालवा में युगान्तर; पृ० २६४।

(३) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३२२४।

(४) मालवा पर सवाई जयसिंह की अंतिम सूबेदारी वि० सं० १७८६ कार्तिक वदि ६ (ई० स० १७३२ ता० २८ सितंबर) से वि० सं० १७९४ भाद्रपद वदि ४ (ई० स० १७३७ ता० ३ अगस्त) तक रही थी। इसके पीछे बादशाह ने वहां की सूबेदारी निज़ामुल्मुल्क के ज्येष्ठ पुत्र गाज़ीउद्दीनखां को सौंपी। पेशवा से जयसिंह ही मिलावट न रखता था, प्रत्युत् निज़ामुल्मुल्क भी उससे दयता था और वि० सं० १७८८ (ई० स० १७३१) के लगभग उसने ऐसी गुप्त संधि भी की थी कि उत्तर भारत के सम्बन्ध में पेशवा जो कार्यवाही करेगा, उसमें निज़ामुल्मुल्क उसका बाधक न होगा (मालवा में युगान्तर, पृ० २४६), किंतु फिर उसको अपना विरोधी देख, मरहटों ने उसके साथ संघर्ष जारी कर दिया। अन्त में मरहटों की युद्ध-कुशलता से निज़ामुल्मुल्क का भी साहस कम हो गया और वि० सं० १७९४ माघ वदि १२

वादशाह के इशारे से ज्योंही महाराजा सवाई जयसिंह का निमन्त्रण पहुंचा, वह कार्तिक सुदि ५ (ता० ६ अक्टोबर) को पूना से रवाना

(ई० स० १७३८ ता० ६ जनवरी) को मालवे का सारा अधिकार पेशवा को सौंप देने की बात स्थिर हुई; परन्तु उन दिनों नादिरशाह के भारत पर आक्रमण करनेकी आशङ्का बढ़ रही थी। इसलिए इस समझौते को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका और लिखित रूप से बादशाह की भी स्वीकृति नहीं हुई। इसी बीच बाजीराव पेशवा की वि० सं० १७६७ ज्येष्ठ वदि ११ (ई० स० १७४० ता० १० मई) को मृत्यु हो गई और उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। इस गढ़बढ़ी के कारण बादशाह का विचार बदल गया और निज़ामुल्मुल्क आसफ़जाह के प्रस्ताव करने पर उसका चचेरा भाई अज़ीमुल्ला वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) के लगभग मालवे का सूबेदार बनाया गया, जिससे पुन मालवा से मरहटों के सब अधिकार उठ जाने की संभावना दीख पड़ी, जिसका विरोध करने के लिए पेशवा ने पृथक्-पृथक् रूप से उत्तर भारत में अपने विभिन्न दलों को रवाना किया। बादशाह ने शम्सुद्दौला आज़मख़ां और सवाई जयसिंह को मरहटों के मुक़ाबले के लिए भेजा, किंतु शाही सेना की इतनी क्षमता नहीं थी कि वह मरहटा-दल से जमकर मुक़ाबला करती। निदान बादशाह की आज्ञानुसार सवाई जयसिंह ने मरहटों से पुनः बात-चीत जारी की। अन्त में सख्तनत के सम्बन्ध के कार्यों में हस्तक्षेप न करने और चौथ उगाहने का दावा पेशवा के छोड़ने पर गुजरात और मालवा प्रांत का समस्त अधिकार शाही फ़रमान-द्वारा वि० सं० १७६८ भाद्रपद सुदि ८ (ई० स० १७४१ ता० ७ सितम्बर) को पेशवा बालाजी बाजीराव को सौंप दिया गया और बादशाहत का इन प्रांतों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

औरंगज़ेब की मृत्यु के पिछले चार्लीस वर्षों की उल्टापल्टी में भारत के भाग्य ने बड़ा पलटा खाया। साम्राज्य की इस निर्बल स्थिति में शाही सरदार दोस्तमुहम्मदख़ां ने बादशाह से कुछ जागीर प्राप्त कर क्रमशः आस-पास की भूमि पर अधिकार कर भोपाल राज्य की स्थापना कर ली, पर मरहटा-संघर्ष में उनसे मेल रखते हुए धन आदि देकर ही वह अपना अस्तित्व स्थिर रख सका था। पेशवा बालाजी बाजीराव की विद्यमानता में ही उसके होकर, सिंधिया आदि सेनाध्यक्ष बड़े शक्तिशाली हो गये थे और वे मनमानी कार्यवाही करने से न चूकते थे। फिर भी वे अपने को पेशवा के अधीन ही समझते थे और पेशवा भी सतारा के स्वामी को अपना मालिक मानता था। समय की गति के परिवर्तन के साथ ही सतारा राज्य और पेशवा की सत्ता निर्बल होने पर उन्होंने उनकी आज्ञा मानना छोड़ दिया और स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण कर लूट-खसोट-द्वारा धन संग्रह करने की नीति को अपनाया। फलतः एकतन्त्र शासन के

होकर गुजरात की तरफ़ के राज्यों से चौथ का मामला तय कराता हुआ लूणावाड़ा और डूंगरपुर के मार्ग से उदयपुर पहुँचा^१। देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों से पाया जाता है कि इस अवसर पर पेशवा ने डूंगरपुर पर घेरा डाल दिया था और महारावत गोपालसिंह ने पेशवा को समझाकर मरहटी सेना का घेरा उठवाया^२। डूंगरपुर राज्य की ख्यातों में पेशवा की सेना के वहाँ घेरा डालने का वृत्तांत नहीं दिया है, पर यह संभव है कि पेशवा के बृहत् लश्कर के डूंगरपुर पहुँचने पर वहाँ के तत्कालीन महारावल शिवसिंह ने उसका यथोचित सत्कार न किया हो और न कुछ द्रव्य ही दिया हो, जिससे पेशवा ने वहाँ घेरा डाला हो और फिर महारावत गोपालसिंह के, जो संभवतः पेशवा के साथ हो अथवा मित्रता के कारण महारावल के बुलाने पर वहाँ पहुँचा हो, कहने-सुनने पर खिराज (चौथ) की रकम निर्दिष्ट होकर घेरा उठा दिया गया हो। इस घटना का समय माघ सुदि १३ (ई० स० १७३६ ता० १५ जनवरी) के आस-पास होना चाहिये, क्योंकि उस तिथि को पेशवा मेवाड़ की दक्षिणी सीमा पर पहुँच गया था^३।

महाराणा ने अपने राज्य में होकर पेशवा के जयपुर जाने का समाचार सुना तो उसको लाने के लिए अपने पिता महाराणा संग्रामसिंह के

अभाव में सर्वत्र अशांति और अव्यवस्था बढ़ने लगी। इसमें संदेह नहीं कि इस अवधि में कई राज्यों का विकास भी हुआ और कुछ नये राज्य भी स्थापित हुए, परन्तु कई प्राचीन और प्रतिष्ठित राज्यों के बिगड़ने में भी कसर नहीं रही, जिनका हमने यथा-प्रसङ्ग उल्लेख किया है और आगे भी करेंगे।

(१) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३२३५। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० २३७। मालवा इन ट्रांज़िशन; पृ० २३७। मालवा में युगान्तर; पृ० २६८।

(२) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में वि० सं० १७८८ (ई० स० १७३१) में पेशवा बाजीराव का डूंगरपुर को घेरना लिखा है, किंतु यह बात ठीक नहीं जान पड़ती, क्योंकि वि० सं० १७८८ में पेशवा का उधर जाना नहीं हुआ था।

(३) मालवा इन ट्रांज़िशन; पृ० २३७। मालवा में युगान्तर, पृ० २६८।

काका महाराज तख्तसिंह^१ और सलूबर के रावत केसरीसिंह को मेवाड़ की सीमा तक सामने भेजा और जब पेशवा उदयपुर के निकट पहुंचा तो वह स्वयं बड़े समारोहपूर्वक सामने जाकर उसको अपनी राजधानी में ले आया^२। पेशवा ने इस असाधारण सम्मान के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए महाराणा से प्रार्थना की कि आप मुझे सोलह उमरावों के समान एक उमराव समझें। फिर चौथ तथा मालवा आदि के संबंध में बातचीत हुई। इसपर महाराणा ने बनेड़ा^३ परगने की आय प्रति वर्ष पेशवा को देना स्वीकार किया। कर्नल टॉड-कृत “राजस्थान” में महाराणा जगतसिंह का उसके प्रधान बिहारीदास पंचोली के नाम का पत्र

(१) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३२३५। यह महाराणा जयसिंह द्वितीय का चतुर्थ पुत्र था और मेवाड़ में बाकरोब (जिसको हम्मीरगढ़ कहते हैं) इसकी जागीर में था।

(२) वंशभास्कर; चतुर्थ भाग, पृ० ३२३५-३६। वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १२३२।

(३) बनेड़ा का परगना मेवाड़ राज्य के अन्तर्गत था, परन्तु औरंगज़ेब के समय में यह मेवाड़ राज्य से पृथक् हो गया और उक्त बादशाह ने महाराणा राजसिंह (प्रथम) के छोटे कुंवर भीमसिंह को शाही सेवा स्वीकार करने के एवज़ में जागीर के साथ अन्य परगनों के सहित दे दिया। भीमसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके वंशजों का शाही दरबार में विशेष प्रभाव न रहा। औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात् बादशाहत की निर्बलता और मरहटों की लूट-खसोट की नीति से उनकी स्थिति डांवा-डोल हो गई और मालवा में बदनावर आदि के उनके परगने छिन गये। इस अवसर पर महाराणा जगतसिंह (दूसरा) ने भी बनेड़ा अपने राज्य में मिलाकर भीमसिंह के वंशज सरदारसिंह को अपना सरदार बना लिया। अनुमान होता है कि इस परगने की सनद महाराणा के नाम न होने से पेशवा के दबाव देने पर ही इसकी आय उसको देना महाराणा ने स्वीकार किया हो एवं मरहटों का मेवाड़ में दाखल न बढ़ने देने के लिए ही वह उक्त परगने की आय वि० सं० १७६६ (ई० स० १७४२) तक उसके पास पहुंचाता रहा हो। इसके बाद उसने बादशाह के पास अपना वकील भेज वि० सं० १८०० आश्विन सुदि ७ (ई० स० १७४३ ता० १३ सितम्बर = हि० स० ११५६ ता० ५ शाबान) को बादशाह मुहम्मदशाह के वज़ीर कमरुद्दीन से शाहपुरा, सावर, जह्मजपुर और बनेड़ा के परगनों

उद्धृत किया है। उससे प्रकट है कि बाजीराव महाराणा से ज़मीन के अतिरिक्त अन्य राजाओं की अपेक्षा बीस गुना अधिक धन लेना चाहता था। इस मुलाकात के समय बिहारीदास उदयपुर में नहीं था और संभवतः जयपुर या बादशाही दरवार में गया होगा। इसलिए महाराणा ने उसको पत्र लिखकर सूचना दी होगी।

से, जो महाराणा के कुटुम्बियों के थे, सूबेदारों-द्वारा नज़राने की रकम की वसूली की मुआफ़ी की सनद करा ली हो, जिसको “वीरविनोद” के लेखक ने (द्वितीय भाग, पृ० १२४२-४४ में) उद्धृत किया है।

कर्नल टॉड ने “राजस्थान” (जि० १, पृ० ४६४) में इस अवसर पर महाराणा का पेशवा को चौथ के एक लाख साठ हज़ार रुपये वार्षिक देते रहने की बात स्थिर करने और उसके पवज़ में बनेड़ा परगने की आय देते रहने का इक़रार करने का उल्लेख किया है, जिसका समर्थन “वंशभास्कर” से भी होता है, परन्तु वहां रुपयों की संख्या एक लाख पचास हज़ार ही दी है (चतुर्थ भाग; पृ० ३२३७)। “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १२२८-६) में इस सम्बन्ध में एक पत्र उद्धृत किया गया है, जिसमें बनेड़ा परगने की आय के सं० १७६२ से १७६६ (ई० स० १७३५ से ४२) तक के नौ लाख पच्चीस हज़ार रुपये तथा पेशवा उदयपुर गया, उस समय मिहमानी के दो लाख रुपये देने का विवरण है। इससे स्पष्ट है कि मरहटों को वार्षिक १६०००० रुपया महाराणा-द्वारा ख़िराज के देने की बात में कोई तथ्य नहीं है। यह ठीक है कि वि० सं० १७६२ से ६६ (ई० स० १७३५ से ४२) तक उक़र परगने की आय, जिसका औसत लगभग एक लाख पच्चीस हज़ार रुपया वार्षिक था, पेशवा के पास पहुंचती रही, जिसका कारण हम ऊपर दिखला चुके हैं।

(१) टॉड, राजस्थान; जि० १, पृ० ४६२।

“वंशभास्कर” से प्रकट है कि बाजीराव को उदयपुर में किसी ने बहकाया कि जगमंदिर नामक महल को दिखाने के बहाने ले जाकर तुम्हें मार डालेंगे। इसपर वह बड़ा क्रोधित हुआ। फिर महाराणा ने उस (बाजीराव) के क्रोध को शांत करने के लिए सात लाख रुपये देकर उसको वहां से विदा किया (भाग ४, पृ० ३२३७)। महाराणा के मंत्री बिहारीदास के नाम के उपर्युक्त पत्र से प्रतीत होता है कि पेशवा ने कोई बहाना निकालकर महाराणा से अधिक रकम लेने के लिए दबाव डाला होगा। फलतः महाराणा ने उसको प्रसन्न रखने के लिए उपर्युक्त बनेड़ा परगने की आय उसके पास पहुंचाने की बात स्थिर कर उसको वहां से विदा किया हो।

उदयपुर से पेशवा जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास गया। उस समय उसके साथ प्रतापगढ़ का महारावत गोपालसिंह भी था। ता० ३ शन्वाल हि० सं० ११४८ (फाल्गुन सुदि ४ = ता० ५ फ़रवरी) को पेशवा ने महारावत को रखसत देकर खासा अस्तबल से आभूषण-सहित घोड़े महाराणा के लिए उसके साथ रवाना किये^१।

जोधपुर के महाराजा अभयसिंह ने बीकानेर के महाराजा जोरावर-सिंह के समय वि० सं० १७६७ (ई० सं० १७४०) में बड़ी सेना के साथ महारावत का महाराणा के साथ सवाई जयसिंह की सहायताार्थ जाना बीकानेर पर चढ़ाई कर चारों तरफ़ से राजधानी एवं दुर्ग को घेर लिया। महाराजा जोरावरसिंह ने बहुत दिनों तक जोधपुर की सेना का सामना किया, परंतु जोधपुर की बड़ी सेना के आगे वह छुटकारा न पा सका। अन्त में नागोर के स्वामी राजाधिराज बभ्रतसिंह (अभयसिंह का छोटा भाई) की सम्मति के अनुसार जोरावरसिंह ने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के पास अपने आदमी भेज सहायता के लिए कहलाया। जयसिंह ने अभयसिंह को बीकानेर से घेरा उठाने के लिए कहलाया, परंतु जब उसने वहां से घेरा उठाना स्वीकार न किया तो उस (जयसिंह) ने विशाल सेना के साथ जोधपुर की ओर प्रयाण किया एवं उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (दूसरा) को भी सेना लेकर आने के लिए लिखा। सवाई जयसिंह के लेखानुसार महाराणा ने सलूंवर के रावत केसरीसिंह को कुछ सेना के साथ तत्काल ही भेज दिया^२ और पीछे से वह स्वयं भी पुष्कर-यात्रा के बहाने अपनी सेना के साथ महाराजा जयसिंह को जोधपुर के घेरे में सहायता पहुंचाने के निमित्त रवाना हुआ^३ और उसके साथ कोटा से महाराव दुर्जनसाल, झूंगरपुर से महारावल शिवसिंह तथा प्रतापगढ़ से

(१) सिलेक्शन्स फ़ॉर्म पेशवाज़ दफ़्तर; जि० ३, पृ० ३२१, सं० ३२१।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १२२४।

(३) वही; द्वितीय भाग, पृ० १२२४। “वंशभास्कर” (चतुर्थ भाग, पृ० ३२६६) में महाराणा के साथ ८०००० सेना होना बतलाया है।

महारावत गोपालसिंह भी जाकर सम्मिलित हो गये^१, किंतु जयसिंह ने महाराणा के पहुंचने के पूर्व ही जोधपुर पहुंच वहां घेरा डाल दिया। जयपुर की सेना-द्वारा जोधपुर के घेरे जाने का समाचार पाकर अभयसिंह बीकानेर का घेरा उठाकर जोधपुर लौट गया और फिर संधि की बातचीत होने पर उन्नीस लाख रुपये लेकर जयसिंह ने जोधपुर का घेरा उठाकर जयपुर की तरफ प्रयाण किया। इस बीच महाराणा भी अजमेर की सीमा में जा पहुंचा और मार्ग में जयसिंह तथा जोरावरसिंह जाकर उससे मिले^२। फिर महाराणा और झूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ के स्वामी भी अपने-अपने स्थानों को लौट गये।

महारावत गोपालसिंह का वि० सं० १८१३ (ई० स० १७५६) के लगभग देहांत हुआ^३। उसके ग्यारह राणियां थीं, जिनसे चार कुंवर—
 वरूतावरसिंह, सालिमसिंह, रत्नसिंह और जैत-
 सिंह—एवं सूरजकुंवरी तथा एजनकुंवरी नामक
 दो कुंवरियां हुईं^४।

महारावत का देहांत और
 राणियां आदि

(१) ठा० चतुरसिंह; चतुरकुल चरित्र, द्वितीय भाग, पृ० १३२।

(२) देखो मेरा राजपूताने का इतिहास, पाचवी जिल्द, प्रथम खंड, पृ० ३१६।

(३) “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६३) में तथा कुछ दूसरे स्थलों पर वि० सं० १८१४ (ई० स० १७५७) में उक्त महारावत का देहांत होना लिखा है और एक स्थान पर उसकी मृत्यु उसी वर्ष श्रावण वदि १४ (ता० १५ जुलाई) को दी है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त महारावत के उत्तराधिकारी सालिमसिंह की एक सनद वि० सं० १८१३ माघ सुदि १ (ई० स० १७५७ ता० २० जनवरी) की कल्याणपुरा के ठाकुर फतहसिंह के छोटे पुत्र दौलतसिंह के नाम देवद और कराड्या गांव जागीर में देने की विद्यमान है। ऐसी अवस्था में उक्त महारावत का वि० सं० १८१४ में देहांत होने का कथन नितान्त असङ्गत है। प्रतापगढ़ से प्राप्त शिलालेखों आदि की सूची में उक्त महारावत का अन्तिम लेख वि० सं० १८१२ वैशाख वदि ३ (ई० स० १७५५ ता० ३० मार्च) का दिया है, अतएव महारावत गोपालसिंह का देहांत वि० सं० १८१३ (ई० स० १७५६) में मानना पड़ेगा।

(४) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ७८। प्रतापगढ़ राज्य की एक

उस(गोपालसिंह)के समय के वि० सं० १७७८ से १८१२ (ई० स० १७२१ से १७५५) तक के शिलालेख और दानपत्र आदि मिले हैं, जिनमें से निम्नलिखित इतिहास के लिए उपयोगी हैं—

(१) वि० सं० १७७८ आषाढ सुदि १३ (ई० स० १७२१ ता० २६ जून) का वसाड़ गांव के पटेल लाभा दकेचा नरसिंहदास के नाम का आज्ञापत्र, जिसमें दवे गोरधन को अडाण (कुआं) ज़मीन बीघा ८ देने का उल्लेख है । इसमें महारावत गोपालसिंह को 'महाराजा', और 'रावतजी-श्री' लिखा है एवं यह सनद दुप शाह चंद्रभाण होने का उल्लेख है । इस-पर जो छाप लगी हुई है उसमें 'श्रीमहारावत श्रीगोपालसिंहजी दुप शाह चंद्रभाणजी' लेख अंकित है, जिससे पाया जाता है कि हूंबड़ जाति का महाजन चंद्रभाण उक्त महारावत का मंत्री था ।

(२) वि० सं० १७७८ श्रावण सुदि १३ (ई० स० १७२१ ता० २५ जुलाई) का सेखड़ी गांव का गुंसाई गंगागिरि के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत पृथ्वीसिंह-द्वारा वि० सं० १७७३ ज्येष्ठ सुदि १५ (ई० स० १७१६ ता० २५ मई) को दिये हुए नाथूखेड़ी गांव के एवज़ में उसको गोपालसिंह का उदयपुर की यात्रा के समय उक्त गांव प्रदान करने का उल्लेख है ।

(३) वि० सं० १७७६ वैशाख सुदि २ (ई० स० १७२२ ता० ६ अप्रैल) का भट्टावर के नाम गांव अवलेसर में अट्टारह बीघा खेत देने का आज्ञापत्र । इसमें उक्त महारावत को श्रीमंत महाराजाधिराज महारावत और दुप शाह चंद्रभाण लिखा है तथा विद्या शिरोमणि-द्वारा यह आज्ञापत्र लिखे जाने का उल्लेख है ।

पुरानी ख्यात (पृ० ११-१२) में महारावत की राणियों की संख्या १० दी है और वरतावरसिंह को चतुर्थ पुत्र लिखा है । उसमें कुंवरियों के नाम नहीं दिये हैं । उसमें दिये हुए कुछ राणियों के नाम और पितृकुल भी भिन्न हैं ।

(१) देखो ऊपर पृ० २१८, टिप्पण्य संख्या १ ।

(४) वि० सं० १७८१ आषाढ वदि १० (ई० स० १७२४ ता० ५ जून) का शाह चंद्रभाण के नाम का आज्ञापत्र जिसमें उसको डोराणु गांव जागीर में देने का उल्लेख है । इस सनद में लेखक का नाम पंचोली ईसरदास दिया है और उक्त महारावत की उपाधि 'महाराजा रावत' लिखी है ।

(५) वि० सं० १७८३ आषाढ सुदि १३ (ई० स० १७२६ ता० १ जुलाई) का नाथद्वारे में श्रीनाथजी के मंदिर को गांव धनेसरी भेंट करने का ताम्रपत्र, जिसमें उक्त महारावत का विवाह के लिए घाणेराम जाते समय उपर्युक्त गांव श्रीनाथजी को भेंट करने का उल्लेख है । इसमें दुए शाह चंद्रभाण तथा लेखक का नाम विद्याशिरोमणि राय दिया है और अंत में धनेसरी गांव के बदले में गांव जेठ्याखेड़ी चढ़ाने का उल्लेख होकर ये पंक्तियां शाह चंद्रभाण और सुंदर-द्वारा लिखी जाने का भी उल्लेख है ।

(६) वि० सं० १७८३ भाद्रपद सुदि १३ (ई० स० १७२६ ता० २८ अगस्त) की दुवे गोरधन, लखमेश्वर तथा वंसीधर के नाम की सनद, जिसमें महारावत हरिसिंह के समय का दान किया हुआ टीकर्या गांव एवं देवलिया के घर, बाग आदि, जो दुवे जगन्नाथ जगनेश्वर के भाग के थे, देने का उल्लेख है । इस सनद में मुद्रा लगी हुई है, जिसमें बादशाह मुहम्मदशाह का नाम है और यह सनद दुए शाह चंद्रभाण होने का उल्लेख है ।

(७) वि० सं० १७८८ माघ सुदि ६ (ई० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) शुक्रवार की देवलिया में लगी हुई तावूतों की वावड़ी की प्रशस्ति, जिसमें महारावत गोपालसिंह और कुंवर सालिमसिंह के राज्यकाल में उसके महा-मन्त्री शाह चंद्रभाण का दस सहस्र रुपये लगाकर उक्त वावड़ी और वार्टिका बनाने का उल्लेख है । इस प्रशस्ति में उपर्युक्त चंद्रभाण के पूर्वजों की नामा-वली के अतिरिक्त उसके पुत्र सुंदर और लक्ष्मीचंद के भी नाम दिये हैं ।

(८) वि० सं० १७९६ ज्येष्ठ वदि ३ (ई० स० १७३९ ता० १४ मई) का दसूंदी (भाट) कान्हा के नाम का वरखेड़ी गांव का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत गोपालसिंह का दसूंदी कान्हा को लाख पसाव में वरखेड़ी गांव

और लखणा की लागत देने का उल्लेख है। इस ताम्रपत्र में लेखक का नाम मेहता गोविंद दिया है।

(६) वि० सं० १७६६ आश्विन वदि ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ सितंबर) की पाडलिया लसाण के नाम की सनद, जिसमें चाकरी में उसको गांव थड़ा देने का उल्लेख है।

(१०) वि० सं० १८०६ माघ वदि ३० (ई० स० १७५० ता० २६ जनवरी) शुक्रवार की व्यास हरिराम के नाम की सनद, जिसमें नीनोर गांव में बीस बीघा भूमि महोदय अमावास्या के अवसर पर गौतमेश्वर में मंदाकिनी के तट पर दान करने का उल्लेख है। इस सनद में उपर्युक्त अमावास्या पर महारावत का दश महादान भी करने का उल्लेख है। यह सनद दोसी रूपजी के दुए होने का उल्लेख है और इसके लेखक का नाम अस्पष्ट है। इसमें महारावत को 'महाराजाधिराज महारावत' लिखा है।

(११) वि० सं० १८१० आश्विन सुदि ७ (ई० स० १७५३ ता० ३ अक्टोबर) का प्रतापगढ़ में केशवरायजी के मंदिर के पास लगा हुआ शिलालेख, जिसमें वहां के निवासी बोहरों पर भविष्य में किसी प्रकार की सख्ती न होने का उल्लेख है। इस शिलालेख में महारावत को 'महाराजरावत' लिखा है।

(१२) वि० सं० १८११ भाद्रपद वदि ८ (ई० स० १७५४ ता० ११ अगस्त) का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत का अपने कुंवर सालिमसिंह के साथ नाथद्वारे जाकर वहां के गोस्वामी गोवर्द्धन की गद्दीनशीनी पर गोवर्द्धनपुर नामक गांव भेंट करने का उल्लेख है।

(१३) वि० सं० १८११ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० स० १७५४ ता० ५ नवंबर) की शाह कपूरचंद पाडलिया के नाम की सनद, जिसमें उसको राज्य-सेवा सौंपने एवं गांव मोहेड़ा तथा गांव देवासला का खिराज हाथ खर्च के लिए दिये जाने तथा आज्ञानुसार राज्य-सेवा करते रहने का उल्लेख है।

महारावत गोपालसिंह वीर, नीतिकुशल और धर्मपरायण शासक था। वह अपने पूर्वजों के समान ही परमार्थ के कार्यों में रुचि रखता था।



महारावत सालिमसिंह

महारावत का व्यक्तित्व

उसका अपने राज्य की उन्नति की तरफ़ पूरा ध्यान था। व्यापार की वृद्धि के लिए वह बाहर से व्यापारियों को बुलवाकर अपने राज्य में आबाद करता और उनपर किसी प्रकार का अत्याचार न हो, इसका सदैव ध्यान रखता था। प्रजा पर भविष्य में अत्याचार न हो, इस दृष्टि से उसने शिलालेख लगवा दिये थे। वह समय की गति के अनुसार आचरण करता था। उसने उस समय के प्रबल राजनीतिज्ञ, महाराष्ट्र के कर्णधार पेशवा बाजीराव की प्रीति सम्पादन की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मालवे में चारों तरफ़ मरहटों का उपद्रव होने पर भी उसका राज्य, जो मालवे से मिला हुआ था, क्षति से बचा रहा। पेशवा उसका बड़ा सम्मान करता और उसकी बात मानता था। आपत्तिकाल में महारावत अपने मित्रों की सहायता करना अपना परम कर्त्तव्य समझता था। उसने डूंगरपुर पर महाराणा और पेशवा के आक्रमणों के समय समझौते का प्रयत्न किया तथा बीकानेर पर जोधपुर के महाराजा की चढ़ाई के समय, जब महाराणा अपनी सेना के साथ जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह की सैन्य-योजना को सफल बनाने के लिए गया, वह भी अपनी सेना के साथ जाकर उसके शामिल हुआ। वह दानी राजा था। उसने कई गांव आदि दान में दिये थे। उसने अपने नाम पर प्रतापगढ़ में गोपालगंज नामक मोहल्ला आबाद किया एवं देवलिया में एक महल भी बनवाया, जिसको गोपाल-महल कहते हैं।

सालिमसिंह

महारावत गोपालसिंह का परलोकवास होने पर उसका कुंवर सालिमसिंह वि० सं० १८१३ (ई० स० १७५६) के लगभग अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ।

राज्य-प्राप्ति

इसके कुछ वर्ष बाद ही वह (सालिमसिंह) दिल्ली गया और तत्कालीन बादशाह शाहआलम से मिला, जिसने उसे चंवर आदि राज-

महारावत का दिल्ली जाकर
बादशाह से सम्मान प्राप्त
करना

चिह्न, ज़री का निशान और नक़ारा रखने का
सम्मान तथा प्रतापगढ़ में टकसाल खोलकर
नवीन सिक्का, जो 'सालिमशाही' कहलाता है,

वनाने का हक़ प्रदान किया। दिल्ली से लौटते हुए महारावत ने उदयपुर
जाकर वहां के तत्कालीन महाराणा राजसिंह (दूसरा) से भेंट की।

उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य मरहटों के आक्रमणों से अक्षुण्ण
रहा था और वह चौथ आदि से मुक्त था। पेशवा के तीन प्रमुख सेनापति

तुकोजी का देवलिया
पर घेरा डालना

सिंधिया, होल्कर और पंवार के बीच मालवे के
परगनों का विभाग होकर प्रतापगढ़ राज्य की
चौथ होल्कर के हिस्से में रखी गई। अतएव चौथ

की वसूली के लिए महारराव होल्कर की तरफ़ से उसके सेनापति तुकोजी
ने ससैन्य प्रतापगढ़ पर चढ़ाई कर वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में
उसे चारों तरफ़ से घेर लिया, किंतु महारावत की कुशलता से होल्कर के
सेनापति को सफलता नहीं मिली। इसी बीच रामपुरा पर अधिकार करने
के लिए महारराव होल्कर और उदयपुर राज्य के बीच संघर्ष छिड़
गया तथा उदयपुर के महाराणा की सेना होल्कर के मुक्ताबले के लिए
अमरदास चीडक (चंडक, माहेश्वरी वैश्य) की अध्यक्षता में जावद में
एकत्रित हुई^१। फलतः उस समय होल्कर की सेना को वहां से अपना
घेरा उठाना पड़ा। दो वर्ष पीछे जब महारराव होल्कर वि० सं० १८२०
(ई० स० १७६३) में उदयपुर की तरफ़ सेना लेकर बढ़ा, तब उसने
प्रतापगढ़ पर घेरा डालकर वहां से कुछ धन वसूल किया^२।

(१) कान्होड़ के रावत जगतसिंह के नाम उदयपुर राज्य के मंत्री सदाराम
देपुरा (माहेश्वरी वैश्य) का वि० सं० १८१८ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १७६२
सा० ३ मार्च) का पत्र।

(२) प्रतापगढ़ राज्य से मरहटों (होल्कर) को खिराज किस वर्ष से मिलना
आरंभ हुआ, इसका विवरण प्रतापगढ़ राज्य की ग्यातों और मरहटा काल के इतिहासों
से नहीं पाया जाता। इसलिए इस विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा

महाराणा जगतसिंह (दूसरा) वि० सं० १८०८ (ई० स० १७५१)
में परलोक सिधारा और उसके पीछे उसका कुंअर प्रतापसिंह (दूसरा)

महाराणा अरिसिंह की
सहायतार्थ महारावत का
सेना भेजना

उदयपुर राज्य का स्वामी हुआ, जिसकी थोड़े समय
बाद ही वि० सं० १८१० (ई० स० १७५४) में मृत्यु
हुई। तदनन्तर उस(प्रतापसिंह)का पुत्र राजसिंह

(दूसरा) दस वर्ष की आयु में महाराणा हुआ, परन्तु वि० सं० १८१७
चैत्र वदि १३ (ई० स० १७६१ ता० ३ अप्रैल) को वह भी निःसंतान
काल-कवलित हो गया। इसपर राज-महिषियों की आज्ञा से उस(राज-
सिंह) का चाचा अरिसिंह, जो जगतसिंह का छोटा पुत्र और प्रतापसिंह
का भाई था, मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। अरिसिंह आतुर और क्रोधी
स्वभाव का था, अतएव गद्दीनशीनी के थोड़े दिनों बाद ही ऐसी घटना घटी,
जिससे सरदारों आदि का उससे मनोमालिन्य हो गया और वहां विद्रोह
की अग्नि प्रज्वलित हो गई। राज्य के अधिकांश बड़े-बड़े सरदारों ने अरि-
सिंह को राज्यव्युत् करने के लिए राजगद्दी के दूसरे दावेदार रत्नसिंह का,
जो राजसिंह की मृत्यु के पीछे उस(राजसिंह)की भाली राणी से उत्पन्न
हुआ था, पक्ष लिया। उन्होंने गुप्त रूप से उस शिशु राजकुमार को उदयपुर
से निकालकर उसके नाना गोगुंदे के स्वामी भाला जसवन्तसिंह के पास
पहुंचाया^१। महाराणा इस घटना से बड़ा नाराज़ हुआ और उसने सरदारों
का दमन करना स्थिर कर संदेह ही संदेह में अपने पितृव्य वागोर के
महाराज नाथसिंह को मरवा डाला और उसके कुछ समय बाद राज्य के सच्चे
हितैषी सलूंवर के रावत जोधसिंह का भी प्राण हरण किया, जिससे कुछ
सरदारों को छोड़कर कई बड़े-बड़े सरदार प्रत्यक्ष रूप से रत्नसिंह के पक्ष
में मिल गये और कुछ तटस्थ रहकर तत्समयक स्थिति को देखने लगे।
फिर वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६५) में विद्रोही सरदारों ने शिशु रत्नसिंह

जा सकता। महारावत गोपालसिंह की पेशवाओं से मित्रता थी, अतएव उसकी मृत्यु के
बाद अर्थात् उक्त समय के आस-पास ही होकर के साथ वहां का खिराज स्थिर हुआ होगा।

(१) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ६४८।

को कुंभलगढ़ ले जाकर उसको मेवाड़ का महाराणा घोषित किया और तटस्थ एवं अरिसिंह के पक्षपाती सरदारों को भी वे लोभ देकर अपनी तरफ़ मिलाने लगे। उधर अरिसिंह ने भी भेद-नीति का आश्रय लेकर कई बड़े-बड़े सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। विद्रोही सरदारों ने नागों (साधुओं) आदि को नौकर रखकर चारों तरफ़ लूट-मार आरम्भ की और मेवाड़ में कई स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया, पर शीघ्र ही अरिसिंह ने अपने सहायक सरदारों एवं वैतनिक सिन्धी सेना की सहायता से किसी क्रूर उनका दखल उठा दिया^१। मेवाड़ के इस गृह-कलह को बढ़ाने में जोधपुर के महाराजा विजयसिंह का भी हाथ था। जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि अरिसिंह की तरफ़ से उक्त महाराजा के पास वकील पहुंचने पर उस (विजयसिंह) ने सेना-व्यय देने के इत्तार करने पर सिंघवी फ़तेचंद और भीमराज को अपनी सेना देकर रवाना किया और उनके साथ नागोर की फ़ौज भी भेज दी, जिसने जाकर भांडेसर (जोधपुर राज्य) में अपना मुक़ाम डाला। वहां कुंभलगढ़ से रत्नसिंह के वकील पहुंचे और उन्होंने कहा कि जितना रुपया अरिसिंह देगा उतना हम लोग दे देंगे, तुम उसकी मदद मत करो। फिर रत्नसिंह की तरफ़ से रुपये मिलने पर वह सेना हटा दी गई और सिंघवी फ़तेचंद तथा भीमराज दोनों जोधपुर चले गये। रत्नसिंह की तरफ़ से खींवर के ठाकुर जोरावरसिंह के पास भी सहायता देने के लिए रक़म भेजी गई, जिससे वह अपने राजपूतों के साथ रत्नसिंह के शामिल हो गया। उसको दो वर्ष तक तो वह तनह्वाह देता रहा और उसके बाद सेरा (सायरा) का परगना देना स्थिर हुआ^२। संयोग से सात वर्ष की आयु होने पर शीतला रोग से रत्नसिंह का देहांत हो गया^३। उस समय उसके पक्षपाती सरदारों को विश्वास दिलाने

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १२२२। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६२१।

(२) जोधपुर राज्य की ख्यात, जि० ३, पृ० ४७।

(३) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ६२४।

पर वेदला का राव रामचंद्र, भींडर का महाराज मुहकमसिंह (शक्तावत) आदि सरदार और अमरदास देपुरा महाराणा के पास उपस्थित हो गये^१; किंतु इससे बचे हुए रत्नसिंह के पक्षपाती सरदारों का साहस कम न हुआ और उन्होंने शिशु रत्नसिंह के स्थान में एक कृत्रिम लड़के को खड़ा कर उपद्रव ज्यों का त्यों जारी रखा। उन दिनों कोटा से भाला जालिमसिंह भी जाकर महाराणा के शामिल हो गया। उस समय अरिसिंह का विरोधियों की अपेक्षा बल बढ़ गया था, इसलिए देवगढ़ के रावत जसवंतसिंह और उसके पुत्र राघवदेव ने माधवराव सिंधिया को उदयपुर पर अधिकार हो जाने पर सवा करोड़ रुपया देने का इकरार कर अपना सहायक बना लिया। उधर महाराणा ने माधवराव के प्रतिद्वंद्वी वेहरजी ताकपीर और पंडित राघवराम के द्वारा पेशवा से बातचीत कर उन दोनों को अपनी तरफ़ मिला विपक्षियों का मूलोच्छेद हो जाने पर बीस लाख रुपया देना तय किया^२। महाराणा अरिसिंह ने सलूंवर के रावत पहाड़सिंह, देलवाड़ा के राज भाला राघवदेव और शाहपुरा के राजा उम्मेदसिंह को माधवराव सिंधिया के पास भेज रत्नसिंह का पक्ष छोड़ देने को कहलाया^३; किन्तु लोभी माधवराव ने रत्नसिंह का पक्ष छोड़ना स्वीकार न

(१) महाराणा अरिसिंह का कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० १८२५ श्रावण वदि ८ (ई० स० १७६८ ता० ७ जुलाई) गुरुवार का ख़ास रुक्का । कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम वेदला के राव रामचन्द्र, सलूंवर के रावत पहाड़सिंह, देलवाड़ा के राज भाला राघवदेव और भींडर के महाराज मुहकमसिंह का वि० सं० १८२५ श्रावण वदि ८ (ई० स० १७६८ ता० ७ जुलाई) का पत्र । अमरदास देपुरा का कानोड़ के रावत जगतसिंह के नाम का वि० सं० १८२५ श्रावण वदि ६ (ई० स० १७६८ ता० ८ जुलाई) का पत्र ।

(२) देखो मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ६५१। यह इकरारनामा वि० सं० १८२५ भाद्रपद सुदि १४ (ई० स० १७६८ ता० २५ सितम्बर) को हुआ था ।

(३) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १५५४ । सलूंवर के रावत पहाड़सिंह, देलवाड़ा के राज राघवदेव और शाहपुरा के राजा उम्मेदसिंह का महाराणा अरिसिंह के

किया। इसके बाद अरिसिंह ने कुछ लोगों के बहकाने पर भाला राघवदेव को भी रत्नसिंह से मिला हुआ होने के संदेह में मरवा डाला। इससे जो सरदार महाराणा के पास उपस्थित हो गये थे, वे भी पीछा विपत्तियों से जा मिले। इस अवसर पर रघुजी पायगिया और दौला मियां भी, अपनी-अपनी सेनाओं के साथ अरिसिंह से जा मिले और जब महाराणा ने उनके बल पर विरोधियों पर अधिक दबाव डाला, तब माधवराव ने भी उदयपुर की तरफ प्रयाण करना निश्चय कर लिया। इसपर अरिसिंह ने माधवराव के मेवाड़ में पहुंचने के पूर्व ही अपनी सेना उज्जैन भेजकर वहीं उस (माधवराव) से युद्ध करने की योजना बनाई और वि० सं० १८२५ (ई० स० १७६८) के शीतकाल में अपनी बीस हजार सेना उज्जैन रवाना की। पौष सुदि ६ (ई० स० १७६६ ता० १३ जनवरी) को क्षिप्रा के तट पर माधवराव की सेना से महाराणा की सेना का मुक्काबला हुआ। तीन दिन तक बराबर युद्ध होता रहा। मेवाड़ी सेना ने वीरतापूर्वक युद्ध कर शत्रु सैन्य को हटा दिया और विजयोन्मत्त हो नगर में लूटमार आरंभ की। इतने में ही जयपुर से देवगढ़ के रावत जसवंतसिंह की भेजी हुई पंद्रह हजार नागों की सेना ने जाकर अरिसिंह की सेना पर धावा बोल दिया, जिससे उसमें भगदड़ मच गई। फिर भी महाराणा के सरदारों, रघुजी पायगिया तथा दौला मियां ने शत्रु पक्ष का वीरता से मुक्काबला किया। अंत में सलूंवर के रावत पहाड़सिंह, शाहपुरा के राजा उम्मेदसिंह, वनेड़ा के राजा रायसिंह, रघुजी पायगिया, दौला मियां आदि कई सरदारों के मारे जाने और भाला जालिमसिंह, रावत मानसिंह तथा मेहता अग्रचंद के घायल होकर युद्धक्षेत्र में गिर जाने पर अरिसिंह की सेना भाग गई। शत्रुओं ने भाला जालिमसिंह, रावत मानसिंह और

नाम का वि० सं० १८२५ आश्विन वदि १४, (ई० स० १७६८ ता० ६ अक्टोबर) का प्रार्थनापत्र।

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १५५५। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६५१।

मेहता अग्रचंद्र को कैद कर दिया^१। तोपों और बंदूकों के सामने खड़े होकर तलवारों और धरछियों से वीरता दिखलाने का मेवाड़ी राजपूतों का यह अन्तिम युद्ध था। इसके बाद पारस्परिक संघर्ष से उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वे फिर न संभल सके।

उज्जैन के युद्ध में माधवराव ने महाराणा की सेना को परास्त कर वहीं से अपने लश्कर को उदयपुर की तरफ मोड़ा और शीघ्र ही उदयपुर को घेर लिया। उज्जैन के युद्ध में महाराणा की बहुत सी सेना का नाश हो गया था, फिर भी उसके पास सेना की कमी नहीं थी। वैतनिक सिंधी सेना के अतिरिक्त उसके पास बहुत से लड़ मरनेवाले स्वामिभक्त राजपूत विद्यमान थे, जिनके बल पर उसने उदयपुर नगर की चारों ओर से मोर्चाबंदी कर उसकी रक्षा का यथेष्ट प्रबंध कर लिया। छः महीने के लगभग महाराणा के सरदारों ने सिंधिया का मुक्कावला किया। जब उदयपुर पर अधिकार करने में सिंधिया को सफलता न मिली, तब उसने साढ़े तिरसठ लाख रुपये सैन्य-व्यय के महाराणा से लेना तय कर उदयपुर से घेरा उठाना और रत्नसिंह का साथ छोड़ना स्वीकार किया। फलतः जेवर, नकद आदि मिलाकर साढ़े तैंतीस लाख रुपये तो उस समय पूरे कर दिये गये और बाकी रकम के एवज में जावद, जीरण, नीमच, मोरवण आदि मेवाड़ के जिले, जयतक रुपये अदा न हों तबतक के लिए, सिंधिया को सौंप दिये गये^२।

इसके बाद कुछ और सरदार विद्रोहियों का साथ छोड़कर महाराणा से जा मिले, जिससे कृत्रिम रत्नसिंह की ताकत घट गई; फिर भी उसके पक्षपातियों ने उपद्रव में कमी न आने दी और वि० सं० १८२६ (ई० स० १७७०) में टोपला गांव के पास तथा वि० सं० १८२८ (ई० स० १७७१)

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १२५५-८। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ६२२-३।

(२) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १२६०-६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६२४-७।

में गंगराड़ में उनका महाराणा की सेना से मुक्ताबला हुआ, जिसमें उनकी हार हुई और उनका बल टूट गया^१। तदनन्तर महाराणा ने विद्रोहियों के अधिकृत किलों पर अधिकार जमाना शुरू किया और चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया^२।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में लिखा है कि मेवाड़ के इस गृह-कलह के समय महाराणा अरिसिंह की तरफ से आदेश पाते ही महारावत सालिमसिंह ने अपनी सेना भेज दी थी, जिसने युद्ध के प्रत्येक अवसर पर शत्रु-सैन्य से वीरतापूर्वक युद्ध किया था; किंतु इसका मेवाड़ के इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहास के संरक्षण का अनुराग न होने से उस समय का क्रम-बद्ध वृत्तान्त मिलना असंभव है। इसलिए प्रतापगढ़ के राजपूतों ने इस अवसर पर कब-कब और कहां-कहां युद्ध में भाग लिया इसपर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा सकता। फिर भी यह कहा जा सकता है कि महारावत सालिमसिंह के पास उस समय मेवाड़ राज्य की तरफ से दिया हुआ धरियावद का परगना विद्यमान था, जिसके कारण युद्ध के अवसर पर उसका महाराणा के पास अपनी सेना भेजना असंभव नहीं है। इसकी पुष्टि महाराणा अरिसिंह के वि० सं० १८२८ फाल्गुन वदि ६ (ई० स० १७७२ ता० २७ फरवरी) गुरुवार के महारावत सालिमसिंह के नाम के परवाने से भी होती है, जिसमें बादशाह फ़र्रुखसियर-द्वारा महारावत पृथ्वी-सिंह को 'रावत राव' की उपाधि मिलने का उल्लेख है^३। उपर्युक्त परवाने से स्पष्ट है कि मेवाड़ के इस गृहकलह में महारावत सालिमसिंह, महाराणा अरिसिंह का सहायक था, इसी कारण से उसकी दी हुई सहायता के पुरस्कार में उक्त महाराणा ने उसके नाम यह परवाना भेज, महारावत का

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १५६६। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ६५८।

(२) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १५७०-७१। मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ६५६।

(३) देखो ऊपर पृ० २२४-५, टिप्पण संख्या १।

सम्मान बढ़ाया। “वीरविनोद” के लेखक महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास ने इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने बृहद् ग्रंथ में प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रसङ्ग में निम्नलिखित उल्लेख किया है—

“जब माधवराव सिंधिया ने उदयपुर को विक्रमी १८२५ (हि० स० ११८२ = ई० स० १७६८) में जा घेरा, तब रावत सालिमसिंह भी अपनी सेना लेकर महाराणा अरिसिंह के पास गये और घेरा उठने के बाद तक मददगार रहे। इस खैरखाही के एवज में इनको महाराणा अरिसिंह ने धरियावद का परगना जागीर में दे दिया और ‘रावत राव’ का खिताब भी, जो बादशाह ने दिया था, इनके नाम पर बहाल रक्खा।”

उपर्युक्त कथन से प्रत्यक्ष है कि मेवाड़ के गृहकलह के समय प्रतापगढ़ राज्य से केवल सेना ही नहीं, प्रत्युत् महारावत सालिमसिंह भी स्वयं उदयपुर के सिंधिया-द्वारा घेरे जाने पर महाराणा अरिसिंह की सहायतार्थ गया था और युद्ध के अवसर पर उसने वीरता प्रदर्शित की थी। संभव है कि उस समय के भी इतिहास के साधन पूरे न मिलने से “भीमविलास” के लेखक कवि कृष्ण अहाड़ा और कर्नल टॉड ने महारावत की सहायता का उल्लेख छोड़ दिया हो।

महारावत सालिमसिंह का वि० सं० १८३१ कार्तिक वदि ७ (ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर) को देहांत होना पाया जाता है।

महारावत का देहांत और उसकी राणिया आदि

उसके ग्यारह राणियां थीं^२, जिनमें से एक कुन्दनकुंवरी आमभरा^३ के राव लालसिंह की पुत्री और जसरूपसिंह की पौत्री थी। उक्त राणी के

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग; पृ० १०६४। प्रतापगढ़ राज्य की कुछ ख्यातों में भी धरियावद का परगना मेवाड़ के गृहकलह के समय महारावत सालिमसिंह-द्वारा महाराणा अरिसिंह को सहायता देने के एवज में मिलने का उल्लेख है, परन्तु हमारे अनुमान से धरियावद का परगना महारावत गोपालसिंह के समय मिला था। इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिए देखो ऊपर पृ० २२४, टिप्पण संख्या १ तथा पृ० २५२।

(२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ८-९।

(३) आमभरा, दक्षिणी मालवे में गुजरात की सीमा से मिला हुआ वर्तमान

उदर से कुंवर सामन्तसिंह का जन्म हुआ । महारावत के अन्य कुंवर रोड़सिंह, विजयसिंह, गजसिंह, महताबसिंह, लालसिंह तथा मयाकुंवरी और रूपकुंवरी नामक दो कन्याएं हुई थीं। उनमें से रोड़सिंह से महताबसिंह तक के चारों कुंवर बाल्य-काल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए और सामन्तसिंह तथा लालसिंह^१ उस(सालिमसिंह)की मृत्यु के पीछे विद्यमान थे ।

उस(सालिमसिंह)के समय के निम्नलिखित शिलालेख और ताम्रपत्र मिले हैं—

(१) वि० सं० १८१३ माघ सुदि १ (ई० स० १७५७ ता० २० जनवरी) की देवद और कराड़्या गांव की कुंवर दौलतसिंह (कल्याणपुरा) के नाम की सनद, जिसमें सेवा के एवज देवद और कराड़्या गांव प्रदान करने और बदले में एक हजार रुपये वार्षिक खिराज जमा कराने का उल्लेख है ।

(२) वि० सं० १८१४ भाद्रपद सुदि १२ (ई० स० १७५७ ता० २६ अगस्त) का व्यास हरिराम, खीमराम, नाथूराम और भवानीशंकर के नाम का ३० बीघा ज़मीन का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत का उपर्युक्त व्यक्तियों को नीनोर गांव में ज़मीन देने का उल्लेख है ।

(३) वि० सं० १८१५ श्रावण सुदि १ (ई० स० १७५८ ता० ४ अगस्त) की शाह सुंदर के नाम की सनद, जिसमें उसकी जागीर और मान-

काबुआ राज्य के निकट एक राठोड़ राज्य था, जहां के स्वामी जोधपुर राज्य के स्वामी मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम के वंशधर थे । मुगल साम्राज्य की अवनति के समय आम-फरा मरहटा-युद्ध का केन्द्र रहा और वहीं पर मालवा की रक्षार्थ मरहटी सेना से युद्ध करते हुए मालवा के सूबेदार राजा गिरधरबहादुर और दयाबहादुर मारे गये थे । तदनन्तर उक्त राज्य सिंधिया का खिराजगुज़ार रहा और वि० सं० १६१४ (ई० स० १८२७) के सिपाही विद्रोह में वहां का स्वामी ब्रह्मावरसिंह बागी दल से मिल गया । इसपर अंग्रेज़ सरकार ने उसको गिरफ्तार कर हंदौर में फांसी का दंड दिया और उक्त राज्य जन्त कर सिंधिया (ग्वालियर राज्य) को दे दिया ।

(१) लालसिंह के वंशज अरणोद के स्वामी हैं ।

मर्यादा बनी रहने का उल्लेख है ।

(४) वि० सं० १८१६ भाद्रपद वदि १४ (ई० स० १७६२ ता० १८ अगस्त) बुधवार की गांव अवेली की पाडलिया शाह कपूरचंद के नाम की सनद, जिसमें अवेली गांव राजकीय सेवा के एवज में प्रदान किये जाने का उल्लेख है ।

(५) वि० सं० १८१६ आश्विन सुदि १० (ई० स० १७६२ ता० २७ सितंबर) का नीनोर गांव के शिव-मंदिर का शिलालेख, जिसमें सात हजार पैंतीस रुपये के व्यय से वीसलनगरा नागर ब्राह्मण सीमज तथा हरनाथ-द्वारा व्यापार में लाभ होने पर महारावत सालिमसिंह के समय वह मंदिर बनवाये जाने का उल्लेख है ।

अपने पूर्वजों के समान ही महारावत सालिमसिंह उदार विचार का राजा था । उसने शाही दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया और प्रतापगढ़

राज्य में एकसाल खोलने की इजाजत प्राप्त की ।

महारावत का व्यक्तित्व

फलतः महारावत के कुंवर सामंतसिंह के राज्य-

काल में बादशाह शाहआलम (द्वितीय) के समय उक्त बादशाह के सन् जुलूस १५ में नवीन सिक्का ढलकर जारी हुआ, जो "सालिमशाही" नाम से प्रसिद्ध है । इस नवीन सिक्के के निर्माण से पाया जाता है कि प्रतापगढ़ राज्य उस समय मालवे के राज्यों में समृद्ध था और छोटा होने पर भी वहां का सिक्का आस-पास के बहुधा सब राज्यों—डूंगरपुर, वांसवाड़ा, उदयपुर, सीतामऊ, रतलाम, जावरा, ग्वालियर के मंदसोर परगने और टोंक के नौवाड़े परगने—में चलता था । यही नहीं अंग्रेज सरकार ने भी संधि के समय आवश्यकता पड़ने पर प्रतापगढ़ की एकसाल से सालिमशाही रुपये ढलवाकर दिये जाने की विशेष शर्त रखी । इससे उक्त राज्य का महत्त्व प्रकट होता है । महारावत के समय प्रतापगढ़ राज्य पर भी होल्कर का आक्रमण हुआ, परंतु वह अच्युत वना रहा । यह उक्त रावत की नीति-कुशलता का सूचक है । मालवा में उसका राज्य सिंधिया के इलाके से मिला हुआ होने पर भी उसने माधवराव का कुछ भी भय

न कर मेवाड़ के गृह-कलह के समय स्वयं उदयपुर जाकर महाराणा अरिसिंह को सैनिक सहायता दी। यह भी उसके लिए गौरवप्रद बात है। वह नीति-कुशल, दानी और शांतिप्रिय शासक था। उसके समय राज्य के वैभव में अच्छी वृद्धि हुई। पड़ोस के इंदौर आदि राज्यों के साथ उसका संबंध अच्छा रहा। वि० सं० १८१८ और १८२० (ई० स० १७६१ और १७६३) में वहां होल्कर की चढाइयां हुईं, पर अंत में सम्मानपूर्वक समझौता हो जाने से उसके राज्य की अधिक क्षति नहीं हुई। वह होल्कर के यहां किसी वैवाहिक कार्य के अवसर पर वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में इंदौर भी गया था; परंतु इसका वर्णन इंदौर राज्य के इतिहास में नहीं मिलता है, जिसका कारण यही हो सकता है कि वहां के इतिहास लेखकों ने ऐसी घटनाओं को उपयुक्त न समझ छोड़ दिया हो। उसने प्रतापगढ़ क़स्बे में अपने नाम से सालिमपुरा नामक मोहल्ला आबाद कर जनता के साथ किसी प्रकार की अनुचित छेड़-छाड़ न की जावे, इस दृष्टि से वहां पर पाषाण लेख खुदवाकर लगा दिया, जो प्रतापगढ़ के सूरजपोल दरवाजे के बाहर एक चबूतरे पर विद्यमान है। अपने नाम से उसने सालिमगढ़ गांव बसाया, जो वहां के प्रथम वर्ग के सरदारों का एक ठिकाना है। उसने देवलिया के दुर्ग का जीर्णोद्धार कराने के अतिरिक्त वहां एक महल और प्रतापगढ़ क़स्बे का प्राकार भी बनवाया एवं द्वारिका में अपनी तरफ से सदाव्रत जारी किया, जो उसकी धार्मिक रुचि और कृष्ण-भक्ति का परिचायक है।

सामन्तसिंह

महारावत सामन्तसिंह का जन्म वि० सं० १८२४ आश्विन सुदि १३ (ई० स० १७६७ ता० ५ अक्टोबर) को हुआ था और वह वि० सं० १८३१ कार्तिक वदि ७ (ई० स० १७७४ ता० २६ अक्टोबर) को सात वर्ष की आयु में प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ। उसकी बाल्यावस्था के कारण राजमाता कुंदनकुंवरी की



महारावत सामन्तसिंह

तत्त्वावधानता में शासन-कार्य शाह कपूर पाडलिया, महारावत का मामा सरदारसिंह, राघव बरूशी और शाह गुमान चलाते थे ।

यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि उन दिनों प्रतापगढ़ के स्वामी के पास उदयपुर राज्य की तरफ से धरियावद की जागीर थी, जिसके धरियावद का परगना महा- एवज़ में वहां से उदयपुर में सेवा के लिए सेना राणा-द्वारा खालसा भेजनी पड़ती थी । सामन्तसिंह की वाल्यावस्था के होना कारण राजमाता ने उदयपुर में सेना भेजना बंद कर दिया और महारावत ने वय प्राप्त होने पर भी सेना भेजना जारी नहीं किया । उन दिनों उदयपुर राज्य की स्थिति भी अत्यंत कमज़ोर हो गई थी । वि० सं० १८२६ (ई० स० १७७३) में महाराणा अरिसिंह का देहांत होने पर उसके दोनों पुत्रों हम्मीरसिंह (दूसरा) और भीमसिंह के क्रमशः बालक अवस्था में महाराणा होने के कारण राज्यरक्षा के लिए राजपूत-सैनिकों की पूरी आवश्यकता रहती थी । ऐसी स्थिति में महारावत का अपनी सेना उदयपुर में सेवा के लिए न भेजना महाराणा और उसके मुसाहवों आदि को अखरने लगा । वि० सं० १८५० (ई० स० १७९४) में उदयपुर से महाराणा भीमसिंह अपना विवाह करने के लिए दूसरी बार ईंडर गया । वहां से पीछा लौटते समय उक्त महाराणा ने डूंगरपुर पर घेरा डाल दिया और फिर वहां से वह वांसवाड़ा की तरफ खाना हुआ । जब माही नदी के तट पर महाराणा की सेना का मुकाम हुआ तो वांसवाड़ा के स्वामी महारावल विजयसिंह ने गढ़ी के ठाकुर जोधसिंह की मरफत तीन लाख रुपये दंड के भेजकर महाराणा से सुलह कर ली । उसी स्थान पर महारावत सामन्तसिंह ने भी महाराणा की सेवा में अपने वकील के साथ तीन लाख रुपये भेज, धरियावद की जागीर छोड़ देने का इकरार लिख भेजा । इसपर महाराणा ने वहां से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया और धरियावद की जागीर महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) के वंशधर राणावत रघुनाथसिंह को प्रदान की, जिसके वंशजों का अब भी वहां अधिकार है ।

(१) प्रतापगढ़ राज्य की ख्यातों में महारावत सामन्तसिंह-द्वारा धरियावद की

पेशवा बाजीराव बल्लाल के समय से ही मालवा के इलाके पर मरहटो का आधिपत्य हो गया था। फिर बालाजी बाजीराव को उक्त सूबे पर अधिकार रखने की बादशाह की तरफ से सनद भी मिल गई, जिसपर उसने मालवा अपने सरदारों में बांट दिया; परंतु इसके पूर्व ही पेशवा तथा उसके सेनापतियों ने आतंक जमाकर मालवा तथा राजपूताने के राजाओं से चौथ की वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया था। प्रतापगढ़ राज्य से चौथ की वसूली का स्वत्व होल्कर का रहा, किन्तु पेशवाओं के साथ महारावत गोपालसिंह की मित्रता होने से उसपर चौथ की बाबत अधिक दबाव न पड़ा। विभिन्न ख्यातों के लेखों से पाया जाता है कि देव-लिया प्रतापगढ़ राज्य की ओर से पहले शाही दरबार में पंद्रह हजार रुपये वार्षिक खिराज के दिये जाते थे। बादशाहत की निर्बलता देख महारावत ने वह होल्कर को देना स्वीकार कर लिया था; किंतु होल्कर ने केवल पंद्रह हजार रुपये वार्षिक खिराज पर ही संतोष न किया और संभवतः महारावत सामन्तसिंह के समय में दबाव डाल वार्षिक ७२७२० रुपये सालिमशाही लेना स्थिर किया^१, जो अंग्रेज सरकार से संधि होने के पूर्व तक वहां से होल्कर को मिलते रहे।

जागीर छोड़ देने का उल्लेख तो इसी प्रकार मिलता है, परन्तु उनमें महाराणा को तीन लाख रुपये देने का वर्णन नहीं है। महाराणा भीमसिंह के समय अहाड़ा कवि किशन ने 'भीमविलास'-नामक काव्य की रचना की। उसमें इस घटना का निम्नलिखित वर्णन है—

...ऊपरि मुकाम तट महिय आय, घर बंसवार आतंक पाय ।
 रावल विजेस करि मंत्र साम, कर जोघ भेज त्रय लक्ख दाम ।
 ताहीं मुकाम सामंत राव, भेजिय वकील महरान पाव ।
 तिन सीस दंड मनमान थप्प, त्रय लक्ख दाम इक ठाम अप्प ।
 छंडाय धरावद ग्राम लीन, रघुनाथ राव कहुं पटे दीन...॥२६॥

पृ० ११६ ।

(१) के० डी० अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़, पृ० १६६ । मालूम की

निरन्तर उपद्रवों के कारण उस समय प्रतापगढ़ राज्य की स्थिति संतोषप्रद न थी और महारावत इतना अधिक वार्षिक खिराज होल्कर सरकार को देने में सर्वथा असमर्थ था। खिराज होल्कर सरकार को खिराज की रकम न देने से कुंवर दीपसिंह का ओल में जाना बहुधा चढ़ भी जाया करता था, जिसकी वसूली के लिए होल्कर को अपनी सेना भेजनी पड़ती थी, जिससे राज्य को बहुत हानि होती थी और अंत में ज़ेवर, सामान, घोड़े आदि देकर किसी तरह होल्कर की सेना को विदा किया जाता था। एक बार होल्कर की सेना के खिराज की वसूली के लिए प्रतापगढ़ राज्य में जाने पर अर्थ-संकट होने से महारावत की तरफ से खिराज न दिया जा सका और कई दिन तक होल्कर की सेना प्रतापगढ़ को घेरे रही। अंत में जब तक खिराज की रकम वेवाक न हो, तब तक के लिए महारावत ने अपने तेरह वर्ष के कुंवर दीपसिंह को होल्कर की ओलो में देना तय किया। फिर होल्कर की सेना दीपसिंह को लेकर इंदौर पहुंची। दो-तीन वर्ष तक उक्त कुंवर होल्कर सरकार के यहां ओल में रहा। फिर वहां से विदा मिलने पर वह प्रतापगढ़ लौटा^१।

होल्कर सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज का संबंध हो जाने से सिंधिया सरकार का प्रतापगढ़ राज्य से खिराज आदि का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा था, परंतु उन दिनों भारत में 'जिस-की लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी और न्याय तथा अन्याय का विचार न कर

सिंधिया की सेना का प्रताप-
गढ़ को घेरना

“रिपोर्ट ऑन दि प्रॉक्सि ऑव् मालवा एंड एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स” (पृ० २२५) में होल्कर का ७५००० रुपये सालिमशाही वार्षिक खिराज लेने का उल्लेख है। “वीरविनोद” (द्वितीय भाग, पृ० १०६५) में महाराराव होल्कर का महारावत पर दवाव डाल खिराज की रकम ७२००० रुपये स्थिर करने का ही उल्लेख है। महाराराव की मृत्यु वि० सं० १८२३ (ई० स० १७६६) में हुई। उस समय प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी महारावत सालिमसिंह था। ऐसी अवस्था में महारावत सालिमसिंह के समय ही उपर्युक्त रकम स्थिर होना मानना पड़ेगा।

(१) वीरविनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६५।

सबल निर्वल को दबाने में कुछ भी संकोच नहीं करता था। ऐसे समय में सिंधिया का एक सेनापति जग्गु वापू सेना लेकर प्रतापगढ़ पर चढ़ गया और उसने वहां घेरा डाल दिया। इस अवसर पर कुंवर दीपसिंह ने सिंधिया की सेना का वीरतापूर्वक मुक्तावला किया, जिससे सिंधिया की सेना का एक अफसर मारा गया। बीस दिन तक सिंधिया की सेना का वहां घेरा रहा और जब जग्गु वापू को प्रतापगढ़ राज्य से कुछ भी रुपया मिलने की आशा न दीख पड़ी तो वह वहां से लौट गया।

मरहटे अफसरों की लूट-खसोट और आर्थिक शोषण की नीति से प्रतापगढ़ राज्य का भी अधिकतर भाग ऊजड़ हो गया था। धनी-मानी व्यक्तियों पर तो और भी अधिक विपत्ति थी तथा उनका इस अराजकता के युग में कोई रक्षक न था। प्रतापगढ़ राज्य में भी चारों तरफ दरिद्रता का निवास हो गया और आय के साधन बंद हो जाने से राज्य सम्बन्धी साधारण व्यय का चलना भी कठिन हो गया तथा खिराज की रकम भी बराबर न पहुंचने लगी। परिणाम स्वरूप होल्कर सरकार-द्वारा प्रतापगढ़ राज्य में भी लूट-मार का बाजार गर्म रहा। इन कारणों से राजपूत राज्यों और मरहटे सरदारों के बीच पूरी शत्रुता उत्पन्न हो गई। मरहटे सरदारों की अनुदार नीति से वीरवर शिवाजी का संस्थापित मरहटा साम्राज्य, जिसकी उन्नति बुद्धिमान पेशवाओं-द्वारा हुई थी, छिन्न-भिन्न होने लगा और उनमें परस्पर फूट उत्पन्न हो गई। पेशवा के सैनिक अफसरों में गायकवाड़, सिंधिया और होल्कर बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अवसर पाते ही पेशवा की अधीनता से मुख मोड़कर अपनी जागीरों को स्वतंत्र राज्य का रूप दे दिया। उनकी देखा-देखी पेशवा के अन्य सैनिक अफसर परमार (धारवाला) आदि भी स्वतंत्र हो गये और उन्होंने जिस तरह हो सके रुपया वसूल करने की नीति से मध्यभारत और राजपूताने के राज्यों को सैनिक अड्डा बना लिया तथा वे वहां से अत्याचारपूर्वक रुपये वसूल करने

लगे। उनमें से सिंधिया का प्रभाव तो उस समय बहुत बढ़ा हुआ था और दिल्ली के नाम मात्र के बादशाह शाह आलम का जीवन भी सिंधिया के दिये हुए धन पर ही अवलंबित था। वह समय केवल राजपूताना में ही नहीं बरन् भारतवर्ष भर में पूर्ण अशांति का था और चारों तरफ लूट-खसोट और अत्याचार का बाजार गर्म था। राजपूताना के राज्यों में अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पूर्व होल्कर और सिंधिया का बड़ा जोर था और समय-समय पर उनके आक्रमणों से राजपूताना के तीन प्रधान राज्यों उदयपुर, जयपुर और जोधपुर की बड़ी दुर्दशा हुई थी।

उन दिनों शक्तिशाली अंग्रेज़ जाति के पैर भारत में अच्छी तरह जम गये थे। उनकी सैनिक शक्ति और नीति-युक्त शासन-प्रणाली से मरहटे अफ़सर भी उनको युद्ध में अजेय मानकर अपने बचाव का मार्ग ढूँढ़ने लगे। अंग्रेज़ सरकार से जसवंतराव होल्कर का युद्ध छिड़ जाने पर उसको निरंतर हार खानी पड़ी। अंत में जसवंतराव होल्कर का घमंड नष्ट करने का अंग्रेज़ सरकार ने बड़ा संकल्प कर लिया। महारावत सामन्तसिंह ने भी अपने दुःखों से प्राण पाने का यह उपयुक्त अवसर समझा, क्योंकि होल्कर आदि के जुल्म से उसका राज्य भी जर्जर हो गया था। उसने अंग्रेज़ सरकार के संरक्षण में जाने का विचार कर वि० सं० १८६१ (ई० स० १८०४) में संधि का प्रस्ताव किया। गुजरात और मालवा के अंग्रेज़ सेनापति कर्नल मरे-द्वारा संधि की बातचीत तय होकर ता० २५ नवंबर (मार्गशीर्ष वदि ८) को दोनों के बीच आठ शर्तों का निम्नलिखित संधिपत्र लिखा गया—

शर्त पहली—जसवंतराव होल्कर की अधीनता तथा बड़प्पन को राजा सब प्रकार से अस्वीकार करते हैं।

शर्त दूसरी—राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे जितना खिराज पहले जसवंतराव होल्कर को देते थे, उतना अंग्रेज़ सरकार को दिया करेंगे और यह खिराज उस समय दिया जायगा, जब सम्माननीय गवर्नर जेनरल इसके वसूल किये जाने की आज्ञा देना उचित समझेंगे।

शर्त तीसरी—राजा अंग्रेज़ सरकार के शत्रुओं को अपना शत्रु समझेंगे और वे प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्हें अपने इलाक़े में रहने न देंगे ।

शर्त चौथी—सारी अंग्रेज़ी सेना और उसके लिए प्रत्येक प्रकार का सामान बिना रोक-टोक तथा महसूल के राजा के इलाक़े में होकर गुज़रेगा। इसके अतिरिक्त राजा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे हर प्रकार से उसकी सहायता और रक्षा करेंगे ।

शर्त पांचवीं—राजा के इलाक़े से मल्हारगढ़ में पांच हज़ार मन चावल, दो हज़ार मन चना और तीन हज़ार मन ज्वार दी जायगी, जिसे सौंप देने पर अंग्रेज़ सरकार उचित मूल्य देगी, जिसका आधा तो चौदह और बाकी अट्ठाइस दिनों में चुका दिया जायगा ।

शर्त छठी—इस विश्वास से कि राजा ऊपर लिखी हुई शर्तों पर पूरी तरह से अमल करेंगे अंग्रेज़ी सेना का अफ़सर कर्नल मरे प्रतिज्ञा करता है कि न तो वह स्वयं कोई सहायता रुपये, मवेशी या गल्ले की लेगा और न अंग्रेज़ी सेना के जत्थों को, जो उनके अधीन होंगे, पेसा करने देगा ।

शर्त सातवीं—राजा इत्तरार करते हैं कि अंग्रेज़ी सेना में सिके की आवश्यकता होने पर, उसके अफ़सर जितनी चांदी भेजेंगे, उसका सिक्का प्रतापगढ़ की टकसाल से तैयार करके वे भेज देंगे । उसका उचित व्यय अंग्रेज़ सरकार देगी ।

शर्त आठवीं—यह संधिपत्र शीघ्र मान्यवर गवर्नर-जेनरल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जायगा, किन्तु उपर्युक्त शर्तों का पालन हस्ताक्षर होकर आने तक अंग्रेज़ सरकार के अफ़सर और राजा को उचित और आवश्यक होगा ।

उपर्युक्त संधिपत्र चंबल नदी के किनारे अंग्रेज़ सरकार की सेना के अफ़सर कर्नल मरे के कैम्प में तय होकर लिखा गया, परंतु तत्कालीन गवर्नर-जेनरल लॉर्ड कार्नवालिस की देशी राज्यों के प्रति उदासीनता की नीति के कारण स्वीकृत नहीं हुआ और चौदह वर्ष तक प्रतापगढ़ राज्य

फिर दुःख-सागर में गोते खाता रहा ।

वि० सं० १८६५ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० सं० १८०८ ता० ८ नवंबर) को महारावत के कुंवर दीपसिंह की भिणायवाली कुंवराणी के उदर से भंवर केसरीसिंह^१ और मार्गशीर्ष सुदि ६ (ता० २६ नवंबर) शनिवार को फ़तहगढ़ (किशनगढ़ राज्य)-वाली कुंवराणी के उदर से भंवर दलपतसिंह^२ का जन्म हुआ । एक ही महीने में भिन्न-भिन्न कुंवराणियों के उदर से दो पौत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर महारावत के हर्ष का पारावार न रहा और इस अवसर पर उसने अपने राज्य की स्थिति के अनुसार बहुत कुछ उदारता प्रकट की ।

भंवर केसरीसिंह और दल-
पतसिंह का जन्म

लार्ड हेस्टिंग्स के समय अंग्रेज़ सरकार की नीति में परिवर्तन

(१) कविराजा बांकीदास, ऐतिहासिक बातें; संख्या २५७३ ।

(२) वही, संख्या २५७४ ।

प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त बड़वे की ख्यात में भंवर केसरीसिंह का कोठारिया (मेवाड़) के सरदार रावत सामन्तसिंह की पुत्री और संग्रामसिंह की पौत्री रत्नकुंवरी से उत्पन्न होना बतलाया है तथा ऐसा ही प्रतापगढ़ राज्य से आई हुई प्राचीन ख्यात में भी लिखा है, परन्तु कोठारिया के सरदारों में सामन्तसिंह नामक कोई व्यक्ति नहीं हुआ । संग्रामसिंह कोठारिया का रावत अवश्य हुआ था, जो महारावत सामन्तसिंह का सम-कालीन था । संभव है सामन्तसिंह उसका कुंवर हो, पर हमारे संग्रह में कोठारिया के स्वामियों की जो वंशावली है, उसमें संग्रामसिंह के पीछे मुहकमसिंह का नाम दिया है, जो उस (संग्रामसिंह) की मृत्यु के बाद वहा का रावत हुआ था । उपर्युक्त ख्यातों में कुंवर दीपसिंह का भिणाय (अजमेर) के इस्तमरारदार राजा उदयभाण की पुत्री और दलेल-सिंह की पौत्री राजकुंवरी से भी विवाह होना लिखा है । ऐसी अवस्था में केसरीसिंह का भिणायवाली कुंवराणी के उदर से अथवा कोठारियावाली कुंवराणी के उदर से जन्म हुआ, इसका निर्णय होना कठिन है । बड़वा भाटों की ख्यातों में कई स्थल पर उन्नीसवीं शताब्दी तक के वृत्तान्तों में विभिन्नता पाई जाती है । केसरीसिंह के भिणाय ठिकाने का भागिनेय होने का कथन ही विश्वसनीय मानना पड़ेगा, क्योंकि कविराजा बांकीदास ने यह संग्रह अपने जीवनकाल में लिखा था और वह महारावत सामन्तसिंह का सम-कालीन भी था ।

होकर देशी राज्यों को अंग्रेज़ सरकार के संरक्षण में लेना निश्चित हुआ और मालवा तथा गुजरात से मिले हुए राज्यों से अंग्रेज़ सरकार के साथ दूसरी संधि करने का कार्य सर जॉन मालकम को सौंपा गया। महारावत सामन्तसिंह ने अपनी तरफ से पंडित रामचंद्र भाऊ को पूरे अधिकार के साथ संधि की बातचीत करने के लिए नीमच भेजा। अंत में कप्तान कॉल्फील्ड और रामचंद्र भाऊ-द्वारा संधि की शर्तें तय होकर ई० स० १८१८ ता० ५ अक्टोबर (वि० सं० १८७५ आश्विन सुदि ६) को नीचे लिखा संधिपत्र लिखा गया—

शर्त पहली—राजा इक़रार करते हैं कि उनका दूसरे राज्यों के साथ जो (राजनैतिक) संबंध है, उसको वे त्याग देंगे और यथा संभव अंग्रेज़ सरकार की अधीनता करते रहेंगे। इसके एवज़ में अंग्रेज़ सरकार स्वीकार करती है कि वह उन्हें अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करने में सहायता देगी और अन्य राज्यों के दावों तथा ज्यादतियों से उनकी रक्षा करेगी।

शर्त दूसरी—राजा इक़रार करते हैं कि वे कुल बाकी खिराज, जो मल्हारराव होल्कर को देना बाजिब है और जिसकी तादाद एक लाख चौबीस हजार छःसौ सत्तावन रुपये छुःआने होती है, नीचे लिखे अनुसार अंग्रेज़ सरकार को देंगे—

पहले वर्ष	ई० स० १८१८-१९,	हि० स० १२२६,	वि० सं० १८७५	रु० १००००
दूसरे वर्ष	रु० १५०००
तीसरे वर्ष	रु० २००००
चौथे वर्ष	रु० २५०००
पांचवें वर्ष	रु० २५०००
छठे वर्ष	रु० २६६५७-६ आने

राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि ऊपर लिखी हुई रकम अदा न होने की अवस्था में अंग्रेज़ सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधि नियत होगा, जो प्रतापगढ़ शहर की चुंगी (सायर) की आय से उसे वसूल करेगा।

शर्त तीसरी—देवलिया प्रतापगढ़ के राजा अपनी और अपने चारिखों की ओर से प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अंग्रेज़-सरकार को अपनी रक्षा के पवज़ में इतना खिराज और नज़राना देंगे, जितना वे अब तक मल्हार राव होल्कर को दिया करते थे । यह खिराज नीचे लिखे अनुसार अदा किया जायगा—

प्रथम वर्ष ई० स० १८१८-१९, हि० स० १२२६, वि० सं० १८७५	रु०	३५०००
द्वितीय वर्ष	...	रु० ४५०००
तृतीय वर्ष	...	रु० ५५०००
चतुर्थ वर्ष	...	रु० ६५०००

पांचवें वर्ष खिराज की पूरी रकम अर्थात् ७२७०० रुपये सालिम-शाही, दो किशतों में अदा की जायगी । आधी माघ तथा आधी जेठ अर्थात् मार्च और जुलाई में ।

शर्त चौथी—राजा यह भी स्वीकार करते हैं कि वे अरबों और मकरानियों को नौकर न रक्खेंगे, पर वे पचास सवार और दो सौ सैनिक प्रतापगढ़ इलाक़े के निवासियों में से नौकर रक्खेंगे । जब कभी प्रतापगढ़ इलाक़े के समीप इन सवारों और पैदल सेना की आवश्यकता होगी, तब ये अंग्रेज़ सरकार की सेवा में रख दिये जावेंगे ।

शर्त पांचवी—प्रतापगढ़ के राजा अपने राज्य के स्वामी रहेंगे और लुटेरी जातियों का दमन करने एवं पुनः शांति एवं सुशासन स्थापित करने के अतिरिक्त उनके प्रबंध में अंग्रेज़ सरकार कभी हस्तक्षेप न करेगी । राजा इत्तरार करते हैं कि वे अंग्रेज़ सरकार की राय पर चलेंगे और अपने देश में टकसाल या सौदागरों तथा व्यापार की वस्तुओं पर कोई अनुचित कर न लगावेंगे ।

शर्त छठी—अंग्रेज़ सरकार इत्तरार करती है कि वह प्रतापगढ़ के राजा के उन बंधु-वांधवों या संबंधियों की सहायता न करेगी जो उनकी आज्ञा न मानेंगे, बल्कि उनका दमन करने में राजा को सहायता देगी ।

शर्त सातवी—अंग्रेज़ सरकार इत्तरार करती है कि वह मीनों, भीलों आदि के दमन करने में राजा की सहायता करेगी ।

शर्त आठवीं—अंग्रेज़ सरकार प्रतिज्ञा करती है कि वह राजा के प्रजा-संबंधी उचित तथा पुराने दावों में, जो प्राचीन प्रथा के अनुकूल होंगे, हस्तक्षेप न करेगी।

शर्त नववीं—अंग्रेज़ सरकार इत्तरार करती है कि वह राजा के उन प्रजा-संबंधी स्वत्वों को, जो वाजिब होंगे और जिन्हें वे खुद हासिल न कर सकेंगे, प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगी।

शर्त दसवीं—यदि पड़ोस की किसी रियासत या आस-पास के ठाकुरों पर प्रतापगढ़ राज्य का कोई उचित दावा होगा तो अंग्रेज़ सरकार प्रतिज्ञा करती है कि वह उसको हासिल कराने या उसका फ़ैसला कराने में उन्हें अपनी ओर से मदद देगी। उनके तथा ऐसे राजाओं के बीच यदि कोई विरोध या झगड़ा पैदा होगा तो वह उसका निपटारा करने के लिए मध्यस्थ भी बनेगी।

शर्त ग्यारहवीं—अंग्रेज़ सरकार इत्तरार करती है कि वह खैरात की ज़मीन के मामलों में दखल न देगी और हमेशा राजा तथा प्रजा के धार्मिक रस्मों और दस्तूरों का पूरा लिहाज़ रखेगी।

शर्त बारहवीं—इस संधिपत्र की तीसरी शर्त में राजा ने वादा किया है कि वे अंग्रेज़ सरकार को खिराज दिया करेंगे और इत्मीनान के लिए इत्तरार करते हैं कि वे खिराज उस व्यक्ति को दे देंगे, जो उसे वसूल करने के लिए अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से नियत होगा और यदि उसके अदा होने में कोई ग़फलत होगी तो राजा मंज़ूर करते हैं कि अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक कार्यकर्ता मुक़र्रर किया जाय, जो प्रतापगढ़ शहर की चुंगी की आय से खिराज वसूल करे।

यह अहदनामा, जिसमें बारह शर्तें दर्ज हैं, आज के दिन आनरेबल कम्पनी की ओर से त्रिगेडियर-जेनरल सर मालकम, के० सी० बी०, के० एल० एस०, की आह्वानुसार कप्तान जेम्स कॉलफ़्रील्ड और देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिंह की ओर से रामचन्द्र भाऊ-द्वारा तय हुआ। कप्तान कॉलफ़्रील्ड ने अंग्रेज़ी, फ़ारसी तथा हिन्दी में इसकी एक नक़ल

करा और उसपर अपनी मुहर तथा हस्ताक्षर करके उस (रामचन्द्र भाऊ)-को इसलिए दिया है कि वह उसे देवलिया-प्रतापगढ़ के राजा के पास भेज दे और रामचन्द्र भाऊ ने उसकी एक नक़ल अपने दस्तख़त तथा मुहर के साथ उक्त कप्तान को दी है ।

कप्तान कॉल्फील्ड इक़रार करता है कि माननीय गवर्नर जेनरल के तस्दीक़ किये हुए अहदनामे की एक प्रति, जो उस अहदनामे की जिसे अभी उसने स्वयं तैयार किया है अक्षरशः नक़ल होगी, दो महीने के अरसे में रामचंद्र भाऊ को इसलिए दी जायगी कि वह उसे देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिंह को दे और राजा को वह प्रति सौंप दी जाने पर ब्रिगेडियर-जेनरल सर जॉन माल्कम, के० सी० वी०, के० एल० एस०, की आज्ञा से कप्तान कॉल्फील्ड-द्वारा तैयार किया हुआ अहदनामा लौटा दिया जायगा । इसी प्रकार रामचंद्र भाऊ प्रतिज्ञा करता है कि उक्त अहदनामे की दूसरी प्रति, जिसपर देवलिया प्रतापगढ़ के राजा सामन्तसिंह का हस्ताक्षर होगा और जो उस अहदनामे की, जिसको रामचंद्र भाऊ ने स्वयं तैयार किया है, अक्षरशः नक़ल होगी, आज की तारीख़ से आठ दिन के अरसे में कप्तान कॉल्फील्ड को दी जायगी, ताकि वह उसको माननीय गवर्नर जेनरल के सुपुर्द कर दे । ऐसा होने पर वह अहदनामा, जिसे रामचंद्र भाऊ ने, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अपने प्राप्त किये हुए अधिकार के अनुसार तैयार किया है, वापस कर दिया जायगा ।

आज ५ वीं अक्टोबर ई० स० १८१८ ता० ४ ज़िलहिज हि० स० १२३३ तदनुसार आसोज सुदि ६ वि० सं० १८७५ को तैयार हुआ ।

(दस्तख़त) हेस्टिंगज़

„ जी० डॉइसवेल

„ जे० स्टूअर्ट

„ सी० एम० रिकेट्स

आज ७ वीं नवम्बर ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७५ कार्तिक सुदि १०) को फ़ोर्ट विलियम (कलकत्ता) में हिज़ एक्सेलेन्सी मोस्ट नोबल

गवर्नर-जेनरल ने कौंसिल में तस्दीक की^१ ।

(दस्तखत) जे० एडम,

गवर्नमेंट का चीफ़ सेक्रेटरी

अंग्रेज़ सरकार और देवलिया प्रतापगढ़ राज्य के बीच की यह संधि सुखती हुई कृषि के लिए वर्षा के समान लाभदायक सिद्ध हुई । प्रजा में

प्रतापगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति में उन्नति होना नवजीवन का संचार हुआ । कृषि-जीवी तथा अन्य व्यवसायी जन, जो उपद्रवों के कारण बाहर चले

गये थे, पुनः अपने देश में आकर बस गये, जिससे चारों तरफ़ खेती लहलहाने लगी । संधि होने के पूर्व इस राज्य की औसत आमदनी दो लाख रुपये थी । संधि होने के वर्ष ही आय में बयालीस हजार रुपये और दूसरे वर्ष लगभग पचासी हजार रुपये की वृद्धि हुई^२ ।

डूंगरपुर का महारावल जसवंतसिंह (दूसरा) दुर्बल-हृदय शासक था । उसके कोई कुंवर न था । निरन्तर विपत्तियों से ग्रसित रहने के

कारण युवावस्था में ही उसको शासन-कार्य से उदासीनता हो गई और अपना अपुत्र होना खटकने लगा । उदयपुर, डूंगरपुर, बांसघाड़ा

और प्रतापगढ़ के नरेश एक ही वंश के हैं, परंतु उदयपुर और प्रतापगढ़ डूंगरपुर से पीढ़ियों में बहुत दूर जाकर मिलते हैं । प्रचलित रीति के अनुसार आवश्यकता के समय अपने समीपी बंधु-बंधवों में से ही दत्तक पुत्र ग्रहण किया जाता है । इसके विपरीत महारावल ने अपनी अविवेकता और अस्थिर-चित्तता के कारण प्रतापगढ़ के स्वामी सामंतसिंह के द्वितीय पौत्र दलपतसिंह को अपना दत्तक पुत्र बनाया^३,

(१) एचिसन; ड्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदज़, जि० ३, पृ० ४६०-६३ ।

(२) माल्कम, रिपोर्ट ऑन दि प्रॉविंस ऑव् मालवा एंड दि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, पृ० ३३५ ।

(३) प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त राजकीय पत्रादिसे पाया जाता है कि वि० सं० १८७७

जिसको अंग्रेज़-सरकार ने भी स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही हो सकता है कि हूंगरपुर के राज-कुटुंब में उस समय योग्य पुरुष का अभाव था और दलपतसिंह में बाल्यकाल से ही प्रतिभा विद्यमान थी ।

अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य बाहरी आक्रमणों से तो सुरक्षित हो गया, परंतु भीतरी उपद्रव; भील, मीणों आदि दुर्दमनीय लोगों की लूट-खसोट या गारतगिरी आदि से मुक्त न था । ऐसे उपद्रवों को मिटाकर शांति स्थापित करने के लिए सैनिक शक्ति की आवश्यकता

सेना-व्यय के एवज अंग्रेज़-सरकार को नकद रुपये देने का करार होना

(ई० स० १८२०) में महारावल जसवन्तसिंह (दूसरा) देवलिया आया, तब वह युवा था, तो भी उसने महारावत सामन्तसिंह से भंवर दलपतसिंह को अपने गोद देने के लिए आग्रह किया । इसपर कई शर्तों के साथ दलपतसिंह हूंगरपुर गोद दे दिया गया, जिसको अंग्रेज़ सरकार के पोलिटिकल अफसरों ने भी स्वीकार किया । वि० सं० १८७८ (ई० स० १८२१) में सर जॉन मालकम उदयपुर गया, उस समय वहां के महाराणा भीमसिंह ने इस गोदनशर्ती को ठीक नहीं बतलाया । इसपर उस (सर जान मालकम)-ने उत्तर दिया कि मैं इतिहास से वाकिफ न था, इसलिए ऐसा हुआ, परन्तु अब यह बात बदली नहीं जा सकती । इससे पाया जाता है कि वि० सं० १८७७ (ई० स० १८२०) के आसपास ही दलपतसिंह की गोदनशर्ती की बात तय हो चुकी थी, अतएव उस समय के बाद ही दलपतसिंह का हूंगरपुर में आना-जाना शुरू हुआ होगा और वि० सं० १८८१ से वह वहां स्थायी रूप से रहने लगा ।

हूंगरपुर राज्य से महारावल जसवन्तसिंह (दूसरा) की जन्मपत्री और वर्ष-फल प्राप्त हुए हैं । उनसे पाया जाता है कि उसका जन्म आषाढादि वि० सं० १८२५ शाके १७२१ (चैत्रादि वि० सं० १८२६) अमात वैशाख वदि १० उपरांत ११, (पूर्णिमांत ज्येष्ठ वदि १० उपरांत ११ = ई० स० १७६६ ता० २६ मई) बुधवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उपरांत रेवती को हुआ था । अतएव वि० सं० १८७७ में उक्त महारावत की आयु २१ वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । अभिप्राय यह कि जसवन्तसिंह ने अपनी २१ वर्ष की आयु में ही दलपतसिंह को, जब कि वह केवल १२ वर्ष का था, अपना दत्तक बना लिया था । इतनी अल्प आयु में ही उस(जसवन्तसिंह)का दलपतसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चय ही एक प्रकार का भ्रान्ति मूलक विचार ही कहा जायगा ।

थी। अतएव अंग्रेज़ सरकार की अध्यक्षता में सेना रखना निश्चय होकर वि० सं० १८८० मार्गशीर्ष सुदि ७ (ई० स० १८२३ ता० ६ दिसंबर) को संधिपत्र की तीसरी शर्त के अनुसार पचास सवार और दो सौ पैदल सेना रखने के एवज़ में १२००० रुपये सालिमशाही वार्षिक देने और वि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६-२७) से चौबीस हज़ार रुपये देते रहने का अंग्रेज़ सरकार के साथ कप्तान ए० मेकडॉनल्ड-द्वारा नीचे लिखा इक्करार-नामा हुआ—

अहदनामे में दो सौ पैदल और पचास सवार दर्ज हैं, उनके खर्चे के लिए नियत किशतों में एक हज़ार रुपये माहवार अर्थात् बारह हज़ार रुपये वार्षिक सरकार को दिये जायेंगे। वि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६-७) से दो हज़ार रुपये माहवार अर्थात् चौबीस हज़ार रुपये वार्षिक कंपनी की सरकार को दिये जायेंगे और इससे विपरीत कभी न होगा। रुपये सालिमशाही होंगे^१।

उपर्युक्त इक्करारनामे से प्रतापगढ़ राज्य पर चौबीस हज़ार रुपये वार्षिक का बोझ और भी बढ़ गया, जिसको देने में वह समर्थ न था। फिर भी वह किसी प्रकार खिराज आदि नियमित रूप से देकर अपने ऊपर ऋण न बढ़ने देता था। अन्त में वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४०) में महारावत सामन्तसिंह के पौत्र दलपतसिंह के (जब कि वह अपने बड़े भ्राता केसरीसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतापगढ़ का भी भावी स्वामी मान लिया गया था) अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी करने पर प्रतापगढ़ राज्य को इस बोझ के उठाने में असमर्थ देख इस अहदनामे को मंसूख कर दिया गया^२।

महारावत सामन्तसिंह ने अंग्रेज़ सरकार से संधि होने के पीछे अपनी वृद्धावस्था का विचार कर राज्य-कार्य अपने कुंवर दीपसिंह को

(१) एचिसन, ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदज़, जि० ३, पृ० ४६३।

(२) एचिसन, ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एण्ड सनदज़, जि० ३, पृ० ४४२।

कुंवर दीपसिंह का उपद्रव
करना

सौंप दिया था, किंतु कुछ स्वार्थी लोगों ने पिता-पुत्र के बीच द्वेष उत्पन्न करा दिया, जिससे राज्य-कार्य में खराबी होने लगी ।

अपने उग्र स्वभाव के कारण कुंवर ने कतिपय मनुष्यों को, जो उसके कार्य में बाधक थे, मरवा डाला । अंग्रेज सरकार ने कुंवर के इस कृत्य से अप्रसन्न होकर उसको राज्य-कार्य से वंचित कर दिया और देवलिया में रहने की आज्ञा दी । तदनुसार कुंवर देवलिया में रहने लगा, परन्तु उसको वहां रहना पसन्द नहीं था, जिससे वह फिर प्रतापगढ़ में जाकर उपद्रव करने लगा । जब उसका उपद्रव चरम सीमा तक पहुंच गया तो अंग्रेज सरकार ने उसका दमन करने के लिए अपनी सेना खाना की, जिसका कुंवर से मुकाबला हुआ । थोड़ी लड़ाई के बाद कुंवर अंग्रेजी सेना-द्वारा बंदी कर लिया गया । महारावत ने उसको कनोरा (कनोरा) के किले में कैद रखना चाहा और इस बात का इत्तफाक भी वि० सं० १८८० मार्गशीर्ष सुदि १ (ई० सं० १८२३ ता० ३ दिसम्बर) को कप्तान मेकडॉनल्ड के नाम लिख दिया, परंतु यह बात अंग्रेज

(१) अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑव प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० १६६ ।

(२) मूल इत्तफाक की प्रतिलिपि से ।

जी० वी० मैलिसन ने “हिस्टोरिकल स्केचिज़ ऑव दि नेटिव स्टेट्स ऑव इंडिया” (पृ० १३३-४) में भी कुंवर दीपसिंह को कनोरा के दुर्ग में रखने का उल्लेख किया है । इसी प्रकार ‘वक्राये राजपूताना’ (पृ० ५७७), ‘हिंद राजस्थान’ (गुजराती, अमृतलाल गोवर्द्धनदास शाह और काशीराम उत्तमराम पंड्या कृत, पृ० ६७५) आदि में भी ऐसा ही लिखा है । कनोरा प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत है, जिससे उसके वहां रहने से फिर वहां उपद्रव होने की संभावना थी । इस दृष्टि से उसका प्रतापगढ़ राज्य से बाहर अचरे की गढ़ी में रखा जाना ही ठीक प्रतीत होता है ।

विशप हेवर अपनी यात्रा के समय ई० सं० १८२५ (वि० सं० १८८२) में प्रतापगढ़ भी गया था । वह अपनी पुस्तक ‘नेटिव ऑव दू जर्नी थू दि थपर प्रोविसेज़ ऑव इंडिया’ में लिखता है कि दीपसिंह ने तीन वर्ष पूर्व स्वयं अपने हाथ से तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा छः आदमियों को मरवा डाला था । उसका पिता, वहां का राजा वड़ा सीधा

सरकार को स्वीकार नहीं हुई। अंत में वह ग्वालियर-राज्यान्तर्गत अचेरे की गढ़ी में रखा गया। उन दिनों महारावत ने शासन-कार्य पीछा अपने हाथ में ले लिया था। स्नेहवश उस (महारावत) ने कुंवर का अपराध क्षमाकर उसे पीछा प्रतापगढ़ में बुला लेना चाहा और इसके लिए अंग्रेज़ अफ़सरों से लिखा-पढ़ी भी प्रारंभ की^१। संभव था कि कुंवर का अपराध अंग्रेज़ सरकार भी क्षमा कर देती, पर इसी बीच वि० सं० १८८३ चैत्र सुदि १४ (ई० स० १८२६ ता० २१ अप्रैल) को दीपसिंह की मृत्यु हो गई^२।

और वृद्ध था एव उस (दीपसिंह) का दमन नहीं कर सकता था तो भी वह उस (दीपसिंह) को क्रैद से छुड़ाने के लिए बड़ा व्यग्र था।

कुछ लोगों का यह कथन है कि सरकारी सेना से कुंवर का मुक्ताबला होने पर एक अंग्रेज़ अफ़सर भी मारा गया, जिसका स्मारक प्रतापगढ़ क़स्बे के बाहर पश्चिम की ओर बना हुआ है। एक स्थल पर यह भी लिखा मिलता है कि कुंवर दीपसिंह ने कप्तान मेकडॉनल्ड को मार डाला था। वस्तुतः ये सब कथन आतिमूलक हैं। उपर्युक्त स्मारक बङ्गाल की पैदल सेना के ४६ वीं रेजिमेंट के लेफ़्टेनेन्ट और रामपुरा की देशी बटालियन के एडज्यूटेंट जॉन वायली का है, जिसकी ई० स० १८२६ ता० १४ अक्टोबर (वि० सं० १८८३ आश्विन सुदि १४) को वहां पर मृत्यु हुई थी। इसके छ. मास पूर्व ही कुंवर दीपसिंह का देहावसान हो गया था। इसी प्रकार कप्तान मेकडॉनल्ड के वहां मारे जाने और उसका स्मारक सालमगढ़ में होने की बात भी निर्मूल है। कप्तान मेकडॉनल्ड दीपसिंह के बंदी होने के पीछे तक विद्यमान था, जैसा कि संधिपत्रों से निश्चित है।

(१) महारावत सामन्तसिंह का मि० वेलैज़ली के नाम का वि० सं० १८८२ फाल्गुन वदि ८ (ई० स० १८२६ ता० १ मार्च) का पत्र।

(२) के० डी० अर्लकिन ने अपने प्रतापगढ़ राज्य के गैज़ेटियर में ता० २१ मई ई० स० १८२६ को दीपसिंह की मृत्यु होना लिखा है। इसी प्रकार मैलेसन के “हिस्टोरिकल स्केचिज़”, “वक्ताये राजपूताना” आदि में उसके देहांत की यही तारीख दी है, जिसका हिन्दी तिथियों से मिलान करने पर उस दिन वि० सं० १८८३ वैशाख सुदि १४ आती है, किन्तु प्रतापगढ़ राज्य के राजाओं की निधन तिथियों की सूची में दीपसिंह की निधन-तिथि वि० सं० १८८३ चैत्र सुदि १४ दी है। उसका मिलान करने पर उस

महारावत सामंतसिंहके पिछले समय में राज्य का काम शाह नवल-चंद करता था। वह होशियार और पूरा स्वामिभक्त था, अतएव महारावत ने कुंवर दीपसिंह के अंग्रेज़ सरकार-द्वारा अचरे महारावत का नवलचंद पाठ-लिया को कामदार बनाना की गढ़ी में भेज दिये जाने पर वि० सं० १८८० पौष सुदि ३ (ई० स० १८२४ ता० ४ जनवरी) रविवार को फिर शाह नवलचंद को कामदार (मुख्य मंत्री) के पद पर नियत किया। दीपसिंह की मृत्यु के पश्चात् महारावत ने अपने ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह को राज्य-कार्य सौंप दिया। उस (केसरीसिंह) ने भी शाह नवलचंद की पूरी तसल्ली कर उसको उसी पद पर बहाल रखा। उसकी कार्य-शैली अच्छी होने से अंग्रेज़ सरकार के पोलिटिकल अफ़सरों ने भी समय-समय पर उसकी खातिरी कर उसको उत्साहित किया था^१।

महारावत के कुंवर दीपसिंह के एक पुत्री प्रतापकुंवरी थी। उसका संबंध बीकानेर के महाराजा रत्नसिंह के महाराजकुमार सरदारसिंह के महारावत की पौत्री का बीकानेर के कुंवर सरदारसिंह से विवाह साथ निश्चय होकर वि० सं० १८८६ फाल्गुन वदि ८ (ई० स० १८३३ ता० १२ फ़रवरी) विवाह की तिथि स्थिर हुई^२। तदनुसार उक्त महाराजकुमार की वरात प्रतापगढ़ पहुंचने पर पूर्ण आतिथ्य कर महारावत ने बड़े समारोह के साथ विवाह-कार्य सम्पन्न किया।

पुत्र शोक का घाव भर भी नहीं पाया था कि ऐसे में वि० सं० १८६१ वैशाख सुदि ४ (ई० स० १८३४ ता० १२ मई) को महारावत के

दिन ता० २१ अप्रैल आती है। अतएव दीपसिंह की मृत्यु की कौनसी तिथि सही है, इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु गैज़ेटियर आदि में दी हुई तारीख़ ही सही होनी चाहिये, क्योंकि वह तत्कालीन सरकारी कागज़-पत्रों के आधार पर लिखे गये हैं।

(१) शाह नवलचन्द के नाम विलियम चोरविक का वि० सं० १८८६ ज्येष्ठ वदि ६ (ई० स० १८३२ ता० १६ मई) का ख़त।

(२) मेरा बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २, पृ० ४२०।

भंवर केसरीसिंह का
देहावसान

ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह का असमय २६ वर्ष की युवावस्था में निःसंतान देहांत हो गया। महारावत के शरीर पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

वृद्धावस्था में युवा पुत्र एवं पौत्र की मृत्यु के कठोर दुःख को सहन करना बड़ा कठिन था, फिर भी इन दैविक आपत्तियों को सहन कर उसने धैर्य न छोड़ा और वह राज्य-कार्य बराबर चलाता रहा।

वृद्धावस्था, शारीरिक स्थिति की निर्बलता तथा दैविक विपत्तियों के कारण महारावत अपने पिछले समय में राज्य-कार्य में पूर्ण रूप से ध्यान न दे सका। इससे समय-समय पर कुछ शासन में अव्यवस्था होना अव्यवस्था भी उत्पन्न हुई और भील, मीणों, ठगों तथा अन्य जरायम-पेशा लोगों ने अपना धंधा जारी कर दिया, पर राज्य की आर्थिक स्थिति में इससे कुछ अन्तर नहीं हुआ और महारावत के उत्तम आचरण से अंग्रेज़ सरकार ने उसको हर प्रकार से सहायता देकर शासन-व्यवस्था में बाधा न पड़ने दी^१।

महारावत सामंतसिंह के छोटे पुत्र दलपतसिंह को डूंगरपुर के महारावल जसवंतसिंह-द्वारा दत्तक लेने की स्वीकृति अंग्रेज़ सरकार से प्राप्त होने पर वह वहां चला गया था; फिर भी पितृ-प्रेम से प्रेरित होकर वि० सं० १८८१ माघ वदि ५ (ई० स० १८२५ ता० ६ जनवरी) को महारावत ने उसको वार्षिक २४००० रुपये की आय का कल-थाणा का पट्टा प्रदानकर वि० सं० १८८७ (ई० स० १८३०) से उसका खिराज एक हजार रुपये लेना स्थिर किया^२। प्रारम्भ में दलपतसिंह और महारावल के बीच मेल रहा, परन्तु फिर महारावल के साथ उसकी नहीं निभी। वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में वहां भीलों का उपद्रव हो गया,

(१) ज्वालासहाय; वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० ५५८।

(२) महारावत सामन्तसिंह का भंवर दलपतसिंह के नाम का वि० सं० १८८१ माघ वदि ५ (ई० स० १८२५ ता० ६ जनवरी) का परवाना।

जिसको महारावल दबा नहीं सका, इसलिए महारावल से अंग्रेज़ सरकार ने शासन-कार्य अपने हाथ में ले लिया। फिर कुछ वर्षों बाद दलपतसिंह की योग्यता का अनुभव कर सब अधिकार उसको सौंप दिये गये। दलपतसिंह ने शासनाधिकार पाकर पट्टे परवानों पर पहले तो महारावल के नाम के साथ अपना नाम लिखना आरम्भ किया, फिर वह केवल अपना ही नाम लिखने लगा। इससे भी दोनों में द्वेष की वृद्धि हुई और यह वैमनस्य यहां तक बढ़ा कि महारावल डूंगरपुर छोड़कर गढ़ी ठिकाने में जा बैठा। ऐसे में प्रतापगढ़ राज्य के स्वत्वाधिकारी केसरीसिंह का, जो दलपतसिंह का ज्येष्ठ भ्राता था, देहांत हो गया। उस समय महारावत सामंतसिंह ने दलपतसिंह को प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने का विचार-कर उस (दलपतसिंह) को वहां बुलवा लिया और देवलिया में रहते हुए वह डूंगरपुर का शासन-कार्य भी करता रहा। फिर अंग्रेज़ सरकार ने भी महारावत की इच्छा स्वीकार कर दलपतसिंह को प्रतापगढ़ राज्य का भावी महारावत मान लिया।

वि० सं० १६०० पौष सुदि १५ (ई० स० १८४४ ता० ५ जनवरी) को महारावत सामन्तसिंह का ७० वर्ष राज्य करने के पश्चात् ७६ वर्ष की आयु में परलोकवास हो गया।

महारावत सामन्तसिंह के आठ विवाह हुए थे, जिनसे उसके पद्मसिंह, दीपसिंह और सरदारसिंह नामक तीन कुंवर और प्राणकुंवरी, अजवकुंवरी, चिमनकुंवरी, चंदनकुंवरी, तख्तकुंवरी एवं रत्न-राखियां और सतति आदि कुंवरी नामक छः पुत्रियां हुई^१। महारावत का एक विवाह किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह की पुत्री सरूपकुंवरी से हुआ था^२, जिसके उदर से एक कुंवर और प्राणकुंवरी नामक कुंवरी हुई। प्राणकुंवरी का विवाह ईंडर के स्वामी गंभीरसिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदसिंह

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ६-१०। प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी ख्यात; पृ० १३-४।

(२) बांकीदास ऐतिहासिक बातें, सख्या १३१३।

से हुआ तथा उस (सामन्तसिंह) की राठोड़ राणी मेड़तणी के उदर से चिमनकुंवरी नामक पुत्री हुई, जिसका विवाह लूणावाड़ा के सोलंकी महाराणा फ़तहसिंह से वि० सं० १८७८ (ई० स० १८२१) में हुआ।

महारावत सामन्तसिंह के दीर्घ शासन-काल में देवलिया के राज-महलों में कई प्रकार का सुधार हुआ। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में भी कई


मकान और महल बने। उसकी माता कुंदनकुंवरी ने देवलिया में विष्णु आदि के पांच मंदिर बनवाकर

वावड़ी बनवाई एवं उन मंदिरों तथा बावड़ी की प्रतिष्ठा के अवसर पर तुलादान भी किया। महारावत ने स्वयं देवलिया में रघुनाथ-द्वारा नामक मंदिर बनवाकर वि० सं० १८५६ (ई० स० १८०२) में बड़े समारोह के साथ उसकी प्रतिष्ठा की। प्रतापगढ़ राज्य के राजकीय देवालियों में आय की दृष्टि से रघुनाथ-द्वारा विशेष स्थान रखता है^२। उसकी पुत्री चिमनकुंवरी ने देवलिया में चंद्रशेखर का शिव-मंदिर

(१) लूणावाड़ा राज्य की ख्यात; पत्र ८०, पृ० १।

(२) देवलिया के रघुनाथ-द्वारे का वि० सं० १८५६ (ई० स० १८०२) में महारावत सामन्तसिंह ने बड़े समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा-महोत्सव कर निम्बार्क सम्प्रदाय के साधु रामकृष्णदास को जो बर्दवान (कलकत्ता) की तरफ से आया हुआ भगवद्भक्त था, महन्त बनाकर उक्त देवालय का सारा प्रबन्ध उसको सौंप दिया। फिर उसका शिष्य पोखरदास वहां का महन्त हुआ, जिसने देवलिया के राजप्रासाद के पीछे 'रघुनाथ सागर' नामक जलाशय बनवाया, जो सार्वजनिक दृष्टि से देवलिया के जलाशयों में बड़ा उपयोगी है। पोखरदास के पीछे क्रमशः केशवदास, उदयदास और मनोहरदास वहां के महन्त हुए। वर्तमान महन्त बालमुकुंददास वि० सं० १९६२ (ई० स० १९०५) में वहां की गद्दी का स्वामी हुआ, जो सरल-चित्त और संतोषी पुरुष है। इस देवालय को भुवांसा, कोलवी और दोतड़ गांव प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से भेंट में दिये गये हैं और सब मिलाकर यहा की आय पांच सहस्र रुपये वार्षिक मानी जाती है।

दशहरे के अवसर पर जब महारावत की सवारी रावण-वध के लिए देवलिया जाती है, तब रघुनाथद्वारे से रामचन्द्र आदि की मूर्तियां भी धूम-धाम से सवारी में स्वयं महारावत साथ रहकर ले जाते हैं और फिर वहां रावण-वध की लीला का प्रदर्शन होता है।



रघुनाथद्वारा, देवलिखा

वनवाया । उसकी राणी मेड़तणी दौलतकुंवरी ने देवलिया में युगलकिशोर का विष्णु मंदिर बनवाया ।

महारावत के समय के शिलालेख, दानपत्र आदि पर्याप्त संख्या में मिलते हैं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका सारांश नीचे दिया जाता है—

(१) वि० सं० १८३८ माघ सुदि ५ (ई० सं० १७८२ ता० १८ जनवरी) शुक्रवार की देवलिया के बड़े जैन मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें हूँवड़ जाति और पाडलिया गोत्र के गोविंद आदि का आदिनाथ का प्रासाद बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करने का उल्लेख है ।

(२) वि० सं० १८५६ आषाढ वदि १३ (ई० सं० १७९९ ता० १ जुलाई) का प्रतापगढ़ के बाज़ार का शिलालेख, जिसमें प्रतापगढ़ के निवासियों से बिना अपराध के दरड न लेने का उल्लेख है ।

(३) वि० सं० १८५६ माघ सुदि १३ (ई० सं० १८०३ ता० ४ फ़रवरी) का ब्राह्मण वेणीराम के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें रघुनाथद्वारे की प्रतिष्ठा के अवसर पर गांव अमलावद में १० बीघा ज़मीन पुरय करने का उल्लेख है ।

(४) वि० सं० १८७३ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई० सं० १८१६ ता० ३० मई) सोमवार का द्वारिका के लक्ष्मी, सत्यभामा और राधिका के मंदिरों के पुजारी बालकृष्ण, जयदेव और भंडारी जगन्नाथ के नाम का ताम्रपत्र, जिसमें महारावत की द्वारिका की यात्रा के समय राणी चौहान पूरवणी का अपनी जागीर का चाचाखेड़ी गांव उक्त मंदिरों की भोग सामग्री के लिए भेंट करने और कुंवर दीपसिंह के कथन से उक्त ताम्रपत्र होने का उल्लेख है ।

(५) वि० सं० १८७४ द्वितीय श्रावण सुदि १५ (ई० सं० १८१७ ता० २६ अगस्त) भीमवार का ताम्रपत्र, जिसमें ज्येष्ठ वदि ३० को सूर्य पर्व के समय अपने राज्य में ब्राह्मणों पर, जो “टंकी” की लागत लगती थी, उसके छोड़ने का संकल्प अमलावद के पंडित तारा के नाम होने का उल्लेख है ।

(१) श्रीमन्महाराजाधिराज महारावतजी श्रीसामन्तसिंहजी वचनात्

इससे प्रकट है कि वि० सं० १८७४ (ई० सं० १८१७) में महारावत ने द्वारिका की यात्रा की थी और उक्त संवत् के ज्येष्ठ विदि ३० (ता० १६ मई) शुक्रवार को ब्राह्मणों को दी हुई ज़मीन आदि की आय पर टंकी नामक लागत, जो प्रति रुपया एक आना के हिसाब से लगती थी, शंखोद्धार तीर्थ पर छोड़ देने अर्थात् नहीं लेने का संकल्प किया। यह ताम्रपत्र महारावत के कुंवर दीपसिंह के आज्ञा देने पर मेहता बेचरलाल ने लिखा।

(६) वि० सं० १८८२ (प्रथम) श्रावण सुदि १५ - (ई० सं० १८२५ ता० २६ जुलाई) शुक्रवार का भचूंडला, पिपरोड़ा का खेड़ा और माताखेड़ी गांव का ताम्रपत्र; जिसमें उपर्युक्त तीनों गांव द्वारिका में सदाव्रत के लिए कृष्णार्पण करने का उल्लेख है।

(७) वि० सं० १८६२ आषाढ सुदि २ (ई० सं० १८३५ ता० २६ जून) चन्द्रवार का सेमलखेड़ी गांव का ताम्रपत्र, जिसमें राणी मेड़तणी के बनवाये हुए मंदिर को गांव सेमलखेड़ी भेंट करने का उल्लेख है।

कांठलदेश ना समस्त ब्राह्मणां जोग्य अप्रंच श्रीद्वारिकानाथजी नी जात्रा कीदी जदी श्रीबेट शंखोद्धार में ज्येष्ठ विदि ३० अमावस्या रे दिन सूर्य पर्व मध्ये त्राम्बा पत्रिक सर्व ब्राह्मणा ने टंकी लागती हती ते गाम अमलावद नो पंडित तारा साथे हतो तेने हाते श्रीकृष्णार्पण करी दीधी आचन्द्रार्क यावत् उदक अघाट करी सारी लागट वलगट सहित निर्दोष करे दीधी तेनी हमारा वंसनो थई ने ब्राह्मणां थी चोलण करे नहीं चोलण करे जणी ने चित्तोड़ नो पाप छे। अत्र दान वाक्य भूमि दत्वा भाविनो भूमिपालान् भूयो भूयो याचते रामचंद्रः। सामान्योऽयं दानधर्मो नृपाणां स्वे स्वे काले पालनीयो भवद्भिः॥ १ ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम् षष्टि वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। २। हुकम श्री हज़ूर नो। दुवे महाराजकुंवरजी श्रीदीपसिंहजी लिखित मेता बेचरलाल संवत् १८७४ रा वर्षे मास द्वितीय श्रावण सुदि १५ भौमवासरे।

महारावत सामन्तसिंह वीर, उदार और बुद्धिमान राजा था। उसके समय में भी अन्य राज्यों की भांति मरहटों का उपद्रव रहा। कभी-कभी

महारावत का व्यक्तित्व

उसके अधीनस्थ राजपूत सरदार भी वहां पारस्परिक वैमनस्य के कारण सिर उठाकर बखेड़ा मचाते और भील, भीरे आदि भी अपना पेशा जारी कर देते थे, पर वह उनके चखेड़े को साम, दाम, दंड और भेद नीति का प्रयोग कर घड़ने नहीं देता था। मरहटे सरदारों को भी वह कुछ दे-दिलाकर चुप करता था और वे भी उसकी सरलता के कारण उसका मान रखते थे। मरहटों के उपद्रव और भीतरी कलह से उसके समय देश ऊजड़ होकर आवादी कम हो गई, जिससे आय के साधन बन्द होकर समृद्धि घट गई, तो भी उसने अपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न आने दी। राज्य-रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक शक्ति की आवश्यकता होती है, पर उस समय आर्थिक स्थिति ठीक न होने से महारावत अच्छी सेना नहीं रख सकता था तथापि जागीरदारी प्रथा का प्रचार रहने से उसके राज्य की रक्षा के योग्य वहां लड़ाकू राजपूत सेना का अभाव न था। महारावत की सहृदयता से उसके अधीनस्थ राजपूतों को उसपर पूरा विश्वास था और वे उक्त राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाज़ी लगा देते थे। वह अपने सरदारों, राजकर्मचारियों, भृत्यों आदि को समय-समय पर जागीर, इनाम आदि देकर सम्मानित करता रहता था, जिससे राज्य-व्यवस्था में कोई अन्तर नहीं होने पाया और न उसके राज्य की सीमा में कमी हुई, जब कि कई पुराने और प्रतिष्ठित राज्य नष्ट हो गये। ऐसे समय में उसकी दयालुता और उदारता ने ही उसकी कीर्ति को दूर-दूर तक फैलाया। तीर्थ-यात्रा का प्रेमी होने के कारण उसने डारिका की यात्रा के समय वहां अपनी राणी के द्वारा भोग सामग्री के लिए गांव भेंट कराया और वहां अपनी तरफ से नियमित रूप से पुण्य होते रहने के लिए सदाव्रत जारी रख तीन गांव दिये। उसके राज्य-काल में देवलिया के राज्य-महलों में सुधार हुआ और वहां कई देवालय भी बने। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उसने रघुनाथ द्वारे की प्रतिष्ठा के समय तुलादान भी

किया। प्रजा से वह प्रेम रखता और उससे अन्यायोचित ढंग से द्रव्य लेना बुरा समझता था। इसलिए भविष्य में बिना किसी अपराध के दण्ड न लेने का पाषाण लेख खुदवाकर उसने प्रतापगढ़ में लगवाया। उसके समय में वि० सं० १८६० (ई० सं० १८३३) में प्रतापगढ़ राज्य में अकाल पड़ा और दैवी प्रकोप से महामारी की व्याधि उत्पन्न होकर सहस्रों-मनुष्य काल-कवलित हो गये। उस समय उसने प्रजा-पालकता का परिचय देकर वहां के निवासियों को धैर्य बंधाया। वह ईश्वर-भक्त, निरभिमानी और मितव्ययी होने के साथ ही शुद्ध हृदयवाला था। अपनी प्रजा, सामंतवर्ग तथा अन्य राज्यों के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहा। दैवी विपत्तियों, मरहटों, सरदारों आदि के उपद्रवों के समय वह कभी विचलित नहीं होता और धैर्य-पूर्वक उनको निवारण करने की चेष्टा करता था। राज्य-वृद्धि की लालसा उसमें न थी। स्वात्माभिमान भी उसमें विद्यमान था, इससे उदयपुर के महाराजाओं के अधीन सामंतभाव से रहकर उसने धरियावद के परगने का उपभोग करना अपमानजनक समझ, उसे त्याग दिया। उसके एकमात्र कुंवर दीपसिंह ने कई पुरुषों को मार डाला। इस बात को सुनते ही उस (महारावत) ने अंग्रेज़ अफ़सरों की राय से उस (दीपसिंह) को अधिकार-च्युत् कर देवलिया में रहने की आज्ञा दी, परन्तु कुंवर ने अपना आचरण नहीं सुधारा एवं प्रतापगढ़ में जाकर फिर उपद्रव करने लगा। तब उसने पुत्र-मोह त्यागकर अंग्रेज़ी सेना-द्वारा उसको दबाकर बंदी करवा दिया, जो उसकी न्याय-वृत्ति का द्योतक है। वह विनम्र, प्रसन्न-चित्त और मृदुभाषी होने के साथ ही शांति-प्रिय शासक था। अंग्रेज़ अफ़सर भी उसका पूरा सम्मान करते थे। उस (सामंतसिंह) का शरीर पतला, कद लंबा, वर्ण गौर और मुंह गोल था।



महारावत दलपतसिंह

छठा अध्याय

महारावत दलपतसिंह से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी तक

दलपतसिंह

महारावत सामन्तसिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने पौत्र दल-
पतसिंह को, उसके डूंगरपुर गोद चले जाने पर भी, प्रतापगढ़ राज्य का
स्वामी बनाना स्थिर कर अंग्रेज़ सरकार की स्वी-
रज्य-प्राप्ति कृति ले ली थी । तदनुसार सामन्तसिंह का
परलोकवास होने के पीछे वि० सं० १६०० पौष सुदि १५ (ई० स० १८४४
ता० ५ जनवरी) को वह प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ । उसका जन्म
वि० सं० १८६५ मार्गशीर्ष सुदि ६ (ई० स० १८०८ ता० २६ नवम्बर)
शनिवार को हुआ था ।

तदनन्तर भारत सरकार की तरफ़ से मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट
कर्नल रॉविन्सन महारावत की गद्दीनशीनी की खिलअत और गवर्नर जेनरल
का खरीता लेकर देवलिया गया । वहाँ उसने
एंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से एक दरवार में महारावत को गवर्नर जेनरल का
गद्दीनशीनी की खिलअत खरीता देकर खिलअत में चांदी के हौदे-सहित
हथिनी, चांदी के ज़ेवर-सहित घोड़ा, मोतियों की
माला, सरपेच, मंदील, शाल जोड़ा, चुगा, शाली, रूमाल, परतले-सहित
तलवार, दुनाली घंटूक, तमंचे की जोड़ी, गोश्वारा आदि दिये ।

(१) देखो, ऊपर पृ० २६३ ।

(२) धीरचिनोद; द्वितीय भाग, पृ० १०६६ ।

दलपतसिंह के प्रतापगढ़ में रहने का अवसर पाकर झुंगरपुर का महारावल जसवन्तसिंह पुनः अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उद्योग कर रहा था। अब दलपतसिंह के महारावल जसवन्तसिंह का झुंगरपुर से वृन्दावन भेजा जाना प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर झुंगरपुर से उस (दलपतसिंह) का स्वत्व उठाने का उसे पुस्ता कारण मिल गया। कहा जाता है कि दलपतसिंह को झुंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी बनाने में जसवन्तसिंह भी रज़ामन्द था, परन्तु फिर उसको कुछ उपद्रवियों ने वहकाया, जो स्वार्थ-साधन में संलग्न थे, जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर दलपतसिंह का झुंगरपुर से अधिकार उठाने की चेष्टा करने लगा और झुंगरपुर के स्वत्वाधिकारी भी यह अवसर अपने अनुकूल समझ हक़दारी का दावा पेश करने लगे। महारावल ने परिणाम का कुछ विचार किये बिना ही नांदली के ठाकुर हिस्मतसिंह के पुत्र मोहकमसिंह को गोद लेकर गुप्त रूप से गोदनशीनी का दस्तूर करना चाहा^१। उस समय झुंगरपुर का राज्य-कार्य दलपतसिंह की ओर से सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह चलाते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो नांदली के ठाकुर के पुत्र को दत्तक लेने के लिए महारावल को सलाह दी और दूसरी तरफ़ महारावल को, महारावल की इस कार्यवाही का विवरण लिख भेजा और खेरवाड़ा जाकर कप्तान हंटर को—जो झुंगरपुर राज्य के राजनैतिक कार्य के लिए पोलिटिकल अफ़सर था—यह सारा हाल बतलाया। दलपतसिंह की झुंगरपुर में गोदनशीनी और झुंगरपुर के साथ-साथ प्रतापगढ़ का स्वामी बनाने की स्वीकृति अंग्रेज़ सरकार ने दे दी थी। अतएव मोहकमसिंह की गोदनशीनी में दलपतसिंह की अनुमति और अंग्रेज़ सरकार की स्वीकृति आवश्यक थी, परन्तु महारावल ने बिना स्वीकृति के यह कार्य किया। इसलिए कप्तान हंटर महारावल की कार्यवाही को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के साथ झुंगरपुर पहुंचा और उसने वहां घेरा डाल दिया। इसके

साथ ही सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह ने भी राज्य-महलों पर आक्रमण कर दिया, जिससे महारावल का सारा कार्यक्रम निष्फल हो गया और गोदनशीनी की कार्यवाही बंद हो गई। उस समय कर्नल रॉविन्सन मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट था^१। ज्योंही उसके पास यह समाचार पहुंचा, उसने महारावत दलपतसिंह को शीघ्र ही डूंगरपुर पहुंचने के लिए लिखा। तब वह (दलपतसिंह) भी अपनी सेना-सहित वहां गया। इस अवसर पर जसवन्तसिंह ने उदयपुर के महाराणा के पास अपना आदमी भेज सहायता चाही^२। महाराणा ने प्रत्यक्षरूप से तो उसको कोई सहायता न दी और पोलिटिकल एजेंट कर्नल रॉविन्सन से इस मामले में

(१) प्रतापगढ़ राज्य का राजनैतिक सम्बन्ध प्रारम्भ में मालवा के एजेंट गवर्नर जेनरल के साथ रखा गया। फिर राजपूताना के राज्यों के लिए पृथक् एजेंट गवर्नर-जेनरल का पद निर्धारित होने पर उसकी अधीनता में मेवाड़ में पोलिटिकल एजेंट रखा गया, जो नीमच में रहता था। इसी कारण मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल रॉविन्सन को डूंगरपुर के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि डूंगरपुर राज्य का राजनैतिक सम्बन्ध भी मेवाड़ की एजेंसी के अन्तर्गत था। कर्नल रॉविन्सन ई० स० १८३८ से ५० (वि० सं० १८६५ से १९०७) तक मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट रहा और ई० स० १८५० ता० १७ जून (वि० सं० १९०७ ज्येष्ठ सुदि ८) को उसकी मृत्यु हुई। बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मणसिंह और कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह के बीच होनेवाले झगड़े में बांसवाड़ा की तरफ से ज्यादाती के अतिरिक्त जालसाज़ी भी प्रमाणित हुई। तब वहां मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट का असिस्टेंट रहना तय पाया गया, जिसके साथ पीछे से प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध भी रखा गया। तदनन्तर मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के ओहदे में परिवर्तन होकर उसका नाम रेज़िडेन्ट मेवाड़ रखा गया। उस समय बांसवाड़ा में रहनेवाला सरकारी अफसर असिस्टेंट रेज़िडेन्ट मेवाड़ कहलाने लगा। इसके पीछे असिस्टेंट रेज़िडेन्ट मेवाड़ का पद हटकर उसके स्थान में दक्षिणी राजपूताना के पोलिटिकल एजेंट के नवीन पद की सृष्टि हुई और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ राज्य तथा कुशलगढ़ ठिकाने का राजनैतिक सम्बन्ध उससे रखा गया, जो इस समय तक जारी है।

(२) महारावल जसवन्तसिंह (दूसरा) का उदयपुर राज्य के भूतपूर्व मन्त्री मेहता रामसिंह के नाम का वि० सं० १९०० फाल्गुन वदि १४ (पूर्णिमांत चैत्र वदि १४ = ई० स० १८४४ ता० १७ मार्च) का पत्र।

लिखा-पढ़ी कर उसे यह सुझाया कि दलपतसिंह एक ही जगह का स्वामी रह सकता है, दोनों जगहों का नहीं। इसपर अंग्रेज़ अफ़सरों ने इस विषय को विचारणीय रक्खा; परन्तु जसवन्तसिंह का डूंगरपुर में रहना उपद्रव-जनक समझ उसका वृन्दावन में रहना स्थिर होकर वि० सं० १६०१ (ई० स० १८४५) में वह वृन्दावन भेज दिया गया और एक सहस्र रुपये प्रति मास उसके व्यय के लिए नियत हुए^१। नांदली का ठाकुर हिम्मतसिंह, जो इस उपद्रव का मूल कारण बतलाया गया था, बंदी किया गया और महारावल को बहकानेवाले कुछ आदमी भी बंदी किये गये, जिससे उस समय उपद्रव शांत हो गया। फिर पूर्ववत् दलपतसिंह ही, कई बाधाएं उपस्थित होने पर भी, डूंगरपुर का राज्य-कार्य चलाता रहा।

वि० सं० १६०२ पौष सुदि ६ (ई० स० १८४६ ता० ३ जनवरी) को महारावल जसवन्तसिंह का वृन्दावन में ही देहान्त हो गया।

महारावल जसवन्तसिंह का वृन्दावन में देहान्त होना और सावली के ठाकुर के पुत्र उदयसिंह का डूंगरपुर का स्वामी होना

महारावल दलपतसिंह प्रतापगढ़ में रहता हुआ डूंगरपुर राज्य को भी अपने अधिकार में रखना चाहता था। यह बात जसवन्तसिंह को अखरती थी, इसलिए उसने दलपतसिंह को डूंगरपुर के राज्य से वंचित रखने के लिए अंग्रेज़ अफ़सरों से प्रकट वा अप्रकट रूप से कई बार अनुरोध भी किया; परन्तु महारावल सामन्तसिंह की विद्यमानता के कारण उस समय इस विषय पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। सामन्तसिंह के देहावसान के पीछे दलपतसिंह के प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठने, डूंगरपुर में जसवन्तसिंह के नांदली के ठाकुर के पुत्र मोहकमसिंह को गोद लेने के बारे में उपद्रव होने और फिर जसवन्तसिंह का वृन्दावन में देहान्त हो जाने पर उसकी राणियों, सरदारों आदि-द्वारा वहां उत्तराधिकारी नियत करने के सम्बन्ध में प्रार्थनाएं होने पर अंग्रेज़ सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंह-द्वारा पोलिटिकल अफ़सरों के पास दलपतसिंह के डूंगरपुर

(१) एचिसन; ट्रीटीज़, एंग्रेजमेंट्स एण्ड सनडज़; जि० ३, पृ० ४४१।

पर अधिकार रहने के सम्बन्ध में विरोध किया गया। इस प्रश्न पर अंग्रेज़ सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करने लगी। महारावत दलपतसिंह के उस समय कोई कुंवर न था। इसलिए बहुत कुछ सोच-विचार के पीछे यह निश्चय किया गया कि महारावत दलपतसिंह डूंगरपुर के राजवंश में से किसी व्यक्ति को अपना दत्तक बना लेवे, जो डूंगरपुर का स्वामी रहे। अंग्रेज़ सरकार के इस निर्णय को डूंगरपुर की राजमहिषियो, सरदारों आदि ने भी स्वीकार किया। अन्त में डूंगरपुर के राजवंश में से साबली के ठाकुर जसवन्तसिंह के तृतीय पुत्र उदयसिंह को वहाँ की राजमहिषियों तथा सरदारों ने दलपतसिंह की गोद धिठाया और उस(उदयसिंह)को दलपतसिंह के पास भेजा, जिसको उस(दलपतसिंह)ने भी स्वीकार कर अंग्रेज़ सरकार के पास इस निर्णय की स्वीकृति के लिए आकांक्षा प्रकट की। अंग्रेज़ सरकार ने भी उदयसिंह की गोदनशीली को स्वीकार किया और वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में वह (उदयसिंह) डूंगरपुर का स्वामी बनाया गया; किन्तु उसकी बाल्यावस्था के कारण वहाँ का शासन दलपतसिंह की सम्मति के अनुसार होना स्थिर हुआ और उसकी विद्यमानता में अंग्रेज़ अधिकारी उस(उदयसिंह)को कुंवर ही लिखते रहे।

वि० सं० १६०५ आषाढ वदि १३ (ई० स० १८४८ ता० २६ जून) को महारावत दलपतसिंह के कुंवर उदयसिंह का जन्म हुआ। एक लंबी अवधि के बाद महारावत के वहाँ कुंवर का जन्म होने से बड़ा हर्ष मनाया गया और वहाँ की प्रजा भी प्रफुल्लित हो गई। महारावत ने अपने राज्य की स्थिति के अनुसार इस अवसर पर बहुत कुछ उदारता प्रकट की।

डूंगरपुर राज्य का प्रबन्ध महारावत दलपतसिंह की आज्ञानुसार वि० सं० १६०६ (ई० स० १८५२) तक होता रहा, परन्तु वहाँ के सरदार

डूंगरपुर का शासनाधिकार
छूटना

सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह, जब भी उनका स्वार्थ सिद्ध न होता, राज्य में कोई उपद्रव कर बैठते थे। इससे राज्य-प्रबन्ध में सुधार

नहीं हो पाता था और राज्य ऋण-ग्रस्त हो गया। इस ओर पोलिटिकल आफिसरों के ध्यान दिलाने पर महारावत दलपतसिंह ने सूरमा अभयसिंह और सोलंकी उदयसिंह को कामदार के पद से हटाकर ठाकरड़े के ठाकुर गुलाबसिंह और गुलाबचन्द गांधी को उस पद पर नियत किया। उन्हीं दिनों अंग्रेज़ सरकार ने भी वहाँ के शासन-प्रबन्ध को ठीक करने के लिए मुंशी सफ़दरअलीख़ां को डूंगरपुर भेजा, जिसके वहाँ पहुँचने पर सूरमा अभयसिंह आदि ने अपना स्वार्थ सिद्ध न होता देख पांच हज़ार भीलों को एकत्रित कर उपद्रव करना चाहा, जिसका खेरवाड़ा से कप्तान ब्रुक ने जाकर दमन किया और कर्नल रॉबिन्सन के लिखने पर उपद्रवियों को दण्ड देने के लिए महारावत दलपतसिंह ने भी प्रतापगढ़ से अपनी सेना भेज दी। कप्तान ब्रुक के साथ मेवाड़ भील-कोर के डूंगरपुर पहुँचने और उस समय प्रतापगढ़ से भी सेना आ जाने से अभयसिंह और उसके साथी भय-भीत हो गये, जिससे वहाँ का उपद्रव शांत हो गया। अन्त में अभयसिंह और उदयसिंह प्रतापगढ़ जाकर महारावत के पास उपस्थित हुए और उन्होंने पच्चीस हज़ार रुपये महारावत को नज़राने के देकर अपने कुसूरों की माफ़ी चाही और भविष्य के लिए इमानदार बने रहने का इत्तफ़ाक़ लिख दिया। उपर्युक्त कार्यवाही के पीछे भी वहाँ शासन-कार्य में गड़बड़ी होने लगी और लोग अव्यवस्था का सारा दोष महारावत दलपतसिंह के मत्थे मढ़कर उसकी शिकायत कराने लगे। तब कप्तान ब्रुक ने खेरवाड़ा से डूंगरपुर जाकर इस मामले की तहकीकात की और महारावत के डूंगरपुर के कार्यों में हस्तक्षेप से ही अव्यवस्था होना बतलाया। इसपर मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट जॉर्ज लारेंस डूंगरपुर गया। उस समय सूरमा अभयसिंह आदि ने कई सरदारों और प्रजा आदि को मिलाकर महारावत की शिकायत करवाई। जॉर्ज लारेंस ने महारावत को प्रतापगढ़ से डूंगरपुर

में बुलाया और वहां के प्रबन्ध के विषय में महारावत को नौ शर्तें लिखकर दीं, परन्तु महारावत ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसपर लॉरेंस ने दलपत-सिंह-द्वारा झुंगरपुर के शासनकार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने के लिए सदर में रिपोर्ट की, जिसकी स्वीकृति आने पर महारावत का झुंगरपुर से दखल उठा दिया गया।

भारत के गवर्नर जेनरल लॉर्ड डलहौज़ी की अनुदार नीति के कारण सारे भारत में असंतोष फैल गया था, ऐसे में बंगाल के सैनिकों

सिपाही विद्रोह के समय
अंग्रेज सरकार को प्रताप-
गढ़ राज्य से सहायता
मिलना

में एक नई बन्दूक, जिसके कारतूस के सिरे को दांत से काटना पड़ता था, प्रचार किया गया। इस बन्दूक के संबंध में ई० स० १८५७ के जनवरी (वि० सं० १६१३ माघ) मास में यह अफ़वाह फैली

कि इसके कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। क्रमशः भारत के प्रत्येक स्थान में फैलती हुई जब यह बात धर्मभीरु भारतीय सैनिकों के कानों तक पहुंची, तब वे धर्मनाश की आशंका से विचलित होकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हो गये। सर्वप्रथम कलकत्ते के पास दम-दम की छावनी में सिपाही विद्रोह के लक्षण प्रकट हुए। फिर शनैः-शनैः बाराकपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी आदि स्थानों के सैनिक भी विगड़ उठे और इस विद्रोह में अन्य कई व्यक्तियों ने भी, जिनका स्वार्थ सिद्ध न होता था, भाग लिया^१।

ब्रिटिश भारत के इस सिपाही विद्रोह का प्रभाव राजपूताने की अंग्रेजी छावनियों पर भी बहुत कुछ पड़ा और वहां भी अधिकांश स्थानों में सिपाही विद्रोह हो गया। ता० २७ मई (वि० सं० १६१४ ज्येष्ठ सुदि ४) को मुहम्मदअली नामक सवार के बहकाने से नीमच की सेना भी वागी हो गई और उसने छावनी जलाकर खज़ाना लूट लिया। उस समय मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स आबू से उदयपुर गया हुआ था। ता० ६ जून (ज्येष्ठ सुदि १४) को यह समाचार पाते ही वह वहां से उदयपुर की

(१) मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास, जि० २, पृ० ७६७।

सेना के साथ रवाना हुआ। मार्ग में उसने डूंगला गांव में चाशियों से घिरे हुए चालीस अंग्रेज़, जिनमें औरतें और बच्चे आदि भी शामिल थे, छुड़वाकर उदयपुर पहुंचाये। तदनंतर वह नीमच पहुंचा और वहां पुनः अधिकार कर छावनी का प्रबन्ध कप्तान लॉयड को सौंपकर स्वयं चाशियों के पीछे रवाना हुआ। उस समय कप्तान लॉयड के पास छावनी की रक्षा के लिए सैनिकों की पूर्ण आवश्यकता थी, अतएव उसने महारावत दलपतसिंह से भी सेना भेजने की दख्ख्वास्त की। इसपर महारावत ने कप्तान लॉयड के पास अपने यहां से सेना भेज दी, जिसने नीमच की रक्षा का अच्छा प्रबंध किया। फिर वहां अंग्रेज़ी सेना पहुंच जाने पर कप्तान लॉयड ने महारावत की सेना को सीख दी। इस सेवा के सम्बन्ध में मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स ने वि० सं० १६१४ श्रावण सुदि २ (ई० सं० १८५७ ता० २३ जुलाई) को महारावत के नाम शुक्रगुजारी का खरीता भेजा, जिसका सारांश नीचे लिखे अनुसार है—

“.....आपने नीमच के सुपरिन्टेन्डेन्ट कप्तान लॉयड की दख्ख्वास्त पर अंग्रेज़ सरकार की मित्रता का ध्यान रखते हुए नीमच की छावनी की रक्षार्थ सवार और पैदल भेजे। उन्होंने सरकार की इच्छा के अनुसार बड़े यत्न और होशियारी के साथ काम किया, जिसके लिये हम अनुगृहीत हैं। हम उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न रहे। अब सरकारी सेना नीमच की छावनी में आ गई है, इसलिए वहां की सेना को कष्ट देना उचित न समझकर विदा करता हूँ।”.....

उन्हीं दिनों फ़ीरोज़ नामक एक हाजी अपने को दिल्ली के मुग़ल वंश का शाहज़ादा बतलाकर मंदसौर के पास कचरोद गांव (खाचरोद, ग्वालियर राज्य) में पहुंचा और वहां के निवासियों को बहकाकर उसने उपद्रव खड़ा कर दिया, जिसपर मंदसौर के सूबेदार ने उसको वहां से भगा दिया।

(१) शॉवर्स, ए मिसिंग चैप्टर ऑव इंडियन म्युटिनी, पृ० ८-३२।

(२) महारावत दलपतसिंह के नाम मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स का हिन्दी खरीता।

फिर उसने दो हजार आदमियों के साथ जाकर ता० ७ सितंबर (आश्विन वदि ४) को मंदसोर पर आक्रमण किया, जिसमें वहां का सूबेदार मारा गया और वहां उसका अधिकार हो गया। फिर निम्वाहेड़ा (वर्तमान टोंक राज्य का क़स्बा) का मुसलमान हाकिम नीमच ज़िले के जीरण गांव पर मंदसोर के वागियों को चढ़ा लाया। जब यह खबर नीमच पहुंची, तब वागियों का सामना करने के लिए ता० २३ अक्टोबर (कार्तिक सुदि ५) को कप्तान लॉयड, कप्तान सिम्पसन आदि ११ अफ़सरों, चारसौ सिपाहियों और दो तोपों के साथ जीरण पहुंचे, परंतु वहां अंग्रेज़ी सेना की हार हुई। फिर वागी-दल जीरण लूटकर मंदसोर चला गया। ता० ८ नवम्बर (मार्गशीर्ष वदि ७) को उनका नीमच पर आक्रमण हुआ। वहां अंग्रेज़ी सेना से लड़ाई होने पर अंग्रेज़ सैनिक क़िले में चले गये। कप्तान शॉवर्स ने उदयपुर की सेना के साथ वागियों का मुक़ाबला किया, किन्तु सायंकाल हो जाने से लड़ाई बंद हो गई और कप्तान शॉवर्स उदयपुर की सेना के साथ दारू गांव (वर्तमान ग्वालियर राज्य) में होता हुआ केसूदा गांव (मेवाड़ राज्य) में चला गया। दूसरे दिवस वागियों ने छावनी को लूटकर जला दिया। इसके उपरान्त जावद, रतनगढ़, सांगोली आदि नीमच के समीपवर्ती गांवों और क़स्बों में भी विद्रोह हो गया। ज्योंही यह समाचार कप्तान शॉवर्स को मिला, वह तत्काल लेफ़्टेनेंट फ़र्कहर्सन को लेकर वहां से चला और वगाणा तथा निकसनगंज में वागियों के ठहरने की खबर पाकर वहां पहुंचा। फिर वागियों से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें बहुत से विद्रोही मारे गये और श्रेय तितर-बितर हो गये। इस घटना के अनन्तर मालवे की ओर से मध्य भारत का एजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नल ज्यूरेंड मूह के सिपाहियों को साथ लेकर मंदसोर पहुंचा। वहां विद्रोहियों से उसका मुक़ाबला हुआ, जिसमें फ़ीरोज़ तो हारकर भाग गया, पर उसके बहुत से साथी और सिपाही पकड़े गये। मंदसोर से वह (ज्यूरेंड) नीमच गया। उसके पहुंचते ही वहां से भी वागी भाग गये। नवम्बर ई० स० १८५७ (मार्गशीर्ष वि० सं० १६१४) में

(१) सी० एल० शॉवर्स, ए मिसिस चैम्पर ऑव इंडियन स्टुडिन्स, पृ० ११३-२०।

वागियों का एक दल प्रतापगढ़ की ओर गया। उस समय महारावत स्वयं अपने राजपूतों को साथ लेकर उनके मुक्तावले के लिए आगे बढ़ा। वागी दल का मुखिया क्लासिमखां विलायती अपने ८० आदमियों-सहित मारा गया। कर्नल ड्यूरेड की अधीन सेना को रसद-सामग्री भिजवाने आदि का भी महारावत ने यथेष्ट प्रबंध किया था और वागी दल के मुखिया का मस्तक काटकर महारावत ने कर्नल ड्यूरेड के पास भेजा। महारावत की इस सेवा से अंग्रेज़ अफ़सरों तथा कर्नल ड्यूरेड को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने ता० १ दिसंबर (मार्गशीर्ष सुदि १५) मंगलवार को कप्तान शॉवर्स पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पास नीचे लिखी सूचना भेजी—

“...मैंने प्रतापगढ़ के स्वामी के मोतमिद को एक पत्र दिया है और आपको लिखता हूँ कि मैं प्रतापगढ़ के राजा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्होंने सेना के लिए रसद (सामान) अच्छी तरह से भिजवाई और अराजकों को सज़ा देने में पूर्ण प्रयत्न किया। वे उन(वागियों)के सरदार को गिरफ़्तार कर भेजते, किन्तु मुक्तावला करने से उन्होंने उसको मारा और उस(मुखिया)का सिर मेरे पास आया है।”

पोलिटिकल-एजेंट मेवाड़-द्वारा यह सम्वाद कर्नल-जॉर्ज लॉरेंस (स्थानापन्न एजेंट गवर्नर-जेनरल, राजपूताना) को मिलने पर उसने ई० स० १८५८ ता० ५ फ़रवरी (वि० सं० १६१४ फाल्गुन वदि ७) को महारावत के नाम नीचे लिखे आशय का खरीता भेज प्रसन्नता प्रकट की—

“...इन दिनों मुझको मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के पत्र से मालुम हुआ है कि आपने सरकारी आदमियों को सहायता देने में बहुत प्रयत्न किया है और कर्नल ड्यूरेड एजेंट गवर्नर जेनरल, सेंट्रल इंडिया के साथ रहनेवाली सेना को आवश्यक रसद सामग्री पहुंचाने में पूरी सहायता दी है। यह खबर सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसी खैरख्वाही की सरकार को आपसे आशा थी, वैसी प्रकट हुई। अब मैं आपकी

(१) मध्यभारत के एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल ड्यूरेड के पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ के नाम के अंग्रेज़ी खत का आशय।

इस खैरख्वाही की सूचना सदर को कर रहा हूं। साहेब आलीशान आपकी इस मित्रता से बहुत प्रसन्न होंगे।”

क्रासिमखां विलायती आदि वागी दल के लोगों के महारावत-द्वारा मारे जाने की रिपोर्ट मालवा तथा सेंट्रल इंडिया के एजेंट गवर्नर-जेनरल-द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जेनरल (बड़े लाट) लॉर्ड कैनिङ्ग के पास पेश होने पर उसको बड़ा संतोष हुआ और उसने राजपूताना के एजेंट गवर्नर जेनरल को महारावत के नाम प्रसन्नता-सूचक पत्र भेजने को लिखा। इसपर राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नल जॉर्ज लॉरेंस ने वि० सं० १६१५ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८५८ ता० २० मार्च) को महारावत के नाम निम्न-लिखित आशय का खरीता भेजा—

“...इन दिनों एजेंट गवर्नर-जेनरल, सेंट्रल इंडिया तथा पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ की तरफ से यह रिपोर्ट हुई है कि आपने स्वयं और सेना को साथ में रखकर कर्नल ड्यूरेड एवं सरकारी सेना को मंदसोर के फ़सादियों को सज़ा देने में यथेष्ट सहायता दी है। आपकी इस खैरख्वाही और उत्तम मित्रता से नब्वाव गवर्नर जेनरल अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा मुझको यह आश्वासन मिली है कि उनकी ओर से खुशनुदी मिज़ाज की सूचना दूं और इस खत के ज़रिये आपकी सहानुभूति का धन्यवाद करूं।...”

भांसी, सतारा आदि राज्यों के उत्तराधिकारी के अभाव में लॉर्ड डलहौज़ी-द्वारा ज़त हो जाने के कारण कई मरहटे सरदार भी अंग्रेज़ सरकार से असंतुष्ट थे और भारत में पुनः मरहटा साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए कुछ मरहटे सरदारों ने भी विद्रोह पर कमर बांधी और पेशवा के वंशज राव साहव

(१) जॉर्ज लॉरेंस, एजेंट गवर्नर जेनरल, राजपूताना का महारावत दलपतसिंह के नाम का खरीता ।

(२) राजपूताने के एजेंट गवर्नर कर्नल जॉर्ज लॉरेंस के उर्दू खरीते का आशय ।

तथा उसके सहायक तांतिया टोपी ने विद्रोहियों का नेतृत्व कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ई० स० १८५८ के जुलाई (वि० सं० १६१५ आषाढ) मास में सर ह्यूरोज़ ने उनको वहां से निकाल दिया। तब वे पांच हजार वारियों के साथ मेवाड़ के पूर्वी भाग में जालिंधरी के घाटे के मार्ग से मांडलगढ़, रतनगढ़ तथा सींगोली होते हुए रामपुरे की ओर रवाना हुए; किंतु त्रिगेडियर पार्क तथा मेजर टेलर ने उस ओर का रास्ता रोक लिया। तब वे बरसल्यावास होते हुए भीलवाड़ा पहुंचे। ता० ६ अगस्त (श्रावण वदि ३०) को सांगानेर के पास कोटेश्वरी नदी के किनारे जेनरल रॉबर्ट्स की सरकारी सेना से उनका मुकाबला हुआ, जिसमें वे हारकर भागे और मेवाड़ के पश्चिम की तरफ चल दिये। अंग्रेज़ी सेना ने उनका पीछा किया और नाथद्वारा के पास कोठारिया के समीप ता० १४ अगस्त (श्रावण सुदि ६) को वारियों का सरकारी सेना से मुकाबला हुआ, जिसमें वे हारकर वहां से भी भागे। अनन्तर आकोला के मार्ग से चित्तोड़ से दक्षिण की तरफ होकर जाट और सींगोली को लूटते हुए वे भालावाड़ पहुंचे। वहां भी त्रिगेडियर पार्क ने उनका पीछा न छोड़ा। तब वे छोटा उदयपुर पहुंचे, जहां उक्त त्रिगेडियर ने उनको परास्त किया। रावसाहब, देवगढ़ वारिया से पृथक् हो गया था, परंतु तांतिया टोपी कुशलगढ़ के रास्ते से वांसवाड़ा पहुंचा। इधर से कप्तान लियरमाउथ फ्रौज़ समेत वहां जा पहुंचा, जिससे तांतिया टोपी वहां से भागकर सलूंवर होता हुआ, भीडर की तरफ बढ़ा। उसका इरादा उदयपुर जाने का था, किंतु उधर का मार्ग रुका हुआ होने तथा सरकारी सेना-द्वारा नाकेबंदी हो जाने से वह पहाड़ी मार्ग-द्वारा प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ा। उस समय तीन-चार हजार भील भी तांतिया के शामिल हो गये थे। प्रतापगढ़ के महारावत-द्वारा वारि-दल के मुखिया क्रासिमअली आदि के मारे जाने से तांतिया टोपी प्रतापगढ़ के क़स्बे को, जो संपन्न था, लूटना चाहता था; परंतु ठीक समय पर सरकारी सेना के साथ मेजर रॉक वहां पहुंच गया, जिससे वारि दल प्रतापगढ़ को न लूट सका और वहां से वह पीप वदि ३ (ई० स० १८५८ ता० २३ दिसंबर)

को शिकस्त खाकर भागा। इस लड़ाई में वागियों के बहुत से आदमी पकड़े तथा मारे गये और उनके हाथी, घोड़े आदि छीन लिये गये। तांतिया टोपी मंदसोर होता हुआ जीरापुर पहुंचा। वहां कर्नल वेंसन से उसकी पराजय हुई; किंतु इसी अवसर पर दो हजार आदमियों के साथ वागी फ़ीरोज़शाह उससे जा मिला, जिससे वह माघ सुदि १५ (ई० स० १८५६ ता० १७ फ़रवरी) को फिर मेवाड़ होता हुआ कांकरोली चला गया, पर त्रिगेडियर सॉमरसेट तथा कप्तान शॉवर्स के पहुंच जाने से उसके वहां पैर न टिके और पहाड़ों में होता हुआ वह पुनः वांसवाड़ेके करीब जा पहुंचा। त्रिगेडियर सॉमरसेट उसका पीछा करता हुआ वहां भी गया और उसने वागियों को रास्ते में ही जा दबाया। वागियों के कई सरदार फ़ीरोज़शाह, अबुलशतरखां, पीर हज़ूरअली आदि ने आत्मसमर्पण किया। तांतिया टोपी पेरोन के जंगल में जा छिपा। ता० ७ अप्रैल (वि० सं० १६१६ चैत्र वदि ४) को वहां पकड़ा जाकर वह सिप्री लाया गया, जहां उसे फांसी दी गई।

उपर्युक्त सिपाही-विद्रोह का प्रभाव भारत में लगभग दो वर्ष के ऊपर बना रहा। अंग्रेज़ अधिकारियों की कार्यतत्परता और स्फूर्ति तथा भारत के नरेशों के सहयोग से उसका दमन शीघ्र हो गया। ग़दर के अंतिम दिनों में भारत का शासन-सूत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से स्वर्गीय महाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लेकर भारत के तत्कालीन गवर्नर जेनरल को शासन-कार्य के लिए अपना वाइसरॉय (प्रतिनिधि) बनाया। भारतीय नरेशों और प्रजा वर्ग में संतोष की वृद्धि के लिए महाराणी की ओर से ई० स० १८५८ ता० १ नवम्बर (वि० सं० १६१५ कार्तिक वदि ११) को शाही घोषणापत्र जारी किया गया, जिसमें भारतीय नरेशों की मान मर्यादा बनी रहने, उनके स्वत्वों एवं धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का

(१) सी० एल० शॉवर्स; ए मिसिंग चैप्टर ऑव् इंडियन म्युटिनी, पृ० १४०-१।
ज्वालासहाय; दि लॉयल राजपूताना, पृ० २५२-३।

(२) सी० एल० शावर्स; ए मिसिंग चैप्टर ऑव् इंडियन म्युटिनी, पृ० १४३-
४६। ज्वालासहाय, दि लॉयल राजपूताना, पृ० २५२-३।

हस्तक्षेप न होने तथा ईस्ट इंडिया कंपनी-द्वारा की गई संधियां बहाल रहने, प्रजा के स्वत्व, इज्जत, ओहदे तथा धर्म को अपने धर्म के समान ही मानने आदि का उल्लेख है^१ ।

महारावत दलपतसिंह-द्वारा सिपाही विद्रोह के समय पूर्ण सहायता दी गई थी, जिसकी सरकारी अफसरों ने भी पूर्ण सहायता की। फिर गढ़ समाप्त हो जाने पर अंग्रेज सरकार ने उसके लिए दो हजार रुपये के मूल्य की खिलअत भेजना तज़वीज़ किया और वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिङ्ग तथा एजेंट गवर्नर जेनरल के महारावत के नाम के खरीते भी मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट मेजर टेलर-द्वारा भेजे गये^२ तथा उपर्युक्त खिलअत भी उसको यथा-समय प्राप्त हुई ।

सिपाही विद्रोह के समय महारावत की आज्ञानुसार उसके मन्त्री निहालचंद खासगीवाले, शाह भोजराज और जोधकरण पाडलिया ने अच्छी सेवा बजाई और उन्होंने प्रतापगढ़ क़स्बे की रक्षा का, जो मंदसोर के निकट है, अच्छा प्रबन्ध रखा एवं प्रतापगढ़ के इलाक़े में बागियों-द्वारा कोई हानि न पहुँचने दी, जिसकी महारावत को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उन लोगों की कद्र की ।

अपुत्रावस्था में राज्य जप्त करने की लॉर्ड डलहौज़ी की नीति को विग्रहकारी समझ गढ़ समाप्त होने के पीछे अंग्रेज सरकार ने भारत के गोदनशीनी की सनद मिलना देशी राजाओं का दत्तक पुत्र रखने का अधिकार वाजिब समझा । तदनुसार महाराणी विक्टोरिया की आज्ञानुसार समस्त देशी राज्यों के पास लॉर्ड कैनिङ्ग के हस्ताक्षर-सहित सनदें भेजी गईं । तदनुसार अंग्रेज सरकार की ओर से प्रतापगढ़ राज्य में भी ई० स० १८६२ ता० ११ मार्च (वि० सं० १६१८ फाल्गुन सुदि १०)

(१) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १६८०-८८ । मेरा उदयपुर राज्य का इतिहास; जि० २, पृ० ७८६ ।

(२) मेजर टेलर, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का महारावत दलपतसिंह के नाम का वि० सं० १६१७ आषाढ वदि १ ई० स० १८६० (ता० ४ जून) का पत्र ।

की लिखित वाइसरॉय लॉर्ड कैनिङ्ग के हस्ताक्षर-सहित यह सनद पहुंची, जो नीचे लिखे अनुसार है—

“श्रीमती महाराणी विक्टोरिया की यह इच्छा है कि भारत के राजाओं तथा सरदारों का अपने-अपने राज्यों पर अधिकार तथा उनके वंश की जो प्रतिष्ठा एवं मान-मर्यादा है, वह हमेशा बनी रहे, इसलिए उक्त इच्छा की पूर्ति के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वास्तविक उत्तराधिकारी के अभाव में यदि आप या आपके राज्य के भावी शासक हिंदू धर्मशास्त्र और अपनी वंश-प्रथा के अनुसार दत्तक लेंगे तो वह जायज़ समझा जायगा।

“आप यह निश्चय जानें कि जब तक आपका घराना सरकार का खैरख्वाह रहेगा और उन अहदनामों, सनदों तथा इक्करारनामों का पालन करता रहेगा, जिनमें अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसके कर्त्तव्य दर्ज हैं, तब तक आपके साथ के इस इक्करार में कोई बात बाधक न होगी।”

महारावत दलपतसिंह का वि० सं० १६२० चैत्र वदि ७ (ई० स० १८६४ ता० ३० मार्च) को परलोकवास हुआ। उसके चार राणियां थीं जिनके नाम प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात में नामली (रतलाम राज्य) के सोनिगरा ठाकुर फ़तहसिंह की कुंवरी दौलतकुंवरी, कुशलगढ़ (वांस-वाड़ा राज्य) के राठोड़ राव ज़ालिमसिंह की पुत्री। मोतीकुंवरी एवं उसी ज़ालिमसिंह की पौत्री और हम्मीरसिंह की पुत्री केसरकुंवरी तथा वांसणा (गुजरात) ठिकाने के केरण्या गांव के राठोड़ ठाकुर दौलतसिंह की पुत्री कल्याणकुंवरी दिये हैं^२। उसके केवल एक ही पुत्र महाराजकुमार

(१) एचिसन, हीटीज़ एगोजमेंट्स एंड सनदज़, जि० ३, पृ० ४४२ तथा पृ० ३५।

(२) प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात, पृ० ११। प्रतापगढ़ राज्य से प्राप्त एक ख्यात में उक्त महारावत के चार ही राणियां लिखी हैं, परन्तु उनके नामों में अन्तर है। वहां उसकी दूसरी राणी कुशलगढ़वाली का नाम केसरकुंवरी और उसका राव

उदयसिंह था, जिसका जन्म कुशलगढ़वाली राणी के उदर से हुआ था^१।

महारावत दलपतसिंह, प्रतापगढ़ राज्य में नीतिकुशल राजा हुआ है। उसमें राज्य प्रबंध की अच्छी योग्यता थी, अतएव उसने डूंगर-

महारावत का व्यक्तित्व

पुर और प्रतापगढ़ राज्य का प्रबंध कुशलतापूर्वक किया। वह मित्रता का निवाहनेवाला राजा

था। सिपाही-विद्रोह में स्वयं उसने अपनी सेना के साथ भाग लिया था।

वह गुणवानों का सम्मान कर उन्हें पुरस्कृत करता और अपने कार्यकर्ता

मंत्रियों आदि को पुरस्कार, जागीर आदि देकर सदा उत्साहित करता

था। उसकी अपनी प्रजा के साथ गहरी सहानुभूति थी। उसके समय में

राज्य-कोष परिपूर्ण था। प्रतापगढ़ राज्य में जो वैभव है, उसका अधिकांश

श्रेय उसी को है। उसने देवलिया में सोनेलाव तालाव बनवाकर दलपत-

निवास नामक महल बनवाया था। उसकी प्रतिष्ठा के अवसर पर उसने

वारहट चारण लक्ष्मणदान को दो गांव और हाथी तथा महाराजकुमार

उदयसिंह के जन्म के अवसर पर पांच हाथी, दो सौ घोड़े और पांचसौ

सिरोपाव दिये थे एवं उसी अवसर पर उसने लाख पसाव में उपर्युक्त

लक्ष्मणदान को एक गांव, हाथी, घोड़ा, वस्त्राभूषण और दस सहस्र रुपये

देकर उसको अपना कविराज बनाया था। सरदारों आदि के साथ उसका

व्यवहार सदा अच्छा रहा। उसके मन्त्री शाह जड़ावचन्द, शाह निहालचंद

(ख्रासगीवाला), जोधकरण पाडलिया आदि कार्यनिपुण व्यक्ति थे, जिससे

उक्त महारावत के समय प्रजा की आवादी बढ़ी और राज्यश्री में भी वृद्धि

हुई। नांदली के ठाकुर हिम्मतसिंह के पुत्र मोहकमसिंह को डूंगरपुर के

हंमीरसिंह की पुत्री होना दिया है तथा उसी के उदर से कुंवर उदयसिंह का जन्म होना

वतलाया है। इसी प्रकार तीसरी राणी कडाया के पवार^२वस्तावरसिंह की पुत्री भवान-

कुंवरी और चतुर्थ राणी भी कुशलगढ़ के राव हंमीरसिंह की पुत्री लालकुंवरी लिखी है।

इन दोनों राणियों का तो बढ़वे की रियात में कुछ भी उल्लेख नहीं है। एक स्थान पर

उसके छः राणियों भी लिखी हैं और दो विवाह डूंगरपुर में रहते हुए होने का उल्लेख है।

(१) प्रतापगढ़ राज्य की एक प्राचीन रियात, पृ० १५ ।



महारावत उदयसिंह

महारावल जसवन्तसिंह (दूसरा) के दत्तक रखने के सम्बन्ध में वहां चखेड़ा होकर हिम्मतसिंह कैद किया गया। उसके प्रति भी महारावत ने अपने शासन-काल में सौजन्य दिखलाकर उसको मुक्तकर उसकी जागीर पीछी उसे दे दी, जो उसकी उदार नीति का परिचय देती है। उसकी एक राणी लालकुंवरी ने वृन्दावन में राधावल्लभ का मन्दिर बनवाया था।

उदयसिंह

महारावत उदयसिंह का जन्म वि० सं० १६०५ आषाढ वदि १३ (ई० सं० १८४८ ता० २६ जून) को हुआ था और वह वि० सं० १६२० चैत्र वदि ७ (ई० सं० १८६४ ता० ३० मार्च) को अपने पिता के पीछे प्रतापगढ़ राज्य का स्वामी हुआ। उस(उदयसिंह)का प्रथम विवाह भूतपूर्व महारावत दलपतसिंह की विद्यमानता में नामली (रतलाम राज्य) के ठाकुर तरूतसिंह की पुत्री सरूपकुंवरी से हुआ था, जिसके उदर से कुछ समय बाद ही वि० सं० १६२२ ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० सं० १८६५ ता० २६ मई) सोमवार को उसके महाराजकुमार हस्मीरसिंह का जन्म हुआ, परंतु पांच वर्ष का होकर उक्त राजकुमार वि० सं० १६२६ (ई० सं० १८६९) में काल-कवलित हो गया।

राज्यारोहण के समय महारावत की आयु केवल सोलह वर्ष की थी, इसलिए मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन ने राजपूताना के एजेंट गवर्नर जेनरल की स्वीकृति से भूतपूर्व महारावत दलपतसिंह की इच्छा के अनुसार शाह जोधकरण पाडलिया और पंडित आपा की सलाह से शासन-कार्य चलाने के लिए महारावत के नाम खरीता भेजा और उन दोनों को भी वि० सं० १६२१ आषाढ सुदि ४ (ई० सं० १८६४ ता० ६ जुलाई) को पत्र भेज इसकी सूचना दी।

शासन-कार्य चलाने के सबंध में महारावत के नाम पोलिटिकल एजेंट का खरीता जाना

(१) कर्नल ईडन का शाह जोधकरण और पंडित आपा के नाम का वि० सं० १६२१ आषाढ सुदि ४ (ई० सं० १८६४ ता० ६ जुलाई) का पत्र।

इसके थोड़े समय बाद ही वि० सं० १६२२ पौष वदि १४ (ई० स० १८६५ ता० १७ दिसंबर) को राजपूताना के एजेंट गवर्नर जेनरल कर्नल ईडन ने मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट कर्नल निक्सन के साथ प्रतापगढ़ जाकर अंग्रेज़ सरकार की ओर से महारावत को गद्दीनशीनी की खिलअत दी और उसी अवसर पर सरकारी तौर से राज्याधिकार सौंपने की रसम भी अदा की गई^१ ।

एजेंट गवर्नर-जेनरल का गद्दी-
नशीनी की खिलअत लेकर
जाना

महारावत ने राज्यासीन होते ही शासन-कार्य लगन के साथ करना आरंभ किया । सर्वप्रथम उसने भील, भीणों आदि का दमन करने का निश्चय किया, जो लूट-खसोट कर जनता को कष्ट पहुंचाते थे^२ । महारावत जहां कहीं अपने राज्य में लूट-खसोट का समाचार सुनता, तत्काल घोड़े पर सवार होकर अपने राजपूत सवारों से पहले वहां जा पहुंचता^३ और उनसे मुक्कावला कर उनको ऐसा दंड देता कि वे फिर कभी ऐसा कार्य करने का साहस न करते । उसकी इस तत्परता को देख प्रतापगढ़ राज्य के भील, भीणे आदि उसके नाम से कांपने लगे और अधिकांश ने लूट-खसोट करना बन्द कर दिया, जिससे राज्य में चारों तरफ़ शांति स्थापित हो गई और राज्य की आवादी तथा आय बढ़ने लगी ।

भील और भीणों को दंड
देना


व्यापार एवं गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने मालवा की ओर रेल्वे लाइन निकालने का विचार किया और उस समय प्रतापगढ़ राज्य की कोई भूमि यदि रेल्वे के लिए आवश्यक हो तो देने के लिए महारावत से प्रस्ताव किया । इसपर वि० सं० १६२२ (ई० स० १८६५) में महारावत ने कुछ शर्तों के

रेल्वे निकालने के संवध में
अंग्रेज़ सरकार की महारावत
से बातचीत

(१) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० ५५६ ।

(२) वही, जि० १, पृ० ५६० ।

(३) वीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०६६-७ ।



साथ अपने राज्य की भूमि बिना मूल्य रेल्वे लाइन निकालने के लिए अंग्रेज़ सरकार को देना स्वीकार किया, परंतु फिर प्रतापगढ़ राज्य में होकर अंग्रेज़ सरकार ने रेल्वे लाइन निकालने का विचार स्थगित कर दिया, इसलिए अंतिम लिखा-पढ़ी नहीं हुई' ।

इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १६२३ (नवंबर ई० स० १८६६) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर-जेनरल, लॉर्ड लॉरेंस का आगरे महारावत का वाइसरॉय लॉर्ड लॉरेंस से मुलाकात करने आगरे जाना में आगमन हुआ । उस अवसर पर महारावत उदय-सिंह भी उक्त वाइसरॉय से मुलाकात करने के लिए आगरे गया, जहां वाइसरॉय ने महारावत से मिलकर प्रसन्नता प्रकट की । इस सफ़र से उस (महारावत) को अंग्रेज़ी अमलदारी में होनेवाली उन्नति का हाल ज्ञात हुआ । आगरा से लौटने के बाद युवक महारावत ने भी अपने राज्य में लाभदायक काम करने चाहे; परंतु कई बाधाएं उपस्थित हो गईं, जिससे उसके विचार कार्यरूप में परिणत न हो सके ।

देवलिया का जल-वायु अस्वास्थ्यकर होने से महारावत ने प्रताप-गढ़ क़स्बे की, जो स्वास्थ्य-प्रद है, उन्नति करने का विचार कर आवादी से एक मील दूर पूर्व की तरफ़ खुले मैदान में वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) में अंग्रेज़ी तर्ज़ का वंगला बनवाकर वहां रहना आरंभ किया, जिससे देवलिया की आवादी घटने लगी और वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में वहां के कई महल खाली हो गये । फलस्वरूप उसके समय से ही प्रतापगढ़ इस राज्य की राजधानी हुई और भूतपूर्व महारावत रघुनाथ-सिंह, महाराजकुमार मानसिंह और वर्तमान महाराजकुमार सर रामसिंहजी ने वहां कई इमारतें बनवाकर उसकी बहुत कुछ उन्नति की है ।

(१) एचिसन; ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स एंड सनदज़, जि० ३, पृ० ४४३ (पांचवां संस्करण) ।

(२) ज्वालासहाय; षक्ताये राजपूताना, जि० ३, पृ० ५२६ ।

उस समय तक प्रतापगढ़ राज्य की अंग्रेज़ सरकार की तरफ से सलामी की तोपों की संख्या नियत न थी। वि० सं० १६२४ (ई० सं० १८६७) में अंग्रेज़ सरकार ने इस राज्य की सलामी की पन्द्रह तोपें स्थायी रूप से नियत कीं^१।

वि० सं० १६२५ (ई० सं० १८६८) में राजपूताना में भयङ्कर अकाल पड़ा, जिससे प्रतापगढ़ राज्य भी बचा न रहा। थोड़ी वर्षा होने के कारण वहां उस साल नाज तथा घास कम पैदा हुई और वि० सं० १६२५ के अकाल में महारावत की उदारता फिर मारवाड़ आदि अन्य स्थानों से हज़ारों मनुष्य भूख-प्यास से व्याकुल हो अपने पशुधन को लेकर मालवा में चले गये। प्रतापगढ़ राज्य मालवा के निकट होने से वहां भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों के झुंड के झुंड जाने लगे। उस अवसर पर महारावत ने अपने राज्य की प्रजा और पशुओं की रक्षा करने के अतिरिक्त बाहर से आये हुए मनुष्यों एवं पशुओं की रक्षा करना भी अपना कर्त्तव्य समझा। इस कार्य के लिए बाहर से ग़ल्ला मंगवाकर सस्ते भाव से बेचने की व्यवस्था की गई; गरीबों के लिए खैरातखाने खोले गये, कई स्थानों पर सहायक कार्य जारी कर जागीरदारों को भी अकाल-पीड़ित व्यक्तियों को काम में लगाने के लिए आज्ञापत्र जारी की गई, बाहर से आनेवाले ग़ल्ले आदि सामान पर सायर का महसूल माफ़ किया गया तथा ता० १३ दिसंबर ई० सं० १८६८ (वि० सं० १६२५ पौष वदि ३०) को इस सम्बन्ध में नीचे लिखा इशतिहार जारी किया गया—

“वर्षा न होने से मारवाड़ तथा अन्य स्थानों में घास और नाज उत्पन्न नहीं हुआ है। इस वास्ते वहां के लोग पशुओं को बड़ी संख्या में लेकर मालवा में आये हैं। वहां अनाज तथा घास-पानी का अभाव होना स्पष्ट है। ईश्वर उनकी रक्षा करे। अकाल वर्ष के आरंभ से ही है और आगामी वर्ष की फ़सल शुरू होने तक रहेगा। अतएव आवश्यकता है कि

इस मुल्क के लिए प्रचुर अनाज मंगवाने का प्रयत्न किया जावे । यह आम्ना दी जाती है कि तमाम जागीरदार, अहलकार, पटेल, पटवारी आदि निम्नलिखित बातों की तामील करें तथा जब तक ज़माना ठीक न हो, यहां के निवासियों और बाहर के मनुष्यों को कष्ट न पहुंचावें—

(१) श्रावण सुदि १५ तक अनाज की निकासी तथा खानगी पर महसूल माफ़ किया जाता है ।

(२) जो परदेशी परिश्रम कर सकते हों वे इमारती कार्य में लगाये जावें, जैसे कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि ताकि मुसिवत के समय वे अपना निर्वाह कर सकें ।

(३) प्रतापगढ़ में राज्य का एक और साहुकारों के कई सदाव्रत हैं । उनके कार्य-कर्ताओं को सूचित किया जाता है कि मारवाड़ी तथा अन्य लोग जो खैरात मांगें, उनको पूरे तौर से अर्थात् प्रत्येक आदमी को सेर भर आटे से कम न दें ।

(४) अनाज को राज्य में लाकर एकत्रित करने की रोक नहीं है, तथापि इशितहार जारी किया जाता है कि अनाज के व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न होगा । इस मुल्क के समस्त व्यापारी अनाज अपने तौर पर खरीद कर बेचें । यही नहीं, उनको राज्य से सहायता भी दी जायगी । यदि कोई परदेशी सौदागर प्रतापगढ़ इलाक़े में गुल्ला लाना चाहे और रक्षा के लिए पहरा चाहे तो राज्य में सूचना करने पर पहरा मिल जावेगा । मार्ग रक्षित नहीं है, जिससे इस अकाल के समय सावधानी और निगरानी की आवश्यकता है ।

(५) जो पशु मारवाड़ तथा अन्य स्थानों से आये हुए हैं, वे पहाड़ के नज़दीक कटे हुए घास के बीड़ में बिना महसूल चरेंगे । यदि कोई शिकायत आवेगी कि किसी ने उनसे महसूल लिया है, तो महसूल लेने-वालों को सज़ा दी जावेगी ।

(६) रियासत के अहलकारों, जागीरदारों और मुत्सदियों को ज़रूरी है कि इस विषय में एजेंट गवर्नर-जनरल, राजपूताना ने जो इशितहार भेजा

है, उसका पूरा लिहाज़ रखे।”

उन दिनों महारावत की प्रवृत्ति कुछ पेयाशी की ओर बढ़ने लगी थी, जिससे शासन-प्रबंध में अव्यवस्था होने लगी। इसपर पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ ने प्रतापगढ़ के वकील को, जो उसके शासन-व्यवस्था में गड़बड़ी होना पास नियत था, महारावत को समझाने के लिए भेजा, जिसका महारावत पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने फिर रियासत के कार्य में ध्यान देना आरंभ किया तथा फिर रतलाम से कामदार के पद पर ओकारलाल व्यास को बुलाकर नियत किया।

तदनन्तर महारावत ने अपने राज्य की न्याय-व्यवस्था ठीक करने के लिए दीवानी तथा फ़ौजदारी अदालतें स्थापित कीं, परंतु अपराधियों के देन-लेन के विषय में कौल-करार न होने से उनकी गिरफ्तारी में बाधाएं उपस्थित होती थीं। अतएव वि० सं० १६२५ (ई० सं० १८६८) में महारावत और अंग्रेज़ सरकार के बीच कर्नल हचिन्सन, पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के द्वारा नीचे लिखा अहदनामा हुआ—

अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने के सम्बन्ध में अंग्रेज़ सरकार तथा देवलिया प्रतापगढ़ के राजा हिज़ हाइनेस उदयसिंह, उनके धाल-बच्चों, वारिसों तथा और उत्तराधिकारियों के बीच का अहदनामा, जिसको एक तरफ़ लेफ्टेनेंट-कर्नल अलेक्ज़ेंडर रॉस इलियट हचिन्सन, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट, मेवाड़ ने लेफ्टेनेंट कर्नल रिचर्ड हार्ट कीटिङ्ग, सी० एस० आई० तथा वी० सी० एजेंट गवर्नर-जेनरल राजपूताना के आदेश से, जिसे हिंदुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर-जेनरल दि राइट आनुरेवल्स सर जॉन लॉर्ड मेयर लारेंस वैंरोनेट, जी० सी० वी० एवं जी० सी० एस० आई० से तत्सम्बन्धी पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए थे और दूसरी तरफ़ राजा उदयसिंह ने तैयार किया—

(१) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० २६०-१।

(२) वही, जि० १, पृ० २५६-१।

शर्त पहली—कोई व्यक्ति चाहे वह अंग्रेज़ी इलाके की प्रजा हो, या किसी और की, अंग्रेज़ी इलाके में कोई संगीन जुर्म करे और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के भीतर पनाह ले तो प्रतापगढ़ राज्य उसको गिरफ्तार करेगा और तलब किये जाने पर साधारण नियम के अनुसार अंग्रेज़ सरकार को सौंप देगा ।

शर्त दूसरी—कोई व्यक्ति जो प्रतापगढ़ की प्रजा हो, प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के भीतर कोई भारी अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में शरण ले तो अंग्रेज़ सरकार उसको गिरफ्तार करेगी और तलब करने पर रीति के अनुसार प्रतापगढ़ राज्य को सौंप देगी ।

शर्त तीसरी—कोई आदमी, जो प्रतापगढ़ की प्रजा न हो, प्रतापगढ़ राज्य की सीमा के भीतर कोई बड़ा अपराध कर अंग्रेज़ी इलाके में आश्रय ले तो वह गिरफ्तार किया जायगा और उसके मुक़दमे का फ़ैसला वह अदालत करेगी, जिसको अंग्रेज़ सरकार आज्ञा दे । साधारण नियम के अनुसार ऐसे मुक़दमों का निर्णय उस पोलिटिकल एजेंट के इजलास में होगा, जिसके साथ प्रतापगढ़ राज्य का सम्बन्ध हो ।

शर्त चौथी—किसी भी अवस्था में कोई सरकार किसी व्यक्ति को, जिसपर किसी बड़े अपराध का अभियोग लगाया गया हो, तब तक सौंपने की पाबन्द न होगी, जब तक कि वह सरकार, जिसके इलाके में अपराध हुआ हो, अभियुक्त को कायदे के अनुसार तलब न करे और जुर्म की ऐसी शहादत पेश न हो, जिसके द्वारा जिस इलाके में वह (अपराधी) पाया जाय, उसके क़ानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी वाजिब समझी जाय और यदि वही अपराध उस इलाके में किया जाता तो वहां भी अभियुक्त अपराधी ठहराया जाता ।

शर्त पांचवीं—नीचे लिखे हुए अपराध संगीन अपराध समझे जायेंगे—

- | | |
|---|--------------------------|
| (१) मनुष्य वध | (४) ठगी |
| (२) मनुष्य वध करने का प्रयत्न | (५) धिप-प्रयोग |
| (३) उत्तेजना की दशा में किया हुआ दंडनीय मनुष्य वध | (६) बलात्कार |
| | (७) सान्त चोट पहुंचाना |

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| (८) बालक चुराना | (१६) जाली सिक्के बनाना तथा खोटे |
| (९) औरतों को बेचना | सिक्के चलाना |
| (१०) डाका डालना | (१७) दंडनीय विश्वासघात |
| (११) लूट करना | (१८) माल-अस्बाब श्रवण (हजम) |
| (१२) सेंध लगाना | करना, जो जुर्म समझा जाय |
| (१३) पशुओं की चोरी | (१९) ऊपर लिखे हुए अपराधों में |
| (१४) मकान जलाना | सहायता देना |
| (१५) जालसाजी | |

शर्त छठी—ऊपर लिखी हुई शर्तों के अनुसार किसी अपराधी को गिरफ्तार करने, रोक रखने या सुपुर्द करने में जो व्यय पड़ेगा, वह उस सरकार को देना पड़ेगा, जो उसको तलब करेगी ।

शर्त सातवीं—ऊपर लिखा हुआ अहदनामा तब तक कायम रहेगा, जब तक अहदनामा करनेवाले दोनों पक्षों में से कोई उसको तोड़ने की अपनी इच्छा दूसरे को न बतलावे ।

शर्त आठवीं—इस अहदनामे में जो शर्तें दी गई हैं, उनमें से किसी का भी असर ऐसे किसी अहदनामे पर न होगा, जो दोनों पक्षों के बीच पहले हुआ है, सिवाय किसी अहदनामे के उस अंश के जो इसके विरुद्ध हो ।

आज २२वीं दिसंबर ई० स० १८६८ (वि० सं० १६२५ पौष सुदि ८) को प्रतापगढ़ में तय हुआ ।

मुहर

(दस्तखत) ए० आर० ई० हार्चिसन्

लेफ्टेनेंट-कर्नल, स्थानापन्न पोलिटिकल एजेंट
मेवाड़ ।

मुहर

प्रतापगढ़ देवलिया के राजा की मुहर तथा दस्तखत ।

(दस्तखत) मेयो,

भारत का वाइसरॉय और गवर्नर-जेनरल ।

ई० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी (वि० सं० १६२५ फाल्गुन सुदि ८) को फ़ोर्ट विलियम (कलकत्ता) में भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल ने इस अहदनामे की तस्दीक की^१ ।

(दस्तख़त) डवल्यू० एस० सेटनकर,
सेक्रेटरी, भारत गवर्नमेंट, वैदेशिक विभाग ।

अट्ठारह वर्ष बाद इस अहदनामे की एक शर्त में परिवर्तन हुआ, जो नीचे लिखे अनुसार है—

ई० स० १८६६ ता० १६ फ़रवरी को अपराधियों के सौंपने के संबंध में अंग्रेज़ सरकार एवं प्रतापगढ़ राज्य के बीच जो अहदनामा हुआ था, उसमें अंग्रेज़ी इलाक़े से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में शरण लेनेवाले अपराधियों को सौंप देने के लिए जो तजवीज़ हुई थी, वह अनुभव से बृटिश भारत में प्रचलित क़ानूनी अमल से कम आसान और कम कारगर पाई गई । इसलिए इस इक्करारनामे के द्वारा अंग्रेज़-सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच स्थिर हुआ है कि भविष्य में अहदनामे की शर्तें, जिनमें अभियुक्तों की सुपुर्दगी की बाबत तजवीज़ हुई है, वह बृटिश भारत से भागकर प्रतापगढ़ राज्य में आश्रय लेनेवाले अपराधियों की सुपुर्दगी के विषय में लागू न होंगी और इस समय ऐसे प्रत्येक मामले में अपराधियों को सौंपने के संबंध में बृटिश भारत में जो क़ानूनी अमल जारी है, उसकी पाबंदी करनी होगी ।

ई० स० १८८७ ता० २६ अगस्त (वि० सं० १६४४ भाद्रपद सुदि ११) को प्रतापगढ़ में दस्तख़त हुए ।

मुहर

(दस्तख़त, हिन्दी भाषा में)

महारावत प्रतापगढ़ ।

मुहर

(दस्तख़त) ए० एफ० पिन्हे, लेफ़्टेनेन्ट,

असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेंट,

वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ।

ई० स० १८८८ ता० २८ मार्च (वि० सं० १६४५ द्वितीय चैत्र वदि १)

(१-) एचिसन; टीथीज़, पंगेजमेंट्स एण्ड सनदज़, जि० ३, पृ० ४६३-४ ।

को फ़ोर्ट विलियम में हिन्दुस्तान के वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल ने इस अहदनामे को मंज़ूर कर इसकी तसदीक़ की^१ ।

(दस्तख़त) एच्० एम्० ड्यूरंड,

सेक्रेटरी, भारत गवर्नमेंट, फ़ॉरेन विभाग ।

प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा राज्य की सीमाएं मिली हुई होने से कभी-कभी इन दोनों राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़े और उपद्रव होकर विरोध हो जाया करता था। उन दिनों (बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मणसिंह के राज्य समय) बांसवाड़ा-वालों ने प्रतापगढ़ राज्य के रायपुर ठिकाने के चोरी, रीछड़ी आदि गांवों का नवीन झगड़ा उठाया, जो प्रतापगढ़ राज्य के अधिकार में बहुत वर्षों से चले आते थे। इस झगड़े ने बड़ा भीषण रूप धारण किया और वि० सं० १६२३ आश्विन सुदि ६ (ई० स० १८६६ ता० १४ अक्टोबर) को रात्रि के समय बांसवाड़ावालों ने एक बड़ी सेना के साथ जाकर रायपुर के ठाकुर पर, जो उस समय वहां के थाने पर सीमा की रक्षा के लिए प्रतापगढ़ की तरफ़ से नियत था, आक्रमण कर दिया। रायपुर के ठाकुर और उसके साथी (प्रतापगढ़ के सरदार) उस समय अज्ञातधान थे, इसलिए बांसवाड़ावालों का आक्रमण वे सह न सके और उनके आदमियों में से आंबीरामा के ठाकुर का पुत्र केशरीसिंह, रायपुर का अजीतसिंह, हिम्मतसिंह, चौहान लक्ष्मणसिंह, हम्मीरसिंह आदि ३५ व्यक्ति मारे गये और ५६ घायल हुए तथा बांसवाड़ावाले वहां से कई हज़ार रुपयों का माल भी लूट ले गये। इस झगड़े में बांसवाड़ा राज्य के दो आदमी मारे गये और चार घायल हुए। फिर पोलिटिकल अफ़सरों-द्वारा इस मुकदमे की तहक़ीक़ात होने पर बांसवाड़ा राज्य की ज्यादाती प्रमाणित हुई और बांसवाड़ा राज्य के कामदार क्लोथरी चिमनलाल पर एक हज़ार रुपये जुरमाना होकर वह दस वर्ष के लिए बांसवाड़ा राज्य से निर्वासित कर दिया गया एवं पांच दूसरे अहलकार, जो इस झगड़े में

(१) पंचिसन, टीटीज़, एंजेमेट्स एण्ड सनदज़; जि० ३, पृ० ४६५ ।

शामिल थे, पांच-पांच वर्ष के लिए कैद कर उदयपुर के जेलखाने में रखे गये। अंत में मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट-मेजर गर्निंग ने मौक़े पर जाकर वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७५) में उचित फ़ैसला कर दोनों राज्यों की सीमा पर मीनारे खड़े करवा दिये^१। इस फ़ैसले से तनाज़े की ३६ वर्ग मील भूमि पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार बहाल रहा और इस मुक़दमे में प्रतापगढ़ राज्य के कामदार ओंकारलाल व्यास, मोतमिद अमृतराव दक्षिणी तथा बड़ा सेलारपुरा के ठाकुर विशनसिंह की कारगुज़ारी अच्छी रही, जिसकी मेजर गर्निंग ने महारावत के पास प्रशंसा लिख-भेजी।

इसी प्रकार एक दूसरा झगड़ा प्रतापगढ़ राज्य के सांडनी गांव के नील के पठार नामक खेतों के सम्वन्ध में वांसवाड़ा राज्य के सेमलिया पट्टे के सूरजपुरा गांव के बीच वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में उत्पन्न हुआ। उसमें भी वांसवाड़ावालों ने अपनी सेना भिजवाकर प्रतापगढ़ राज्य के दो आदमियों को मार डाला। उसका फ़ैसला ई० स० १८७४ ता० १६ सितम्बर (वि० सं० १६३१ भाद्रपद सुदि ५) को मेवाड़ के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट पारसी फ़ामजी भीकाजी ने, जो वांसवाड़ा में नियत था, किया। उसके अनुसार नील के पठार के क्षेत्रों का अधिकार प्रतापगढ़ राज्य का स्वीकार किया गया और सांडनी तथा सूरजपुरा गांव की सीमाएं निर्धारित कर मीनारे खड़े करवा दिये गये। इस मुक़दमे में महारावत के कामदार ओंकारलाल व्यास, मोतमिद शाह जोधकरण और अर्जुनसिंह की कारगुज़ारी अच्छी रही।

वांसवाड़ा राज्य ने प्रतापगढ़ राज्य के अजंदा गांव को वि० सं० १६१७ (ई० स० १८६०) में बलपूर्वक दवा लिया था, जिसका मुक़दमा महारावत दलपतसिंह के समय से ही चल रहा था। उसका भी उन्हीं दिनों

(१) ज्वालासहाय, बकाये राजपूताना, जि० १, पृ० ५२८ तथा ५४७। उक्त पुस्तक में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से इस झगड़े में मारे जानेवाले व्यक्तियों की संख्या २६ और घायलों की ५४ दी है। "वीरचिनोद" (द्वितीय भाग, पृ० १०३६) में वांसवाड़ा के कामदार चिमनलाल कोठारी पर दस हज़ार रुपये जुरमाना होने का उल्लेख है।

फ़ैसला हुआ, जिसमें उक्त गांव पर प्रतापगढ़ राज्य का अधिकार कराया गया और बांसवाड़ा राज्य की ओर से सुवृत में जो पत्र आदि पेश किये गये वे जाली माने गये। इस घटना से अंग्रेज़ सरकार का बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मणसिंह के प्रति विलकुल विश्वास उठ गया और उसकी बहुत बदनामी हुई। फलस्वरूप अंग्रेज़ सरकार ने छः वर्ष तक के लिए उसकी सलामी की चार तोपें घटा दीं, जो पीछी ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३६) तक न बढ़ीं।

वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५ नवंबर) में भारत का वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक बम्बई से मालवे की तरफ़ होकर उदयपुर गया। उस समय नीमच के मुक्ताम पर महारावल उदयसिंह ने जाकर उक्त वाइसरॉय से मुलाकात की^१ और फ़रवरी ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३२) में उसने राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल सर ए० सी० लॉयल से भी नीमच जाकर मुलाकात की^२।

मेवाड़ तथा टोंक राज्य के नीवाहेड़ा परगने में बसनेवाले मोघिये बड़े जरायम पेशा थे। उन दिनों वे अक्सर पाकर प्रतापगढ़ राज्य में जा घुसे और वहां आवाद होने का विचार कर लेंगे। इन मोघियों को महारावल का अपने राज्य में न ठहरने देना कुछ चौकीदारों में नौकर हो गये। इसकी इत्तला महारावल को मिलने पर उसने ऐसे जरायम पेशा लोगों को अपने राज्य में आवाद करने में हानि समझ, वहां उनको न ठहरने दिया^३, जिससे उसके राज्य में चोरी-धाड़ों का भय कम हो गया।

(१) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना; जि० १, पृ० ५५०। धीरविनोद, द्वितीय भाग, पृ० १०३६। अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑफ़ बांसवाड़ा स्टेट; पृ० १६५। एचिसन; ट्रीटीज़, एंग्लो-इण्डियन एण्ड सनदज़; जि० ३, पृ० ४४५-६।

(२) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० ५६४।

(३) वही, जि० १, पृ० ५६४।

(४) वही, जि० १, पृ० ५६३-४।

महारावत का कामदार श्रीकारलाल व्यास कारगुज़ार व्यक्ति था ।

वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में उसको एक वदमाश सिपाही ने तलवार का प्रहार कर घायल कर दिया, जिससे वह कुछ दिनों पीछे मर गया । घातक उसी समय मार डाला गया और उसके शामिल रहनेवाले व्यक्तियों को कैद की सज़ा दी गई । महारावत ने उस (श्रीकारलाल) के पुत्र कोमलराम के प्रति सहानुभूति प्रकट कर उसको अपने यहां ही रक्खा और उससे राज्य का काम लेने लगे, किन्तु वस्तुतः राज्य का सब कार्य महारावत की आज्ञानुसार ही होता था ।

कामदार श्रीकारलाल व्यास की मृत्यु

प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश ज़मीन पैदावार के लिए बहुत ही उपयोगी है । वहां पहले अफ़ीम की काश्त अधिकता से होती थी, जो अच्छी ज़ात की होती थी एवं अनाज की पैदावारी भी अच्छी थी । महारावत के उदार विचार और प्रयत्न से वहां के ऊजड़ गांव फिर वस गये और काश्तकारों को रियायतें और तसल्ली देने से वहां की तमाम ज़मीन में खेती होने लगी तथा कृषि-योग्य भूमि में से कुछ भी खाली न बची । केवल एक गांव वांसवाड़ा के भीलों की ज्यादाती से वीरान था । वांसवाड़ा के भील प्रतापगढ़ की प्रजा से चौथ लेने का दावा करते थे । ई० स० १८७४ (वि० सं० १६३१) में मेवाड़ राज्य के धरियावद पट्टे की तरफ़ के गांगा की पाल के मीणों ने कप्तान चार्ल्स स्ट्रेटन पर हमला भी किया; किंतु महारावत के अच्छे प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य के निवासी भील-मीणों

(१) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० २६०, २६२-४ । श्रीकारलाल व्यास जाति का औदीच्य ब्राह्मण था । उसने कई वर्षों तक रतलाम राज्य में काम किया था, जिससे उसको अच्छा अनुभव हो गया था । वि० सं० १६३२ वैशाख षदि ३ (ई० स० १८७५ ता० २३ अप्रैल) को महारावत ने उसको वांसलाही गांव प्रदान किया, जो अद्यावधि उसके वंशजों के पास विद्यमान है ।

(२) वही, जि० १, पृ० २६४ ।

किसी भी उपद्रव में सम्मिलित न हुए और वे शांतिप्रिय बने रहे।

श्रीमती महाराणी विक्टोरिया ने भारत का राज्याधिकार अपने हाथ में लेने के पीछे "सम्राज्ञी" (Empress of India) पदवी धारण की।

दिल्ली दरवार के उपलक्ष्य में महारावत को भंडा मिलना

उस सम्बन्ध में ई० स० १८७७ ता० १ जनवरी (वि० सं० १६३३ माघ वदि २) सोमवार को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय लॉर्ड

लिटन ने दिल्ली नगर में एक वृहत् दरवार करना निश्चित किया। इस अवसर पर भारत के नरेशों को भी दरवार में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण पत्र भेजे गये। तदनुसार भारत के कई नरेश दिल्ली जाकर उक्त दरवार में सम्मिलित हुए। कारण विशेष से महारावत उदयसिंह दरवार में सम्मिलित नहीं हुआ, अतएव उसके लिए वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने शाही भंडा (निशान) भेजना स्थिर किया, जो वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट मेजर टी० केडिल प्रतापगढ़ लेकर गया और एक बड़े दरवार में वह महारावत को दिया गया।

वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८१) के शीतकाल में इस राज्य में प्रथम बार मनुष्य-गणना हुई। इस अवसर पर उदयपुर राज्य में भीलों

प्रतापगढ़ राज्य में प्रथम बार मनुष्य-गणना होना

का उपद्रव हो गया था। प्रतापगढ़ राज्य, मेवाड़ राज्य से मिला हुआ है और वहां के अधिकांश निवासी भील, मीणे हैं, जिससे वहां भी उपद्रव हो

जान की आशंका हुई; परन्तु महारावत के उत्तम प्रबन्ध से प्रतापगढ़ राज्य में ऐसा उपद्रव न हुआ और शांतिपूर्वक मनुष्य गणना का कार्य होकर वहां की जन संख्या में ७६५६८ व्यक्तियों की गणना हुई^१।

इसके दो वर्ष पीछे वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८३) में महारावत नीमच की छावनी गया, जहां उस समय इंदौर का भूतपूर्व महाराजा

ईदौर नरेश से मुलाकात के लिए महारावत का नीमच जाना

तुकोजीराव होल्कर (द्वितीय) भी गया हुआ था। वहां उपर्युक्त नरेश से उसकी कई मुलाकाते हुईं। फिर महाराजा के वहां से लौटने पर महा-

रावत अपनी राजधानी में दाखिल हुआ।

वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में महारावत ने मन्त्री पद पर पारसी फ़ामजी भीकाजी को नियत किया, जिसने कई वर्षों तक अंग्रेज़ सरकार के राजनैतिक विभाग में दायित्वपूर्ण पदों पर रहकर सेवाएं की थीं तथा मेवाड़ के पोलिटिकल एजेंट के असिस्टेंट के पद पर रहकर बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी झगड़ों को निपटाया था। उसके और महारावत के बनी नहीं, जिससे उसकी जगह मिर्ज़ा मुहम्मदी वेग वहां का कामदार बनाया गया।

महारावत का पारसी फ़ामजी भीकाजी को कामदार बनाना

उसी वर्ष फाल्गुन सुदि ६ (ई० स० १८८७ ता० १ मार्च) मंगलवार को सैलानेवाली मंझली महाराणी जुहारकुंवरी के उदर से महाराजकुमार अर्जुनसिंह का जन्म हुआ। महारावत के प्रथम राजकुमार का परलोकवास हो जाने के पीछे १७ वर्ष तक कोई संतान न होने से उत्तराधिकारी के विषय में वहां की प्रजा चिंतित थी। अतएव राजकुमार

महारावत की सैलानेवाली महाराणी से कुवर उत्पन्न होना

का जन्म होने से उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। महारावत ने उक्त राजकुमार के उत्पन्न होने की प्रसन्नता में सहस्रों रुपये व्यय किये और अपने सगे संबंधी नरेशों में से सैलाना और सीतामऊ के राजाओं तथा कानोड़, आर्सीद (मेवाड़ राज्य) और कुशलगढ़ के सरदारों को अपने यहाँ निमंत्रित कर पुत्र-जन्मोत्सव मनाया; किंतु वह राजकुमार केवल डेढ़ वर्ष की आयु में ही काल कवलित हो गया, जिसका उक्त महारावत के शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और संसार से उसको एकवार ही विरक्ति हो गई।

वि० सं० १६४४ में महाराणी विक्टोरिया को शासन-सूत्र हाथ में लिये पचास वर्ष पूरे हो गये, जिसके उपलक्ष्य में इंग्लैंड और भारत में

महाराणी विक्टोरिया की
स्वर्ण जयन्ती का उत्सव
मनाया जाना

स्वर्णजयन्ती मनाया निश्चित हुआ। तदनुसार महारावत
ने भी अपने यहां दरबार कर स्वर्ण जयन्ती-महोत्सव
मनाया और इस शुभ दिवस के समर्पार्थ राजधानी
प्रतापगढ़ में आबादी से पूर्व की तरफ मंदसोर जाने-

वाले मार्ग में एक नाले पर पक्का पुल बनवाया।

उसी वर्ष महाराणी विक्टोरिया के तृतीय शाहजादे ड्यूक ऑफ़
महारावत का नीमच जाकर कनाट का नीमच में आगमन हुआ। उस अवसर
ड्यूक ऑफ़ कनाट से मुलाकात करना पर महारावत ने नीमच जाकर उक्त शाहजादे से
मुलाकात की।

महारावत उदयसिंह के समय वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७)
में प्रतापगढ़ में रोगियों की चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरी खोली गई^१।

महारावत के अन्य प्रमुख
कार्य

शीतला रोग से बचने के लिए उक्त महारावत के
समय वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में टीका
लगवाने की व्यवस्था हुई^२। बालकों की शिक्षा के

लिए वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में वहां पाठशाला की स्थापना की
गई^३। स्टॉप और कोर्ट फ्रीस का क़ायदा बनाया जाकर वि० सं० १६४० (ई०
स० १८८३) में वहां जारी किया गया। उसने अपने यहां सेना को बाक़ायदा
क़ायद सिखलाने की भी व्यवस्था की थी^४। बांसवाड़ा राज्य और प्रताप-
गढ़ राज्य के सीमा संबंधी मुकदमे भी उसके समय में तय हुए, जिससे
भगड़े मिट गये। पुलिस और गिराई की भी उसके समय में वहां कुछ-कुछ
व्यवस्था हुई और वि० सं० १६४१ (ई० स० १८८४) में वहां अंग्रेज़ी डाक-
खाना भी खोला गया^५।

(१) अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑफ़ प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० २२१।

(२) वही; पृ० २२१।

(३) वही; पृ० २२०।

(४) ज्वालासहाय; वक्राये राजपूताना; जि० १, पृ० ५६४।

(५) अर्सकिन, गैज़ेटियर ऑफ़ प्रतापगढ़ स्टेट, पृ० २१२।

केवल कुछ दिनों की बीमारी के पीछे वि० सं० १६४६ फाल्गुन वदि ११ (ई० स० १८६० ता० १५ फ़रवरी) को लगभग ४१ वर्ष की आयु में महारावत उदयसिंह का निःसंतान परलोकवास हो गया। उसकी असामयिक मृत्यु से प्रजा में गहरी उदासी छा गई, क्योंकि वह प्रजा-प्रिय राजा था।

महारावत उदयसिंह के तीन विवाह हुए थे। उनमें से एक राणी नामली के ठाकुर तख्तसिंह की पुत्री सरूपकुंवरी थी। गद्दी बैठने के बाद उसके दो विवाह सैलाना के राजा दुलहसिंह की कुंवरियों—जुहारकुंवरी और फूलकुंवरी—से हुए थे। उनमें से एक विवाह वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में हुआ था।

महारावत के छव्वीस वर्ष के शासन में प्रतापगढ़ राज्य में बहुत कुछ लोकोपयोगी कार्य हुए, जिनमें से प्रतापगढ़ की धर्मशाला मुख्य है। उसके समय में प्रतापगढ़ के किले में कई मकान बने, जिनमें उदयविलास महल उल्लेखनीय है। अपने निवास के प्रतापगढ़ के नवीन बंगले के निकट रामचंद्रजी का मंदिर बनवाकर उसने उस मंदिर के पूजन व्यय के लिए अमलावद और सींगपुरवा गांव में जागीर निकालकर अच्छी व्यवस्था कर दी थी।

उदयसिंह वीर, प्रबंध-कुशल, प्रजा-प्रिय और उदार राजा था। वह शिकार का प्रेमी अवश्य था, परंतु उधर उसकी अधिक आसक्ति होना पाया नहीं जाता। राज्य के शासन-प्रबंध को वह अपना मुख्य कर्त्तव्य मानता था। उसकी प्रजा उससे सदा प्रेम करती थी, जिसका परिचय तत्कालीन पोलिटिकल एजेंटों को भी उसके राज्य में दौरा करते समय प्रजा से पूछ-ताछ करने पर

(१) प्रतापगढ़ राज्य के बढ़वे की ख्यात, पृ० ११। सूवेनीर हिस्ट्री ऑव सैलाना स्टेट, पृ० ३६-७।

(२) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० ५६४।

हुआ था। प्रजा की प्रार्थनाओं को वह स्वयं सुनकर यथाशक्ति उनके कष्टों को मिटाने का यत्न करता था। उसका चोर और डाकुओं पर भी आतङ्क था, जिससे उसके राज्य-काल में प्रतापगढ़ राज्य में उनके उपद्रव कम हो गये। जब कभी वह अपने राज्य में चोरी और डाकों की खबर सुनता तो भोजन करता हुआ भी उठ खड़ा होता था। इससे उसके इलाके का फौजदारी सीमे का इतिजाम अच्छा रहा, जिसकी पोलिटिकल अफसरों ने भी सराहना की। उसकी अंग्रेज़ अफसरों तथा आस-पास के राजाओं से सदा मेल की नीति रही और थोड़ी ही आयु में उसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। वह अपने कर्मचारियों के कार्यों की पूरी देख-भाल करता और समय-समय पर उनकी सेवाओं की कद्र कर उन्हें पुरस्कृत करता था। विद्वान् और कवि लोगों को वह सदा आश्रय देकर अपने पास रखता एवं उनको जागीरें आदि देकर उनका सम्मान बढ़ाता था। सरदारों का भी वह पूरा आदर और मान रखता था। उसने कितने ही सरदारों से वसूल होनेवाले खिराज में कमी और कई सरदारों के सम्मान में वृद्धि की थी। न्याय की वह अवहेलना नहीं करता था। अपने कर्मचारियों को उसकी पूरी ताकीद थी कि वे प्रजा को प्रसन्न रखें तथा उनके साथ अन्याय न करें और न अनुचित रूप से उनसे धन लें। धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह को जब जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह ने एक चंवर रखने का सम्मान दिया तो महारावत ने उसको अपनी तरफ़ से दूसरा चंवर रखने का सम्मान देकर अपनी नीति-कुशलता का परिचय दिया। उसकी काव्य-साहित्य की ओर रुचि थी, इसलिए अयोध्या (कनकभवन) के महंत जानकीप्रसाद (रसिकबिहारी), प्रसिद्ध साहित्यसेवी स्वामी गणेशपुरी और वाठरडा (मेवाड़ राज्य) के रावत दलेलसिंह के लघु आता गुमानसिंह को (जो काव्य का ज्ञाता और योगी पुरुष था) आदर-पूर्वक अपने यहां रखकर गुण-ग्राहकता का परिचय दिया था। उसने बारहट

(१) ज्वालासहाय, वक्राये राजपूताना, जि० १, पृ० २६२।

(२) वही, जि० १, पृ० २६२।



महारावत सर रघुनाथसिंह, के सी. आई. ई

ईसरदान और मेहडू चारण गुलाबसिंह को पैर में स्वर्णाभूषण पहनने का सम्मान देकर उसने उनकी प्रतिष्ठा-वृद्धि की थी^१। उसके राज्य समय में प्रतापगढ़ राज्य ऋण-ग्रस्त हो गया, जिसका कारण उसकी विलासिता की तरफ प्रवृत्ति होना भी बतलाया जाता है। वि० सं० १६२५ (ई० स० १८६८) के भयङ्कर अकाल में उसने जो उदारता दिखलाई थी, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। वह पूर्ण आस्तिक और धर्म-प्रेमी राजा था। लोकोपकार की तरफ सदा उसकी भावना रहती थी। वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७२) में उस- (महारावत) ने पुष्कर-यात्रा भी की थी। भील और मीणों से, जो गायों को मारकर खा जाते थे, उक्त महारावत ने इत्तार लिखवाकर उक्त पशु की हिंसा घन्द करवाई और भविष्य में ऐसा कार्य करनेवालों को कठोर दंड देने का शिलालेख खुदवाकर देवलिया में लगवा दिया^२। प्रतापगढ़ राज्य में सती-प्रथा और राजपूताने में होनेवाली कन्या-वध की प्रथा उसके ही समय से बंद होना मानना चाहिये। उसका वर्ण गौर, बदन भरा हुआ, क्रद मंझला, चेहरा गोल, आंखे बड़ी-बड़ी, भुजदंड विशाल, वक्षस्थल चौड़ा और ललाट उन्नत था। उसके चेहरे से राजपूती आभा टपकती थी।

रघुनाथसिंह

महारावत रघुनाथसिंह, अरणोद के महाराज खुशहालसिंह (कुशलसिंह) का पुत्र था। उसका जन्म वि० सं० १६१५ पौष वदि १० (ई० स० १८५८ ता० २६ दिसंबर) को हुआ था। वह प्रारम्भ से ही पितृप्रेम से वंचित हो गया था, जिससे उसके बाल्यजीवन का अधिकांश भाग आसीद (मेवाड़) के रावत खुम्माणसिंह के यहां व्यतीत हुआ, जहां उसकी माता की नन्सार थी। इस कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका और तत्कालीन शैली के

(१) वंशमास्कर, तृतीय भाग, पृ० ५४ (मूमिका) ।

(२) वि० सं० १६४१ भाद्रपद सुदि ११ (ई० स० १८८४ ता० ३१ अगस्त) रविवार का देवलिया के बोहरे की वृकान के सामने का शिलालेख ।

अनुसार ही उसने हिंदी भाषा का आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया। वह कुछ वर्ष तक महाराणा शंभुसिंह के समय उदयपुर भी रहा था और जब उक्त महाराणा वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय और गवर्नर जेनरल लॉर्ड मेयो से मुलाकात करने के लिए अजमेर गया, उस समय वह (रघुनाथसिंह) भी उसके साथ विद्यमान था। महारावत उदयसिंह का वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६०) में अपुत्र देहांत होने से प्रतापगढ़ राज्य के सरदारों और राज-कर्मचारियों को बड़ी चिंता हुई; क्योंकि बिना किसी को उत्तराधिकारी निर्वाचित किये राज्य-प्रबन्ध में गड़बड़ी होने की संभावना थी और भूतपूर्व महारावत ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियत नहीं किया था। प्रतापगढ़ राज्य में महारावत के देहावसान होने पर गद्दी खाली नहीं रहती और तत्काल नये महारावत के नाम की दुहाई फेरी जाती है। इस बात को दृष्टिकोण में रखकर धमोतर के ठाकुर तथा अन्य सरदारों एवं कामदार शाह रत्नलाल पाडलिया ने अरणोद के महाराज रघुनाथसिंह को (जो समीपी वांधव था) हकदार होने से गद्दी विठलाने की राय स्थिर की। तदनन्तर उन्होंने अन्तःपुर की ड्योढ़ी पर जाकर परलोकवासी महारावत की राणियों से यह बात निवेदन करवाई, जिस-पर उन्होंने शाह कपूरचंद खासगीवाले तथा लक्ष्मीराम नागर के द्वारा महाराज रघुनाथसिंह को गद्दी विठलाने की स्वीकृति भेजी। फलस्वरूप उपस्थित सरदारों और प्रतिष्ठित कर्मचारियों ने महारावत उदयसिंह की राणियों के आदेशानुसार महाराज रघुनाथसिंह को राजगद्दी पर विठला कर, उसको अपना स्वामी घोषित किया और राज्य में भी उसके नाम की दुहाई फेर दी।

तदनन्तर उसकी गद्दीनशीनी की सूचना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिटिकल ऑफिसर को दी जाने पर कप्तान पिन्हे ने स्वयं प्रतापगढ़ जाकर भूतपूर्व महारावत की राणियों से दर्याभूत कराया, तो उन्होंने रघुनाथसिंह को अपनी इच्छानुसार गद्दी विठलाना स्वीकार किया। इसके पीछे मेवाड़ के रेजिडेंट कर्नल पिर्कोक ने भी प्रतापगढ़ जाकर

परलोकवासी महारावत की राणियों से पूछताछ कराई तो उन्होंने पूर्ववत् ही उत्तर दिया। अन्त में रेजिडेंट मेवाड़ की तरफ से रघुनाथसिंह को भूतपूर्व महारावत का दत्तक स्वीकार करने की मंजूरी होने की बात सदर में रिपोर्ट की, तब महाराणियों की इच्छानुसार अंग्रेज सरकार ने उस (रघुनाथसिंह) की गद्दीनशीनी को स्वीकार कर प्रतापगढ़ सूचना दी। इसपर महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १९४७ वैशाख सुदि १५ (ई० स० १८६० ता० ४ मई) को तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लेंसडॉन के पास महारावत उदयसिंह के परलोकवास होने और अपनी गद्दीनशीनी का खरीता भेजा।

राज्यारोहण के समय महारावत की आयु ३१ वर्ष की थी और वह स्वयं समझदार था तथा उसके कार्यकर्ता अनुभवी थे। इसलिए उस समय रीजेंसी कौंसिल निर्माण करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और मुख्य-मुख्य कार्यों में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट का परामर्श लेना निश्चित होकर बाकी सारा कार्य पूर्ववत् महारावत की आज्ञानुसार चलता रहा।

वि० सं० १९४७ पौष वदि ३० (ई० स० १८६१ ता० १० जनवरी) को महारावत के लिए गद्दीनशीनी के सम्बन्ध में उपर्युक्त वाइसरॉय का खरीता और अंग्रेज सरकार की तरफ से गद्दीनशीनी की खिलअत लेकर राजपूताने का एजेंट गवर्नर अंग्रेज सरकार की तरफ से गद्दीनशीनी की खिलअत पहुंचना जेनरल कर्नल ट्रेवर प्रतापगढ़ गया और उसने एक बड़े दरबार में महारावत को गद्दीनशीनी की खिलअत देकर वाइसरॉय का ई० स० १८६० ता० २२ दिसम्बर (वि० सं० १९४७ मार्गशीर्ष सुदि ११) का खरीता पढ़कर सुनाया, जो नीचे लिखे अनुसार है—

“मेरे मित्र, आपका ई० स० १८६० ता० ४ मई का लिखा हुआ कृपापत्र, जिसमें महारावत उदयसिंह के देहांत का समाचार था, मुझको मिला। इस खबर के सुनने से मुझे बड़ा शोक हुआ। यह लिखकर अब मैं आपको सूचित करता हूँ कि मैंने आपकी गद्दीनशीनी को स्वीकृत

किया है। विश्वास है कि आपकी हुकूमत का युग दीर्घकाल तक उन्नति-शील बना रहेगा। आप मेरी मित्रता का पूरा भरोसा रखें। प्रत्येक समय मेरे राजपूताने के एजेंट तथा वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट आपका पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं आपके उत्तम स्वभाव और योग्यता की बात सुन चुका हूँ, इसलिए मैं राज्याभिषेकोत्सव के दिन से ही आपको शासन के पूरे अधिकार सौंपता हूँ। विश्वास है कि आप हर कार्य में शुभ अनुष्ठान करते हुए अपने को योग्य शासक सिद्ध करेंगे।”

मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य की सीमा पर सीतामाता नामक पवित्र और प्राचीन स्थान है। महारावत उदयसिंह के पिछले समय में उसके लिए एक नया विवाद खड़ा हो गया और उक्त स्थान को मेवाड़ राज्य अपनी सीमा में तथा प्रतापगढ़ राज्य अपनी हद्द के अन्दर बतलाने लगा। कप्तान पिन्डे (असिस्टेंट पोलिटिकल एजेंट वांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ राज्य) भगड़े के फ़ैसले के लिए नियत हुआ। उभय पक्ष की तरफ़ से उक्त स्थान अपने-अपने राज्य में होने के कई प्रमाण पेश किये गये और वहां अपना स्वत्व जमाने की दोनों तरफ़ से चेष्टाएं की गईं; परंतु उक्त कप्तान ने ई० स० १८७८ (वि० सं० १६३५) में प्रतापगढ़ राज्य के मोतमिद शाह रत्नलाल-द्वारा पेश किये गये एक पत्र के आधार पर, जो पोलिटिकल एजेंट मेवाड़ की ओर से महाराणा सज्जनसिंह के उधर आगमन के अवसर पर सरबराह के प्रबंध के लिए लिखा गया था, वह स्थान प्रतापगढ़ राज्य के अन्तर्गत होना मानकर ई० स० १८६१ ता० २५ जून (वि० सं० १६४८ आषाढ वदि ४) को अपना फ़ैसला दिया। उसी समय मेवाड़ राज्य और प्रतापगढ़ राज्य के बीच के सीमा सम्बन्धी और भी कुछ फ़ैसले हुए, जिससे दोनों राज्यों के बीच का सीमा सम्बन्धी विवाद मिट गया।

उन्हीं दिनों महारावत ने मथुरा के नागर ब्राह्मण पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को, जो उदयपुर में, महद्राज सभा का सेक्रेटरी तथा

पंडित मोहनलाल पंड्या
का कामदार नियत होना

दीवानी अदालत का हाकिम रह चुका था, अपना कामदार नियत किया। वह नवीन शैली की कार्य-प्रणाली का अच्छा परिचय रखता था, इसलिए शासन-शैली में बहुत कुछ फेर-फार होकर उसके कार्यकाल में कई लोकोपयोगी कार्यों की नींव दी गई। महारावत ने, जो स्वयं लोकोपयोगी कार्यों में अनुराग रखता था और व्यवस्थित रूप से शासन प्रणाली को चलाना चाहता था, ऐसे कार्यों में बड़ी रुचि दिखलाई, जिससे शीघ्र ही वहां कई आवश्यक कार्य हुए, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

राजधानी प्रतापगढ़ में महारावत उदयसिंह के समय ही अस्पताल की स्थापना हो गई थी, परंतु उसका निजी कोई भवन नहीं था; अतएव महारावत ने राजधानी प्रतापगढ़ में क्लिने रघुनाथ हॉस्पिटल का निर्माण होना के बाहर अस्पताल के लिए वि० सं० १६५० (ई० स० १८६३) में नवीन भवन बनवाकर उसका उद्घाटन राजपूताना के एजेंट गवर्नर-जेनरल कर्नेल ट्रेवर के हाथ से करवाया और उसका नाम 'रघुनाथ हॉस्पिटल' रखा तथा रोगियों के इलाज की अच्छी व्यवस्था कर अशक्त रोगियों के लिए वहां ही रहकर चिकित्सा करवाने का यथोचित प्रबंध करवा दिया। देवलिया में चिकित्सा का कुछ भी साधन न था, जिससे वहां के निवासी बीमारी के समय पूर्ण कष्ट का अनुभव करते थे। वि० सं० १६५२ (ई० स० १८६५) में महारावत ने वहां भी चिकित्सालय स्थापित करवा दिया।

म्युनिसिपल कमेटी की
स्थापना

प्रतापगढ़ में सफ़ाई, रोशनी आदि का कोई प्रबन्ध न होने से वि० सं० १६५० (ई० स० १८६३) में वहां पर म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना हुई, जिससे वहां सफ़ाई, रोशनी आदि का समुचित प्रबन्ध हो गया।

सायर की लागत, पहले ठेके पर दी जाकर ठेकेदारों-द्वारा वसूल होती थी, जिससे आय पूरी नहीं होती थी और व्यापारियों आदि को कष्ट

सायर के महकमे की
स्थापना

होता था । महारावत ने वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४) से सायर की आय ठेके पर देना बन्द कर दिया और एक अलग महकमा स्थापित कर सायर के महसूल का क्रम भी एकसा निर्धारित कर दिया ।

उसी वर्ष व्यापारी-वर्ग को सुविधा पहुंचाने के लिए महारावत ने प्रतापगढ़ में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के विषय में अंग्रेज सरकार से लिखा-पढ़ीकर डाकखाने के शामिल तारघर भी खुलवा दिया । इसके दूसरे वर्ष (वि० सं० १६५२ में) देवलिया में भी डाकखाना खोल दिया गया ।

गमनागमन के प्रायः सारे मार्ग कच्चे थे और सबसे नज़दीकी रेल्वे स्टेशन मंदसोर राजधानी प्रतापगढ़ से २० मील दूर होने से जनता को वहां पहुंचने में पूरी असुविधा होती थी । प्रतापगढ़ से मंदसोर जाने के मार्ग की अधिकांश भूमि काली होने से वर्षा ऋतु में मार्ग दुर्गम हो जाता था । इसलिए महारावत ने अपने राज्य की सीमा में मंदसोर के मार्ग में पक्की सड़क बनाने का विचार कर वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४) में इस सड़क का कार्यारम्भ करा दिया, जिससे १३ मील तक इस राज्य की सीमा में पक्की सड़क बन गई और ७ मील तक अपनी सीमा में ग्वालियर राज्य ने सड़क बनवा दी, जिससे प्रतापगढ़ से मंदसोर तक का मार्ग सरल हो गया ।

अपनी गद्दीनशीनी के एक वर्ष पीछे तक महारावत ने प्रतापगढ़ में ही अपना निवास रखा । तत्पश्चात् उसने वहां की पुरानी राजधानी देवलिया में अपना निवास रखना पसन्द किया; परन्तु देवलिया के राज-महल सब जीर्ण हो रहे थे । अतएव उसने उनके जीर्णोद्धार का कार्य कराया । ये महल अब भी वहां की सौन्दर्य-वृद्धि कर रहे हैं । देवलिया-निवास के समय राजकीय अदालतें प्रतापगढ़ में ही रहीं । राज्य-शासन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस दृष्टि से वहां से प्रतापगढ़ तक टेलीफोन लगा दिया गया ।

देवलिया के राज-महलों
का जीर्णोद्धार होना

शासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए ज़िलाबंदी कर प्रतापगढ़, कनौरा, बजरंगगढ़, सागथली और मगरा नामक पांच ज़िले बनाये जाकर वहाँ के हाकिमों को माल तथा न्याय संबंधी आवश्यक अधिकार दिये गये। इससे राज्य-प्रबंध में आसानी हुई और जनता के लिए भी, अपने साथ अन्याय होने पर अपील का अधिकार प्राप्त होकर, अपनी फ़रियाद क्रमशः उच्चाधिकारियों और महारावत तक पहुंचाने का मार्ग खुल गया।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़े-बड़े सरदार अपने-अपने ठिकानों के दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ैसले करते थे, जिसकी ठीक व्यवस्था न थी। ठिकानेदारों के किये हुए फ़ैसलों की अपील सुनने का भी कोई साधन न था, जिससे वहाँ की प्रजा बहुधा न्याय से वंचित रहती थी।

सरदारों को न्याय सम्बन्धी अधिकार मिलना

वि० सं० १६५१ (ई० सं० १८६४) में महारावत ने न्याय-विभाग का कार्य व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपने राज्य के प्रथम वर्ग—धमोतर, भांतला, वरडिया, रायपुर, कल्याणपुर, आंबीरामा, अचलावदा, अरणोद और सालिमगढ़—के सरदारों के दीवानी तथा फ़ौजदारी अधिकार निर्दिष्ट कर निम्नलिखित शर्तें स्थिर कीं—

(१) अपने पट्टे के अन्दर आसामियों के दीवानी मुक़दमों में तुमको अख़्तियार समाश्रित तो तादाद वेहद तक का होगा, मगर अख़्तियार एक हज़ार तक के दावे के फ़ैसले का ही होगा और इससे अधिक तादाद के सब मुक़दमे, मिसल की तरतीब और तकमील होने के बाद मय अपनी राय के अदालत सदर दीवानी में आख़िरी फ़ैसले के वास्ते तुमको बाज़ाते चालान करने होंगे। उनमें से जो मुक़दमे अदालत सदर दीवानी के द्वारा फ़ैसला करने लायक होंगे, उनको तो अदालत मौसूफ़ खुद फ़ैसल करेगी और जो उसके अख़्तियार के बाहर होंगे, उनको वो अपनी तजवीज़ के साथ आख़िरी फ़ैसले के वास्ते राजेश्री महक़मा खास में भेजेगी।

(२) हर किसम के फ़ौजदारी मुक़दमे के समाश्रित करने का

अख्तियार तो तुमको होगा, मगर फ़ैसला करने का अख्तियार सिर्फ़ उन जुर्मों के मुक़दमों का ही होगा, जिनकी सज़ा छः महीने कैद और तीन सौ रुपये जुरमाना तक है और इससे अधिक सज़ा के सब मुक़दमे तर्तीय और तकमील मिसल होने के बाद मय अपनी राय के फ़ैसले के वास्ते तुमको बाज़ाते अदालत सदर फ़ौजदारी में चालान करने होंगे। उनमें से जो मुक़दमे अदालत सदर फ़ौजदारी-द्वारा फ़ैसला करने के होंगे, उनको तो अदालत मौसूफ़ खुद फ़ैसल करेगी और जो उसके अधिकार के बाहर होंगे, उनको वो अपनी तजवीज़ के साथ आखिरी फ़ैसले के वास्ते राजेश्री महक्मा खास में भेजेगी।

(३) जिन फ़ौजदारी मुक़दमों में मुद्दई खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी दूसरी रियासत का होगा और मुद्दालह तुम्हारे पट्टे का होगा या कोई मुजरिम खालसे या किसी दूसरी जागीर या किसी रियासत ग़ैर का तुम्हारे पट्टे में कहीं पनाह लेगा तो ऐसे मुक़दमे ज़िले के हाकिम की अदालत में दायर होंगे और माल तथा मुजरिम तुमको अदालत मौसूफ़ के सुपुर्द करने होंगे।

(४) जिन दीवानी मुक़दमों में मुद्दई तो खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत ग़ैर का होगा और मुद्दालह तुम्हारे पट्टे का आसामी होगा वे ज़िला हाकिम की अदालत में दायर होंगे।

(५) जिन दीवानी व फ़ौजदारी मुक़दमों में मुद्दई तो तुम्हारे पट्टे का होगा और मुद्दालह खालसे या किसी दूसरी जागीर अथवा किसी रियासत ग़ैर का होगा वे ज़िले की अदालत में दायर होंगे।

(६) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों में तुम खुद मुद्दई या मुद्दालह होंगे, उनके सुनने और फ़ैसला करने का अख्तियार तुमको न होगा, बल्कि ऐसे मुक़दमे श्रीदरवार की अदालत में दायर और फ़ैसल होंगे।

(७) जिन दीवानी या फ़ौजदारी मुक़दमों के फ़ैसल करने का अख्तियार तुमको क़लम एक व दो में दिया गया है, उनमें तुम्हारी

तजवीज़ के खिलाफ़ अपील सदर दीवानी व फ़ौज़दारी अदालत में होगी और उनके फ़ैसले की अपील राजेश्री महकमा खास में होगी ।

(८) जो दीवानी व फ़ौज़दारी मुक़दमे तुम्हारे अस्तियार से बाहर हैं, उनकी जो तजवीज़ अदालत ज़िला करेगी उनके खिलाफ़ अपील अदालत सदर में होगी । उनकी तजवीज़ की अपील राजेश्री महकमा खास में होगी ।

(९) जो दीवानी मुक़दमे अपने पट्टे के आसामियों के, हस्व मंशा क़लम एक तुम फ़ैसल करोगे, उनकी प्रारम्भिक कार्रवाई अदालत श्री दरबार ने तुमको बख़शी है । तुम्हारे फ़ैसल किये इन मुक़दमों की अपील की रसूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह बाक़ी और सब किसम के दीवानी मुक़दमों की, जिनको फ़ैसल करने का तुमको हक़ नहीं है, रसूम अदालत भी तुमको नहीं मिलेगी ।

(१०) जो फ़ौज़दारी मुक़दमे अपने पट्टे के आसामियों के हस्व मंशा क़लम दो तुम फ़ैसल करोगे, उनका ज़ुरमाना तो तुमको मिलेगा और जो कैद की सज़ा तजवीज़ होगी वह यदि तुम्हारे यहां के जेलखाने का बन्दोवस्त रियासत हाज़ा के क़ायदे के मुताबिक़ होगा तो वहां भुगतार्ई जावेगी, नहीं तो श्रीदरबार के जेलखाने में भुगतार्ई जावेगी और ऐसे कैदियों की ख़ुराक वग़ैरा का खर्चा तुमको देना होगा । तुम्हारे फ़ैसल किये हुए इन मुक़दमों की अपील की रसूम अदालत तुमको नहीं मिलेगी और उसी तरह बाक़ी अन्य सब किसम के फ़ौज़दारी मुक़दमों का, जिनके फ़ैसल करने के तुम अधिकारी नहीं हो, ज़ुरमाना तुमको नहीं मिलेगा ।

(११) रसूम सरकारी याने दस्तावेज़ लिखने के लिए जो स्टॉप के कागज़ तुम्हारे पट्टे की रियाया ख़रीदेगी, उसकी क़ीमत रियासत हाज़ा के ख़ज़ाने में जमा होगी ।

(१२) आसामियों की तलवी के लिए किसी अदालत रियासत हाज़ा से माकूल मियाद देकर तीन बार लिखे जाने पर भी यदि हुक़म की तामील न होगी, तो आसामियों को तलब करनेवाली अदालत को अधिकार

होगा कि उनको परभारी तलब या गिरफ्तार कर लेवे ।

(१३) जो कानून क्रायदे श्रीदरवार की आज्ञानुसार हाल में जारी हुए हैं या भविष्य में तमाम राज देवगढ़-प्रतापगढ़ के लिए बनाकर जारी किये जावेंगे, उनके मुताबिक तुमको अपने पट्टे में बखूबी अमल रखना होगा ।

(१४) तुमको अपने पट्टे की रियाया को आराम देने और इन्साफ करने के लिए अदालत और जेलखाने वगैरः का, रियासत हाज़ा के जारी किये हुए कानून के मुताबिक, अच्छा इन्तज़ाम रखना होगा ।

(१५) अगर तुम अपने पट्टे की रियाया को हर सूरत आराम पहुंचाओगे और इन्साफ के साथ कार्यवाही करोगे तथा श्रीदरवार तुम्हारे चाल-चलन, व्यवहार और अच्छे इंतज़ाम से खुश होंगे, तो तुम्हारे अख्तियार और भी बढ़ाये जा सकेंगे ।

(१६) जो नकशेज़ात तुम्हारे यहां राजेश्री महकमा खास से हमेशा भेजे जावेंगे, उनको सही-सही भरकर निश्चित समय पर महकमा खास में भेजना होगा ।

(१७) विलायती, मकरानी, बलोची और अरब आदि कौम के लोगों को तुम अपने पट्टे में हरगिज़ नही रख सकोगे । अगर उनमें से कोई तुम्हारे पट्टे में गिरफ्तार होकर सरहद पर भेजा जावेगा, तो उसका खर्चा तुमको देना होगा ।

(१८) मोघिये आदि जरायम पेशा कौमों, जो तुम्हारे पट्टे में हों, उनको मोघियों के कानून की मंशा के वमूजिव तुमको अपने पट्टे में आवाद करना होगा और इंतज़ाम भी रखना होगा । अगर तुम इंतज़ाम और आवाद न कर सकने की वजह से उनको श्रीदरवार की क्रायम की हुई आवादी में आवाद करने के लिए भेजोगे तो उसका खर्चा वगैरः तुमको देना होगा ।

(१९) जो संगीन धारदात तुम्हारे पट्टे में कहीं होगी, उसकी इत्तिला अविलम्ब राजेश्री महकमा खास में तुमको देनी होगी तथा उसकी तहकीफात पेन वक्त और मौक़े पर करके राजेश्री महकमा खास को परिणाम

सै सूचित करना होगा और जो हुकम महकमा मौसूफ़ से उस वारे में दिया जावेगा उसकी तामील बख़्शी करनी होगी ।

(२०) तुमको अपने ठिकाने की तरफ़ से एक वकील देवगढ़-प्रताप-गढ़ में हमेशा हाज़िर रखना होगा, जो तुम्हारे ठिकाने के ताहुक़ का कुल काम हर एक महकमे और अदालत में हाज़िर रहकर किया करे ।

(२१) जो आज़्ञापं राजेश्री महकमा खास से समय-समय पर जारी होंगी या जो मुक़दमे श्रीदरवार की अदालतों से फ़ैसल होकर तामील के लिए तुम्हारे यहां भेजे जायेंगे, उनकी तुमको पूरी-पूरी तामील करनी होगी ।

उसी वर्ष महारावत ने अपने राज्य में स्ट्रांप और कोर्ट फ़ीस के फ़ायदे में संशोधन कर उसे जारी किया, जिससे ठिकानों में मनमानी बंद हो गई और ख़ालसे तथा ठिकानों में एक ही प्रकार के फ़ायदे चालू हो गये ।

महारावत ने अपने कामदार पंडित मोहनलाल त्रिण्युलाल पंड्या का पूरा सम्मान किया । उसको गुरु की उपाधि, ताज़ीम का सम्मान और

दो गांव भी प्रदान किये; किन्तु उसने थोड़े ही दिनों बाद महारावत की कृपा खो दी । फिर उस स्थान पर पारसी फ़ामजी भीकाजी नियत हुआ, जो पहले

इस पद का कार्य कर चुका था । उन्ही दिनों महारावत ने अपने पुराने कामदार मिर्ज़ा मुहम्मदीबेग की, जिसने भूतपूर्व महारावत उदयसिंह तथा उस(रघुनाथसिंह)के समय अच्छी सेवा की थी, एक हजार रुपये वार्षिक पेंशन नियत कर दी ।

गद्दीनशीनी के पूर्व महारावत की राजकुमारी बल्लभकुंवरी का जन्म हुआ था । महारावत ने उसका संबंध दीकानेर के वर्तमान महाराजा सर

राजकुमारी बल्लभकुंवरी का महाराजा वीकानेर के साथ विवाह होना

गंगासिंहजी के साथ स्थिर किया । वि० सं० १६५४
श्रापाढ सुदि ६ (ई० सं० १८६७ ता० ८ जुलाई)
को उक्त राजकुमारी का विवाह उपर्युक्त महाराजा के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ । इस विवाह का समग्र व्यय लगभग पांच लाख रुपये के हुआ ।

इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १९५५ मार्गशीर्ष सुदि ५ (ई० स० १८६८ ता० १८ दिसम्बर) को महारावत का अपने जामाता महाराजा सर गंगासिंहजी के आग्रहवश बीकानेर जाना हुआ। महाराजा साहब के स्नेहपूर्ण व्यवहार और सम्मान तथा वहां के शासन में जिन सुधारों का आरंभ हुआ था, उनको देखकर महारावत को पूर्ण संतोष हुआ। इन्हीं दिनों उसने शासन-कार्य चलाने के लिए बीकानेर से ठाकुर रघुवीरसिंह को बुलाकर अपने यहां का कामदार नियत किया।

उसी वर्ष (वि० सं० १९५५ = ई० स० १८६८ में) महारावत ने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने का निश्चय कर अजमेर के रायबहादुर सेठ सोभागमल ढढा की, जिसकी व्यापारी-जगत में अच्छी साख थी और ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी दुकानें थीं, अपने यहां दुकान खुलवाई तथा उसको प्रतापगढ़ राज्य का खज़ांची नियत किया।

उन्हीं दिनों महारावत ने न्याय-विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए महकमा खास से उसका संबंध तोड़ दिया और न्याय सम्बन्धी न्याय-विभाग को पृथक् कर राजसभा की स्थापना करना अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च अदालत "राजसभा" नियत की, जिसकी दो शाखाएं—एक इजलास कामिल और दूसरी इजलास मामूली—बनाई गईं। इस राजसभा के सदस्य सरदारों और कर्मचारियों में से योग्यता का विचारकर महारावत-द्वारा नियुक्त होते थे। इजलास कामिल में उक्त सभा के सदस्यों के साथ महारावत स्वयं बैठकर मुकदमों को सुनता और उन-पर उनकी सम्मति लेकर अपना हुक्म देता था। इजलास मामूली में पेश होनेवाले मामलों का निर्णय स्वयं उक्त सभा के सदस्य कर मंजूरी के लिए उन्हें महारावत के पास भेज देते थे। नीचे की अदालतों के फैसले की अपील सुनता और नीचे की अदालतों के फैसले की निगरानी की मंजूरी

देना एवं उनके अधिकार के बाहर के मुकदमों को तय करना भी उक्त सभा के ही कार्य थे इस प्रकार न्याय-विभाग पृथक् हो जाने से महकमा खास के सुपुर्द शासन संबंधी आर्थिक और प्रबंध विभाग के कार्य ही रह गये। उस समय नीचे की अदालतों के न्याय संबंधी अधिकार निश्चित नहीं हुए थे। इसलिए न्याय संबंधी कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए महारावत ने वि० सं० १६५६ (ई० स० १८६६) में अपने कामदार रघुवीरसिंह की सम्मति के अनुसार नीचे की अदालतों के निम्नलिखित अधिकार स्थिर किये—

(१) हाकिम अदालत फ़ौजदारी क्रिमिनल जज कहलावेगा और उसको मजिस्ट्रेट दर्जा अब्बल के अधिकार होंगे। वह दो साल कैद, एक हजार रुपये जुरमाना और एक दर्जन बेंत तक की सज़ा दे सकेगा।

(२) हाकिम अदालत दीवानी सिविल जज कहलावेगा। वह नक़द रुपये के दावे एक हजार तक के सुन सकेगा। हक़ के मुक़दमों में एक सौ रुपये के मूल्य के दावे सिविल जज के यहां दायर होंगे। फ़ैसला सिविल जज राजसभा की मंजूरी से जारी होगा।

(३) हाकिम ज़िला केवल ढाई सौ रुपये के दावे सुन सकेगा और हक़ के मुक़दमे पच्चीस रुपये तक के उसके पास दायर हो सकेंगे। वह अपने यहां के मुक़दमे सिविल जज के द्वारा राजसभा में भेजेगा और उनकी अपील का हक़ न होगा।

(४) हाकिम ज़िला को तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट का अख़्तियार दिया जाता है। वह एक मास तक कैद और पच्चास रुपये तक जुरमाने की सज़ा अपने अधिकार से दे सकेगा।

उसी वर्ष वि० सं० १६५६ (ई० स० १८६६-१६००) में अल्पवर्षा होने से राजपूताने में भयङ्कर अकाल पड़ा और प्रतापगढ़ राज्य में केवल ग्या-

सर्व १६५६ का भयङ्कर
अकाल

रह इंच ही वर्षा हुई, जिनसे अन्न और घास की पैदावारी कम हुई। इस अवसर पर महारावत ने अपने राज्य में मदद के कई कार्य जारी किये,

जिससे लोगों को बड़ा सहारा मिला। बच्चों और अशक्त लुधातुर व्यक्तियों के लिए जगह-जगह खैरातखाने खोले गये और वहां से उनको भोजन मिलने की व्यवस्था हुई। अकाल के समय राज्य ने उदारतापूर्वक लगान माफ़ कर दिया। बाहर से अन्न मंगवाया गया, जिससे लोगों को सस्ते भाव से अन्न मिलने लगा। फिर वर्ष समाप्त होने पर सुवर्षा हुई तब जिन लोगों के पास बीज और बैल न थे, उनको बीज तथा बैल आदि राज्य से दिलाये जाकर कृषि कर्म में लगाया गया। इस भयङ्कर अकाल के समय महारावत ने लगभग पौने दो लाख रुपये व्यय किये, जिसके लिए अंग्रेज़ सरकार से रुपये कर्ज़ लेने पड़े।

इसमें संदेह नहीं कि अकाल के समय महारावत ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु ग्रीष्म काल में हैजे की भयानक व्याधि हुई और वर्षा ऋतु के पीछे ज्वर और पेचिश की व्याधियां उत्पन्न हो गईं, जिनसे सहस्रों मनुष्य मर गये। इसी प्रकार घास की कमी के कारण सहस्रों पशु मर गये, जिससे राज्य की बड़ी क्षति हुई।

गद्दीनशीनी के पूर्व महारावत के दो राजकुमार विद्यमान थे। उनमें से ज्येष्ठ प्रतापसिंह और छोटा मानसिंह था। महारावत के सिंहासनारोहण के समय प्रतापसिंह उत्तराधिकारी माना गया और राजकुमार मानसिंह के नाम पर अरणोद का ठिकाना रहा। महारावत की गद्दीनशीनी के थोड़े ही दिनों बाद (वि० सं० १६४७ त्रितीय भाद्रपद सुदि ५ = ई० स० १८६० ता० १६ सितम्बर को) प्रतापसिंह परलोक सिंधारा। इस-लिए राज्य के उत्तराधिकारी पद पर महाराजकुमार मानसिंह स्थिर हुआ। फिर वि० सं० १६५७ भाद्रपद वदि १४ (ई० स० १६०० ता० २४ अगस्त) शुक्रवार को महारावत की खवास ठिकानेवाली तीसरी महाराणी के उदर से छोटे महाराजकुमार गोवर्धनसिंह का जन्म हुआ। वि० सं० १६५८ भाद्रपद वदि ७ (ई० स० १६०१ ता० ४ सितम्बर) को महारावत ने गोवर्धनसिंह

कुंवर गोवर्धनसिंह का जन्म
और उसको अरणोद की
जागीर मिलना

को अरणोद की जागीर प्रदान की और उसकी उपाधि "महाराज" हुई।

प्रतापगढ़ राज्य का वि० सं० १६५६ (ई० स० १८६६-१६००) के अकाल से तो छुटकारा ही नहीं हुआ था कि वि० सं० १६५८ (ई० स० १६०१) में पुनः अकाल के लक्षण दिखाई पड़े। उस वर्ष वर्षा औसत से आधी ही हुई, जिससे पैदावार थोड़ी हुई। राज्य ऋणग्रस्त था तथापि महारावत ने उस समय अपनी स्वाभाविक उदारता में अन्तर न आने दिया। प्रजा के निर्वाह के लिए इमदादी काम और निर्धन तथा अशक्त व्यक्तियों के लिए अन्नक्षेत्र खोले गये, जिससे पका-पकाया भोजन उनको मिलने लगा। वाइस हज़ार रुपये तकावी में बाँटे गये और वर्षा होने पर बैल खरीदने तथा बीज बाँटने में भी बहुत कुछ सहायता दी गई।

उसी वर्ष महाराजा बीकानेर-द्वारा बुलाये जाने पर ठाकुर रघुवीर-सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा पेश किया। तब ठाकुर रघुवीरसिंह का काम-दार-पद से पृथक् होना महारावत ने उसके स्थान में अजमेर के बाबू गौरी-शंकर वर्मा, वार-पट-लों को, जो महाराजकुमार मानसिंह का शिक्षक रह चुका था, कामदार नियत किया।

उन दिनों महाराजकुमार मानसिंह की आयु सत्रह वर्ष के ऊपर हो गई थी। उसका विवाह-संबंध खेतड़ी (जयपुर) के विद्याप्रेमी नरेश राजा अजीतसिंह शेखावत की विदुषी राजकुमारी चांद-कुंवरी (चंद्रकुमारी) के साथ होना स्थिर हुआ था। तदनुसार वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०३) में उक्त राजकुमारी का पाणिग्रहण संस्कार महाराजकुमार मानसिंह के साथ बड़े समारोहपूर्वक हुआ। इस अवसर पर वहाँ के स्वामी जयसिंह की आयु केवल १० वर्ष थी तथापि वरात की अभ्यर्थना में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई।

महाराजकुमारी और महाराजकुमार के विवाह तथा वि० सं० १६५६ और १६५८ (ई० स० १८६६-१६०० एवं १६०१-२) के अकालों के कारण

महारावत का अंग्रेज़ सरकार से ऋण लेकर कर्ज चुकाना

राज्य ऋणग्रस्त हो गया था, जिसकी महारावत को बड़ी चिंता थी। महारावत ने राज्य को ऋण-मुक्त करने का संकल्प कर सारे अनावश्यक व्यय

रोक-दिये और अंग्रेज़ सरकार से चार लाख रुपये कर्ज लेकर फुटकर लेनदारों के फ़ैसले सुविधानुसार करवा दिये, जिससे उनको भी विशेष हानि नहीं हुई और राज्य कर्जदारों के तक्रारों से मुक्त हो गया।

सालिमशाही रुपये का भाव वि० सं० १६५६ (ई० स० १८६६) के पीछे बहुत गिर गया था। इसके पूर्व उसके तेरह आने कलदार मिल जाते

सालिमशाही के स्थान में कलदार का चलन होना

थे। अकाल के समय राह्ला आदि खरीदने के लिए कलदार रुपयों की ज़रूरत रहने से सालिमशाही रुपये का भाव गिरता गया। यही नहीं, पड़ोसी

राज्यों में भी जहां-जहां इस सिक्के का चलन था, वहां इसके स्थान में कलदार रुपयों का चलन हो गया, जिससे सालिमशाही का मूल्य साढ़े सात आने कलदार तक हो गया। इस प्रकार भाव घट जाने से प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा को प्रत्येक वस्तु महंगी मिलने लगी। निदान महारावत ने भी अपने राज्य में सालिमशाही सिक्के के स्थान में कलदार सिक्का चलाने का विचार कर अंग्रेज़ सरकार से लिखा-पढ़ी आरंभ की। फलस्वरूप दो सौ रुपये सालिमशाही के सौ रुपये कलदार मिलना तय हुआ और झुंजरपुर, चांसवाड़ा आदि राज्यों ने भी इस भाव को स्वीकार किया। वि० सं० १६६० (ई० स० १६०४) में सर्वसाधारण को छः मास के भीतर सालिमशाही रुपये सरकारी खजाने में दाखिल कर उपर्युक्त भाव से कलदार रुपये लेने की आगाही कर दी गई। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६१) के मई मास तक जब सालिमशाही रुपये दाखिल हो गये तब ता० ३० जून (आषाढ वदि ३) से उसका चलन बंद कर दिया गया और लेन-देन में कलदार रुपयों का चलन जारी हुआ। उसी समय से प्रतापगढ़ की टकसाल से सालिमशाही रुपये का बनना बंद हुआ और सिक्के बनाने के स्वत्व से राज्य को वंचित होना पड़ा। सिक्के के परिवर्तन

से काश्तकारों को जो हानि हुई, उसकी पूर्ति के लिए लगान में उचित कमी कर दी गई ।

कलदार का चलन जारी करने में प्रजा को जो क्षति हुई, उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य को लगान आदि में बहुत कुछ कमी करनी पड़ी, जिससे

खिराज की रकम में कमी होकर कलदार रकम नियत होना

आय आधी रह गई । अंग्रेज़ सरकार को प्रतापगढ़ राज्य से खिराज के वार्षिक ७२७०० सालिम-शाही रुपये मिलते थे । उसके स्थान में वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) से वार्षिक ३६३५०

कलदार रुपये देना स्थिर हुआ, जो नियमित रूप से प्रतापगढ़ राज्य अंग्रेज़ सरकार को देता है ।

राज्य में पहले नाज-बंटाई के हिसाब से ज़मीन का लगान लिया जाता था, परंतु इसमें असुविधा अधिक होने से महारावत उदय-

खालसे के गांवों की पैमाइश होकर ठेकाबंदी होना

सिंह के समय खालसे के गांवों की साधारण रूप से चकबंदी होकर वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में ठेके बांध दिये गये और हासिल में

नक़द रक़म लेने की प्रणाली स्थिर हुई, परंतु यह व्यवस्था बहुत दिनों तक न चली । जब सालिमशाही रुपये का भाव बहुत गिर गया और कलदार का चलन आरंभ हुआ तो राज्य ने लगान की रक़म में $\frac{1}{4}$ कमी कर दी । वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०३) में खालसे के गांवों की पैमाइश करना स्थिर हुआ । उस समय राज्य के खालसे में कुल २३३ गांव थे, जिनमें से केवल ११४ की पैमाइश हुई । उनमें से दो गांव वीरान थे । शेष ११२ गांवों में से २४ दस वर्ष के लिए ठेके पर दिये गये और एक गांव इस्तमरारदारी के तरीक़े पर कर दिया गया । वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०६) में लगान में संशोधन होकर आय के अनुसार ८७ गांवों की ठेके की रकम पन्द्रह वर्ष के लिए नियत कर दी गई । मगरे ज़िले के ११६ गांवों में भीलों की आवादी थी-जिनकी स्थिति खराब थी, इसलिए वहां की पैमाइश न होकर दस वर्ष के लिए आय की औसत से उनका

ठेका भी बांध दिया गया। इससे राज्य को अनाज के वजाय लगान में नरकद रकम मिलने लगी और कृषकों को सुविधा भी हो गई। यह सब कार्य-वाही वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०७) तक समाप्त हो गई। उसी समय शिक्षा के प्रचार के लिए लगान के साथ एक आना प्रति रुपया खालसा के काश्तकारों तथा इस्तमरारदारों से प्राप्त होनेवाली रकम पर वसूल होना स्थिर हुआ और जागीरदारों तथा पावादारों से वसूल होनेवाली रकम पर भी शिक्षा प्रचार के लिए आध आना प्रति रुपया नियत कर दिया गया।

अकाल की आपत्ति से प्रतापगढ़ राज्य ने छुटकारा पाया ही नहीं था कि वि० सं० १६६० और १६६१ (ई० स० १६०३-४) में वहां प्लेग का भयङ्कर प्रकोप हुआ, जिसमें सैकड़ों घर जन-प्लेग की भयङ्कर बीमारी होना शून्य हो गये। इससे राज्य को बड़ी क्षति हुई, जो कई वर्षों तक पूरी न हो सकी।

उन दिनों महाराजकुमार मानसिंह शासन-कार्य चलाने के योग्य हो गया था। इसलिए वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में महारावत ने शासन के मुख्य-मुख्य अधिकार उक्त महाराजकुमार को सौंप दिये। महाराजकुमार मानसिंह ने अपने पिता से शासनाधिकार पाने के पीछे राज्य में बहुत कुछ सुधार किये, जिससे आर्थिक स्थिति संतोषप्रद होकर राज्य ऋणमुक्त हो गया। उक्त महाराजकुमार के जीवन-संबंधी संक्षिप्त वृत्तांत के साथ उसके द्वारा होनेवाले कार्यों का संक्षेप से उल्लेख करना यहां आवश्यक है—

महाराजकुमार मानसिंह का जन्म, महारावत रघुनाथसिंह के प्रताप-गढ़ का स्वामी होने के पूर्व, जब वह अरणोद का स्वामी था, उसकी खवास ठिकाने (अजमेर जिला) की राठोड़ राणी उगमकुंवरी के उदर से वि० सं० १६४३ चैत्र सुदि १० (ई० स० १६८६ ता० १३ अप्रैल) को हुआ था। महारावत रघु-नाथसिंह की गद्दीनशीनी के समय उसका ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिंह विद्यमान

था, इसलिए मानसिंह अरणोद का महाराज माना गया, किन्तु थोड़े ही दिनों बाद प्रतापसिंह काल कवलित हो गया। अतएव मानसिंह भावी उत्तराधिकारी के पद पर स्थिर हुआ तथापि बहुत दिनों तक अरणोद की जागीर उसके नाम पर बनी रही।

शिशुकाल समाप्त होने पर महारावत रघुनाथसिंह ने महाराजकुमार मानसिंह की शिक्षा की उचित व्यवस्था की। प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के अनुसार उसने महाराजकुमार की शिक्षा के लिए अच्छे-अच्छे पंडित और योग्य विद्वानों को रख उसे हिंदी और संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। फिर अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। महाराजकुमार के साथ कुछ सरदारों के लड़के भी रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, अतएव महारावत ने उनमें विद्यानुराग उत्पन्न करने के लिए 'पिन्हे नोवल्स स्कूल' की स्थापना की। तदनन्तर वि० सं० १६५१ (ई० स० १८६४) में वहां से वह (महाराजकुमार) अजमेर भेजा गया, जहां उसने मेयो कॉलेज में विद्याध्ययन कर डिप्लोमा तक की अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने अध्ययनकाल में वह बड़ा होनहार विद्यार्थी माना जाता था।

जैसा ऊपर लिखा गया है, वि० सं० १६५६ माघ वदि ५ (ई० स० १६०३ ता० १८ जनवरी)को उक्त महाराजकुमार का विवाह खेतड़ी के विद्याप्रेमी राजा अजीतसिंह^१ की विदुषी राजकुमारी और जयसिंह की

(१) खेतड़ी का स्वर्गीय राजा अजीतसिंह राजपूताने के तत्कालीन नरेशों में बड़ा ही विद्याप्रेमी और गुणग्राहक था। हिंदू धर्म की उच्चता को ध्यान में रखते हुए वह सदा उसकी उन्नति में दत्तचित्त रहता था। उसने प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद के सत्संग से लाभ उठाकर बहुत कुछ ज्ञान वृद्धि की थी। जैसा वह विद्वान् था, वैसी ही उसकी संतति हुई और उसका पुत्र राजा जयसिंह भी बड़ा सुशील तथा होनहार था। जयसिंह ने अजमेर के मेयो कालेज में रहकर डिप्लोमा तक शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षण-काल में ही दुर्भाग्य से उसको राजयक्ष्मा रोग हो गया और उससे ही वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१०) में वह उठती हुई जवानी में स्वर्गवासी हुआ। राजा अजीतसिंह की ज्येष्ठ राजकुमारी सूर्यकुंवरी शाहपुरा के स्वर्गीय राजाधिराज सर नाहरसिंह के ज्येष्ठ कुंवर उम्मेदसिंहजी (वर्तमान शाहपुराधीश) को ब्याही गई, पर

वहिन चंद्रकुंवरी के साथ संपन्न हुआ। वि० सं० १६६१ माघ वदि ३० (ई० स० १६०५ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शेखावत के उदर से पुत्र भी उत्पन्न हुआ; किन्तु वह थोड़े ही समय पीछे कालकवलित हो गया। फिर महारावत ने महाराजकुमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे उससे शासन-कार्य में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, म्युनिसिपैलिटी, माफ़ी तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निर्णय के कार्य उसको सौंपे गये, जिनका उसने योग्यतापूर्वक सम्पादन किया।

शासन संबंधी उपर्युक्त अधिकार पाकर महाराजकुमार ने मनोयोग-पूर्वक उत्तरदायित्व का पालन किया और प्रत्येक कार्य में तत्परता दिखलाई, जिससे महारावत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया। इसपर महारावत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने हाथ में रखकर बाकी सारा राज्य-कार्य वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में महाराजकुमार को सौंप दिया। उस समय राज्य ऋण-ग्रस्त था। महारावत के पुराने विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने न पाई, इसलिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त करने और सालिमशाही सिकके के परिवर्तन से आर्थिक स्थिति गिर रही थी, उसको सुधारने का दृढ़ संकल्प किया। खालसा के गांवों की पैमाइश का कार्य पूरा हो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया। इस ठेकेवंदी की योजना में शिक्षा वृद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गई थी, इस-

उसका भी असमय देहांत हो गया। उसका अमर स्मारक “सूर्यकुमारी ग्रंथमाला” है, जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। अजीतसिंह की दूसरी राजकुमारी चांदकुंवरी विदुषी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला है। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है। उसकी कोख से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं और गंभीर विषयों में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं।

लिए गांवों में कई जगह शिक्षणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्हे नोबल्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाने की व्यवस्था हुई । जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में सरकारी वाग्न के भीतर कर्नल ए० टी० होम की स्मृति में 'होम लाइब्रेरी' स्थापित की गई । स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी उस समय समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मार्ग भी ठीक किये गये । पुलिस के महकमे का संगठन होकर उसमें होनेवाली खराबियों को रोका गया और आय-व्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलसिला भी आरंभ हुआ ।

वि० सं० १९६५ चैत्र सुदि ११ (ई० स० १९०८ ता० १२ अप्रैल) रविवार को खेतड़ीवाली शेखावत कुंधराणी के उदर से महाराजकुमार के पुत्र राम-सिंहजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत हैं । लगभग १०० वर्ष के पश्चात् प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौत्र उत्पन्न होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फूली न समाई । महारावत और महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न की । फिर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्कालीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिंह ने उसका बड़ा सम्मान किया और उससे उसकी कई मुलाकाते हुई । तदनन्तर वह वहां की मनोहर छुटा और दर्शनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लौटा । इस यात्रा में उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी किया था ।

इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १९६६ (ई० स० १९०९) में महारावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंवरी का विवाह सैलाना (मध्य भारत) के स्वर्गीय राजा जसवन्तसिंह के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपसिंहजी (वर्तमान सैलाना नरेश) के साथ बड़े समारोहपूर्वक हुआ । उस समय तक राज्य ऋण-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाह-कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि पैदा न हुई ।

वहिन चंद्रकुंवरी के साथ संपन्न हुआ। वि० सं० १६६१ माघ वदि ३० (ई० सं० १६०५ ता० ४ फ़रवरी) को कुंवराणी शेखावत के उदर से पुत्र भी उत्पन्न हुआ; किन्तु वह थोड़े ही समय पीछे कालकवलित हो गया। फिर महारावत ने महाराजकुमार की शिक्षा समाप्त होने के पीछे उससे शासन-कार्य में योग लेना आरंभ किया और प्रारम्भ में शिक्षा, म्युनिसिपैलिटी, माफी तथा भीतरी सीमा सम्बन्धी निर्णय के कार्य उसको सौंपे गये, जिनका उसने योग्यतापूर्वक सम्पादन किया।

शासन संबंधी उपर्युक्त अधिकार पाकर महाराजकुमार ने मनोयोग-पूर्वक उत्तरदायित्व का पालन किया और प्रत्येक कार्य में तत्परता दिखाई, जिससे महारावत को उसकी योग्यता का विश्वास हो गया। इसपर महारावत ने अपना पिछला समय ईश्वर भक्ति में लगाने का विचार कर राज्य के कुछ मुख्य अधिकार अपने हाथ में रखकर बाकी सारा राज्य-कार्य वि० सं० १६६२ (ई० सं० १६०५) में महाराजकुमार को सौंप दिया। उस समय राज्य ऋण-ग्रस्त था। महारावत के पुराने विचार का प्रेमी होने से राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने न पाई, इसलिए महाराजकुमार ने शासनाधिकार मिलते ही राज्य को ऋण-मुक्त करने और सालिमशाही सिकके के परिवर्तन से आर्थिक स्थिति गिर रही थी, उसको सुधारने का दृढ़ संकल्प किया। खालसा के गांवों की पैमाइश का कार्य पूरा हो जाने पर लगान निश्चित कर दिया गया। इस ठेकेवंदी की योजना में शिक्षा वृद्धि की भी पूरी गुंजाइश रखी गई थी, इस-

उसका भी असमय देहांत हो गया। उसका अमर स्मारक "सूर्यकुमारी ग्रंथमाला" है, जो काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होती है। अजीतसिंह की दूसरी राजकुमारी चांदकुंवरी विदुषी, कुशाग्रबुद्धि, सुशील, विनम्र और धर्मपरायण महिला है। प्रतापगढ़ राज्य की प्रजा उसके वात्सल्य प्रेम की सराहना करती है। उसकी कोख से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी बहादुर का जन्म हुआ है, जो अपनी पूजनीय माता के पद-चिन्हों का अनुसरण करते हुए शासन कार्य चलाते हैं और गंभीर विषयों में सदा राजमाता से परामर्श लेते हैं।

लिए गांवों में कई जगह शिक्षणालय खोले गये । राजधानी की पाठशाला में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने का भी आयोजन किया गया तथा पिन्हे नोवल्स स्कूल का भी कार्य बढ़ाया जाकर उसके लिए छात्रावास बनाने की व्यवस्था हुई । जनता में ज्ञान का विकास करने के लिए प्रतापगढ़ में सरकारी वाग के भीतर कर्नेल ए० टी० होम की स्मृति में 'होम लाइब्रेरी' स्थापित की गई । स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी कार्यों में भी उस समय समयानुसार उन्नति की गई एवं गमनागमन के मार्ग भी ठीक किये गये । पुलिस के महकमे का संगठन होकर उसमें होनेवाली खराबियों को रोका गया और आय-व्यय का बजट प्रतिवर्ष बनाने का सिलसिला भी आरंभ हुआ ।

वि० सं० १९६५ चैत्र सुदि ११ (ई० स० १९०८ ता० १२ अप्रैल) रविवार को खेतड़ीवाली शेखावत कुंवराणी के उदर से महाराजकुमार के पुत्र राम-सिंहजी का खेतड़ी में जन्म हुआ, जो प्रतापगढ़ के वर्तमान महारावत हैं । लगभग १०० वर्ष के पश्चात् प्रतापगढ़ राज्य में वहां के राजा के पौत्र उत्पन्न होने के शुभ अवसर पर वहां की प्रजा फूली न समाई । महारावत और महाराजकुमार ने इस अवसर पर अपनी स्वाभाविक उदारता में कमी न की । फिर उसी वर्ष महाराजकुमार ने काश्मीर की यात्रा की, जहां के तत्कालीन नरेश महाराजा सर प्रतापसिंह ने उसका बड़ा सम्मान किया और उससे उसकी कई मुलाकाते हुई । तदनन्तर वह वहां की मनोहर छुटा और दर्शनीय स्थानों का अवलोकन कर प्रतापगढ़ लौटा । इस यात्रा में उक्त महाराजकुमार ने वहां दो शेरों का शिकार भी किया था ।

इसके एक वर्ष पीछे वि० सं० १९६६ (ई० स० १९०९) में महारावत की दूसरी राजकुमारी राजकुंवरी का विवाह सैलाना (मध्य भारत) के स्वर्गीय राजा जसवन्तसिंह के ज्येष्ठ राजकुमार दिलीपसिंहजी (वर्तमान सैलाना नरेश) के साथ बड़े समारोहपूर्वक हुआ । उस समय तक राज्य ऋण-मुक्त नहीं हुआ था तो भी इस विवाह-कार्य में किसी प्रकार की घुट्टि पैदा न हुई ।

वि० सं० १६६७ आश्विन सुदि ४ (ई० स० १६१० ता० ७ अक्टोबर) को महाराजकुमार की शेखावत कुंवराणी के उदर से महारावत के द्वितीय पौत्र का जन्म हुआ। उस अवसर पर महाराजकुमार की बनाई योजना के अनुसार महारावत ने अपने राज्य के चारण-भाटों, ब्राह्मणों तथा साधुओं से नज़राना लेने की प्रथा उठा दी, परंतु थोड़े ही दिनों बाद उक्त शिशु का देहांत हो गया।

उसी वर्ष आश्विन सुदि ६ (ता० १३ अक्टोबर) को महाराजकुमार मानसिंह का दूसरा विवाह टेहरी गढ़वाल के पंवार (परमार) राजा कीर्ति-शाह की राजकुमारी भुवनेश्वरीदेवी से हुआ, जिसके उदर से वि० सं० १६६८ श्रावण वदि १४ (ई० स० १६११ ता० २४ जुलाई) को राजकुमारी मोहनकुंवरी का जन्म हुआ।

वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में सम्राट् एडवर्ड सप्तम का लंदन में देहावसान हो जाने पर प्रिंस जॉर्ज, सम्राट् जॉर्ज पञ्चम के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। इस उपलक्ष्य में उक्त सम्राट् ने सम्राज्ञी-सहित वि० सं० १६६८ (ई० स० १६११) में भारत आकर दिल्ली नगर में राज्याभिषेकोत्सव का ता० १२ दिसंबर (पौष वदि ७) को बृहत् दरवार करना निश्चित किया। इस अवसर पर उक्त दरवार में सम्मिलित होने के लिए भारत के समस्त देशी नरेशों और प्रतिष्ठित पुरुषों के नाम तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज की तरफ से निमन्त्रण पत्र भेजे गये। प्रतापगढ़ में भी वाइसरॉय का निमन्त्रण पत्र पहुंचने पर महारावत की तरफ से महाराजकुमार मानसिंह ने कुछ सरदारों-सहित दिल्ली जाकर दरवार में सम्मिलित होने और सम्राट् से साक्षात्कार करने का सम्मान प्राप्त किया तथा वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज से भी उसकी मुलाकात हुई। दिल्ली दरवार में महारावत सम्मिलित नहीं हुआ, तो भी सम्राट् की तरफ से इसके उपलक्ष्य में उसको के० सी० आई० ई० (नाइट कमांडर ऑव् दि इंडियन एम्पायर) की सम्माननीय उपाधि दिये जाने की भारत सरकार की ओर से सूचना प्रकाशित हुई।

इसके पीछे वि० सं० १९६६ (ई० सं० १९१२) के नवंबर में भारत का वाइसरॉय और गवर्नर-जेनरल लॉर्ड हार्डिंज राजपूताने के राज्यों में भ्रमण करता हुआ अजमेर पहुंचा । उसने महारावत को भी वहां आने के लिए निमंत्रित किया । इसपर महाराजकुमार मानसिंह और कुछ सरदारों तथा राजकर्मचारियों के साथ महारावत अजमेर गया । रेल्वे स्टेशन पर अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर आदि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उसका स्वागत किया । फिर वाइसरॉय के आगमन के समय महारावत रेल्वे स्टेशन पर सरकारी अफसरों और रईसों के साथ स्वागत-समारोह में शरीक हुआ । अनन्तर वह महाराजकुमार तथा सरदारों आदि के साथ रेजिडेंसी हाउस में वाइसरॉय से मुलाकात करने गया । वाइसरॉय ने भी वापसी की मुलाकात के लिए महारावत के निवास-स्थान वीकानेर हाउस (मेयो कॉलेज, अजमेर) में जाकर महारावत को के० सी० आई० ई० के तमग्रे से विभूषित किया । अजमेर में रहते समय महारावत की डूंगरपुर के स्वर्गीय महारावत विजयसिंह और शाहपुरा के राजाधिराज सर नाहर-सिंह से भी मुलाकातें हुई । इस अवसर पर महारावत मेयो कॉलेज के पारितोषिक-वितरणोत्सव, किंग एडवर्ड मेमोरियल के शिलान्यासोत्सव, गार्डेन पार्टी आदि में भी सम्मिलित हुआ था ।

उसी वर्ष महाराजकुमार मानसिंह का तृतीय विवाह धांगधरा- (काठियावाड़) के स्वर्गीय महाराजराणा अजीतसिंह की राजकुमारी और वर्तमान महाराजराणा घनश्यामसिंहजी की बहिन मयाकुंवरीबा से हुआ ।

महारावत को राज्यासन पर बैठे हुए वि० सं० १९७१ (ई० सं० १९१४) के मई मास में चौबीस वर्ष समाप्त होकर पच्चीसवां आरंभ हुआ । महाराजकुमार के आग्रह से इस अवसर पर वहां रौप्य जयंती मनाता स्थिर होकर ता० १२ मई (वि० सं० १९७१ ज्येष्ठ वटि ३) को दरबार हुआ, जिसमें महारावत के समय के उल्लेखनीय कार्यों का वर्णन किया गया । उस समय महारावत ने कितने ही व्यक्तियों की तनहाओं तथा जागीरों में वृद्धि

की। वोड़ी-सागथली के ठाकुर बलवंतसिंह के खिराज में कमी की गई तथा नागदी के ठाकुर बस्तावरसिंह, देवद के ठाकुर भोमसिंह और सेलारपुरा के ठाकुर गंभीरसिंह को ताज़ीम तथा पैर में स्वर्ण का कड़ा पहनने का सम्मान दिया गया। राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की आश्वासनात्मक प्रज्ञापना से ली जानेवाली छोटी-छोटी लागतें माफ़ कर दी गईं। काश्तकारों के बकाया साठ हजार रुपये माफ़ कर दिये गये। ब्राह्मणों तथा अन्य व्यक्तियों को, जिन्होंने राज्य की अच्छी सेवा की थी, ज़मीन आदि दी जाकर कई व्यक्तियों को सिरोपाव आदि दिये गये। इस अवसर पर उसने अपने छोटे राजकुमार अरणोद के महाराज गोवर्धनसिंह को चंवर रखने का सम्मान प्रदान किया।

उन्हीं दिनों वि० सं० १६७१ (ई० सं० १६१४) में यूरोप में महा-समर छिड़ गया। अंग्रेज़-सरकार ने अपने मित्र बेल्जियम और फ़्रांस की सरकारों का पक्ष लेकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। चार वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में जर्मनी की ओर से संधि का प्रस्ताव होने पर युद्ध बन्द हो गया और विजयी होने का श्रेय ब्रिटेन आदि मित्र राज्यों को मिला। इस युद्ध के समय महारावत और महाराजकुमार ने अंग्रेज़ सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए अपने राज्य के समस्त साधन सरकार को प्रदान करने की इच्छा प्रकट की और युद्ध के फ़ंडों तथा युद्ध-ऋण में भी राज्य की ओर से समयानुसार सहायताएं दी गईं।

वि० सं० १६७५ (ई० सं० १६१८) में भारत में इन्फ़्लुएंज़ा का प्रबल आक्रमण हुआ, जिसमें सहस्रों मनुष्य काल के ग्रास हो गये। यों तो इस राज्य में वि० सं० १६६०-६१ (ई० सं० १६०३-५) में प्लेग की बीमारी का वेग रहा था; परंतु उससे भी भयावह इन्फ़्लुएंज़ा का प्रकोप रहा, जिससे सैकड़ों व्यक्तियों का प्राणान्त हुआ। तीन सप्ताह तक इस रोग का आक्रमण रहा और स्वयं महाराजकुमार मानसिंह इस रोग से पीड़ित हो गया। बहुत कुछ चिकित्सा कराने पर भी

उसको कोई लाभ नहीं हुआ और केवल ३२ वर्ष की आयु में वह कार्तिक वदि १० (ई० स० १६१८ ता० २६ अक्टोबर) को परलोक सिधारा ।

महाराजकुमार मानसिंह, सुशिक्षित, विनम्र, दयालु और गुणग्राही राजकुमार था । कुल-परंपरागत उदारता का भी उसमें पूर्ण रूप से समावेश था । राज्य-प्रबंध को वह अपना मुख्य कर्तव्य समझकर अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन करता था । प्रबंध-कुशल होने के कारण उसने तेरह वर्ष के थोड़े समय में ही प्रतापगढ़ राज्य की बहुत कुछ उन्नति कर राज्य को ऋण-मुक्त कर दिया और वहां की आर्थिक दशा भी सुधार दी । प्रजा के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीय था, जिससे राज्य की आय में वृद्धि होकर आर्थिक दशा दृढ़ हो गई । उसकी कार्य-शैली सुसंगठित थी । वह अपना कार्य नियमित रूप से पूरा करता था । उसकी शासन-प्रणाली से प्रजा को पूरा संतोष था और समय पर न्याय मिलने में कठिनाई न होती थी । अलवर, किशनगढ़, डूंगरपुर, वांसवाड़ा, नरसिंहगढ़, जामनगर, शाहपुरा, धांगधरा, धौलपुर, काश्मीर आदि के नरेशों के साथ उसका मित्रता का व्यवहार था । प्रतापगढ़ के नरेशों का डूंगरपुर और वांसवाड़ा के नरेशों से वैयक्तिक विरोध होने के कारण वैमन-स्य चला आता था, वह उस (महाराजकुमार) ने दूर कर दिया । डूंगरपुर के महारावल विजयसिंह (स्वर्गीय) का प्रथम विवाह वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०७) में सैलाना के राजा जसवंतसिंह की राजकुमारी देवेन्द्रकुमारी के साथ होने पर वह उक्त महारावल की वारात में सम्मिलित होकर सैलाने गया और इसी प्रकार वांसवाड़ा के वर्तमान महारावल सर पृथ्वी-सिंहजी को वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में राज्याधिकार मिलने के अवसर पर जो दरबार हुआ उसमें सम्मिलित होकर उसने उक्त दोनों नरेशों के साथ अपनी मैत्री प्रकट की । उसका स्वभाव सरल और अभिमान-रहित था । अंग्रेज़ सरकार के प्रति उसका आचरण राज-भक्ति का रहा, जिससे बड़े-बड़े अंग्रेज़ अफसर उससे मिलकर प्रसन्न होते थे ।

प्रायः देखा गया है कि राज्याधिकार भिल जाने पर परस्पर पिता-पुत्रों में भी वैमनस्य हो जाता है, परंतु महाराजकुमार मानसिंह बड़ा पितृ-भक्त रहा और अपने जीवन-काल में उसने इस सम्बन्ध में कभी अन्तर नहीं आने दिया। प्रतापगढ़ राज्य में इस समय जो शासन-व्यवस्था है उसका अधिकांश श्रेय उक्त महाराजकुमार को ही है और अब तक भी वह उसकी निर्दिष्ट शैली पर स्थिर है। वह यथासाध्य दीन-दुखियों के कष्टों को दूर करता, उनकी प्रार्थनाएं ध्यानपूर्वक सुनता और उन्हें हर तरह से आराम पहुंचाने की चेष्टा करता था। विद्या-व्यसनी होने से उसने कई विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे अध्ययन के लिए बाहर भेजकर सदा उनको प्रोत्साहन दिया। उसकी मेधा-शक्ति अच्छी थी, जिससे राज्य-संबंधी प्रत्येक बात को वह सरलता से ग्रहण करता और जटिल से जटिल समस्या को भी थोड़े समय में सुलझा देता था। उसका अधिकांश समय राज्य-कार्य में ही व्यतीत होता था और पूर्ण परिश्रमपूर्वक राज-कार्य में योग देता था। प्रतापगढ़ राज्य को इस होनहार राजकुमार से बड़ी-बड़ी आशाएं थीं और उसके द्वारा इस राज्य की अधिक से अधिक उन्नति की संभावना थी, परंतु उसका असमय ही स्वर्गवास हो गया। उसके विचार उदार और गंभीर थे। वह चन्द्रक का निशाना लगाने में चतुर, अच्छा घुड़सवार और आखेट एवं घुड़दौड़ का शौकीन था। सनातन धर्म के प्रति उसकी असीम श्रद्धा थी और देहावसान के पूर्व उसकी शैव धर्म की ओर प्रवृत्ति बढ़ गई थी। उसको अपने पूर्वजों का बड़ा अभिमान था और प्रसिद्ध सीसोदिया वंश के गौरव को अक्षुण्ण रखने का वह सदा प्रयत्न करता था। वह व्यवहार-कुशल और दृढ़-प्रतिज्ञ था। उसका क्रम मझला, चर्ण गेहुआ, शरीर बलिष्ठ और मुखाकृति सुन्दर तथा प्रभावोत्पादक थी। कोई भी व्यक्ति उससे यदि एक बार मिल लेता तो वह उसको न भूलता था और मिलनेवाले व्यक्ति पर उसके सौजन्य का अवश्य प्रभाव पड़ता था।

महाराजकुमार के तीन विवाह और दो संतति हुई, जिनका उल्लेख ऊपर आ गया है। उसकी दूसरी कुंवराणी भुवनेश्वरीदेवी का उसके जीवनकाल में ही वि० सं० १९७० श्रावण सुदि ८ (ई० स० १९१२ ता० ६ अगस्त) को देहांत हो गया। उसकी स्मृति में प्रतापगढ़ राजधानी में क्लिले के बाहर "श्रीभुवनेश्वरी देवी ज्ञानाना हास्पिटल" नामक सुन्दर अस्पताल वर्तमान महारावतजी ने बनवा दिया है, जो बड़ा उपयोगी है और जिसके द्वारा उक्त कुंवराणी की कीर्ति दीर्घ काल तक बनी रहेगी। इस समय महाराजकुमार की ज्येष्ठ और तीसरी कुंवराणियां (शेखावत चांद-कुंवरी और भाली मयाकुंवरीया) विद्यमान हैं। उपर्युक्त दोनों महिलाएं अपने पति के समान ही विद्यानुरागिनी हैं। उनके द्वारा दीन-दुखियों "प्रौर असहाय व्यक्तियों का सदा पोषण होता है। कुंवराणी शेखावत (वर्तमान राजमाता) ने अपने छोटे भाई खेतड़ी के राजा जयसिंह के शिक्षा-गुरु प्रसिद्ध विद्वान् पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० ए० का असमय देहान्त

(१) पंडित चंद्रधर गुलेरी, बी० ए० सारस्वत ब्राह्मण था। पंजाब की तरफ से उसके पूर्वज राजपूताना में जयपुर चले गये और वहां के नरेशों के आश्रय में रहकर संस्कृत भाषा की सेवा करने लगे। उसका पिता शिवराम संस्कृत का योग्य विद्वान् था। वह वहां संस्कृत भाषा का प्रवर्तक माना जाता है। वि० स० १९४० (ई० स० १८८३) में पंडित शिवराम के पुत्र पं० चंद्रधर गुलेरी का जन्म हुआ। अपने वंश-गौरव के अनुरूप वह अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत आदि का उत्कृष्ट विद्वान् था। वि० सं० १९५६ (ई० स० १८९९) में मैट्रिक और वि० स० १९६० (ई० स० १९०३) में उसने बी० ए० की परीक्षा सम्मान के साथ पास की। उसकी असाधारण योग्यता, कार्य-दक्षता, सच्चरित्रता एवं शोध की प्रवृत्ति से जयपुर राज्य के उच्चाधिकारियों का उसकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ और उन्होंने उसको खेतड़ी के अल्पवयस्क राजा जयसिंह (स्वर्गीय) का शिक्षक नियत किया। उसने उक्त प्रतिभावान् राजा का जीवन सुन्दर सांघे में ढाला, जिसकी सर्वप्रथमा हुई। अनन्तर वह मेयो कॉलेज (जजमेर) के जयपुर हाउस में रहनेवाले छात्रों का निरीक्षक और मोतमिद नियत हुआ। उन्हीं दिनों उसकी योग्यता का अनुभव पाकर मेयो कॉलेज के अधिकारियों ने उसको वहा का हेड पंडित नियत किया। उसकी पाठनशैली, निदृष्टता, सरलता और सौजन्यता का परिचय पाकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने उससे

हो जाने पर उसकी स्त्री के भरण-पोषण की उचित व्यवस्था कर अपने निजी व्यय से उसके पुत्रों को कई वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान कर विद्या-प्रेम और गुण-प्राप्तता का परिचय दिया है। इसी प्रकार वह और भी कई व्यक्तियों का पोषण अपने निजी व्यय से करती है। वह बड़ी बुद्धिमती और उदार विचारयुक्त महिला है। उसके द्वारा ही प्रतापगढ़ राज्य में प्राचीन परिपाटियों और राज-रीति का संरक्षण हो रहा है तथा वह सदा महारावतजी को उत्तम सलाह देकर अपना कर्त्तव्य पालन करती है। कुंवराणी भाली मयाकुंवरीवा ने अपने पति की स्मृति को चिर-स्थायी बनाने के लिए प्रतापगढ़ में "मानसिंह कन्या पाठशाला" स्थापित की है और प्रतापगढ़ के किले में उसके नाम पर विष्णु का "मान मुरलीधर मंदिर" भी बनवाया है। उक्त मंदिर के व्यय के लिए वर्तमान महारावतजी ने कटकड़ी गांव भेंट किया है।

महाराजकुमार मानसिंह का परलोकवास होने के पीछे राज-कार्य पीछा महारावत को अपने हाथ में लेना पड़ा। उसने महाराजकुमार की शासन-नीति में फेर-फार न कर उसी शैली से शासन-व्यवस्था को स्थिर रखा। उस (महारावत)-के पिछले दस वर्षों में शिक्षा का क्षेत्र विस्तीर्ण किया गया, न्याय विभागों में अच्छे-अच्छे आदमी नियत कर वहांकी श्रुटियां दूर की गईं; माल हासिल और आवपाशी के साधन बढ़ाये गये, जिससे आय में वृद्धि हुई; सीमा सम्बन्धी कई बड़े-बड़े झगड़े तय हुए; तमाम इलाक़े की पट्टेबंदी होकर ज़मीन के लगान में संशोधन किया गया और वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२५) में लगान की दर निश्चित हुई, जिससे काश्तकारों के असंतोष में वृद्धि न हुई।

हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस की सेवा स्वीकार करने का आग्रह कर उसे वहां बुलवा लिया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में कुछ दिन ज्वर-ग्रस्त रहकर उसकी ३६ वर्ष की आयु में वहीं मृत्यु हुई। उसके असामयिक निधन से जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति होना कठिन है।

महाराजकुमार को अधिकार मिलने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य के कामदार पद से मन्नालाल माचावत हट गया। तब वह पद तोड़ा जाकर सुजानमल चांठिया महाराजकुमार का सेक्रेटरी बनाया गया, जिसको केवल तामीली कार्यवाही करने का अधिकार था। महाराजकुमार की योजना के अनुसार उसके देहांत के पीछे कुछ वर्ष तक तो इसी प्रकार काम चला, परंतु सेक्रेटरी का पद उत्तरदायित्वपूर्ण न होने से शासन-कार्य को चलाने के लिए पुनः कामदार की नियुक्ति की आवश्यकता जान पड़ी। निदान वि० सं० १९७८ आषाढ वदि ११ (ई० सं० १९२१ ता० १ जुलाई) को पारसी धनजीशाह कामदार नियत हुआ। उसके साथ ही इस पद के नाम में परिवर्तन होकर उक्त पदाधिकारी दीवान कहलाने लगा। उसके कार्यकाल में सालिमगढ़ गांव के संबंध में चांस-घाड़ा राज्य के साथ जो सीमा का झगड़ा चल रहा था, उसका संतोष-जनक निपटारा हो गया।

वि० सं० १९८१ वैशाख सुदि १० (ई० सं० १९२४ ता० १४ मई) को महारावत ने अपने पौत्र रामसिंह (वर्तमान महारावत) का विवाह सीकर के भूतपूर्व रावराजा माधवसिंह की राजकुमारी से बड़े समारोहपूर्वक किया। इस अवसर पर बीकानेर नरेश महाराजा सर गंगा-सिंहजी, सैलाना के राजा दिलीपसिंहजी आदि भी सम्मिलित हुए। उन्हीं दिनों ग्वालियर का परलोकवासी महाराजा सर माधवराव सिधिया भी देवलिया गया।

इसके दो वर्ष पीछे महारावत ने अंग्रेज सरकार के साथ वि० सं० १९८३ (ई० सं० १९२६) में एक अहदनामा किया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष अंग्रेजी तोल की ४८० मन अफीम दस और ग्यारह रुपये प्रति सेरे के भाव से लेना अंग्रेज सरकार ने तय किया।

महारावत का कामदार पद पर पारसी धनजीशाह को नियुक्त करना

महारावत के भवर रामसिंह का विवाह

अफीम की खरीद के बारे में अंग्रेज सरकार से बात-चीत होना

महारावत रघुनाथसिंह का ३६ वर्ष राज्य करने के पश्चात् वि० सं० १६८५ पौष सुदि ८ (ई० स० १६२६ ता० १८ जनवरी) को ७० वर्ष की आयु में निमोनिया की बीमारी से स्वर्गवास हुआ ।
 महारावत की बीमारी और परलोकवास वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी ने सर जेम्स रॉबर्ट्स (देवास सीनियर, मध्य भारत का प्रधान मन्त्री और सिविल सर्जन) जैसे प्रसिद्ध और बड़े-बड़े योग्य डाक्टर तथा वधैयों को बुलवाकर महारावत की चिकित्सा कराई, परन्तु कुछ लाभ न हुआ और देवलिया के राज-महलो में भगवान रामचंद्र के चित्र की तरफ दृष्टि रखते हुए उसका जीवन-दीप बुझ गया ।

महारावत रघुनाथसिंह के तीन विवाह हुए थे । उनमें से दो अरणोद के महाराज की अवस्था में और एक गद्दीनशीनी के बाद वि० सं० १६४८ फाल्गुन वदि ७ (ई० स० १८६२ ता० ५ मार्च) को हुआ ।
 महारावत की राणिया और सतति उसकी इन तीन राणियों में से ज्येष्ठ उगमकुंवरी खवास ठिकाने (अजमेर जिला) के राठोड़ ठाकुर महीपालसिंह की पुत्री और शार्दूलसिंह की पौत्री थी, जिसका वि० सं० १६४८ मार्गशीर्ष सुदि ५ (ई० स० १८६१ ता० ६ दिसंबर) को देहावसान हुआ । उक्त महाराणी के उदर से क्रमशः महाराजकुमार प्रतापसिंह, राजकुमारी वल्लभकुंवरी और महाराजकुमार मानसिंह अरणोद में ही उत्पन्न हुए । राजकुमारी वल्लभकुंवरी का विवाह वर्तमान महाराजा साहब बीकानेर से हुआ, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है । उक्त राजकुमारी के उदर से महाराजकुमार शार्दूलसिंह का जन्म हुआ, जो बीकानेर का युवराज है और बहुत शांत-चित्त, गंभीर और होनहार पुरुष है । उक्त राजकुमारी का वि० सं० १६६३ भाद्रपद वदि ३० (ई० स० १६०६ ता० १६ अगस्त) को परलोकवास हो गया । दूसरी महाराणी केसरकुंवरी सेमलिया (मध्य भारत का सैलाना राज्य) के महाराज भवानीसिंह की पुत्री और नाहरसिंह की पौत्री थी । इस राणी का देहांत भी महारावत की विद्यमानता में वि० सं० १६६५ वैशाख वदि १३ (ई० स० १६०८ ता० २८ अप्रैल) मंगलवार को हो गया । उक्त राणी ने

देवलिया के राजमहलों के अन्तःपुर में रसिकविहारी का मंदिर बनवाया । तीसरी राणी ब्रजकुंवरी (ज्येष्ठ राणी उगमकुंवरी की बहिन) से महारावत का विवाह वि० सं० १६४८ फाल्गुन वदि. ७ (ई० सं० १८६२ ता० २० फ़रवरी) को हुआ, जो अभी विद्यमान है और अपने पति महारावत रघुनाथसिंह के देहावसान के बाद से ही अपने पुत्र महाराज गोवर्धनसिंह के साथ अरण्योद में रहती है । उसके उदर से राजकुमारी राजकुंवरी और गोवर्धनसिंह का जन्म हुआ । विवाह से थोड़े समय बाद ही वि० सं० १६६८ (ई० सं० १६११) में राजकुंवरी का देहांत हो गया ।

महारावत रघुनाथसिंह के समय में बहुत से लोकोपयोगी कार्य हुए। उसके समय में मौखिक कार्यवाहियों का अन्त होकर व्यवस्थित रूप से शासन-प्रणाली स्थिर हुई । उसके समय में ही वहां शिक्षा का विकास हुआ और राजधानी प्रतापगढ़ में अंग्रेज़ी भाषा की मैट्रिक तक शिक्षा दी जाने लगी । गांवों में भी उसके समय में ही शिक्षणालय खुले । राजधानी में बालिकाओं को शिक्षा देने की भी उसके समय में व्यवस्था हुई । संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग होने से उसने वि० सं० १६८२ (ई० सं० १६२५) में “रघुनाथ संस्कृत पाठशाला” की स्थापना करवाई, जो अब भी ठीक-ठीक चल रही है । इस पाठशाला में वेदांत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष तथा कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है और साहित्य तथा ज्योतिष में आचार्य तक की उच्च परीक्षा वहां से दिलाई जाती है । क्षत्रिय जाति के उत्थान के लिए उनमें शिक्षा का प्रसार करने का समुचित प्रयत्न किया गया और क्षत्रिय कुमारों के प्रतापगढ़ में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रावास बना दिया गया एवं राज्य में निःशुल्क शिक्षा देने की पद्धति जारी हुई । उसके राज्य के प्रारंभिक समय में वहां वि० सं० १६५० (ई० सं० १८६३) के लगभग क्षत्रिय जाति में सामाजिक कुप्रथाओं में सुधार करने के लिए कर्नल सी० के० एम० वाल्टर (एजेंट गवर्नर जनरल, राजपूताना) के नाम पर “वाल्टर-कृत राजपुत्र-हितकारिणी-सभा” की एक शाखा स्थापित हुई, जिससे

क्षत्रिय जाति का हित होकर विवाह तथा गमी के अघसर पर होनेवाला अपव्यय रुक गया। फिर भी अभी इस विषय में बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। प्रतापगढ़ राज्य में चिकित्सालयों का भी उसके समय में ही विस्तार हुआ और प्रतापगढ़ तथा देवलिया में अंग्रेजी पद्धति पर चिकित्सा करने के लिए वहां चिकित्सालय के भवन निर्माण किये गये। अंग्रेजी औषध ग्रहण न करनेवाले व्यक्तियों की आयुर्वेदोक्त रीति से चिकित्सा कराने के लिए महारावत के नाम पर महाराजकुमार मानसिंह ने “रघुनाथ औषधालय” स्थापित किया। उक्त महाराजकुमार के परलोकवास के पीछे वहां अव्यवस्था होने लगी, इसपर महारावत ने उधर ध्यान देकर उसको सुव्यवस्थित बनाया। उसके समय में रजिस्ट्री, स्टाम्प आदि के कानून जारी हुए। गांवों में डाक पहुंचाने की भी उसके समय में सुव्यवस्था हुई। प्रतापगढ़ से मंदसौर तक सड़क बनवाने के अतिरिक्त गांवों में भी कई जगह के मार्ग ठीक बनवाये गये। पुलिस का भी उसके समय में अच्छा प्रबंध रहा और कई बड़े-बड़े उपद्रवी भील पकड़े गये, जिससे अंग्रेज-सरकार को उसपर प्रसन्नता रही। महारावत ने देवलिया के पुराने महलों का, जीर्णोद्धार करवाकर वहां कुछ नये महल बनवाये। कई स्थानों पर तालाब, कुएं आदि बनवाने के अतिरिक्त कितने ही नये भवन भी बनवाये गये। भिक्षुकों के लिए महारावत ने अपने यहाँ सदाव्रत भी जारी किया। उसके समय में प्रतापगढ़ में एक छापाखाना भी खोला गया, जो “रघुनाथ चंद्रालय” के नाम से प्रसिद्ध है।

महारावत रघुनाथसिंह शांत, सदाचारी और उदार शासक था। वह अपनी प्रजा से प्रेम करता और प्रजा भी उसको पितृ-तुल्य मानती थी।

महारावत का व्यक्तित्व

उसकी शासन-शैली प्राचीन होने पर भी उसके विचार उदार थे। वह प्रजा की प्रार्थनाओं को सुनकर उनको सन्तुष्ट करने का सदा प्रयत्न करता था। वह मृदुभाषी, पूर्ण ईश्वर-भक्त, धैर्यवान और कष्ट-सहिष्णु था। सब धर्मों के प्रति

उसका समान व्यवहार था। उसका आचरण शुद्ध और चित्त-वृत्ति निष्कपट थी। वह विद्वानों की ऋद्र करता तथा उन्हें समय-समय पर पारितोषिक आदि देकर सम्मानित करता था। वह पुराने कर्मचारियों की सलाहों का सदा आदर करता और अपने राज्य के उच्च पदों पर विशेषतः स्वदेश-वासियों को ही नियुक्त करता था। उनकी सेवाओं को स्मरण कर वह उन्हें सदा प्रोत्साहन देता रहता था, जिससे वे अपने कर्तव्य से विमुख न होते थे। अनाथ विधवाओं और बालकों की रक्षा का उसे सदैव ध्यान रहता था। मितव्ययी होने पर भी वह ऐसे कार्यों में अपने राज्य की स्थिति के अनुसार दान देने में संकोच नहीं करता था। उसके उत्तम आचरण से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर उसकी सज्जनता की छाप जम जाती थी। सामान्य पढ़ा-लिखा होने पर भी विद्या के प्रति उसको अनुराग था। भाषा-काव्य का कुछ ज्ञान होने से वह कभी-कभी स्वयं भी काव्य-रचना किया करता था। चारण और भाट कवियों की कविता सुनने का उसको अनुराग था और वह उनको अपना आश्रय देने में गौरव समझता था। उसको अपने वंश की उच्चता का पूर्ण अभिमान था। निरभिमानी होने से वह किसी से बातचीत करने में संकोच नहीं करता था। राजकीय गंभीर विषयों पर उसको सदा अपने कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके अधीनस्थ सरदार संतुष्ट थे; क्योंकि वह उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार उनका आदर करता था। वह पुराने ठिकानों को बनाये रखने की परिपाटीको पसंद करता था। इसलिए रायपुर का ठिकाना वहां के ठाकुर रत्नसिंह के वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१५) में निःसंतान देहांत होने के पीछे ज़मी के लायक होने पर भी महारावत ने दुलहसिंह के पुत्र प्रतापसिंह को उस (रत्नसिंह) का उत्तराधिकारी निर्वाचित कर अपनी उदारता का परिचय दिया। उसने कई राजपूत सरदारों को जागीर में नये गांव, भूमि आदि देकर, कई को ताज़ीम और स्वर्ण के पाद-भूषण से भी सम्मानित किया एवं कुछ सरदारों का खिराज भी कम कर दिया, जिससे उसके दीर्घ शासन-काल में सरदारों

को विरोध करने का अवसर नहीं मिला। वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में महारावत के रुग्ण होने पर अजमेर के सुप्रसिद्ध राजवैद्य पंडित रामदयालु शर्मा और उसके दत्तक-पुत्र लोकप्रिय डाक्टर अंबालाल (दाधीच) आयुर्वेदशास्त्री ने सुचारु रूप से चिकित्सा कर महारावत को रोग-मुक्त कर दिया। इसपर महारावत ने उक्त राजवैद्य को पैर में स्वर्ण-भूषण पहिनेने का वंशपरंपरा के लिए सम्मान प्रदान किया। इसके कुछ दिनों बाद महारावत के पौत्र भंवर रामसिंह (वर्तमान महारावत) के भी राज्यरुमा रोग से पीड़ित होने के आसार दृष्टिगोचर होने पर उसकी चिकित्सा भी उपर्युक्त पिता-पुत्र ने बड़ी लगन के साथ की, जिससे वह सर्वथा रोग-मुक्त हो गया। इसपर प्रसन्न होकर महारावत ने उनको सदा के लिए अपना चिकित्सक नियत कर "राजवैद्य" की पदवी के साथ जागीर में वार्षिक एक सहस्र रुपये कलदार की आय का कीटखेड़ी गांव वंशपरंपरा के लिए वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२६) में प्रदान किया। उसने राजपूत सरदारों के अतिरिक्त अन्य कई व्यक्तियों को भी उनकी सेवाओं के एवज में भूमि तथा गांव पुण्य एवं जागीर में दिये। सेमलखेड़ी गांव उसने देवलिया-स्थित ठाकुर युगलकिशोर और श्रीनाथजी के मंदिरों को भेंट किया। प्रतापगढ़ के नरेशों के पुरोहित आमेटा जाति के ब्राह्मण हैं और वहां इस जाति में दीर्घकाल से संस्कृत भाषा का ज्ञान चला आता है। महारावत ने पुरोहित-पद का सम्मान बढ़ाने के लिए अपने पुरोहित रेवाशंकर को ताज़ीम का सम्मान दिया और आदित्यगिरि नामक गोसाईं को, जो चारण जाति का था और भाषा-काव्य में अच्छी रचना करता था अपने यहां रखकर आश्रय प्रदान किया। अजमेर में गोशाला बनाने के लिए एक बड़ी

(१) प्रतापगढ़ के नरेशों के अधिकतर दानपत्र उपर्युक्त पुरोहित रेवाशंकर के यहां से ही प्राप्त हुए हैं, जिससे पाया जाता है कि दीर्घकाल से उसके घर में पुरोहिताई का पद चला आता है। प्रसिद्ध है कि महारावत विक्रमसिंह के मेवाड़ की बड़ी सादही की जागीर छोड़कर देवलिया में निवास करने पर उसके साथ उस (रेवाशंकर) के पूर्वज चले गये थे और तब से अब तक बराबर पुरोहिताई का पद उसके कुटुम्ब में ही विद्यमान है।

रक्रम देकर उसके कुंवर मानसिंह ने भी अच्छी उदारता प्रकट की। भगवान् रामचंद्र का उपासक होने से वि० सं० १९६५ (ई० स० १९०८) में उसने राममंत्र का अनुष्ठान करवाकर एक यज्ञ भी करवाया था। उसके शासन के कुछ वर्षों में राजकुमार और राजकुमारियों के विवाह, सालिमशाही सिक्के का परिवर्तन, अकाल तथा व्यापार में कमी होने से प्रतापगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, किंतु महाराजकुमार ने स्थिति को संभाल लिया। भोले स्वभाव का होने से वह कभी-कभी स्वार्थी पुरुषों के चक्र में भी पड़ जाया करता था। प्रतापगढ़ राज्य में स्त्री-शिक्षा का प्रचार उसके समय में ही हुआ। संस्कृत भाषा की उन्नति का अभिलाषी होने से अपनी राजकुमारी राजकुंवरी को उसने संस्कृत की शिक्षा दिलवाई तथा इस कार्य के लिए वैष्णव कृष्णदास^१ (आमेटा ब्राह्मण) को नियत किया, जो पूर्ण सदाचारी और निःस्पृह व्यक्ति था। उसका अंग्रेज़-सरकार तथा अंग्रेज़ अफ़सरों के साथ सदा अच्छा व्यवहार रहा। भारत के कई प्रमुख नरेशों से उसकी मित्रता थी, जो उसका आदर करते थे। विशाल-हृदय होने से अपने सेवकों का अपराध अक्षम्य होने पर भी वह उनको क्षमा कर देता और उनके द्वारा हानि होने पर भी वह उनपर कभी क्रुद्ध न होता तथा छोटे से छोटे व्यक्ति से भी तुच्छता से पेश नहीं आता था। उसका क्रम टिंगना, शरीर पुष्ट, आंखें छोटी, मुंह गोल और उसपर चेचक के कुछ दाग थे।

(१) वैष्णव कृष्णदास संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान् था। उसने "मयूरेश-मंदार" नामक काव्य की रचना कर उसमें प्रतापगढ़ के नरेशों का बहुत कुछ वर्णन किया है। उसका पुत्र पंडित जगन्नाथ शास्त्री है, जो संस्कृत भाषा और ज्योतिष का उत्कृष्ट विद्वान् है। उसने "हरिभूषणमहाकाव्य" और प्रतापगढ़ के महारावत जसवंतसिंह तथा प्रतापसिंह रचित दोहों का संग्रह कर अलग-अलग संपादन किया है, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास के लिखने में उक्त राज्य की तरफ से जो सामग्री भेजी गई, उसको एकत्रित करने का श्रेय भी जगन्नाथ शास्त्री को ही है।

महारावत सर रामसिंहजी

महारावत सर रामसिंहजी बहादुर, के० सी० एस० आई० का जन्म वि० सं० १९६५ चैत्र सुदि १२ (ई० स० १९०८ ता० १२ अप्रैल) रविवार को महाराजकुमार मानसिंह की कुंवराणी शेखावत चांदकुंवरी के उदर से खेतड़ी में हुआ और वि० सं० १९८५ पौष सुदि ८ (ई० स० १९२६ ता० १८ जनवरी) को ये अपने पितामह महारावत रघुनाथसिंह का देहावसान होने पर प्रतापगढ़ राज्य के स्वामी हुए।

बाल्यकाल समाप्त होने पर योग्य पुरुषों के निरीक्षण में इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई। इसी बीच इनके पिता महाराजकुमार मानसिंह का परलोकवास हो गया तथापि इनके शिक्षा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा और ये वि० सं० १९७६ के मार्गशीर्ष (ई० स० १९१६ नवंबर) मास में उच्च शिक्षा के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में भेजे गये। उस समय इनका शिक्षक मौलवी सय्यद राफ़फ़ार और अभिभावक सी० सी० एच० टुइस नामक अंग्रेज़ बनाये गये, जिनकी देख-रेख में इनको अपनी बुद्धि के विकास का अच्छा अवसर मिला। वि० सं० १९७६ से १९८५ (ई० स० १९१६ से १९२८) तक इन्होंने वहां विद्याध्ययन किया और वहां की सर्वोच्च परीक्षा पोस्ट-डिप्लोमा को पास करने की भी इनकी इच्छा थी, परन्तु अपने पितामह महारावत रघुनाथसिंह का शरीर अस्वस्थ रहने और फिर उसका स्वर्गवास हो जाने के कारण राजकार्य का बोझ आ पड़ने से इन्हें अपना वह विचार छोड़ना पड़ा। प्रखर-बुद्धि और प्रतिभाशाली होने के कारण अपने अध्ययनकाल में ये प्रत्येक कक्षा में सदा प्रथम रहा करते थे, जिससे इनको कई पुरस्कार भी मिले, जिसका श्रेय इनके शिक्षक मिस्टर एफ़० ए० लेस्ली जोन्स आदि को है।

सिंहासनासीन होने के समय इनकी आयु इक्कीस वर्ष के ऊपर हो गई थी, अतएव अंग्रेज़ सरकार को उस समय वहां रीजेंसी काँसिल बनाने



श्रीमान् महारावतजी श्री सर रामसिंहजी बहादुर,
के सी एस. आई

अंग्रेज सरकार की तरफ से
गद्दीनशीनी की खिलअत
प्राप्त होना

की आवश्यकता नहीं हुई। फिर अंग्रेज सरकार
की तरफ से राजपूताने का स्थानापन्न एजेंट गवर्नर-
जेनरल मिस्टर ए० एन० एल्० केटर तथा दक्षिणी

राजपूताने का पोलिटिकल एजेन्ट लेफ्टनैंट कर्नल डी० एम्० फ्रील्ड
आदि प्रतापगढ़ गये और वि० सं० १६८६ वैशाख सुदि ६ (ई० स० १६२६
ता० १४ मई) को एक बड़े दरबार में उन्होंने महारावत के सम्मुख वाइस-
रॉय लॉर्ड इर्विन का ता० २० मार्च (वि० सं० १६८५ फाल्गुन सुदि १०)
का खरीता पढ़ सुनाया एवं उसे गद्दीनशीनी की खिलअत प्रदान की।


तदनंतर महारावत ने शासन-कार्य चलाने के लिए मिस्टर एफ०
सी० केवेन्टरी नामक अंग्रेज मंत्री नियत किया
श्री-पद पर एफ० सी०
केवेन्टरी की नियुक्ति
और उसके परामर्श के अनुसार शासन-कार्य चलाने
लगे, परन्तु शासन शैली पूर्व निर्दिष्ट ही रखी।

उसी वर्ष मार्गशीर्ष सुदि १ (ई० स० १६२६ ता० २ दिसम्बर) को इन्होंने
अपनी छोटी बहिन राजकुमारी मोहनकुंवरी का विवाह सीतामऊ-नरेश
राजा सर रामसिंहजी के ज्येष्ठ राजकुमार डॉ०
रघुवीरसिंह, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, डी०
राजकुमारी मोहनकुंवरी का
विवाह
लिट्० के साथ किया।

(१) राजपूताना तथा सेंट्रल इंडिया के वर्तमान राजकुमारों में सीतामऊ के
सुयोग्य महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह का विद्याभिरुचि के कारण सर्वोच्च स्थान है।
खोज और अन्वेषण के कार्यों से उसको अत्यन्त अनुराग है और वह निरन्तर इन कार्यों में
व्यस्त रहता है। उसने थोड़े ही समय में अपने गंभीर अध्ययन द्वारा साक्षर वर्ग में पूर्ण
ख्याति प्राप्त की है। समय-समय पर उसके कई निबन्ध सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रका-
शित होते रहते हैं। इतिहास उसका प्रिय विषय है और उसकी रचनाओं में 'मालवा
में युगान्तर' नामक पुस्तक वहां के इतिहास पर नूतन प्रकाश डालती है। उसके
वृहत् पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य ऐतिहासिक ग्रन्थ, मुगलकाल के हिंदी, फ़ारसी और
उर्दू भाषा के पत्र-पत्रादि विद्यमान हैं, जिनका उसने पूर्ण परिश्रम से और अगाध द्रव्य
व्यय कर संग्रह किया है। जयपुर राज्य से प्राप्त मुगल-काल के अफ़वारों का वृहत्
संग्रह भी उसने अपने यहां एकत्रित कर लिया है, जो उस समय के इतिहास के लिए

शासन-सूत्र हाथ में लेने के पीछे प्रतापगढ़ राज्य में इनके द्वारा कई लोक-हितकारी कार्य हुए। राज्य में शिक्षा की वृद्धि के लिए प्रतापगढ़ के "पिन्हे नोबल्स स्कूल" को हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित कर सर्व साधारण की उच्च शिक्षा-प्राप्ति का सुलभ साधन कर दिया गया है और हाई स्कूल में विज्ञान की शिक्षा देने की व्यवस्था कर उसमें दो नवीन भवन बनवाकर इमारत भी बढ़ा दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए वहां पृथक् प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गया है। गांवों में कई स्थलों पर नवीन पाठशालाएं खोली जाकर ग्रामीण जनता को शिक्षा का लाभ उठाने का पूरा अवसर दिया गया है। राजधानी प्रतापगढ़ में अपनी विमाता मयाकुंवरी-द्वारा निर्मित "मानसिंह कन्या पाठशाला" की भी इनके समय में पूरी उन्नति हुई है। प्रतापगढ़ की कन्या-पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करनेवाली राजपूत बालिकाओं के लिए उसके पिछले भाग में एक बोर्डिंग हाउस भी बना दिया गया है। स्त्रियों की चिकित्सा के लिए वहां पर कोई खास प्रबन्ध न होने से इन्होंने अपनी विमाता भुवनेश्वरीदेवी के नाम पर "श्रीभुवनेश्वरीदेवी जनाना अस्पताल" बनवा दिया है। ग्रामीण प्रजा की चिकित्सा के लिए ट्रेवेलिंग वैद्य नियत कर दिये गये हैं, जो गांव-गांव जाकर पीड़ितों को मुक्त औषध बांटते हैं। गांवों की जनता के हित की दृष्टि से वहां पंचायतों की स्थापना कर ग्राम-सुधार का कार्य आरंभ किया गया है। कृषि की उन्नति के लिए कृषि का महकमा स्थापित कर मुक्त बीज देने की व्यवस्था

उपयोगी है और उससे तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ेगा। वह बड़ा सरल और निरभिमानी पुरुष है। साक्षर वर्ग के लिए उसके यहां जाकर अध्ययन करने का मार्ग खुला हुआ है। प्रतापगढ़ राज्य के इस इतिहास की रचना के समय मुझे उक्त महाराजकुमार से मुगल-काल के कुछ अखबारों का खुलासा प्राप्त हुआ है। आशा है कि उसकी सर्वतोमुखी प्रतिभा और लगन से भविष्य में ऐतिहासिक जगत को बहुत कुछ लाभ होगा। उसके उपर्युक्त प्रतापगढ़ की राजकुमारी मोहनकुंवरी के उदर से एक पुत्र और दो कन्याएं उत्पन्न हुई हैं।



श्री भुवनेश्वरी देवी जनाजा हॉस्पिटल, प्रतापगढ़

की गई है। कई वर्षों से किसानों पर माल हासिल का ऋण चढ़ा हुआ था, जिसे चुकाने में वे असमर्थ थे। वि० सं० १९६४ (ई० सं० १९३७) में इन्होंने सब पुराना बकाया माफ़ कर दिया। लोगों को नागरिकता के अधिकार देने के लिए प्रतापगढ़ की म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए मेबर लेने की भी महारावत के राज्य-काल में व्यवस्था हो गई है। बेगार लेना इन्होंने अपने राज्य में बंद कर दिया है। गमनागमन की कठिनाइयों को मिटाने के लिए महारावतजी ने अपने राज्य में मोटरों चलने लायक मार्ग बनवा दिये हैं, जिससे ग्रामीण जनता को अकाल के समय खाद्य पदार्थ सुगमतापूर्वक मिलने का साधन हो गया है। व्यापार की वृद्धि के लिए इन्होंने अपने राज्य से वागड़ में जानेवाले माल का दाण (चुंगी, कर) लौटाने की आशा दे दी है। महारावत को उद्योग और धंधों की वृद्धि करने का चाव है। प्रतापगढ़ में जिर्निंग फ़ैक्टरी स्थापित हो गई है और बिजली की रोशनी पहुंचाने का भी आयोजन हो गया है।

न्याय-विभाग में राजसभा के अतिरिक्त हाई कोर्ट और बना दिया गया है, जिसमें सेशन जज के ऊपर के तमाम मुकदमों सुने जाते हैं और नीचे की अदालतों की अपील भी वहीं होती है। राज्य के पुराने मुलाज़िमों को पेंशन देने का नियम न था, परंतु महारावतजी ने उनकी सेवाओं आदि को देख योग्यता के अनुसार पेंशन देने का भी सिलसिला जारी किया है। शिक्षा-विभाग में शिक्षकों के लिए प्रॉविडेन्ड फ़ंड कायम कर दिया गया है। इन्होंने नवरात्रि पर होनेवाली जीव-हिंसा और होली के अवसर पर होनेवाले अहेड़े के शिकार को रोककर अहिंसा-प्रेम का परिचय दिया है। हिंदी भाषा के प्रति प्रेम होने से महारावत ने राज-भाषा हिंदी ही रक्खी है।

अंग्रेज़ सरकार के साथ महारावत का अच्छा व्यवहार है। इस राज्य की ओर से अंग्रेज़-सरकार को खिराज की जो रकम दी जाती थी, वह

खिराज में कमी होना

अधिक होने से उक्त सरकार ने उसमें पांच प्रतिशत कमी कर दी है और कैश फंडिग्यून के

नाम से २७५०० रुपये कलदार प्रतिवर्ष ई० स० १६३७ से लेना स्थिर किया है।

वि० सं० १६६१ (ई० स० १६३४) में बमोतर में समस्त भारत-वर्षीय जैन दिगम्बर समुदाय का एक बृहत् सम्मेलन हुआ, जिसमें लग-
 दिगंबर जैन सम्मेलन की भग बीस सहस्र श्रादमी एकत्र हुए। उस समय
 और से महारावत को महारावतजी ने उक्त सम्मेलन में भाग लेकर
 अभिनंदन पत्र मिलना अहिंसा के कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इनके उत्तम
 व्यवहार और उदार विचारों से प्रेरित होकर उक्त सम्मेलन में इनका दिग-
 म्बर समुदाय की तरफ से बड़ा स्वागत किया गया और उन्होंने स्वर्ण के
 चौखटे में जड़ा हुआ अभिनंदन पत्र भेंट कर इनकी प्रजा-प्रियता पर हर्ष
 प्रकट करते हुए राजभक्ति प्रकट की। इसपर महारावत ने अपनी प्रजा
 की इच्छा को ध्यान में रखते हुए फाल्गुन सुदि ८ और १४ को अपने
 राज्य में जीव-हिंसा बंद रखने की आज्ञा निकाल दी है।

इनके मित्रतापूर्ण व्यवहार और अंग्रेज़-सरकार के प्रति उत्तम
 आचरण की पोलिटिकल अफ़सरों ने समय-समय पर प्रशंसा की है।

सम्राट् जॉर्ज की ओर से सभ्राट् जॉर्ज षष्ठ ने वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३८)
 महारावत को खिताब में नवीन वर्ष के उपाधिवितरणोत्सव पर इनको के०
 मिलना सी० एस० आई० (नाइट कमांडर ऑफ् दि स्टार
 ऑफ् इंडिया) का उच्च खिताब दिया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर वि०
 सं० १६६५ (ई० स० १६३८) में ये दिल्ली गये, जहां भारत के वॉइसराय
 लॉर्ड लिनलिथगो ने इनको उक्त खिताब के तमग्रे से विभूषित किया।

प्रधान मंत्री एफ़० सी० केवेन्टरी के पद-त्याग करने पर इन्होंने
 राव साहय शाह चुन्नीलाल एम० शर्मा को वि० सं० १६६० (ई० स०
 मंत्री पद पर महारावत का १६३३) में दीवान के पद पर नियत किया था।
 राजा त्रिभुवनदास को उसके पृथक् होने पर इन्होंने अपने पुश्तैनी
 नियत करना कर्मचारी शाह माणकलाल पाडलिया, बी० ए०,
 एल-एल० ग्री० से अस्थायी रूप से लगभग दो वर्ष तक यह कार्य लिया।

उसकी कार्यशैली और सरलता से वहां के निवासी संतुष्ट रहे। वि० सं० १९९६ (ई० सं० १९४०) से इस पद पर राजा त्रिभुवनदास, एम० ए० नियत किया गया है, जो अनुभवी, कार्यकुशल तथा कर्तव्यपरायण व्यक्ति है और गुजरात की तरफ़ की देशी रियासतों में ऐसे दायित्वपूर्ण पदों पर काम कर चुका है।

महारावत सर रामसिंहजी के तीन विवाह हुए हैं। उनमें से ज्येष्ठ श्रेखावत महाराणी सीकर के रावराजा माधवसिंह की पुत्री थी। उक्त

विवाह और सतति

महाराणी के उदर से महाराजकुमारी देवेन्द्रकुंवरी का वि० सं० १९८१ फाल्गुन वदि ८ (ई० सं० १९२५ ता० १६ फ़रवरी) को जन्म हुआ और उसके पश्चात् क्रमशः उसके तीन कुंवरियां और उत्पन्न हुईं; किन्तु वे तीनों ही कालकवलित हो गईं तथा उक्त महाराणी का भी वि० सं० १९८७ पौष सुदि १४ (ई० सं० १९३० ता० १६ दिसम्बर) को देहांत हो गया। इसपर महारावतजी का द्वितीय विवाह डुमरांव (बिहार) के महाराजा सर केशवप्रसादसिंह, सी० वी० ई० की राजकुमारी मेघराजकुंवरी से वि० सं० १९८६ चैत्र सुदि १५ (ई० सं० १९३२ ता० २० अप्रैल) को हुआ, जिसके उदर से महाराजकुमारी इंद्रकुंवरी का वि० सं० १९६० वैशाख वदि ७ (ई० सं० १९३३ ता० १६ अप्रैल), उर्मिलीकुंवरी का वि० सं० १९६४ श्रावण वदि १३ (ई० सं० १९३७ ता० ४ अगस्त) और कुसुमकुंवरी एवं कुमुदकुंवरी दोनों का वि० सं० १९६६ प्रथम श्रावण सुदि १ (ई० सं० १९३६ ता० १७ जुलाई) सोमवार को जन्म हुआ है। उपर्युक्त दोनों विवाहों से एक भी राजकुमार का जन्म न होने के कारण महारावतजी ने अपना तीसरा विवाह काठियावाड़ के अन्तर्गत धांगधरा के मेजर महाराजा सर घनश्यामसिंहजी, जी० सी० आई० ई०, के० सी० ए० आई० की पुत्री महेंद्रकुंवरी से वि० सं० १९६१ द्वितीय वैशाख सुदि ३ (ई० सं० १९३४ ता० १६ मई) को किया, जिससे भी प्रथम एक राजकुमारी यशवंतकुंवरी का वि० सं० १९६४ फाल्गुन वदि १० (ई० सं० १९३८ ता० २४ फ़रवरी) को जन्म हुआ।

इस प्रकार महारावत के अन्तःपुर में निरन्तर राजकुमारियाँ ही उत्पन्न होने से वहाँ की प्रजा चिंतित थी; किन्तु ईश्वर की कृपा से वि० सं० १६६६ फाल्गुन सुदि ८ (ई० सं० १६४० ता० १७ मार्च) को महारावत की भ्रांगधरावाली तृतीय महाराणी के उदर से महाराजकुमार का जन्म हुआ, जिसका समाचार पाते ही राज्य के हितचिन्तकों का चित्त प्रफुल्लित हो गया। महारावत ने इस समाचार के मिलने पर समयोचित उदारतापं प्रकट कीं। प्रतापगढ़ के समस्त ब्राह्मणों को राज्य की तरफ से भोजन कराया गया और विजयराघवजी आदि के मन्दिरों में अपनी तरफ से भेंट-पूजा कराने के उपरान्त राज्य के समग्र कर्मचारियों को एक मास का वेतन पुरस्कार में प्रदान किया गया।

महारावत सर रामसिंहजी उदार-प्रकृति और नये विचारों के नरेश हैं। स्वभाव इनका सरल है। दयालुता के साथ विनय-शीलता की मात्रा

भी इनमें विद्यमान है, जिससे सहज में ही ये लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं।

महारावतजी की जीवन-
सन्धन्धी मुख्य-मुख्य बातें

भावनापं इनकी विशुद्ध हैं। प्रजा के स्वास्थ्य की

उन्नति और विद्या के प्रसार की ओर इनका पूरा ध्यान है। संगीत और शिल्प तथा चित्रकला से इन्हें अनुराग है। जन्तु-शास्त्र में ये स्वयं बहुत कुछ गति रखते हैं। प्रतापगढ़ के बंगले में, जहाँ महारावतजी और राजपरिवार का निवास है, इन्होंने एक जन्तुशाला बना रखी है। हिंसक जंतुओं में शेर, चीते एवं सूअर आदि के शिकार की तरफ इनकी अधिक रुचि है। कई शेरों को अब तक ये अपनी बंदूक का निशाना बना चुके हैं। हिंदू धर्म तथा संस्कृति पर इनकी पूरी आस्था है और ये तदनुसार आचरण करने का सदा प्रयत्न करते हैं। इनकी प्रजा का इनपर पूरा विश्वास है और उनके प्रति इनका अच्छा व्यवहार होने से उन्हें इनसे भविष्य में बड़ी-बड़ी आशापं हैं। उपर्युक्त प्रतापगढ़ के बंगले में इन्होंने बहुत कुछ सुधार कराकर उसका विस्तार बढ़ाने के अतिरिक्ति वहाँ एक रमणीय उद्यान लगवा दिया है। उद्योग धन्धों की वृद्धि की ओर भी इनकी अधिक रुचि

है। साथ ही समयानुसार शासन-व्यवस्था को उन्नत बनाकर प्रजा का हित-साधन करने की भी इनकी अभिलाषा रहती है। भारत के कई बड़े-बड़े नरेशों और अंग्रेज़ अफ़सरों के साथ इनका मित्रता का व्यवहार है। विद्वानों और गुणधर्मों से ये प्रसन्नतापूर्वक मिलते हैं और उनका उचित सम्मान भी करते हैं। ये बड़े मातृ-भक्त हैं और सदा अपनी माता शेखावत के सत्परांमर्श को ग्रहण करते हैं। राज्य में डाकेज़नी अब बहुत कुछ बन्द हो गई है और राज्य ऋणग्रस्त नहीं है।

ये चेम्बर ऑफ़ प्रिंसेज़ (नरेन्द्र मण्डल) के सदस्य हैं और प्रायः वहाँ के अधिवेशनों में भी सम्मिलित होकर भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये मेयोकॉलेज अजमेर की प्रबन्धकारिणी समिति के मेम्बर और वाहर की कई अन्य संस्थाओं के सहायक हैं। वर्तमान यूरोप के युद्ध के आरंभिक समय में इन्होंने अंग्रेज़ सरकार के प्रति राज-भक्ति प्रकट करते हुए दस सहस्र रुपये और बाद में ५०० पाउण्ड दिये हैं। अपने सामन्तवर्ग, राज-कर्मचारियों आदि के साथ इनका अच्छा व्यवहार है। पारसी सेठ फ़ीरोज़शाह को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्होंने घरखेड़ा गांव जागीर में दिया है और इसी प्रकार अन्य कई व्यक्तियों को भी समय-समय पर गांव, भूमि, मकान आदि जागीर तथा पुरण्य में दिये हैं। महारावतजी की माता शेखावत चांदकुंवरी ने अपने पति स्वर्गीय महाराजकुमार मानसिंह की स्मृति स्थाई रखने के लिए उसके नाम पर “युवराज मानसिंह अनाथालय” का शिलान्यास वीकानेर के महाराजकुमार शार्दूलसिंह-द्वारा ता० १५ दिसम्बर ई० सन् १९४० को करवाया है।

इनका क्रम मझला, वर्ण गेहुआ और शरीर की गठन सुडौल है। हिंसक-जंतुओं के शिकार के समय ये कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए भी नहीं थकते हैं।

सातवां अध्याय

प्रतापगढ़ राज्य के सरदार और प्रतिष्ठित कर्मचारी

सरदार

राजपूताना के अन्य राज्यों की भांति प्रतापगढ़ राज्य की अधिकांश भूमि भी सरदारों में बंटी हुई है। उनके अतिरिक्त कुछ कर्मचारियों को भी राज्य की तरफ से जागीरें दी गई हैं। देवमंदिरों, ब्राह्मणों, चारणों और रावों को भी कई गांव और भूमि नरेशों की ओर से दी गई है, जिसकी गणना माफ़ी में होती है। राजपूत-सरदारों को जागीर के पवज़ में खुद और सवार तथा पैदलों से राज्य की सेवा करनी पड़ती है एवं उनसे कुछ रकम "टांका" अर्थात् खिराज के नाम से ली जाती है। सरदारों की नौकरी का कोई समय और सवार-सिपाहियों की संख्या का यहां पर कोई क्रम नहीं है। जितने सवार-सिपाही राज्य से मांगे जावें, उनके साथ हाज़िर होकर जब तक उनको रखसत न दी जावे तब तक नौकरी देने के लिए वे प्रत्येक समय तैयार रहते हैं।

राजपूत जागीरदारों के वहां तीन दर्जे हैं। पहले दर्जे के जागीरदार नगारवंद अर्थात् उमराव कहलाते हैं, दूसरे दर्जे के जागीरदार ताज़ीमी और तीसरे दर्जे के जागीरदार गैरताज़ीमी कहलाते हैं।

इस राज्य में जागीरदारों को जो जागीरें आदि दी गई हैं, वे वंश-परंपरागत उनके उत्तराधिकारियों के अधिकार में रहती हैं। राजपूत जागीरदारों में से अधिकांश को भाईवंट में एवं कितनेक को उनकी अच्छी सेवाओं के उपलब्ध में तथा बाहर से आकर रहने पर निर्वाह के लिए

जागीरें दी गई हैं। वहां के अधिकांश सरदार महारावत के सगोत्री सीसोदिया राजपूत हैं और दूसरे थोड़े। प्रथम वर्ग के सरदारों को ताज़ीम के अतिरिक्त नक़ारा, निशान और पैर में स्वर्ण-भूषण पहिनने आदि का सम्मान प्राप्त है। उनकी संख्या इस समय ११ है। उनमें महारावत के निकट संबंधियों में अरणोद का ठिकाना भी है। दूसरे दर्जे के जागीरदारों में कई पुराने और कुछ नये ठिकाने हैं। महारावत दलपतसिंह से वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी तक उनमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है।

ठिकानेदार अपनी जागीर किसी को रहन अथवा बे नहीं कर सकते और न अपनी जागीर का कोई भाग दूसरों को दान में दे सकते हैं। उत्तराधिकारी के अभाव में वे बिना राज्य की आज्ञा के दत्तक पुत्र नहीं रख सकते हैं। प्रथम वर्ग के सब सरदार सीसोदिया हैं। उनकी प्रतिष्ठा भाइयों के समान है एवं, उनको दीवानी तथा फ़ौजदारी मुक़दमों के सुनने का भी अधिकार दिया गया है। जब नवीन सरदार ठिकाने पर नियत होता है, तब राज्य में उससे तलवारबंदी का नज़राना लिया जाता है। इसके अतिरिक्त महारावत की गद्दीनशीनी, विवाह आदि के अवसरों पर भी सरदारों के नज़राना वग़ैरा दाख़िल करने का प्राचीन रिवाज है।

महारावत के निकट सम्बन्धी

अरणोद

अरणोद के स्वामी महारावत सालिमसिंह के छोटे पुत्र लालसिंह के वंशधर हैं। उनकी उपाधि "महाराज" है।

लालसिंह का वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में जन्म हुआ था। फिर महारावत सामन्तसिंह ने उस(लालसिंह)को अपने छोटे भाई के तरीके

(१) वंशक्रम—[१] लालसिंह [२] अर्जुनसिंह [३] सुशाहलसिंह [४] रघुनाथसिंह और [५] गोवर्धनसिंह ।

पर अरणोद की जागीर दी। उसने अरणोद के पट्टे में अपने नाम पर लाल-पुरा गांव बसाकर वहां गढ़ बनवाया, जो लालगढ़ कहलाता है। वि० सं० १८८६ (ई० स० १८२६) में लालसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र अर्जुनसिंह वहां का स्वामी हुआ, जिसका जन्म वि० सं० १८५६ (ई० स० १८१६) में हुआ था। अर्जुनसिंह का वि० सं० १६११ (ई० स० १८५४) में देहांत हुआ। तब उसका पुत्र खुशहालसिंह वहां का महाराज हुआ, परंतु वह कुछ वर्ष ही जीवित रहा और वि० सं० १६१४ चैत्र वदि ११ (ई० स० १८५८ ता० ११ मार्च) को परलोक सिधारा। तदनंतर उसके स्थान पर उसका बालक पुत्र रघुनाथसिंह अरणोद का स्वामी बना।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६०) में प्रतापगढ़ के स्वामी महारावत उदयसिंह का निःसंतान देहांत होने पर अरणोद से महाराज रघुनाथसिंह गोद जाकर प्रतापगढ़ की गद्दी पर बैठा। उस समय उसके दो कुंवर प्रतापसिंह और मानसिंह विद्यमान थे। रघुनाथसिंह के गद्दी बैठने पर प्रतापसिंह पाटवी राजकुमार माना गया और अरणोद की जागीर मानसिंह के नाम पर रखी गई। इसके थोड़े ही समय बाद प्रतापसिंह की मृत्यु हो गई। तब मानसिंह युवराज बनाया गया। वि० सं० १६५७ भाद्रपद वदि द्वितीय १४ (ई० स० १६०० ता० २४ अगस्त) को महारावत रघुनाथसिंह के छोटे कुंवर गोवर्धनसिंह का जन्म होने पर महारावत ने वि० सं० १६५८ भाद्रपद वदि ७ (ई० स० १६०१ ता० ४ सितंबर) को गोवर्धनसिंह को अरणोद की जागीर प्रदान की और उस (गोवर्धनसिंह) की उपाधि "महाराज" हुई। महाराज गोवर्धनसिंह ने अजमेर के मेयो कॉलेज में डिप्लोमा तक अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्राप्त की है। वह व्यवहार-कुशल व्यक्ति है। महारावत रघुनाथसिंह के समय उसको चंवर रखने का सम्मान प्राप्त हुआ। उस (गोवर्धनसिंह) के दो पुत्र—गोपालसिंह और भीमसिंह—हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

प्रथम वर्ग के सरदार

धमोतर

धमोतर के सरदार महारावत सूरजमल के छोटे पुत्र सैसमल- (सहसमल) के वंशधर हैं^१ और वे सिंहावत (सहसावत) कहलाते हैं। उनकी उपाधि "ठाकुर" है। इस राज्य में इस ठिकाने की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है और आय में भी इस ठिकाने के बराबर दूसरा कोई ठिकाना नहीं है।

ख्यातों में लिखा है कि सैसमल उदयपुर के महाराणाओं की सेवा में रहता था, इसलिए वहां से उसको नीबाहेड़ा और खोडीप की जागीर मिली और वह महाराणा की तरफ से युद्ध करता हुआ काम आया। तदनंतर उसका पुत्र कांधल वहां का स्वामी हुआ, जो मेवाड़ छोड़कर महारावत विक्रमसिंह (धीका) के साथ कांठल में गया और वहां उसका प्रभुत्व स्थिर करने में सदा उस (विक्रमसिंह) का साथी रहा। इसपर उसको वहां से धमोतर का पट्टा जागीर में मिला। बादशाह अकबर के समय आंबेर (जयपुर राज्य) के कछवाहा कुंवर मानसिंह ने उदयपुर के महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) पर चढ़ाई की, उस समय देवलिया से महाराणा की सहायतार्थ जो सेना गई, उसमें ठाकुर कांधल भी था और वह हल्दीघाटी के युद्ध-क्षेत्र में शाही सेना से वीरतापूर्वक लड़कर काम आया। कांधल का पुत्र गोपालदास था, जो बांसवाड़ा के महारावल की सहायतार्थ किसी युद्ध में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। गोपालदास के

(१) वंशक्रम—[१] सैसमल [२] कांधल [३] गोपालदास [४] जोधसिंह [५] जोगीदास [६] जसकरण [७] पृथ्वीराज (पृथ्वीसिंह) [८] ऋतहसिंह [९] कुबेरसिंह [१०] कल्याणसिंह [११] नाथूराम (नाथूसिंह) [१२] हरीसिंह [१३] मोहकमसिंह [१४] रोड़सिंह [१५] हमीरसिंह [१६] केसरीसिंह [१७] हिंदूसिंह और [१८] दयालसिंह ।

पुत्र जोधसिंह और पूरा^१ हुए। उदयपुर के महाराणा जगतसिंह (प्रथम) के समय देवलिया के महारावत जसवन्तसिंह को कुंवर महासिंह-सहित उक्त महाराणा ने अपनी सेना भेज चंपा बाग में मरवा डाला और देवलिया पर भी सेना भेज अधिकार कर लिया। उस समय जोधसिंह महारावत जसवंतसिंह के दूसरे पुत्र हरिसिंह को लेकर बादशाह शाहजहां के दरबार में गया और महारावत का देवलिया आदि पर अधिकार कराने में प्रयत्नशील रहा। फिर बादशाह ने सेना भेजकर महारावत हरिसिंह का देवलिया पर अधिकार करा दिया। जोधसिंह की वि० सं० १७०३ (ई० स० १६४६) में मृत्यु हुई^२। तदनंतर उसका पुत्र जोगीदास धमोतर का स्वामी हुआ। उसने धमोतर में लक्ष्मीनारायण का मंदिर और गढ़ में महल आदि बनवाये। उसका छोटा भाई भोगीदास था, जिसने देवलिया में एक बावड़ी बनवाई, जो भोगीदास की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है^३।

जोगीदास का पुत्र जसकरण^४ और पौत्र पृथ्वीराज हुआ। पृथ्वी-

(१) पूरा के नाम से पूरावत शाखा चली। प्रतापगढ़ राज्य में इस समय पूरावतों का जाजली का ठिकाना प्रथम वर्ग में और वरखेड़ी द्वितीय वर्ग में है, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा।

(२) धमोतर में तालाब के किनारे ठाकुर जोधसिंह का स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर वि० सं० १७०३ शाके १५६८ मार्गशीर्ष सुदि २ (ई० स० १६४६ ता० २६ नवम्बर) को उसका देहान्त होने और उसके साथ उसकी राठोड़ पत्नी के सती होने का उल्लेख है।

(३) कल्याण कवि-रचित "प्रताप-प्रशस्ति" नामक खंडित काव्य से ठाकुर जोगीदास का महारावत हरिसिंह का समकालीन होना प्रकट है। उक्त प्रशस्ति में उस- (जोगीदास) के छोटे भाई भोगीदास की धार्मिकता आदि का वर्णन है। देवलिया में भोगीदास की बनवाई हुई बावड़ी के समीप उसका स्मारक चबूतरा बना हुआ है, जिसपर उस (भोगीदास) की वि० सं० १७३६ आषाढ वदि ३ (ई० स० १६७९ ता० १६ जून) को मृत्यु होने का उल्लेख है।

(४) ठाकुर जसकरण का भी उपर्युक्त "प्रताप-प्रशस्ति" में वर्णन है और उसमें उसको महारावत प्रतापसिंह का सामन्त बतलाते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है।

राज की वि० सं० १७७७ (ई० सं० १७२०) में मृत्यु हुई । उसने वहां तालाब की पाल बनवाई । उसके पीछे फ़तहसिंह' और फिर उसका पुत्र

धमोतर के ठाकुरों के दग्ध-स्थान में ठाकुर जसकरण की स्मारक छत्री बनी हुई है, जिसमें उसका वि० सं० १७७१ भाद्रपद सुदि १५ (ई० सं० १७१४ ता० १२ सितम्बर) को देहान्त होने, उसके साथ उसकी पत्नी राठोड़ आसकुवरी के सती होने और उस (जसकरण) के पुत्र पृथ्वीराज द्वारा ६२५१ रुपये जगाकर उस छत्री के बनवाये जाने का उल्लेख है ।

(१) ख्यातों में लिखा है कि कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का ज्येष्ठ पुत्र भगवतसिंह महारावत गोपालसिंह का बड़ा कृपापात्र था । उस (भगवतसिंह) ने धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह के विरुद्ध महारावत को बहकाया, जिससे धमोतरवालों से महारावत अप्रसन्न रहने लगा । इस बात का पता पाकर धमोतर के ठाकुर फ़तहसिंह ने भगवतसिंह को मरवा डाला, जिससे महारावत की उसपर अधिक नाराज़गी हो गई । वि० सं० १७७६ (ई० सं० १७२२) में धमोतर का ठाकुर फ़तहसिंह मर गया और उसके पीछे उसका पुत्र कुबेरसिंह वहां का स्वामी बना, जिससे उसके चाचा कल्याणसिंह ने धमोतर छीन लिया । परस्पर के द्वेष का यह अच्छा अवसर देख महारावत ने धमोतर के ठिकाने को राज्याधिकार में कर लिया । इसपर वहां के हक्रदार होलकर की सेना को मददगार बनाकर चढ़ा लाये । महारावत की तरफ़ से भी मुक्तावला हुआ और यह शख़ेदा चलता रहा । उन्हीं दिनों महारावत गोपालसिंह का देहान्त हो गया और उसका कुंवर सालिमसिंह सिंहसनारूढ़ हुआ । उस समय उपर्युक्त भगवतसिंह के छोटे भाई दौलतसिंह ने उस (सालिमसिंह) से निवेदन किया कि इस पारस्परिक संघर्ष में व्यर्थ ही शक्ति का ह्रास होगा, इसलिए होलकर की सेना को धमोतर से व्यय दिलाकर विदा कर दिया जावे और धमोतर पीछा वहांवालों को दे दिया जाय । महारावत-द्वारा स्वीकृति मिलने पर दौलतसिंह दूसरे पक्ष और होलकर के सेनापति से मिला तथा बात तय हो जाने पर तीन लाख रुपये दिलवाकर उसने उक्त सेना को लौटा दिया । उस समय एक लाख रुपये तो धमोतरवालों ने नक़द दे दिये और दो लाख का रुक़्त लिखने पर राज्य ने दिये, जिसकी वसूली तक धमोतर पर महारावत का अधिकार रहा और जब सब रुपये वसूल हो गये तो उक्त ठिकाना वहांवालों को महारावत ने दे दिया । दौलतसिंह की इस सेवा के बदले में महारावत ने प्रसन्न होकर देवद की जागीर उसे प्रदान की; परन्तु भगवतसिंह को मरवा डालने का धमोतर और कल्याणपुरावालों के बीच वैर बना ही रहा, जिसकी सफ़ाई धमोतर के ठाकुर केसरीसिंह ने कल्याणपुरा के ठाकुर तहतसिंह से कर पुराना वैमनस्य मिटा दिया ।

कुबेरसिंह वि० सं० १७८६ (ई० स० १७३२) में धमोतर का स्वामी हुआ, किंतु कुबेरसिंह के हाथ से धमोतर निकल गया और वहां उसका पितृव्य कल्याणसिंह (फ़तहसिंह का छोटा भाई) अधिकार कर बैठा, जिसकी वि० सं० १८०० (ई० स० १७४३) में मृत्यु हुई। तदनंतर नाथूराम, हरिसिंह, मोहकमसिंह और रोड़सिंह क्रमशः धमोतर के ठाकुर हुए। रोड़सिंह का वि० सं० १६०५ (ई० स० १८४८) में देहांत हुआ। उसके तीन पुत्र हंमीरसिंह, गंभीरसिंह, और भवानीसिंह हुए।

ठाकुर हंमीरसिंह की बहिन गुलाबकुंवरी का विवाह अहमदनगर- (ईंडर राज्य) के स्वामी महाराज तख्तसिंह के साथ हुआ था, जिसके उदर से जसवंतसिंह का जन्म हुआ। इस वैवाहिक सम्बन्ध के कारण तख्तसिंह ने महाराजा मानसिंह की मृत्यु हो जाने पर (वि० सं० १६०० = ई० स० १८४३ में) जोधपुर की गद्दी पर बैठने के वाद हंमीरसिंह के छोटे भाई गंभीरसिंह को बुला लिया और जागीर में भालामंड का ठिकाना दिया। जोधपुर का स्वामी होने के पीछे भी वि० सं० १६०३ (ई० स० १८४६) में तख्तसिंह का एक विवाह ठाकुर हंमीरसिंह के कुटुंबी लक्ष्मणसिंह^१ की पुत्री उदयकुंवरी के साथ हुआ था। फिर तख्तसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके कुंवर जसवन्तसिंह ने जोधपुर राज्य का स्वामी होने पर अपने मामा हंमीरसिंह को जोधपुर बुलाकर ताज़ीम, बांहपसाव, एक चंवर और पालकी- (पीनस) में बैठने की प्रतिष्ठा देकर अपने दाहिने पार्श्व में बैठने का सम्मान दिया। हंमीरसिंह निःसंतान था, इसलिए उसके छोटे भाई गंभीरसिंह का पुत्र केसरीसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। केसरीसिंह के दो पुत्र हिंदूसिंह और पृथ्वीसिंह हुए, जिनमें से हिंदूसिंह वि० सं० १६५०

(१) लक्ष्मणसिंह धमोतर के ठाकुर हरिसिंह के छोटे पुत्र वीरमदेव का बेटा था। उस (लक्ष्मणसिंह) की पौत्री और दलेलसिंह की पुत्री प्रतापकुंवरी का विवाह जोधपुर के महाराजा तख्तसिंह के पुत्र बहादुरसिंह के साथ वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) में हुआ था। इस प्रसङ्ग से महाराजा जसवन्तसिंह ने वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में उसको भी पैर में स्वर्णाभूषण पहिने की प्रतिष्ठा दी थी।

(ई० स० १८६३) में धमोतर का ठाकुर हुआ। उस(हिन्दूसिंह)की वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में मृत्यु होने पर उसका पुत्र दयालसिंह वहां का स्वामी हुआ, जो धमोतर का वर्तमान सरदार है। उसने अजमेर के मेयो कॉलेज में डिप्लोमा तक की शिक्षा प्राप्त की है।

कल्याणपुरा

इस ठिकाने के स्वामी महारावत सूरजमल के छोटे पुत्र रणमल के वंशधर हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

रणमल को उदयपुर के महाराणाओं की तरफ से मेवाड़ में भैरवी की जागीर मिली थी और वह उनकी सेवा में रहता हुआ बूंदी की सीमा पर मारा गया। फिर उसके पुत्रों में से सुरतानसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ। सुरतानसिंह की जागीर में उदयपुर राज्य की ओर से करजू का पट्टा भी रहा था। वह महारावत विक्रमसिंह(बीका) के मेवाड़ त्याग करने पर उसके साथ चला गया और कांठल के मीणों का दमन कर उधर का प्रदेश विजय करने में उसने उक्त महारावत को अच्छी सहायता दी। इसपर महारावत विक्रमसिंह ने उसको ढोढरिया आदि २२ गांव अपनी ओर से जागीर में दिये। सुरतानसिंह के पीछे चंद्रभाण तथा अक्षयराज क्रमशः पैतृक संपत्ति के अधिकारी हुए और वे देवलिया में जागीर मिल जाने पर मेवाड़ में न रहकर वहां रहने लगे। इसपर मेवाड़-राज्य ने अपने यहां की दी हुई जागीर जून्त कर ली। अक्षयराज का पुत्र राघवदास और उसका कल्याणदास हुआ, जिसने अपने नाम से कल्याणपुरा बसाकर अपने ठिकाने का नाम कल्याणपुरा रखा। फिर रणछोड़दास वहां का ठाकुर

(१) वंशक्रम—[१] रणमल [२] सुरतानसिंह [३] चन्द्रभाण [४] अक्षयराज [५] राघवदास [६] कल्याणदास [७] रणछोड़दास [८] कृतहसिंह [९] भगवतसिंह [१०] हरिसिंह [११] चिमनसिंह [१२] पहाड़सिंह [१३] बालासिंह [१४] तल्लतसिंह [१५] देवीसिंह और [१६] संग्रामसिंह।

हुआ, जो महारावत प्रतापसिंह का समकालीन था। उसका पुत्र केसरीसिंह पिता की विद्यमानता में ही मर गया, इसलिए केसरीसिंह का पुत्र फ़तहसिंह अपने दादा (रणछोड़दास) का उत्तराधिकारी हुआ। फिर उसका पौत्र हरिसिंह (भगवतसिंह का पुत्र) कल्याणपुरा का ठाकुर हुआ। हरिसिंह के चिमनसिंह तथा पहाड़सिंह नामक दो पुत्र थे, जो क्रमशः कल्याणपुरा के स्वामी हुए। पहाड़सिंह का पुत्र लालसिंह और उस (लालसिंह) का तत्पश्चात् देवीसिंह वहाँ का स्वामी हुआ, जिसकी वि० सं० १६८१ चैत्र सुदि १४ (ई० स० १६२४ ता० १८ अप्रैल) को मृत्यु होने पर उसका पुत्र संग्रामसिंह कल्याणपुरा का स्वामी हुआ, जो वहाँ का वर्तमान ठाकुर है।

आंबीरामा

आंबीरामा के ठाकुर, महारावत बाघसिंह के छोटे पुत्र खान के वंशधर हैं^१ और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

खान का पुत्र दुर्गादास और उस (दुर्गादास) का सबलसिंह हुआ, जिसको महारावत सिंहा के समय आंबीरामा जागीर में दिया गया। सबलसिंह का पुत्र गोपीनाथ हुआ, जिसके पीछे चंद्रसिंह, पृथ्वीसिंह, खुम्माणसिंह एवं अखैराज क्रमशः आंबीरामा के स्वामी हुए। अखैराज का पुत्र कुशलसिंह हुआ, जिसका पुत्र केसरीसिंह पिता की विद्यमानता में महारावत उदयसिंह के समय बोरी-रौंछड़ी के सीमा-संबंधी झगड़े में वांसवाड़ा राज्य की तरफ़ से आक्रमण होने पर लड़कर मारा गया। तब उस (केसरीसिंह) का पुत्र विभूतिसिंह अपने दादा का उत्तराधिकारी हुआ। विभूतिसिंह का पुत्र शंभुसिंह आंबीरामा का वर्तमान सरदार है।

(१) वंशक्रम—[१] खान [२] दुर्गादास [३] सबलसिंह [४] गोपीनाथ [५] चन्द्रसिंह [६] पृथ्वीसिंह [७] खुम्माणसिंह [८] अखैराज [९] कुशलसिंह [१०] विभूतिसिंह और [११] शंभुसिंह।

रायपुर

रायपुर के सरदार महारावत विक्रमसिंह के पुत्र सुर्जनदास के बेटे रामदास के वंशधर हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है। वहां के सरदार को महारावत के दरबार में बाईं ओर की प्रथम बैठक तथा ताज़ीम आदि का सम्मान प्राप्त है।

रामदास ने वि० सं० १६६५ (ई० स० १६०८) के लगभग महारावत सिंहा के राज्यकाल में नीनोर-बोरदिया के निवासी जलखेड़िया राठोड़ों को परास्त कर रायपुर बसाया। रामदास का पुत्र द्वारिकादास वि० सं० १६६२ (ई० स० १६३५) में अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। उसके छोटे भाई मानसिंह ने मानपुरा और कानसिंह ने कानगढ़ बसाया, जो अब तक उनके वंशजों के अधिकार में है। द्वारिकादास का पुत्र दलपतसिंह^३ और उस (दलपतसिंह) का पौत्र गोपालसिंह था, जिसने बोरी-रीछड़ी पर अधिकार किया। उसका पुत्र गुमानसिंह रायपुर का ठाकुर बना, जिसको देवलिया के राज-महलों में पूरावत अक्षयसिंह और हरिसिंह ने मारकर रायपुर पर वि० सं० १८४५ (ई० स० १७८८) के लगभग अपना अधिकार कर लिया। फिर गुमानसिंह के पुत्र दलसिंह ने वि० सं० १८५१ (ई० स० १७९४) के

(१) वंशक्रम—[१] सुर्जनदास [२] रामदास [३] द्वारिकादास [४] दलपतसिंह [५] नगसिंह [६] गोपालसिंह [७] रत्नसिंह [८] गुमानसिंह [९] दलसिंह [१०] केसरीसिंह [११] हिंदूसिंह [१२] रत्नसिंह (दूसरा) और [१३] प्रतापसिंह।

(२) रामदास के समय का एक ताम्रपत्र वि० सं० १६८५ माघ सुदि ५ (ई० स० १६२६ ता० १६ जनवरी) सोमवार का मिला है, जिसमें उसकी उपाधि "महाराज" लिखी है एवं उसके पुत्र का नाम कुंवर द्वारिकादास देकर देराश्री जगन्नाथ शुक्र को पचास बीघा ज़मीन रायपुर में पुरय देने का उल्लेख है।

(३) "प्रतापप्रशस्ति" खंडित काव्य में कवि कल्याण ने दलपतसिंह का भी उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट है कि वह महारावत प्रतापसिंह का समकालीन था।

लगभग महारावत सामन्तसिंह की आज्ञा से पूरावतों को वहां से निकालकर रायपुर पर पीछा अपना कब्जा स्थिर किया। दलसिंह की वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में मृत्यु होने पर उसका पुत्र केसरीसिंह रायपुर का स्वामी हुआ, पर उसके कोई संतान नहीं हुई, अतएव, उसके लघु भ्राता रघुनाथसिंह का पुत्र हिंदूसिंह, केसरीसिंह के दत्तक गया। उस (हिंदूसिंह) का पुत्र रत्नसिंह (दूसरा) हुआ, किंतु उसके भी संतति न थी, इसलिए उसने उपर्युक्त गुमानसिंह के भाई (वदनसिंह) के वंशधर दुलहसिंह (पहाड़सिंह का पुत्र) को वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०६) में गोद लिया, जिसको महारावत ने स्वीकार नहीं किया। वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१५) में रत्नसिंह का देहांत होने पर रायपुर ठिकाना राज्याधिकार में ले लिया गया, परन्तु फिर महारावत रघुनाथसिंह ने अपनी विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए इस ठिकाने को बनाये रखना स्थिर किया और दुलहसिंह के पुत्र प्रतापसिंह को रायपुर का ठाकुर बनाकर नज़राने के २५००१ रुपये वसूल होने तथा वार्षिक खिराज में ५०० रुपये की वृद्धि करने की आज्ञा दी। वह ३२७५ रुपये वार्षिक खिराज राज्य को देता है।

भांतला

भांतला के ठाकुर, महारावत जसवंतसिंह के पुत्र केसरीसिंह के वंशज हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

महारावत हरिसिंह ने केसरीसिंह को निर्वाह के लिए भांतला की जागीर दी थी। केसरीसिंह के चतुर्थ वंशधर अमानसिंह का पुत्र चिमनसिंह और पौत्र दलेलसिंह था। दलेलसिंह के पीछे उसका पुत्र अजीतसिंह हुआ। वह निःसंतान था, इसलिए महारावत हरिसिंह के

(१) वंशक्रम—[१] केसरीसिंह [२] कुशलसिंह [३] बरतसिंह [४] चूरतसिंह [५] अमानसिंह [६] चिमनसिंह [७] दलेलसिंह [८] अजीतसिंह [९] प्रतापसिंह [१०] आजसिंह [११] तद्वतसिंह और [१२] उम्मेदसिंह।

छोटे पुत्र अमरसिंह के वंशधर वैरिशाल बगड़ावदवाले के पुत्र बुधसिंह को उसने अपना दत्तक बनाया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसकी गर्भवती स्त्री से उसके पुत्र प्रतापसिंह का जन्म हो गया, जिससे बुधसिंह भांतला के ठिकाने से वंचित रहा और प्रतापसिंह का वहां अधिकार हुआ। प्रतापसिंह का पुत्र लालसिंह, रतलाम इलाक़े के अमरेठा के महाराज सामंतसिंह के हाथ की गोली लगने से मारा गया। तब उस (लालसिंह) का पुत्र तख्तसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ, जिसकी वि० सं० १९६३ (ई० सं० १९०६) में मृत्यु होने पर उसका पौत्र उम्मेदसिंह (पर्वतसिंह का पुत्र) भांतला ठिकाने का स्वामी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है। उसने मेयो कॉलेज, अजमेर में शिक्षा प्राप्त की है। उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

सालिमगढ़

सालिमगढ़ के सरदार महारावत हरिसिंह के छोटे पुत्र मोहकमसिंह के वंशधर हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

मोहकमसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से जागीर मिली, जिसमें उसके पुत्र मोहनसिंह ने अपने नाम से मोहनगढ़ गांव बसाकर वहां अपना ठिकाना नियत किया, जो सालिमगढ़ के पास एक वीरान गांव है। कई वर्ष तक इस ठिकाने का मुख्य स्थान मोहनगढ़ रहा। मोहनसिंह का पुत्र जोरावरसिंह और पौत्र हिम्मतसिंह हुआ, जिसके दो बेटे उदयसिंह और सरदारसिंह थे, परंतु वे पिता की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अतएव मोहकमसिंह के भाई अमरसिंह के वंशधर, बड़ी-साखथली के ठाकुर दलसिंह का पुत्र मोहवतसिंह गोद जाकर सालिमगढ़ का स्वामी हुआ किन्तु उसके भी संतान नहीं हुई, इसलिए उसने अपने चचेरे

(१) वंशक्रम—[१] मोहकमसिंह [२] मोहनसिंह [३] जोरावरसिंह [४] हिम्मतसिंह [५] मोहवतसिंह [६] सरदारसिंह [७] शिवसिंह [८] खुशहालसिंह और [९] हिंदूसिंह।

भाई सरदारसिंह (बगड़ावद के ठाकुर वैरिशाल के पुत्र) को अपना उत्तराधिकारी बनाया । सरदारसिंह का पुत्र शिवसिंह और उसका खुशहालसिंह हुआ । खुशहालसिंह भी निःसंतान था, इसलिए अमरसिंह के चतुर्थ वंशधर दुलहसिंह के प्रपौत्र कीर्तिसिंह का पुत्र हिन्दूसिंह गोद जाकर सालिमगढ़ का अधिकारी हुआ, जो वहां का वर्तमान सरदार है ।

अचलावदा

महारावत हरिसिंह के छोटे पुत्र माधवसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से अचलावदा की जागीर मिली । उस (माधवसिंह) के वंशज अचलावदा के स्वामी हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है ।

माधवसिंह के बेटे जगतसिंह के तीन पुत्र जोधसिंह, ज़ालिमसिंह और दौलतसिंह हुए । जोधसिंह और ज़ालिमसिंह का वंश न चला और वे पिता की जीवितावस्था में मर गये, इसलिए उनका छोटा भाई दौलतसिंह अपने पिता का क्रमानुयायी हुआ । तदनंतर चिमनसिंह, लक्ष्मणसिंह, भीमसिंह, रत्नसिंह और माधवसिंह (दूसरा) क्रमशः वहां के स्वामी हुए । माधवसिंह के दो पुत्र—भवानीसिंह और गोपालसिंह हुए—जिनमें से भवानीसिंह अपने पिता का अधिकारी हुआ और वहां का वर्तमान सरदार है ।

वरडिया

वरडिया के सरदार मेवाड़ के सुप्रसिद्ध राघव चूडा के वंशधर हैं । उनकी उपाधि "ठाकुर" है ।

(१) वंशक्रम—[१] माधवसिंह [२] जगतसिंह [३] दौलतसिंह [४] चिमनसिंह [५] लक्ष्मणसिंह [६] भीमसिंह [७] रत्नसिंह [८] माधवसिंह (दूसरा) और [९] भवानीसिंह ।

(२) वंशक्रम—[१] मनोहरदास [२] लालसिंह [३] अजयसिंह [४] कुशलसिंह [५] सामतसिंह [६] जगतसिंह [७] मोहकमसिंह [८] चिमनसिंह

सलूबर (मेवाड़) के स्वामी रावत किशनदास का छोटा पुत्र भामा था, जिसको उदयपुर राज्य की तरफ से खोड़ीप की जागीर मिली थी । भामा का पुत्र मनोहरदास था, जिसको देवलिया के स्वामी महारावत प्रतापसिंह ने सलूबर से अपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर दी । मनोहरदास का पुत्र लालसिंह हुआ । लालसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अजबसिंह हुआ । उसका पुत्र शिवसिंह पिता की विद्यमानता में गुजर गया, इसलिए शिवसिंह का पुत्र कुशलसिंह, अजबसिंह के पीछे बरडिया का स्वामी बना । तदनन्तर सामंतसिंह, जगतसिंह, मोहकमसिंह, चिमनसिंह और लालसिंह (दूसरा) क्रमशः बरडिया के ठाकुर हुए । लालसिंह (दूसरा) की वि० सं० १६५७ (ई० स० १६००) में मृत्यु होने पर उसका पुत्र सामंतसिंह (दूसरा) बरडिया का स्वामी हुआ, परंतु उसके संतान न थी, अतएव उसने अपने भतीजे दौलतसिंह को, जो

[६] लालसिंह (दूसरा) [१०] सामंतसिंह (दूसरा) और (११) दौलतसिंह ।

राजपूताना और अजमेर की लिस्ट ऑफ् रूलिंग प्रिंसिज़, चीफ़्स एंड लीडिंग परसो-नेजिज़ (ई० स० १९३१ का संस्करण) में तथा अन्य कुछ स्थलों पर महारावत विक्रमसिंह- (वीका) के छोटे पुत्र किशनदास के बेटे जेठसिंह का मेवाड़ के सलूबर के स्वामी की गोद जाना और इस प्रसङ्ग से किशनदास के अन्य पुत्रों का भी सलूबर में जाकर रहना तथा जेठसिंह के भाई जामा (भामा) के पुत्र मनोहरदास को महारावत प्रतापसिंह का सलूबर से अपने साथ ले जाकर बरडिया की जागीर देने का उल्लेख है, जो विश्वसनीय नहीं है । ‘वीरविनोद’ आदि में इस ठिकाने के सरदार को स्पष्ट शब्दों में चूडावत लिखा है, जिसका अर्थ चूडा का वंशधर होता है । सलूबर ठिकाने की ख्यात में बरडिया के सरदार का मूलपुरुष भामा दिया है और उसको सलूबर के रावत कृष्णदास का आठवां पुत्र बतलाया है तथा सेलारपुरे का ठिकाना बरडियावालों की छोटी शाखा में होना लिखा है । बरडियावालों का जो ऐतिहासिक हाल प्रतापगढ़ राज्य के द्वारा हमें प्राप्त हुआ उसमें भी सलूबर के रावत कृष्णदास के छोटे पुत्र भामा को उसका मूलपुरुष लिखा है । उपर्युक्त पुस्तकों का यह कथन कि प्रतापगढ़ के स्वामी विक्रमसिंह (वीका) के बेटे किशनदास का पुत्र जेठसिंह (जेतसिंह) सलूबर गोद गया, संभव नहीं हो सकता, क्योंकि रावत चूडा के वंशधरों में कई व्यक्ति मौजूद होते हुए जेतसिंह का दूर की शाखा देवलिया के राजघश से गोद जाना विपरीत बात है ।

फ़ौजसिंह का पुत्र था, गोद लिया। वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में सामंतसिंह का देहांत होने पर दौलतसिंह वरडिया का सरदार बना, जो वहां का वर्तमान ठाकुर है। उसके दो पुत्र भगवतसिंह और प्रह्लादसिंह हैं।

बोड़ी-साखथली

बोड़ी-साखथली के सरदार महारावत बाघसिंह के पुत्र खान के वंशधर हैं^१ और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

खान का पुत्र दुर्गादास अपने बेटों सहित महारावत भानुसिंह के साथ जीरण में मारा गया। फिर महारावत सिंहा ने दुर्गादास के पौत्र रणछोड़दास को बोड़ी-साखथली की जागीर प्रदान की। रणछोड़दास के पीछे अजबसिंह, गोपालसिंह, किशनसिंह और हरिसिंह क्रमशः वहां के ठाकुर हुए। हरिसिंह का पुत्र रत्नसिंह तथा पौत्र छत्रसाल (शत्रुसाल) था। छत्रसाल के निःसंतान होने से ठिकाना राज्याधिकार में चला गया, परन्तु महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में उस- (छत्रसाल) के चाचा सूरजमल के पुत्र बलवंतसिंह (जो वहां का वर्तमान सरदार है) को प्रदानकर उसको वहां का सरदार बनाया। फिर उसने उसको प्रथम वर्ग के सरदारों में दाखिल किया एवं वि० सं० १६७७ वैशाख वदि १४ (ई० स० १६२० ता० १७ अप्रैल) को उसे दीवानी तथा फ़ौजदारी के मुक़दमे करने के अधिकार भी दे दिये। उसके पांच पुत्र—भैरवसिंह, बहादुरसिंह, नाहरसिंह, शेरसिंह और पर्वतसिंह—हैं।

जाजली

इस ठिकाने के स्वामी महारावत सूरजमल के छोटे पुत्र सहसमल के पौत्र गोपालदास (धमोतर का स्वामी) के छोटे पुत्र पूरा के वंशधर

(१) वंशक्रम—[१] खान [२] दुर्गादास [३] ईश्वरदास [४] रणछोड़दास [५] अजबसिंह [६] गोपालसिंह [७] किशनसिंह [८] हरिसिंह [९] रत्नसिंह [१०] छत्रसाल और [११] बलवंतसिंह।

हैं' और पूरा के नाम से उसकी सन्तान पूरावत कहलाती है। उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

पूरा का पुत्र सुंदर और उसका बाघसिंह हुआ, जिसको देवलिया राज्य की तरफ से विलेसरी की जागीर मिली। बाघसिंह का बेटा अजबसिंह और उसका माधवसिंह हुआ। उस (माधवसिंह) के दो पुत्र जोरोवरसिंह और जगतसिंह हुए। उनमें से जोरावरसिंह का विलेसरी पर स्वत्व रहा और जगतसिंह को जाजली की नवीन जागीर दी गई। जगतसिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र तेजसिंह हुआ। उसके पीछे गुलाबसिंह, भैरवसिंह और बलवन्तसिंह क्रमशः वहां के सरदार हुए। बलवन्तसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह वहां का वर्तमान ठाकुर है। उसने अजमेर के मयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी ने वि० सं० १९८६ (ई० सं० १९२६) में उस (रघुनाथसिंह) को प्रथम वर्ग के सरदारों में दाखिल किया है।

द्वितीय वर्ग के सरदार

अनघोरा

अनघोरा के महाराज जोधा राठोड़ हैं। किशनगढ़ के महाराजा बहादुरसिंह के छोटे पुत्र बाघसिंह को फ़तहगढ़ की जागीर मिली। बाघसिंह के चार बेटे थे। उनमें से दूसरे बलदेवसिंह को भाई-वंट में ढोस गांव और सदापुरा की भोम मिली। बलदेवसिंह के छोटे भाई किशोरसिंह के, जो जोरावरपुरे का स्वामी था, निःसंतान मर जाने पर झगड़ा खड़ा हो गया। बलदेवसिंह के बड़े भाई चांदसिंह ने किशोरसिंह के ठिकाने पर अपने छोटे बेटे गोपालसिंह को नियतकर दिया। इसपर बलदेवसिंह और उसके तीसरे भाई भीमसिंह (जो

(१) वंशक्रम—[१] पूरा [२] सुन्दर [३] बाघसिंह [४] अजबसिंह [५] माधवसिंह [६] जगतसिंह [७] तेजसिंह [८] गुलाबसिंह [९] भैरवसिंह [१०] बलवन्तसिंह और [११] रघुनाथसिंह।

कचोणिया का महाराज था) ने फ़साद किया । अंत में कोटा के दीवान भाला ज़ालिमसिंह (भालावाड़ राज्य का संस्थापक) ने उनके इस झगड़े को मिटाकर उन दोनों को कोटे में बुला लिया और वहां जागीर दिलवाई, किन्तु बलदेवसिंह ने अपना आचरण ठीक न रखा, इसलिए वह जागीर जाती रही । बलदेवसिंह का पुत्र भौमसिंह^१ था । वह अपनी रिश्तेदारी के सबब प्रतापगढ़ राज्य में चला गया । जहां अनघोरा और रोजवानी नामक दो गांव उसको जागीर में मिले । महारावत दलपतसिंह फ़तहगढ़वालों का भानजा था, इस कारण उसने भौमसिंह की जागीर में और भी वृद्धि की तथा उसे वि० सं० १६१२ श्रावण सुदि ७ (ई० स० १८५५ ता० २० अगस्त) को नानणा तथा खड़ियाखेड़ी नामक दो गांव और वि० सं० १६१६ ज्येष्ठ वदि ११ (ई० स० १८६२ ता० २४ मई) को कंधार गांव जागीर में दिये । भौमसिंह के हिम्मतसिंह, ज़ालिमसिंह और धनपतसिंह नामक तीन पुत्र हुए । उनमें से ज़ालिमसिंह को हिम्मतसिंह ने मार डाला, जिससे वह (हिम्मतसिंह) अपने पिता की संपत्ति से वंचित रहा और धनपतिसिंह पिता की संपत्ति का अधिकारी हुआ । तदनन्तर तेजसिंह और मोहनसिंह ढोस और अनघोरा के स्वामी हुए । मोहनसिंह का पुत्र प्रतापसिंह, वहां का वर्तमान सरदार है ।

वरखेड़ी

धमोतर के ठाकुर गोपालदास का सब से छोटा पुत्र पूरा था । पूरा के पांचवे वंशधर अक्षयसिंह^२ को महारावत सालिमसिंह ने वि० सं० १८२१ (ई० स० १७६४) के लगभग मंडावरा गांव जागीर में दिया था ।

(१) वंशक्रम—[१] भौमसिंह [२] धनपतिसिंह [३] तेजसिंह [४] मोहनसिंह और [५] प्रतापसिंह ।

(२) वंशक्रम—[१] अक्षयसिंह [२] हरिसिंह [३] संग्रामसिंह [४] रत्नसिंह [५] भवानीसिंह [६] लालसिंह और [७] तेजसिंह ।

अक्षयसिंह ने वि० सं० १८४५ (ई० स० १७८८) में रायपुर के ठाकुर गुमानसिंह को देवलिया के राजमहलों में मार डाला और रायपुर पर अधिकार कर लिया । वि० सं० १८५१ (ई० स० १७९४) में वह (अक्षयसिंह) अपने पुत्र हरिसिंह के साथ दशहरे के अवसर पर देवलिया में नौकरी के लिए गया उस समय महारावत की हस्तिशाला का एक हाथी मदमत्त होकर सरदारों के डेरों की तरफ़ गया । इसपर अक्षयसिंह ने अश्वत्थारथ गौली चलाई, जिससे वह हाथी मर गया । इस घटना से महारावत सामन्तसिंह उस (अक्षयसिंह) से अप्रसन्न हो गया । वह अवसर उपयुक्त देख रायपुर के ठाकुर दलसिंह ने अपने पिता गुमानसिंह का बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर महारावत की आज्ञा से रायपुर पर चढ़ाई कर पूरावतों का संहार किया और वहाँ पीछा अपना अधिकार स्थिर किया । उस समय हरिसिंह का पुत्र संग्रामसिंह गुप्त रूप से वहाँ से निकाल दिया गया था, जो बच गया । फिर संग्रामसिंह देवलिया राज्य से निकलकर वागड़ में जा रहा । तदनन्तर वह वहाँ से अपने बहनोई, मूलथान (मालवा) के स्वामी महाराज सवाईसिंह के पास चला गया । कुछ वर्ष पीछे सवाईसिंह की मृत्यु होने पर उस (सवाईसिंह) का पुत्र दलपतसिंह मूलथान का स्वामी हुआ, जिसकी आयु कम होने से सारा काम संग्रामसिंह चलाता था । उन दिनों सीमा-सम्बन्धी भगड़े के कारण वखतगढ़ (मालवा) के कामदार भूराखां ने पांचसौ आदमियों की भीड़-भाड़ लेकर मूलथान पर चढ़ाई कर दी, उस समय संग्रामसिंह ने वीरतापूर्वक वखतगढ़वालों का मुक्काबला कर भूराखां का सिर काट लिया, जिसपर मूलथान के स्वामी दलपतसिंह ने संग्रामसिंह को संदला जागीर में प्रदान किया । संग्रामसिंह के पुत्र रत्नसिंह^१ को महारावत रघुनाथसिंह ने

(१) ठाकुर रत्नसिंह के छोटे भाई हिम्मतसिंह और प्रतापसिंह थे । हिम्मतसिंह का पुत्र प्रह्लादसिंह और पौत्र मोतीसिंह हुआ, जिसकी निःसन्तान मृत्यु हुई । प्रतापसिंह का पुत्र तप्तसिंह और चार पौत्र खुशहालसिंह, सालिमसिंह, मदनसिंह और गोवर्धनसिंह हुए । उनमें से मदनसिंह का जन्म वि० स० १६५६ फाल्गुन वदि ७

वि० सं० १९४८ (ई० सं० १८९१) में खरखेड़ी गांव जागीर में प्रदानकर ताज़ीम का सम्मान दिया। रत्नसिंह के पीछे भवानीसिंह और लालसिंह क्रमशः वहां के सरदार हुए। लालसिंह का पुत्र तेजसिंह वहां का वर्तमान सरदार है। उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

नागदी

महारावत सिंहा का छोटा पुत्र जगन्नाथसिंह^१ था, जिसको प्रतापगढ़ के महारावत की तरफ से खरखड़ा, मोबाई, देवाला, नागदी और मोहेड़ा नामक पांच गांव जागीर में मिले थे। जगन्नाथसिंह का पुत्र जोगीदास था, जिसने खरखड़े में एक छोटा मन्दिर और तालाब बनवाया।

(ई० सं० १९०० ता० २१ फ़रवरी) को हुआ। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली होने से सरस्वती की मदनसिंह पर कृपा हुई और वह अंग्रेज़ी भाषा की परीक्षाओं में सम्मानपूर्वक उत्तीर्ण होता रहा। वह इलाहाबाद युनिवर्सिटी की एम० ए०, तथा एल-एल० बी० की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसकी पढ़ाई का संपूर्ण व्यय महारावत रघुनाथसिंह ने दिया। मदनसिंह की योग्यता और कार्य-कुशलता का परिचय-पाकर मेयो कालेज अजमेर के अधिकारियों ने उसको उच्च ग्रेड में अपने यहां के कालेज में सीनियर अध्यापक नियत किया। चरित्रवान और अनुभवी होने के कारण वह भिण्णाय (अजमेर) के बालक राजा कल्याणसिंह का अभिभावक (गार्डियन) भी बनाया गया। फलतः उपर्युक्त भिण्णाय के स्वामी की शिक्षा-दीक्षा सब उसकी देख रेख में हुई। ई० सं० १९३४ (वि० सं० १९९१) में राजा कल्याणसिंह की मेयो कालेज की शिक्षा समाप्त होने पर ठाकुर मदनसिंह इस दायित्व से मुक्त हुआ। तदनन्तर उसको जयपुर के वर्तमान महाराजा साहब ने मेयो कालेज, अजमेर से (जुलाई ई० सं० १९४० में) मांगकर अपने यहां के "मान नोबुल्स स्कूल" का प्रिंसिपल नियत किया है। प्रतापगढ़ राज्य के राजपूत सरदारों में उपर्युक्त मदनसिंह का शिक्षा के लिए विशिष्ट स्थान है और वही पहला व्यक्ति है, जिसने सम्मान के साथ विश्वविद्यालय की उच्च परीक्षाएं पास की हैं। वह गंभीर और विनयशील पुरुष है।

(१) वंशक्रम—[१] जगन्नाथसिंह [२] जोगीदास [३] नाथूसिंह [४] गुमानसिंह [५] तद्वत्सिंह [६] तेजसिंह [७] जोरावरसिंह [८] भैरवसिंह [९] ब्रह्मावरसिंह और [१०] सरदारसिंह।

जोगीदास के पुत्र नाथूसिंह के समय उसकी जागीर के गांव खालसा हो गये। उनमें से नागदी गांव उस (नाथूसिंह) के छोटे भाई देवकर्ण के पौत्र शुमानसिंह को वापस मिला। तदनन्तर तख्तसिंह, तेजसिंह, जोरावरसिंह और भैरवसिंह क्रमशः नागदी के स्वामी हुए। भैरवसिंह के पुत्र बरतावरसिंह को महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६७१ (ई० सं० १६१४) में ताज़ीम का सम्मान प्रदान किया। बरतावरसिंह का पुत्र सरदारसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

देवद

कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का छोटा पुत्र दौलतसिंह महारावत सालिमसिंह की सेवा में रहता था। उसको वि० सं० १८१३ (ई० सं० १७५६) में उक्त महारावत ने देवद गांव जागीर में प्रदान किया। प्रतापगढ़ के महाजनों तथा व्यापारियों के अप्रसन्न होकर मंदसौर चले जाने पर दौलतसिंह का तृतीय वंशधर खुम्माणसिंह उनको महारावत सामंतसिंह की आज्ञानुसार समझाकर पुनः प्रतापगढ़ ला रहा था। उस समय मार्ग में राजपुरखा गांव के पास मंदसौर के सूबेदार से झगड़ा हुआ, जिसमें वह मारा गया। महारावत दलपतसिंह ने खुम्माणसिंह के पौत्र शत्रुसाल (छत्रसाल) के छोटे पुत्र रणजीतसिंह को गांव आंवाषा का खेड़ा जागीर में प्रदान किया था; परंतु रणजीतसिंह निःसंतान मर गया, जिससे वह गांव ज़ब्त हो गया। फिर महारावत उदयसिंह ने उक्त गांव रणजीतसिंह के छोटे भाई बलवन्तसिंह को प्रदान किया। बलवन्तसिंह का पुत्र भौमसिंह हुआ, जिसे महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६७१ (ई० सं० १६१४) में ताज़ीम का सम्मान दिया। उसका पुत्र भारतसिंह वहां का वर्तमान सरदार है, जो अभी नाबालिग है।

बड़ा सेलारपुरा

वरडिया के सरदार चूडावत मनोहरदास का एक पुत्र गजसिंह था, जो उदयपुर की सेना से लड़कर मारा गया था। उस (गजसिंह) को महारावत प्रतापसिंह ने कोलवी गांव जागीर में दिया था, जो पीछे से राज्य के अधिकार में चला गया। गजसिंह के चतुर्थ वंशधर बाघसिंह को प्रतापगढ़ राज्य की ओर से संभवतः महारावत गोपालसिंह के समय बड़ा सेलारपुरा जागीर में मिला, जो उसके वंशजों के अधिकार में है। महारावत गोपालसिंह और उसके कुंवर सालिमसिंह के बीच विरोध रहता था, इस कारण से सालिमसिंह अपने पिता से अप्रसन्न होकर चला गया। उस समय बाघसिंह के वंशधर शार्दूलसिंह ने कुंवर का साथ दिया। इससे प्रसन्न होकर सालिमसिंह ने महारावत होने पर उस (शार्दूलसिंह) को वीरावाली और मनोहरगढ़ नामक दो गांव जागीर में दिये, जो पीछे से जुन्त हो गये। शार्दूलसिंह का वंशधर विशनसिंह, महारावत दलपतसिंह और उदयसिंह का पूर्ण अनुग्रह-पात्र था। उसको महारावत दलपतसिंह ने वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२) में बड़ा सेलारपुरा की नवीन सनद कर दी। विशनसिंह मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा संबंधी झगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से मोतमिद बनाकर भेजा गया था। महारावत रघुनाथसिंह के समय वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में उस (महारावत) की रौप्य जयन्ती के अवसर पर उपर्युक्त विशनसिंह के पुत्र गंभीरसिंह को ताज़ीम का सम्मान मिला। गंभीरसिंह का पुत्र बस्तावरसिंह वहां का वर्तमान सरदार है।

छायण (सीधेरथा)

छायण के ठाकुर भाला राजपूत हैं और मंडावरा की छोटी शाखा में हैं।

महारावत उदयसिंह के समय मंडावरा के स्वामी के छोटे पुत्र अर्जुनसिंह को वि० सं० १६२७ (ई० स० १८७०) में ओढ़ां तथा खेड़ा गांव जागीर में मिले । फिर वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में छायाण गांव भी उक्त महारावत ने उसे प्रदान किया । इसके दो वर्ष बाद उक्त महारावत ने नारदा और दांतराकुंड गांव अर्जुनसिंह को दिये तथा सब गांवों के खिराज में से महारावत ने ३१३ रुपये माफ़ कर दिये । अर्जुनसिंह ने मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के बीच सीतामाता की सीमा संबंधी झगड़े में प्रतापगढ़ राज्य की तरफ़ से मोतमिद होकर अच्छी सेवा की थी, जिससे महारावत की उसपर कृपा बढ़ती ही रही और उसने उसे जागीर के साथ ही ताज़ीम का सम्मान भी दिया । अर्जुनसिंह की मृत्यु होने पर उसका पुत्र मोतीसिंह छायाण का ठाकुर हुआ, जिसको महारावत रघुनाथसिंह ने सीधेरथा गांव प्रदान किया । यह छायाण का वर्तमान सरदार है और उसकी उपाधि "ठाकुर" है ।

परणावा

भांतला के ठाकुर प्रतापसिंह के छोटे पुत्र मानसिंह को महारावत उदयसिंह ने परणावा गांव जागीर में दिया और वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८२) में उसको स्वर्ण का पाद-भूषण पहिनने का सम्मान भी दिया । मानसिंह वि० सं० १६५१ (ई० स० १८९४) में भूतपूर्व महारावत उदयसिंह की राणी फूलकुंवरी (सैलानावाली) और महारावत रघुनाथसिंह की सेमलियावाली राणी केसरकुंवरी के साथ तीर्थ-यात्रा के प्रबंध के लिये गया था । मार्ग में मथुरा में उस (मानसिंह) की मृत्यु हो गई । उसका पुत्र उदयसिंह हुआ, जिसको महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६५३ (ई० स० १८९६) में ताज़ीम का सम्मान दिया । उदयसिंह की निःसंतान

(१) वंशक्रम—[१] अर्जुनसिंह और [२] मोतीसिंह ।

(२) वंशक्रम—[१] मानसिंह [२] उदयसिंह [३] स्वरूपसिंह और [४] शंभुसिंह ।

मृत्यु होने पर उसका छोटा भाई स्वरूपसिंह पराणावा का स्वामी हुआ। स्वरूपसिंह का पुत्र शंभूसिंह वहाँ का वर्तमान सरदार है और उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

धनेसरी

मेवाड़ में वाठरडा ठिकाने के सारंगदेवोत (सीसोदिया) रावत दलैलसिंह का छोटा भाई गुमानसिंह^१ था, जो महारावत उदयसिंह के समय वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३) में प्रतापगढ़ चला गया। उसको उक्त महारावत ने मगरा ज़िले में रामपुरिया तथा धार्याखेड़ी गांव दिये। गुमानसिंह योग का ज्ञाता और अच्छा कवि था। उपर्युक्त गांव पहाड़ियों में होने के कारण आय पर्याप्त न होने से उसको महारावत ने फिर धनेसरी गांव जागीर में प्रदान किया।

गुमानसिंह की योग्यता से प्रसन्न होकर महारावत रघुनाथसिंह ने वि० सं० १६५१ (ई० स० १८९४) में उसे देवलिया में भूमि-सहित मन्नाभट्ट की बावड़ी और हवेली प्रदान की तथा स्वर्ण का पाद-भूषण पहिनने के अतिरिक्त ताज़ीम की प्रतिष्ठा भी दी। गुमानसिंह ने योग संबंधी कई पुस्तकों की रचना तथा रामगीता एवं भगवद्गीता पर टीकाएं भी की थीं। वि० सं० १६७१ फाल्गुन सुदि ८ (ई० स० १६१५ ता० २२ फ़रवरी) को गुमानसिंह का ७१ वर्ष की आयु में देहांत हुआ। उसके पीछे उसका पुत्र गोविंदसिंह धनेसरी का स्वामी हुआ, जिसका पुत्र हरिसिंह वहाँ का वर्तमान सरदार है। उसकी उपाधि "ठाकुर" है।

डोराणा

इस ठिकाने के सरदार सोनगरा चौहान हैं और उनकी उपाधि "ठाकुर" है।

(१) वंशक्रम—[१] गुमानसिंह [२] गोविंदसिंह और [३] हरिसिंह ।

महारावत उदयसिंह का प्रथम विवाह वि० सं० १६१७ (ई० सं० १८६०) में नामली (रतलाम राज्य) के सोनगरा चौहान ठाकुर तख्तसिंह की पुत्री स्वरूपकुंवरी के साथ हुआ था। इस प्रसङ्ग से तख्तसिंह का छोटा पुत्र बख्तावरसिंह उक्त महारावत के पास-चला गया, जिसपर उसने वि० सं० १६४० (ई० सं० १८८३) में डोराणा और जसवन्तपुरा नामक दो गांव उसे जागीर में दिये। बख्तावरसिंह भाषा का अच्छा कवि था। वहां का वर्तमान सरदार दलपतसिंह है।

प्रसिद्ध और प्राचीन घराने

+++++

देश-रक्षा में राजपूत सरदारों की जैसी सेवाएं हैं, वैसी ही राजनैतिक क्षेत्र में मन्त्री-वर्ग और कर्मचारियों की सेवाएं भी खास महत्त्व रखती हैं। जिस राज्य में मन्त्री-वर्ग तथा कर्मचारी योग्य, ईमानदार तथा अनुभवी होते हैं उस राज्य में आंतरिक विषय कम होते हैं और सुख-समृद्धि का विकास होता है। इतिहास के अभाव में विभिन्न राज्यों के कर्मचारियों की सेवाओं का पता पूरा-पूरा नहीं चलता। यदि शोध किया जाय तो बहुत कुछ ऐसे साधन भी मिलेंगे, जिनसे उनके द्वारा होनेवाली सेवाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ सके।

प्रतापगढ़ राज्य के मन्त्रीवर्ग में भी समय-समय पर उल्लेखनीय व्यक्ति हो गये हैं, जिन्होंने इस राज्य की रक्षा और उन्नति के लिए अच्छी सेवाएं की हैं; परंतु भारतीयों में इतिहास-संरक्षण की भावना कम होने से उनकी सेवाएं भी बहुधा अज्ञात ही हैं। इस राज्य के मंत्रियों में अधिकतर वैश्य समुदाय की ही प्रधानता रही है और अन्य की कम। वैश्यों में भी दिगंबर सम्प्रदाय की बहुलता होने से वे ही समय-समय पर मंत्री-पद पर नियत किये जाते थे, जिनका चुनाव किसी खास परिपाटी अथवा गुणों के आधार पर नहीं, अपितु बहुधा वंशपरंपरा अथवा राजा की कृपा

और खास सेवाओं को दृष्टि में रखकर किया जाता था। यद्यपि समय के परिवर्तन से अब देशी राज्यों में यह प्रथा मिटती जाती है और प्रतापगढ़ में स्वर्गीय महारावत रघुनाथसिंह के राज्यकाल से ही मंत्री-वर्ग में बाहरी आदमियों को स्थान मिलने लगा है तथापि किसी न किसी अंश में दायित्वपूर्ण पदों पर वंशपरंपरा के अनुसार वहां के निवासियों की ही नियुक्ति होती है।

इस राज्य के पहले के प्रायः सब मंत्री दिगंबर सम्प्रदाय के हूंबड़ जाति के व्यक्ति हुए हैं। वागड़ के पूर्व-निवासी होने से साधारण बोलचाल में वे भी वागड़िया हूंबड़ कहलाते हैं। व्यवसाय-प्रधान जाति होने से हूंबड़ों की गणना वणिकों में होती है। पहले उनका वागड़ (डूंगरपुर और वांसवाड़ा) राज्य में निवास था और वे बहुत सम्पन्न थे। महारावत विक्रमसिंह के कांठल जाकर वहां अपना स्थायी निवास बनाने के बाद देवलिया प्रतापगढ़ राज्य की आबादी बढ़ने लगी। फिर उक्त महारावत के क्रमानुयायियों ने वागड़िया वैश्यों को कई प्रकार की रियायतें देकर कांठल बुलवाकर वहां आवादा किया। धीरे-धीरे उन्होंने वहां व्यापार बढ़ाकर बहुत कुछ उन्नति की। उनमें से कुछ ने अपनी कारगुजारी और सदाचरण से राज्य के विश्वसनीय पदों को प्राप्त किया। श्रमात्य-पद और नरेश के अन्तःपुर के प्रबंध के अतिरिक्त राज्य का प्राचीन दफ्तर भी हूंबड़ जाति के व्यक्तियों के अधिकार में ही रहा। वस्तुतः उन्नीसवीं शताब्दी में, जब कि कई पुराने राज्य बिगड़े, प्रतापगढ़ राज्य का अक्षुण्ण रहना वहां के मंत्री और राजकर्मचारियों की योग्यता का ही परिणाम है। यही नहीं उन्होंने इस राज्य को सुसमृद्ध बनाने का भी समय-समय पर प्रयत्न किया और लोकोपकार की भावनाओं से प्रेरित होकर देवालय, बाग, बावड़ियां आदि भी बनवाईं।

वर्षावत

हूँवड़ों की वर्षावत शाखा का मूल पुरुष वर्षाशाह, महारावत हरिसिंह के समय उसका मन्त्री था, ऐसा उस समय के शिलालेखों, दान-शाह वर्षा और उसके वंशज पत्रों एवं पुस्तकों से पाया जाता है। प्रसिद्ध है कि वर्षा ने उक्त महारावत की आज्ञानुसार वागड़ के सागवाड़ा (डूंगरपुर राज्य) कस्बे से लगभग एक सहस्र हूँवड़-कुटुम्बों को लाकर कांठल में आबाद किया था। धार्मिक भावना से प्रेरित होकर उस(वर्षाशाह)ने देवलिया में दिगम्बर सम्प्रदाय का जैन मंदिर बनवाना आरम्भ किया था, जो पीछे से पूर्ण हुआ और बड़ा मन्दिर कहलाता है। उपर्युक्त मन्दिर की प्रतिष्ठा वर्षा के पुत्र वर्द्धमान और पौत्र दयाल ने वि० सं० १७७४ माघ सुदि १३ (ई० सं० १७१८ ता० २ फ़रवरी) को की। वर्द्धमान और उसका लघु भ्राता उदयमान महारावत प्रतापसिंह के समय में भी मंत्री का काम करते थे, जिनका उल्लेख उक्त महारावत के वि० सं० १७३३ माघ सुदि १५ (ई० सं० १६७७ ता० ७ फ़रवरी) के पाटण्या गाव के दानपत्र और उसके समय बने हुए "प्रताप-प्रशस्ति"- नामक खंडित काव्य में भी है। उदयमान थोड़े ही समय तक मंत्री रहा, परंतु वर्द्धमान महारावत पृथ्वीसिंह के राज्य समय तक प्रधान मंत्री के पद पर विद्यमान था।

पाडलियों का घराना

यह घराना भी हूँवड़ जाति का है। इस वंश का पाडलिया जीवराज सागवाड़ा (डूंगरपुर राज्य) का निवासी था। वह भी अन्य हूँवड़ों के साथ वागड़ से जाकर देवलिया में आबाद हुआ। उनमें प्रमुख होने से आगे जाकर प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से उसके वंशधर 'नगरसेठ' की पदवी से सम्मानित हुए। पाडलिया चंद्रभाण महारावत गोपालसिंह के समय मंत्री रहा था। उसने दस सहस्र रुपये व्यय कर देवलिया

पाडलिया चंद्रभाण और सुंदर

में एक वाग और बावड़ी बनवाई, जिसकी महारावत गोपालसिंह के समय वि० सं० १७८८ माघ सुदि ६ (ई० स० १७३२ ता० २१ जनवरी) को प्रतिष्ठा होने का उपर्युक्त बावड़ी की प्रशस्ति में उल्लेख है।

चन्द्रभाण और उसके पुत्र सुन्दर की सेवाओं से प्रसन्न होकर महारावत गोपालसिंह ने उनको डोराणा गांव जागीर में दिया। फिर वि० सं० १८१५ (ई० स० १७५८) में महारावत सालिमसिंह ने सुन्दर को चरखेड़ी गांव और साढ़े चारसौ बीघा भूमि प्रदान की तथा निम्नलिखित परवाना कर दिया—

“तुम्हारे घर का शरणा पलता है, जो साबित है। देवलिया राज्य में दरबार के समय तुम्हारे पीछे अन्य मुत्सद्दी बैठेंगे। उदयपुर के दरबार में जाना होगा तो वहां तुम्हारी बैठक साबित है।”

सुन्दर के इस समय कई वंशधर विद्यमान हैं, जो विभिन्न पदों पर रहकर प्रतापगढ़ राज्य की सेवा कर रहे हैं।

उपर्युक्त वंश का पाडलिया लसण महारावत पृथ्वीसिंह के समय राज्य के उच्च पद पर कार्य करता था। उसको उक्त महारावत ने आसावता लसण के पुत्र कपूर के वंशज गांव दिया था। महारावत गोपालसिंह ने उसपर और भी कृपा प्रकटकर उसको अपना मंत्री बनाया तथा वि० सं० १७६६ आश्विन वदि ३ (ई० स० १७४२ ता० ६ सितम्बर) को थड़ा गांव दिया। लसण का पुत्र कपूरचंद था, जिसको उस (लसण) के पीछे महारावत ने अपना मंत्री बनाया तथा वि० सं० १८११ मार्गशीर्ष वदि ५ (ई० स० १७५४ ता० ५ नवम्बर) को उक्त महारावत ने उसको मोहेड़ा गांव देकर देवासला गांव का खिराज लेने का स्वत्व भी प्रदान किया।

महारावत गोपालसिंह और उसके कुंवर सालिमसिंह के बीच मनो-मालिन्य रहता था, जिससे कुंवर राज्य से बाहर रहता था। गोपालसिंह की मृत्यु के समय कुछ सरदारों ने सालिमसिंह को राज्य से वंचितकर स्वार्थ-साधन करना चाहा। उस समय मंत्री कपूरचंद ने उसके इस कार्य का तीव्र विरोध किया और सालिमसिंह को राजगद्दी पर बिठलाया।

उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर सालिमसिंह ने उसको मंत्री-पद पर स्थिर रखा और वि० सं० १८१६ (ई० स० १७६२) में मोटी अलबेली नामक गांव जागीर में प्रदान किया । फिर कपूरचंद ने धमोतर और भांतला के सरदारों का उत्पात मिटाकर शांति स्थापित की । वि० सं० १८३१ (ई० स० १७७४) में महारावत सालिमसिंह का देहांत होने पर उसका कुंवर सामन्तसिंह सात वर्ष की आयु में राज्यासन पर बैठा । उस समय शासन-कार्य राजमाता कुन्दनकुंवरी अपने भ्राता सरदारसिंह, मंत्री कपूरचंद, राघव बख्शी तथा शाह गुमान के परामर्श से चलाती थी । इस परामर्शदात्री समिति में मंत्री कपूरचंद प्रमुख था, क्योंकि वह तीन पीढ़ी से मंत्री-पद का कार्य, ईमानदारी से करता चला आ रहा था, जिससे उसका अनुभव बढ़ा हुआ था । महारावत की बाल्यावस्था होने के कारण राज्य में क्षति होना स्वाभाविक था, किंतु राजमाता और उसके परामर्श-दाताओं की सावधानी के कारण कोई हानि नहीं हुई । इसका प्रभाव महारावत सामन्तसिंह पर अच्छा पड़ा और उसने राज्य-मुद्रा में उक्त मंत्री का नाम भी खुदवाया । उन दिनों देश में चारों तरफ महान क्रांति हो रही थी । मरहटों का प्रताप घट रहा था, फिर भी उनकी कुछ शक्ति शेष होने से होल्कर, सिंधिया आदि को भारत के देशी-राज्यों पर धाक जमी हुई थी और संगठन का अभाव होने से राजपूताना के नरेश उनसे जमकर मुक्ताबला करने का साहस न रखते थे । प्रतापगढ़ राज्य का खिराज, जो होल्कर सरकार को दिया जाता था, इतना अधिक था कि राज्य उसको देने में सर्वथा असमर्थ था । इसलिए खिराज की रकम चढ़ जाया करती थी और नियमित रूप से नहीं दी जाती थी, जिसकी वसूली के लिए होल्कर की सेना जाकर समय-समय पर घेरा डाल देती थी । उसके घेरे को उठाने के लिए मंत्री-वर्ग को सदा अपने प्राणों का भय बना रहता था और राज्य को भरपूर द्रव्य देना पड़ता था । महारावत सामन्तसिंह के राज्य-काल में भी ऐसे कई अवसर आये । राज्य से मिलनेवाले तत्कालीन पत्रादि से पता चलता है कि उस 'समय'

मन्त्री कपूरचंद और महारावत के मामा सरदारसिंह पर ही खिराज चुकाने का भार था और वे होकर सरकार का तकाजा होने पर किसी प्रकार रकम आदि देकर राज्य को बरवादी से बचाते थे।

वि० सं० १८३५ (ई० सं० १७७८) में मंत्री कपूरचंद ने अपने सजातीय बंधुओं के साथ उदयपुर राज्य के जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ धुलेव में जाकर ऋषभदेव की यात्रा की। उस समय उस संघ में १४०० स्त्री, पुरुष और बाल-बच्चे थे। उसके साथ सशस्त्र सवार, पैदल, नक्कारा, निशान, मियाना, मालकी, छड़ी आदि लवाज्जमा था और कुल संख्या चार हजार मनुष्यों तक पहुंच गई थी। इस यात्रा के समय संघ-सहित कपूरचंद डूंगरपुर भी गया और शैवसागर तालाब की पाल पर श्रीनाथजी के मंदिर के पास ठहरा। उसने वहां के तत्कालीन नरेश महारावल शिवसिंह की सेवा में संघ-सहित उपस्थित होकर नज़र-न्योछावर की। महारावल ने भी उसका सम्मान किया और मार्गशीर्ष वदि १२ (ता० १५ नवम्बर) रविवार को अपने राज्यवर्ती सागवाड़ा के पुराने निवासी इस वार्षिक समुदाय के, जो अपने को डूंगरपुर राज्य की भी प्रजा समझते थे, डेरों पर गया। इस यात्रा में उस (कपूरचंद) ने पच्चीस सहस्र रुपया व्यय किया था। उसने वागड़ और आसपास के रहनेवाले दिगम्बर जैन हूँवड़ों के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया और प्रति गृह एक-एक रुपया और नारियल बांटा। कपूरचंद की मृत्यु वि० सं० १८३७ (ई० सं० १७८०) में हुई। तब महारावत ने उसके पुत्र शिवलाल (शिवजी) को अपना मंत्री नियतकर राजमुद्रा में उसका नाम खुदवाया। कुछ काल पीछे शिवलाल ने मतभेद होने से राजकार्य में हानि होने की संभावना देख अपने पद का परित्याग करने का विचार स्थिर किया और यात्रा के लिए आज्ञा प्राप्तकर देवलिया से प्रस्थान किया। उस समय उदयपुर के महाराणा भीमसिंह, ईडर के राजा गंभीरसिंह, भाबुआ के राजा भीमसिंह, मंदसौर के सूबेदार सांडेराव बल्लाल तथा डूंगरपुर के महारावल आदि ने अपने यहां आकर स्थायी रूप से निवास करने के लिए उसके पास परवाने

भिजवाये; परंतु वह वहां नहीं गया और वि० सं० १८५६ (ई० स० १८०२ में रघुनाथद्वार की प्रतिष्ठा के समय महारावत के बुलाने पर पीछा देवलिया गया, जहां थोड़े दिनों बाद वह बंदी कर लिया गया। उन्ही दिनों होल्कर सरकार की ओर से चढ़े हुए खिराज की घसूली के लिए प्रतापगढ़ राज्य पर पूरी ताकीद हुई और होल्कर की सेना ने राजधानी को आकर घेर लिया। तब महारावत ने शिवलाल के पुत्र प्रतापचंद को ओल में सौंप दिया। अनन्तर रुपये चुकाकर शिवलाल ने अपने पुत्र को होल्कर सरकार की ओल से छुड़ाया। वि० सं० १८६५ (ई० स० १८०८) के लगभग उस (शिवलाल) की मृत्यु हुई।

राज्य की ऐसी स्थिति देख उस समय प्रतापगढ़-निवासी राज्य-सेवा में योग देने की अपेक्षा विमुख रहने में ही अपना कल्याण समझते थे, जिससे राज्य को बड़ी हानि हुई। उन दिनों अंग्रेज़-सरकार के साथ महारावत ने संधि करली थी, जिससे बाहरी आक्रमणों से तो राज्य बच गया, परंतु महारावत की सरल प्रकृति का अनुचित लाभ उठाकर कुंवर दीपसिंह ने अपना अधिकार बहुत कुछ बढ़ा लिया और एक प्रकार से महारावत को राजकार्य से बिल्कुल वेदखल कर दिया। यही नहीं, उसने महारावत के विश्वासपात्र व्यक्ति—यति हेमराज, ओंकार पाडलिया, गब्बा हल्कारा आदि के प्राण हरण किये, जिसपर महारावत और कुंवर के बीच पूरा विरोध हो गया। अंग्रेज़ सरकार ने इस विरोध को न बढ़ने देने के लिए कुंवर को नियन्त्रण में रखने का यत्न किया; परंतु कुंवर दीपसिंह ने न माना और उत्पात करना जारी रखा। इसपर अंग्रेज़-सरकार ने सेना भेज कुंवर को बंदी कर लिया और वह अचेरे की गढ़ी में सरकारी निरीक्षण में रक्खा गया। पुत्र-मोह से द्रवित होकर वृद्ध महारावत ने अंग्रेज़ सरकार से प्रार्थना कर कुंवर को छुड़ाने का उपक्रम किया, किंतु दीपसिंह की आयु ने अधिक साथ न दिया और देवलिया जाकर अपने पिता के चरण-स्पर्श कर अपना अपराध क्षमा कराने के पूर्व ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ।

इस बिगड़ी हुई दशा में मंत्री-पद को ग्रहणकर वहां की स्थिति को सुधारने के लिए महारावत, अंग्रेज सरकार तथा भंवर केसरीसिंह- (महारावत सामन्तसिंह का पौत्र और दीपसिंह का पुत्र) ने शिवजी के पुत्र नवलचंद को ही उपयुक्त समझा। महारावत और उसके ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह के विश्वास दिलाने पर वि० सं० १८८० (ई० स० १८२३) में उसने मंत्री-पद स्वीकार किया। नवलचंद ने आय-व्यय का हिसाब प्रति-वर्ष महारावत के सम्मुख उपस्थित कर रसीद ले लेने का क्रम जारी किया। वृद्धावस्था के कारण सामन्तसिंह पिछले वर्षों में राजकार्य अपने ज्येष्ठ पौत्र केसरीसिंह को सौंपकर अधिकतर ईश्वरभक्ति में समय बिताने लगा। नवलचंद ने उक्त भंवर को भी प्रसन्न रक्खा और वह दीपसिंह को भी छुड़ाने में प्रयत्नशील रहा। केसरीसिंह का छोटा भाई दलपतसिंह डूंगरपुर के महारावत जसवन्तसिंह के दत्तक गया, इस कारण वह वहां के राजनैतिक कार्यों में भाग लेता था, जिससे दलपतसिंह ने उसको डूंगरपुर राज्य की तरफ से एक गांव जागीर में दिया। उसकी कार्यशैली से पोलिटिकल अफसर भी प्रसन्न थे और राज्य की आय में क्षति न होकर दिन-दिन वृद्धि ही हुई।

नवलचंद की मृत्यु के बाद उसका भाई भोजराज महारावत दलपतसिंह के समय वि० सं० १६०७ (ई० स० १८५०) में खासगीवाले जड़ावचंद के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु व्यापार में बाधा पड़ने से कुछ मास बाद ही उसने इस पद का परित्याग कर दिया। नवलचंद का ज्येष्ठ पुत्र जोधराज था। उसका पुत्र हंसराज प्रतापगढ़ में रहकर उस तरफ के इलाके का सारा काम-काज करता था।

उस(हंसराज)का चाचा जोधकरण (नवलचंद का छोटा पुत्र) महारावत का पूर्ण विश्वासभाजन होने के अतिरिक्त प्रबंध-कुशल व्यक्ति था। सिपाही विद्रोह के समय उसने भी अच्छी कारगुजारी दिखलाई थी। महारावत दलपतसिंह ने दोनों चाचा-भतीजों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें नयीन जागीर प्रदान की और जब वि० सं० १६१६ (ई० स० १८५६)

में मंत्री का पद रिक्त हुआ तो जोधकरण को खासगीवाले निहालचंद के स्थान पर नियत किया। वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में महारावत दलपतसिंह का स्वर्गवास होने पर उसका कुंवर महाराजकुमार उदयसिंह सोलह वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ। अंग्रेज-सरकार ने जोधकरण की उत्तम कार्यशैली का परिचय पाकर उस समय शासन-कार्य चलाने के लिए वहां रिजेंसी कौंसिल नियत करना उचित न समझा और सारा राज्य-भार जोधकरण को सौंपकर महारावत को संपूर्ण राज्याधिकार दे दिये। वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६६) में बांसवाड़ा राज्य ने बोरी-रीछड़ी गांव के सीमा संबंधी झगड़े के कारण प्रतापगढ़ राज्य के थाने पर आक्रमण किया। उस समय जोधकरण ने योग्यतापूर्वक इस मामले को पोलिटिकल-एजेंट के पास उपस्थित किया, जिससे बांसवाड़ा राज्य की ज्यादाती सिद्ध होकर यथोचित न्याय हुआ। उसने राज्य के आय-व्यय का हिसाब वर्ष की समाप्ति पर महारावत के सामने पेश कर रसीद लेने का तरीका बनाया। वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३) में जब वह राज्यकार्य के लिए उदयपुर गया था, तब वहां के महाराणा शंभुसिंह ने अपने दरबार में उसको बैठने का सम्मान दिया, जैसा कि पहले शिवजी और नवलचंद को प्राप्त था। उसने प्रथम बार वि० सं० १६२४ (ई० स० १८६७) और दूसरी बार वि० सं० १६३४ से १६३७ तक मंत्री का कार्य किया था। जोधकरण का पुत्र कानजी कई वर्ष तक सहकारी मंत्री (नायब दीवान) रहा। जब वह वि० सं० १६४२ (ई० स० १८६५) में उदयपुर भेजा गया, तब वहां के महाराणा फ़तहसिंह ने उसको भी अपने दरबार में बैठने का सम्मान प्रदान किया। वि० सं० १६५४ (ई० स० १८६७) में राजकुमारी वल्लभकुंवरी का विवाह बीकानेर के महाराजा सर गंगासिंहजी से हुआ, उस समय उस(कानजी)ने अच्छी कारगुजारी बतलाई, जिससे प्रसन्न होकर उक्त महारावत ने हंसराज और कानजी को नई जागीरें दी।

हंसराज का बड़ा पुत्र पन्नालाल और छोटा मन्नालाल हुआ। पन्नालाल कचहरी खासगी, टकसाल आदि का कई वर्ष तक हाकिम रहा।

उसका पौत्र अमृतलाल (पूनमचंद का पुत्र) इस समय हिसाब दफ्तर का हाकिम है । मन्नालाल वि० सं० १९६१ (ई० स० १९०५) में महाराजकुमार मानसिंह का कामदार नियत हुआ । फिर वह महकमा खास में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बनाया गया । महारावत रघुनाथसिंह और महाराजकुमार मानसिंह का पूरा विश्वासपात्र होने से वह फिर कचहरी खासगी (गृह-विभाग) का अफसर बनाया गया । तब से अब तक वह उक्त पद पर कार्य कर रहा है । महारावत रघुनाथसिंह उसकी सलाह को मानता था । उसी प्रकार वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी भी उसकी हितपूर्ण सलाह को मानते हैं । उक्त महारावतजी ने वि० सं० १९८७ (ई० स० १९३०) में जागीर के एवज़ में उससे जो सेवा ली जाती थी, वह माफ़ कर दी है । उसका ज्येष्ठ पुत्र किशनलाल, बी० ए०, एल्ल-एल्ल० बी० भ्रांगधरा में फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है ।

उपर्युक्त पाडलिया लसण का एक पुत्र हरचंद था, जिसका पांचवां वंशधर रतनलाल, महारावत उदयसिंह के पिछले राज्यसमय में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बना । उसने महारावत रघुनाथसिंह की गद्दीनशीनी से लगाकर पिछले समय तक भली प्रकार से सेवा की । मेवाड़ और प्रतापगढ़ राज्य के सीमा सम्बन्धी झगड़े में भी उसने अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई । महारावत उदयसिंह की निःसंतान मृत्यु होने पर अचलावदा के ठाकुर ने उज़्र किया, उस समय रतनलाल ने उसको समझाकर झगड़ा आगे न बढ़ने दिया । उसकी इस सेवा को महारावत रघुनाथसिंह भी मानता रहा । उक्त महारावत के समय प्रथम बार वि० सं० १९४६ (ई० स० १८९२) तक दूसरी बार वि० सं० १९५३ से ५५ (ई० स० १८९६ से ९८) तक और तीसरी बार महाराजकुमार मानसिंह के देहावसान के पीछे कुछ वर्षों तक वह मंत्री-पद पर रहा था । उसका पुत्र माणकलाल पाडलिया, बी० ए०, एल्ल-एल्ल० बी० है । उसने वि० सं० १९७७ (ई० स० १९२०) में सालिमगढ़ गांव के सीमा संबंधी झगड़े में अच्छी कारगुज़ारी दिखलाई थी । वह कई वर्ष तक हिसाब दफ्तर का हाकिम और राजसभा का सदस्य रहा । वर्तमान

लसण के दूमेरे पुत्र हरचंद
के वंशधर

महारावत्की ने उसको नायब दीवान बनाया। फिर शाह चुन्नीलाल शर्माफ़ के अलग होने पर जब दीवान की जगह खाली हुई तो वह स्थानापन्न दीवान नियत हुआ और वि० सं० १६६६ (ई० सं० १६३६) के प्रारंभ तक उक्त पद का कार्य करता रहा और उससे महारावत और वहां के निवासी संतुष्ट रहे। इस समय वह प्रतापगढ़ राज्य का नायब दीवान है और सुचारु रूप से अपना कार्य कर रहा है।

खासगीवालों का घराना

महारावत के गृह-विभाग (अन्तःपुर) का प्रबंध और निजी कार्य करनेवाले व्यक्ति इस राज्य में खासगीवाले कर्मचारी कहलाते हैं। इस पद का कार्य पूर्ण विश्वासपात्र व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं सौंपा जाता। उनके सुपुर्द राज्य के अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भी रखे जाते हैं। इस खानदान के व्यक्ति भी हूँवड़ जाति के महाजन हैं और उनका अन्न तलाटी है। इस वंश के शाह जड़ावचंद को महारावत सामंतसिंह ने वि० सं० १८७० (ई० सं० १८१३) में अपना पूरा विश्वासपात्र समझ कर खासगी के महकमे में नियत किया। उसने समय-समय पर उक्त महारावत की अच्छी सेवा कर पूर्ण स्वामीभक्ति दिखलाई। मरहटों के उपद्रवों तथा अन्य कई झमेलों से देश की स्थिति संभलने नहीं पाई थी कि ऐसे समय में वि० सं० १८६० (ई० सं० १८३३) में प्रतापगढ़ राज्य में दुर्भिक्ष हो गया। उस समय भी जड़ावचंद ने राज्य की अच्छी सेवा की, जिससे महारावत ने प्रसन्न होकर उसकी जागीर में वृद्धि की। उक्त महारावत के पिछले समय में उसका पौत्र दलपतसिंह झुंजरपुर में भी रहा करता था, जिससे राज्य में अधिक सुधार नहीं हो सकता था। इस-लिए महारावत सामंतसिंह का परलोकवास होने पर दलपतसिंह ने राजगद्दी पर बैठते ही जड़ावचंद को वि० सं० १६०० (ई० सं० १८४३) में अपना मंत्री बनाया। उसने अपने स्वामी की इच्छानुसार शासन-कार्य योग्यता-पूर्वक चलाया, जिससे राज्य की आय बढ़ी, कई नये गांव बसे और

व्यापार में भी उन्नति हुई। वह सिपाही-विद्रोह के समय तक अपने पद पर बना रहा और उसने अंग्रेज़-सरकार के प्रति उस कठिन समय में भी वफ़ादारी में अन्तर न आने दिया। वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७) में जड़ावचंद की मृत्यु होने पर उसका पुत्र शाह निहालचंद मंत्री हुआ, जिसने वि० सं० १६१६ (ई० स० १८५६) तक इस पद का कार्य किया और ग़दर के अवसर पर बागी सरदार क़ासिमख़ां आदि के मुकाबले के समय उसने सदैव महारावत के साथ रहकर अच्छा कार्य किया।

निहालचंद के छोटे भाई कस्तूरचंद और कपूरचंद थे। वे खासगी का काम पूर्ववत् करते रहे। महारावत उदयसिंह के समय वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में वहां के काश्तकार इलाक़ा छोड़कर चले गये, तब महारावत ने अपने विश्वासपात्र सेवक कपूरचंद को काश्तकारों को समझाकर पीछा लाने का हुक़म दिया। इसपर उसने अपने भतीजे नंदलाल-सहित गांवों में जा काश्तकारों को समझाकर पीछा आवाह किया। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८७६) में उक्त महारावत के अन्तःपुर की ड्योढ़ी की निगरानी का सारा काम पूरे अख्तियार-सहित कपूरचंद को सौंपा गया और उसकी उत्तम सेवाओं के पवज़ में वि० सं० १६४५ (ई० स० १८८६) में उसकी जागीर का आधा ख़िराज माफ़ कर दिया गया।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में महारावत उदयसिंह का निःसंतान देहांत हो गया। उस समय अरणोद के महाराज रघुनाथसिंह को राजगद्दी पर विठलाने में शाह कपूरचंद ने पूर्ण प्रत्न किया। कपूरचंद का पुत्र अमृतलाल भी अन्तःपुर की ड्योढ़ी का प्रबंधकर्ता था और उसके सुपुर्द राज्य के मुहाफ़िज़ख़ाने एवं कारख़ानें ज़ात की निगरानी का कार्य बहुत वर्षों तक रहा।

कपूरचंद का तीसरा पुत्र जोधकरण, वी० ए० था। प्रतापगढ़ राज्य में वही सर्वप्रथम व्यक्ति था, जिसने अंग्रेज़ी में वी० ए० तक की उच्च परीक्षा अपने ही साहस से पास की। फिर वह महारावत रघुनाथसिंह का प्राइवेट सेक्रेटरी नियत हुआ। वि० सं० १६५६ (ई० स० १८९६) के भयङ्कर अकाल

के समय वह "अकाल सहायक समिति" का सेक्रेटरी बनाया गया। महाराजकुमार मानसिंह के अजमेर में विद्याध्ययन करते समय वह उसका शिक्षक और गार्जियन नियत हुआ। फिर वह मैजिस्ट्रेट और दीवानी अदालत का हाकिम बनाया गया और उसके साथ ही राज्य की तरफ से पोलिटिकल एजेंसी के संबंध का महकमाखास का अंग्रेजी कार्य भी वह करता रहा। वि० सं० १९६१ वैशाख वदि ५ (ई० सं० १९०४ ता० ५ अप्रैल) को २७ वर्ष की आयु में उसकी प्लेग की बीमारी से मृत्यु हुई।

जोधकरण का छोटा भाई मुंशी फ़तहलाल है, जिसने अंग्रेजी भाषा में बी० ए० तक की शिक्षा प्राप्त की है। वह प्रारंभ में प्रतापगढ़ के स्कूल का हेड मास्टर बनाया गया। उसके उत्तम प्रबंध से उक्त स्कूल की अच्छी उन्नति हुई और उसके कार्यकाल में ही वहां मैट्रिक तक की शिक्षा दी जाने की व्यवस्था हो गई। वह महाराजकुमार मानसिंह का बाल्यवस्था का साथी और कृपापात्र एवं वर्तमान महारावत सर रामसिंहजी का शिक्षक भी रहा है। राज्य के भिन्न-भिन्न ऊंचे पदों पर समय-समय पर उसकी नियुक्ति होने से उसका अनुभव अधिकाधिक बढ़ता रहा, जिससे वह कई सीमा संबंधी मुकदमों और कान्फ़रेंसों में प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया, जहां उसने योग्यतापूर्वक कार्य किया। प्रतापगढ़ राज्य में अफ़्रीम की खेती बंद करने से जो हानि होती है, उसने उसका स्पष्ट और सप्रमाण विवरण पेश किया, जो राज्य के लिए हितकर सिद्ध हुआ। वह इस समय सुपरिन्टेन्डेन्ट एग्रीकल्चर और वाग तथा खज़ाने का अफ़सर है।

भांचावत

भांचावत भी हूंबड़ जाति के वैश्य हैं। इस वंश के शाह भूरा ने बोरी-रीछड़ी के सीमा संबंधी मुकदमे में प्रतापगढ़ राज्य की पूरी सेवा की थी। फिर मन्नालाल भांचावत महारावत रघुनाथसिंह के समय वि० सं० १९५६ (ई० सं० १९०२) में प्रतापगढ़ राज्य का मंत्री बनाया गया। उसके मंत्रीत्वकाल में कैप्टेन ए० टी० होम ने प्रतापगढ़ राज्य में पैमाइश का कार्य कराया, जिसमें उसकी सेवा अच्छी रही। भांसावाड़ा राज्य के

भील इस राज्य में बड़ा उपद्रव करते थे, जिनका अंग्रेज़ सरकार दमन करना चाहती थी। ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६०) में प्रतापगढ़ राज्य से उन भीलों को दवाने के लिए सेना रवाना हुई, उस समय मन्नालाल की कार्यवाही उचित मानी गई और मेवाड़ के तत्कालीन रेज़िडेंट मेजर ए० एफ़० पिन्हे ने उसके कार्य की सहायता की। उसने प्रतापगढ़ राज्य और मेवाड़ तथा वांसवाड़ा राज्यों के बीच होनेवाले सीमा संबंधी झगड़ों में प्रत्येक बार पूरा परिश्रम किया, जिससे महारावत भी उस से संतुष्ट रहा। उसका पुत्र चांदमल भांचावत, बी० ए०, एल-एल० बी० म्युनि-सिपिल कमेटी का सेक्रेटरी है।

आपा का वंश

प्रतापगढ़ राज्य का मरहटों के साथ संबंध होने पर पत्र-व्यवहार महाराष्ट्र लिपि और भाषा में होता था। इसके लिए महारावत सालिमसिंह के राज्य-काल में महाराष्ट्र जाति का ब्राह्मण सखाराम नियत किया गया, जो होल्कर के दरबार में लिखा-पढ़ी का कार्य करता था। वि० सं० १८७५ (ई० स० १८१८) में जब अंग्रेज़ सरकार तथा प्रतापगढ़ राज्य के बीच संधि हुई, उस समय पंडित रामचंद्र भाऊ (सखाराम का वंशधर) महारावत सामंतसिंह की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। रामचंद्र की अच्छी सेवाओं से प्रसन्न होकर उक्त महारावत ने वि० सं० १८७६ आषाढ सुदि ३ (ई० स० १८१६ ता० २५ जून) शुक्रवार को उसे जागीर प्रदान की एवं उक्त महारावत के समय वहां की टकसाल का कार्य भी उसके सुपुर्दे किया गया। रामचंद्र का पुत्र नत्थोपंत आपा हुआ। महारावत दलपतसिंह ने, जब वह डूंगरपुर का युवराज था, उसको वहां पर भी जागीर दी और प्रतापगढ़ का स्वामी होने पर उस (दलपतसिंह) ने उसकी जागीर बढ़ाई। वह प्रतापगढ़ राज्य की तरफ से पोलिटिकल अफ़सरों के पास वकील का कार्य करता रहा। नत्थोपंत आपा का पुत्र जगन्नाथ, टकसाल का अफ़सर रहा। जगन्नाथ का पुत्र लालजी और लालजी के दो पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण हुए। लक्ष्मण का पुत्र अमृतराव इस समय विद्यमान है।

परिशिष्ट संख्या १

गुहिल से लगाकर प्रतापगढ़ के संस्थापक रावत जेमकर्ण तक
मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं की वंशावली

१ गुहिल

२ भोज

३ महेन्द्र

४ नाग (नागादित्य)

५ शील (शीलादित्य)—वि० सं० ७०३ ।

६ अपराजित—वि० सं० ७१८ ।

७ महेन्द्र (दूसरा)

८ कालभोज (बापा)—वि० सं० ७६१-८१० ।

९ खुम्माण—वि० सं० ८१० ।

१० मत्तट

११ भर्तृभट (भर्तृपट)

१२ सिंह

१३ खुम्माण (दूसरा)

१४ महायक

१५ खुम्माण (तीसरा)

१६ भर्तृभट (भर्तृभट, दूसरा)—वि० सं० ९६६-१००० ।

१७ अल्लट—वि० सं० १००८, १०१० ।

१८ नरवाहन—वि० सं० १०२८ ।

१९ शालिवाहन

२० शकिकुमार—वि० सं० १०३४ ।

२१ अंबाप्रसाद

२२ शुचिवर्मा

२३ नरवर्मा

२४ कीर्तिवर्मा

२५ योगराज

२६ वैरट

२७ हंसपाल

२८ वैरिसिंह


२९ विजयसिंह—वि० सं० ११६४, ११७३ ।

३० अरिसिंह

३१ चौड़सिंह

३२ विक्रमसिंह

३३ रणसिंह (कर्णसिंह) ।



दोमकर्ण (खीवा)
प्रतापगढ़वालों का पूर्वज

परिशिष्ट संख्या २

**महारावत क्षेमकर्ण से वर्तमान समय तक
प्रतापगढ़ के राजाओं की वंशावली**

नाम	ख्यातों में उल्लिखित राज्याभिषेक का संवत्		शिलालेखों आदि से ज्ञात संवत्	ग्रंथकर्ता के मतानुसार राज्याभिषेक का संवत्
	बड़वा की ख्यात से	अन्य ख्यातों आदि से		
महारावत क्षेमकर्ण
” सुरजमल	१५३०	१५३०	..	१५३०केआसपास
” बाघसिंह	१५८७	१५८४		१५८७
” रायसिंह	१५९२	१५९१	...	१५९२
” विक्रमसिंह (बीका)	१६०९	१६०९	...	१६०९
” तेजसिंह	१६२०	१६३३	१६२१, १६३५	१६२०
” भानुसिंह (भाना)	१६४८	१६५०	१६५१, १६५२	१६५०
” सिंहा	१६६०	१६६०	१६७९, १६८४	१६५४
” जसवन्तसिंह	१६८५	१६८५	...	१६८५
” हरिसिंह	१६९०	१६९०	१६९९-१७२४	१६८५
” प्रतापसिंह	१७३०	१७३०	१७३१-१७६४	१७३०
” पृथ्वीसिंह	१७६४	१७६४	१७६५-१७७५	१७६५
” संग्रामसिंह	१७७६	१७७५	१७७६	१७७५
” उम्मेदसिंह	१७७७	१७७६	१७७७	१७७६
” गोपालसिंह	१७७९	१७७९	१७७८-१८११	१७७८
” सालिमसिंह	१८१४	१८१४	१८१३-१८१९	१८१३
” सामन्तसिंह	१८३१	१८३१	१८३८-१८९२	१८३१
” दलपतसिंह	१९००	१९००	...	१९००
” उदयसिंह	१९२०	१९२०	...	१९२०
” रघुनाथसिंह	१९४६	१९४६	...	१९४६
” रामसिंहजी (विद्यमान)	१९८५

परिशिष्ट संख्या ३

प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास का कालक्रम

+++++

महारावत क्षेमकर्ण

वि० सं० ई० स०

- (१४६४)^१ (१४३७) क्षेमकर्ण का सादही पर अधिकार करना ।
(१५३०) (१४७३) क्षेमकर्ण की मृत्यु ।

महारावत सूरजमल

- (१५३०) (१४७३) सूरजमल की गद्दीनशीनी ।
१५६१ १५०४ सूरजमल के संबंध में चारणी की भविष्यवाणी ।
(१५६३) (१५०६) मालवा के सुलतान नासिरशाह के पास सहायतार्थ
जाना ।
(१५६४) (१५०७) सूरजमल और सारंगदेव का मालवा की सेना के
साथ जाकर महाराणा रायमल से युद्ध करना ।
(१५६५) (१५०८) सूरजमल का मेवाड़ छोड़ कांठल में आबाद होना ।
(१५८७) (१५३०) सूरजमल की मृत्यु ।

महारावत बाघसिंह

- (१५८७) (१५३०) बाघसिंह की गद्दीनशीनी ।
१५६२ १५३५ बहादुरशाह की चित्तोड़ की चढ़ाई के अवसर पर
बाघसिंह का मारा जाना ।

(१) ऊपर कोष्ठकों में दिये हुए संवत् आनुमानिक हैं, निश्चित नहीं ।

महारावत रायसिंह

- | | | |
|----------|----------|---|
| वि० सं० | ई० सं० | |
| १५६२ | १५३५ | रायसिंह की गद्दीनशीनी । |
| (१५६३) | (१५३६) | उदयसिंह को लेकर धाय पन्ना का देवलिया जाना । |
| (१६०६) | (१५५२) | रायसिंह का देहांत । |

महारावत विक्रमसिंह (बीका)

- | | | |
|----------|----------|--|
| (१६०६) | (१५५२) | विक्रमसिंह की गद्दीनशीनी । |
| (१६१०) | (१५५३) | विक्रमसिंह का मेवाड़ का परित्याग करना । |
| १६१३ | १५५७ | विक्रमसिंह का कुंवर तेजसिंह को महाराणा उदयसिंह के साथ हाजीरों की सहायतार्थ भेजना । |
| (१६१७) | (१५६०) | विक्रमसिंह का देवलिया को राजधानी बनाना । |
| (१६१६) | (१५६२) | विक्रमसिंह का बांसवाड़ा के स्वामी प्रतापसिंह की सहायतार्थ महारावल आसकर्ण (डूंगरपुर) से लड़ना । |
| (१६२०) | (१५६३) | विक्रमसिंह का देहांत । |

महारावत तेजसिंह

- | | | |
|------|----------|--|
| १६२० | (१५६३) | तेजसिंह की गद्दीनशीनी । |
| १६२१ | १५६४ | दमाखेड़ी गांव का दानपत्र । |
| १६३३ | १५७६ | हल्दीघाटी के युद्ध में महारावत का कांधल को महाराणा प्रतापसिंह (प्रथम) की सहायतार्थ भेजना । |
| १६५० | १५६३ | तेजसिंह का देहांत । |

महारावत भानुसिंह (भाना)

वि० सं०	ई० स०
१६५०	१५६३ भानुसिंह की गद्दीनशीनी ।
१६५१	१५६४ सेमली गांव का ताम्रपत्र ।
१६५२	१५६५ अमलावद गांव का ताम्रपत्र ।
१६५४	१५६७ भानुसिंह का चीताखेड़े के पास शक्तावत जोधसिंह से लड़कर मारा जाना ।

महारावत सिंहा

१६५४	१५६७ सिंहा की गद्दीनशीनी ।
१६७२	१६१५ जहांगीर का महाराणा अमरसिंह (प्रथम) के कुंवर कर्णसिंह को बसाड़ और अरणोद का फ़रमान देना ।
(१६८३)	(१६२६) महावतखां का देवलिया में जाकर रहना ।
१६८४	१६२७ गयासपुर की बावड़ी की प्रशस्ति ।
(१६८५)	(१६२८) सिंहा का देहांत ।

महारावत जसवन्तसिंह

(१६८५)	(१६२८) जसवन्तसिंह की गद्दीनशीनी ।
१६८५	१६२८ महाराणा से छेड़-छाड़ न करने के लिए शाहजहाँ का जानिसारखां के नाम फ़रमान भेजना ।
(१६८५)	(१६२८) महारावत का कुंवर महासिंह-सहित महाराणा जगतसिंह (प्रथम) की सेना से लड़कर मारा जाना ।

महारावत हरिसिंह

- | वि० सं० | ई० सं० | |
|----------|----------|--|
| (१६८५) | (१६२८) | हरिसिंह की गद्दीनशीनी । |
| (१६८५) | (१६२८) | जोधसिंह (धर्मोत्तर) का हरिसिंह को दिल्ली ले जाना । |
| (१६८५) | (१६२८) | महाराणा जगतसिंह (प्रथम) का सेना भेज देवलिया बरवाद कर वहां अधिकार करना । |
| (१६६०) | (१६३३) | बादशाह का फौज भेज देवलिया पर महारावत का अधिकार कराना । |
| (१६६०) | (१६३३) | महाराणा का धरियावद का परगना खालसा करना । |
| १६६६ | १६४२ | मचलाणा गांव का ताम्रपत्र । |
| १७०१ | १६४४ | महारावत का टिकरा गांव दान करना । |
| १७०५ | १६४८ | देवलिया के गोवर्द्धननाथ के मंदिर की प्रशस्ति और कीटखेड़ी गांव का ताम्रपत्र । |
| १७०५ | १६४८ | महारावत की माता का गोवर्द्धननाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय तुलादान करना । |
| १७०५ | १६४८ | शाहजहां का महारावत को खिलअत आदि देना । |
| १७०६ | १६५२ | शाहजहां का महारावत को बुलाना । |
| १७०६ | १६५३ | महारावत को कोटड़ी का परगना मिलना । |
| १७१० | १६५४ | हरिसिंह की शाहज़ादे मुराद के साथ नियुक्ति । |
| १७११ | १६५४ | शाहज़ादे मुरादवरूश के पास उपस्थित होना । |
| १७११ | १६५४ | शाहज़ादे मुराद का महारावत को उज्जैन से हटाकर अहमदाबाद में नियत करना । |
| १७१४ | १६५७ | शाहज़ादे दाराशिकोह का निशान भेजना । |
| १७१४ | १६५७ | शाहज़ादे मुरादवरूश का निशान भेजना । |
| १७१५ | १६५८ | शाहज़ादे दाराशिकोह का मुरादवरूश को बंदी करने के लिए निशान भेजना । |

वि० सं०	ई० सं०	
१७१५	१६५८	मुरादबख्श का महारावत को परगना सुखेरी देने का निशान और खिलअत भेजना ।
१७१५	१६५८	बादशाह औरंगज़ेब का महाराणा राजसिंह (प्रथम) के नाम बसाड़, गयासपुर आदि का फ़रमान करना ।
१७१५	१६५९	दाराशिकोह का हरिसिंह को अपने पास उपस्थित होने के लिए निशान भेजना ।
१७१६	१६५९	महाराणा राजसिंह (प्रथम) का देवलिया पर सेना भेजना ।
१७१६	१६५९	महारावत का बादशाह औरंगज़ेब के पास जाना ।
१७१६	१६५९	महारावत की माता का अपने पौत्र प्रतापसिंह को महाराणा के पास भेजना ।
१७१६	१६५९	बसाड़ के दौरे के समय हरिसिंह का महाराणा राजसिंह (प्रथम) की सेवा में उपस्थित होना ।
(१७१८)	(१६६१)	महारावत का बादशाह के पास जाकर गयासपुर तथा बसाड़ के परगने पुनः प्राप्त करना ।
१७१९	१६६२	कुंवर प्रतापसिंह तथा अमरसिंह को शाही सेवा में भिजवाने के संबंध में अर्ज़ी भेजना ।
१७२१	१६६४	बादशाह का महारावत को मालवे में रहने की आज्ञा देना ।
१७३०	१६७३	महारावत का देहांत ।

महारावत प्रतापसिंह

१७३०	१६७३	महारावत की गद्दीनशीनी ।
१७३१	१६७४	बादशाह औरंगज़ेब का महारावत को मनसब देना ।

- | वि० सं० | ई० सं० | |
|----------|----------|--|
| १७३१ | १६७५ | भोगीदास की बाघड़ी का शिलालेख । |
| (१७३२) | (१६७५) | महाराणा और महारावत की तक्रार की जांच के लिए शेख इनायतुल्ला का भेजा जाना । |
| १७३३ | १६७७ | पाटण्ये गांव का संस्कृत दानपत्र । |
| १७३६ | १६७६ | बादशाह का मेवाड़ की चढ़ाई के समय महारावत को मंदसौर में हाज़िर होने के लिए फ़रमान भेजना । |
| १७३७ | १६८० | शाहज़ादे मुअज़्ज़म का महारावत को देवारी के मुक़ाम पर बुलवाना । |
| १७३८ | १६८१ | शाहज़ादे आज़म का महारावत को अपने पास उपस्थित होने के लिए लिखना । |
| १७५३ | १६९६ | महाराजा अजीतसिंह का प्रतापगढ़ में विवाह होना । |
| १७५५ | १६९६ | महारावत का प्रतापगढ़ का क़स्बा बसाना । |
| (१७५६) | (१६९६) | महाराणा अमरसिंह (द्वितीय) का महारावत से छेड़छाड़ करना । |
| १७६४ | १७०८ | बादशाह बहादुरशाह का महारावत को बुलाना । |
| १७६५ | १७०८ | महाराजा अजीतसिंह और सवाई जयसिंह का उदयपुर जाते समय देवलिया में ठहरना । |
| (१७६५) | (१७०८) | महारावत का देहान्त । |

महारावत पृथ्वीसिंह

- | | | |
|----------|----------|--|
| (१७६५) | (१७०८) | महारावत की गद्दीनशीनी । |
| १७६६ | १७०६ | महाराजा अजीतसिंह का महारावत की पुत्री से विवाह होना । |
| १७६६ | १७०६ | बादशाह बहादुरशाह के पास से बसाड़ परगने का फ़रमान आना । |

- | वि० सं० | ई० सं० | |
|----------|----------|--|
| १७६८ | १७११ | महारावत के मनसब में वृद्धि होना । |
| १७६६ | १७१२ | वज़ीर आसफुद्दौला का बसाड़ के परगने की आय महारावत को देने के लिए आज्ञापत्र भेजना । |
| १७७१ | १७१४ | बादशाह होने पर फ़र्रुख़सियर का महारावत के नाम फ़रमान भेजना । |
| (१७७१) | (१७१४) | महारावत को 'रावत राव' का खिताब मिलना । |
| १७७१ | १७१४ | महारावत का शाही इलाके में उत्पात करना । |
| १७७३ | १७१६ | महारावत का कुंवर पहाड़सिंह को उदयपुर के महाराणा संग्रामसिंह (द्वितीय) की सेवा में भेजना । |
| १७७३ | १७१६ | सवाई जयसिंह और राव बुधसिंह (बूंदी) का महारावत के विरुद्ध शिकायत करना । |
| १७७३ | १७१६ | महारावत पर लगाये गये अभियोगों की जांच के लिए बादशाह का कुतुबुलमुल्क को आज्ञा देना । |
| १७७४ | १७१७ | महाराणा संग्रामसिंह के मंत्री विहारीदास का रामपुरा से लौटते समय देवलिया में ठहरना । |
| १७७४ | १७१८ | महारावत का वर्ष भर में ४४ दिन तेल निकालने का निषेध करना । |
| १७७४ | १७१८ | देवलिया के बड़े जैन मंदिर की प्रशस्ति । |
| १७७४ | १७१८ | महारावत का पर्यूपणों, अष्टमी, चतुर्दशी और रविवार को शराब की भट्टी बंद रखने की आज्ञा देना । |
| (१७७५) | (१७१८) | कुंवर पहाड़सिंह की मृत्यु । |
| (१७७५) | (१७१८) | महारावत का देहांत |

महारावत संग्रामसिंह (रामसिंह)

- | वि० सं० | ई० सं० | |
|----------|----------|-------------------------|
| (१७७५) | (१७१८) | महारावत की गद्दीनशीनी । |
| (१७७६) | (१७१९) | महारावत का देहांत । |

महारावत उम्मेदसिंह

- | | | |
|----------|----------|-------------------------|
| (१७७६) | (१७१९) | महारावत की गद्दीनशीनी । |
| (१७७८) | (१७२१) | महारावत का देहांत । |

महारावत गोपालसिंह

- | | | |
|----------|----------|---|
| (१७७८) | (१७२१) | महारावत की गद्दीनशीनी । |
| १७७८ | १७२१ | महारावत का उदयपुर जाना । |
| (१७७९) | (१७२२) | महारावत को धरियावद का परगना मिलना । |
| १७८७ | १७३० | महारावत का झुंगरपुर से महाराणा और पेशवा की सेना का घेरा उठवाना । |
| १७९१ | १७३४ | परामर्श के लिए मरहटों की सेना के देवलिया के समीप एकत्रित न होने के लिए महाराणा जगतसिंह (दूसरा) का बिहारीदास के नाम पत्र भेजना । |
| १७९२ | १७३६ | पेशवा बाजीराव के राजपूताने में आने पर महारावत का उसके साथ रहना । |
| १७९७ | १७३० | सवाई जयसिंह के जोधपुर घेरने पर महारावत का महाराणा के शामिल होना । |
| १८१३ | १७५६ | महारावत का देहांत । |

महारावत सालिमसिंह

वि० सं०	ई० स०	
१८१३	१७५६	महारावत की गद्दीनशीनी ।
(१८१४)	(१७५७)	महारावत का दिल्ली जाकर बादशाह से राज्यचिन्ह, निशान एवं नक़ारा रखने के सम्मान के साथ सालिमशाही सिक्का बनाने की आज्ञा प्राप्त करना ।
१८१८	१७६१	तुकोजी होल्कर का प्रतापगढ़ पर घेरा डालना ।
१८२०	१७६३	मल्हारराव होल्कर का प्रतापगढ़ से धन वसूल करना ।
१८२५	१७६८	महारावत का महाराणा अरिसिंह की सहायतार्थ जाना ।
१८३१	१७७४	महारावत का देहांत ।

महारावत सामन्तसिंह

१८३१	१७७४	महारावत की गद्दीनशीनी ।
१८५०	१७९४	महाराणा भीमसिंह के बांसवाड़ा की तरफ बढ़ने का समाचार पाकर महारावत का मोतमिद भेज धरियावद का निरदावा करना ।
१८६१	१८०४	अंग्रेज़ सरकार के साथ संधि होना ।
१८६५	१८०८	महारावत के पौत्र केसरीसिंह और दलपतसिंह का जन्म ।
१८७५	१८१८	अंग्रेज़ सरकार के साथ पुनः संधि होना ।
१८७७	१८२०	महारावत के पौत्र दलपतसिंह को डूंगरपुर के महारावत जसवन्तसिंह (दूसरा) का गोद लेने के लिए यहां ले जाना ।
१८८०	१८२३	कुंवर दीपसिंह का बंदी होना ।

वि० सं०	ई० सं०	
१८८०	१८२३	महारावत का अंग्रेज़ सरकार से सेना रखने के एवज़ में नक़द रक़म देने का इत्तार करना ।
(१८८०)	(१८२३)	भंवर केसरीसिंह को राजकार्य सौंपना ।
१८८३	१८२६	कुंवर दीपसिंह की मृत्यु ।
१८८६	१८३३	महारावत की पौत्री प्रतापकुंवरी का विवाह ।
१८९१	१८३४	केसरीसिंह की मृत्यु ।
(१८९१)	(१८३४)	महारावत का दलपतसिंह को राजकार्य सौंपना ।
१९००	१८४४	महारावत का देहांत ।

महारावत दलपतसिंह

१९००	१८४४	महारावत की गद्दीनशीनी ।
(१९००)	(१८४४)	अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से महारावत को गद्दी-नशीनी की ख़िलअत मिलना ।
१९०३	१८४६	डूंगरपुर की गद्दी पर साबली के ठाकुर जसवंतसिंह के पुत्र उदयसिंह को नियत करना ।
१९०५	१९४६	कुंवर उदयसिंह का जन्म ।
१९०६	१८५२	महारावत का डूंगरपुर का शासनाधिकार छोड़ना ।
१९१४	१८५७	सिपाही-विद्रोह के समय महारावत का नीमच में सेना भेजना और क़ासिमख़ां विलायती आदि विद्रोहियों का महारावत की सेना-द्वारा मारा जाना ।
१९१८	१८६२	महारावत को गोदनशीनी की सनद मिलना ।
१९२०	१८६४	महारावत का परलोकवास ।

महारावत उदयसिंह

वि० सं०	ई० स०	
१६२०	१८६४	महारावत की गद्दीनशीनी ।
१६२२	१८६५	महारावत के कुंवर हंमीरसिंह का जन्म ।
१६२२	१८६५	अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलअत मिलना ।
१६२२	१८६५	प्रतापगढ़ राज्य की सीमा में होकर रेल्वे लाइन लाने के विषय में अंग्रेज़ सरकार से बातचीत होना ।
१६२३	१८६६	महारावत का आगरे जाकर लॉर्ड लॉरेंस से मुलाक़ात करना ।
१६२४	१८६७	महारावत का प्रतापगढ़ को राजधानी बनाना ।
१६२४	१८६७	अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से पद्रह तोपों की सलामी नियत होना ।
१६२५	१८६८	अकाल के समय लोगों की सहायता करना ।
१६२५	१८६८	अपराधियों के लेन-देन के संबंध में अंग्रेज़ सरकार के साथ इकरारनामा होना ।
१६३२	१८७५	महारावत का लॉर्ड नॉर्थब्रुक की मुलाक़ात के लिए नीमच जाना ।
१६३३	१८७७	दिल्ली दरवार के समय महारावत को झंडा मिलना ।
१६३७	१८८१	प्रतापगढ़ में प्रथम बार मनुष्य-गणना होना ।
१६३६	१८८३	महारावत का नीमच जाकर इंदौर के तत्कालीन महाराजा तुकोजीराव होल्कर से मुलाक़ात करना ।
१६४३	१८८७	महारावत के कुंवर अर्जुनसिंह का जन्म ।
१६४४	१८८७	महाराणी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर महारावत का प्रतापगढ़ में पुल बनवाना ।
१६४४	१८८७	महारावत का नीमच जाकर शाहज़ादे ड्यूक ऑफ़ कर्नाट से मुलाक़ात करना ।

बि० सं०	ई० सं०	
१६४६	१८६०	महाराष्ट्र का देहांत ।

महाराष्ट्र रघुनाथसिंह

१६४६	१८६०	महाराष्ट्र की गद्दीनशीनी ।
१६४७	१८६०	महाराष्ट्र के ज्येष्ठ कुंवर प्रतापसिंह का देहांत ।
१६४७	१८६१	अंग्रेज़ सरकार की तरफ़ से गद्दीनशीनी की खिलौना और खरीता लेकर कर्नल ट्रेवर का प्रतापगढ़ जाना ।
१६५१	१८६४	प्रतापगढ़ से मंदसौर जानेवाले मार्ग में महाराष्ट्र का पक्की सड़क बनवाना ।
१६५२	१८६४	महाराष्ट्र का प्रथम वर्ग के सरदारों को मुक्तदमै सुनने का अधिकार देना ।
१६५२	१८६५	महाराष्ट्र का प्रतापगढ़ में अस्पताल बनवाना ।
१६५४	१८६७	महाराष्ट्र की ज्येष्ठ राजकुमारी वल्लभकुंवरी का विवाह बीकानेर के वर्तमान महाराजा सर गंगासिंहजी से होना ।
१६५६	१८६६	प्रतापगढ़ राज्य में भयङ्कर अकाल होना ।
१६५७	१८७०	महाराष्ट्र के छोटे महाराजकुमार गोवर्द्धनसिंह का जन्म ।
१६५८	१८७१	महाराजकुमार गोवर्द्धनसिंह को अरणोद मिलना और उसकी उपाधि "महाराज" होना ।
१६५६	१८७३	महाराजकुमार मानसिंह का सीकर में विवाह होना ।
१६६०	१८७४	सालिमशाही सिक्के के स्थान में कल्दार का चलन होना ।
१६६१	१८७४	अंग्रेज़ सरकार के खिराज के कल्दार रुपये नियत करना ।

वि० सं०	ई० स०	
१६६२	१६०५	महारावत का महाराजकुमार को राज्याधिकार सौंपना ।
१६६५	१६०८	महारावत के भंवर रामसिंह का जन्म ।
१६६५	१६०८	महाराजकुमार का काश्मीर जाना ।
१६६६	१६०९	महारावत की दूसरी राजकुमारी का विवाह सैलाना के राजकुमार दिलीपसिंह से होना ।
१६६७	१६१०	महाराजकुमार का टेहरी में दूसरा विवाह होना ।
१६६८	१६११	महाराजकुमार मानसिंह की राजकुमारी मोहनकुंभरी का जन्म ।
१६६८	१६११	दिल्ली दरबार में महाराजकुमार का जाना और महारावत को के० सी० आई० ई० का खिताब मिलना ।
१६६९	१६१२	महारावत का अजमेर जाकर लॉर्ड हार्डिंज से मुलाक़ात करना ।
१६६९	१६१२	महाराजा का भ्रांगधरा में तृतीय विवाह होना ।
१६७१	१६१४	महारावत के शासन की सौंध्य जयन्ती होना ।
१६७५	१६१८	महाराजकुमार मानसिंह का परलोकवास ।
१६७८	१६२१	महारावत का पारसी धनजी शाह को दीवान बनाना ।
१६८१	१६२४	महारावत के भंवर रामसिंह का सीकर में विवाह होना
१६८१	१६२४	वीकानेर और ग्वालियर के महाराजाओं का प्रताप-गढ़ जाना ।
१६८१	१६२५	महारावत की प्रपौत्री देवेन्द्रकुंभरी का जन्म ।
१६८५	१६२९	महारावत का परलोकवास ।

महारावत सर रामसिंहजी

वि० सं०	ई० सं०	
१६८५	१६२६	महारावतजी की गद्दीनशीनी
१६८६	१६२६	राजपूताने के एजेंट गर्वनर जेनरल का प्रतापगढ़ जाकर गद्दीनशीनी का खरीता और खिलअत देना ।
१६८६	१६२६	महारावत का एफू० सी० केवेन्टरी को दीवान नियत करना ।
१६८६	१६२६	महारावत की बहिन का सीतामऊ के ज्येष्ठ महाराज-कुमार के साथ विवाह होना ।
१६८६	१६३२	महारावत का डुमरांव में दूसरा विवाह होना ।
१६६०	१६३३	महाराजकुंवरी इंद्रकुंवरी का जन्म ।
१६६१	१६३४	महारावत का धांगधरा में तीसरा विवाह होना ।
१६६१	१६३४	जैन दिगम्बर समाज-द्वारा महारावत का अभिनंदन होना ।
१६६४	१६३७	अंग्रेज़ सरकार का खिराज में कमी करना ।
१६६४	१६३७	महाराजकुमारी उर्मिलाकुंवरी का जन्म ।
१६६४	१६३८	महारावत को के० सी० एस्० आई० का खिताब मिलना ।
१६६४	१६३८	महाराजकुमारी यशवंतकुंवरी का जन्म ।
१६६६	१६३६	महाराजकुमारी कुसुमकुंवरी और कुमुदकुंवरी का जन्म ।
१६६६	१६४०	महाराजकुमार का जन्म

परिशिष्ट संख्या ४

प्रतापगढ़ राज्य के इतिहास के प्रणयन में जिन-जिन पुस्तकों से
सहायता ली गई उनकी सूची ।

संस्कृत और प्राकृत

संस्कृत—

- श्रमरकाव्य ।
- कुंडप्रदीप (सोमजी भट्ट) ।
- गोपालार्चनचन्द्रिका ।
- नाममाहात्म्य (रामकृष्ण) ।
- प्रतापप्रशस्ति (कवि कल्याण) ।
- प्राचीन लेखमाला (पं० दुर्गाप्रसाद) ।
- बालभारत (कवि राजशेखर) ।
- मयूरेशमन्दार (कृष्णदास वैष्णव) ।
- महाभारत (वेद व्यास) ।
- राजप्रशस्ति महाकाव्य (रणछोड भट्ट) ।
- विष्णुसहस्रनाम की टीका (कवि जयदेव) ।
- शास्त्रदीपिका ।
- सत्यरूपक (वृन्द कवि) ।
- संगीतरत्नावली ।
- हरिभूषण महाकाव्य (कवि गंगाराम) ।
- हरिविजयनाटक (कवि जयदेव) ।
- हरिसारस्वत (महारावत हरिसिंह) ।
- हृदयप्रकाश (हृदयेश) ।
- हेमाद्रिप्रयोग (हेमाद्रि) ।

प्राकृत—

प्रभावकचरित (चन्द्रप्रभसूरि) ।

विद्धशालभंजिका (कवि राजशेखर) ।

डिंगल, हिन्दी, गुजराती, उर्दू, फ़ारसी आदि भाषाओं के ग्रंथ

डिंगल—

भीमविलास (कवि कृष्ण अह्वाटा) ।

रायमल रासा ।

वशभास्कर (मिश्रण सूर्यमल्ल) ।

हिन्दी—

उदयपुर राज्य का इतिहास (गौरीशंकर हीराचंद ओझा) ।

उदयपुर राज्य के बड़वा की ख्यात (बड़वा देवीदान के यहां से प्राप्त) ।

ऐतिहासिक बातों का संग्रह (कविराजा वांकीदास) ।

काव्यकुसुम (पं० जगन्नाथ शास्त्री) ।

चतुरकुलचरित्र (ठाकुर चतुरसिंह) ।

जहाँगीरनामा (मुंशी देवीप्रसाद) ।

जोधपुर राज्य की ख्यात ।

जोधपुर के राजाओं, राणियों और कुंवरों की नामावली

(मुंशी देवीप्रसाद) ।

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, काशी नागरी

प्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित ।

प्रतापगढ़ राज्य की ख्यात ।

प्रतापगढ़ राज्य की एक पुरानी ख्यात ।

प्रतापगढ़ राज्य के बड़वे की ख्यात ।

महाराणा उदयसिंहजी का जीवन-चरित्र (मुंशी देवीप्रसाद) ।

महाराणा रत्नसिंह और विक्रमादित्य के जीवन-चरित्र

(मुंशी देवीप्रसाद) ।

मुंहणोत नैणसी की ख्यात ।

राजपूताने का इतिहास (गौरीशंकर हीराचद श्रोभा)

रावत प्रतापसिंह ने मोहोकमसिंह हरिसिंघोत देवगढ़ रा धणी री
वार्ता (महाराज बहादुरसिंह) ।

वीरविनोद (महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदास) ।

शाहजहांनामा (मुशी देवीप्रसाद) ।

हरिपिंगल (जोग कवि) ।

गुजराती—

पुरातत्व (त्रैमासिक) ।

मिरात-इ-सिकन्दरी—गुजराती अनुवाद (आत्माराम मोतीराम
दीवानजी) ।

हिन्द राजस्थान (अमृतलाल गोवर्द्धनदास शाह तथा काशीराम
उत्तमराम पंड्या) ।

फ़ारसी—

अख़बारत-इ-दरबार-इ-मुअल्ला ।

औरंगज़ेबनामा ।

तारीख़े फ़िरिश्ता (मुहम्मद क़ासिम फ़िरिश्ता) ।

बादशाहनामा (अब्दुलहमीद लाहौरी)

मिरात-इ-सिकन्दरी (सिकन्दर) ।

घक्राये राजपूताना (मुंशी ज्वालासहाय) ।

अंग्रेजी ग्रन्थ

- Aitchison, C U.—Treaties, Engagements and Sanads.
 Annual Reports of the Rajputana Museum, Ajmer.
 Archaeological Survey of India, Annual Reports.
 Baniprasad, Dr.—History of Jahangir.
 Bhavnagar Inscriptions.
 Briggs, John—History of the Rise of the Mohammadan Power in
 India (Translation of Tarikh-i-Ferishta of Mahomed
 Kasim Ferishta)
 Duff, C Mabel—Chronology of India
 Epigraphia Indica.
 Erskine, K. D.—Gazetteer of the Partabgarh State.
 Heber, Bishop—Narrative of a journey through the Upper Provinces
 of India.
 Malcom, Sir John—Report on the Province of Malwa and Adjoining
 Districts
 Malleon, G B —Historical Sketches of the Native States of India.
 Memorandum on the Indian States—1938
 Selections from the Peshwas' Daftar
 Showers, C L —A Missing Chapter in the Indian Mutiny.
 Souvenir History of the Sailana State.
 Tod, Col. James—Annals and Antiquities of Rajasthan.
 Vedivelu, A —The Ruling Chiefs, Nobles and Zamindars of India.
 Yate, Captain C E.—Gazetteer of Partabgarh.
-

अनुक्रमणिका

(क) वैयक्तिक

अ

- अकबर (मुगल बादशाह)—४२, ६२,
१०४-६, ११६-७, ११६-२०, १२८,
१४२, १४५, १५६, २२८, ३६१ ।
अकबर (शाहजादा)—१७६-८१, २१६ ।
अक्षयराज (महारावत सैसमल का पुत्र)
—६६ ।
अक्षयराज (मंत्री)—१२६ ।
अक्षयराज (कल्याणपुरा का ठाकुर)—
३६५ ।
अक्षयसिंह (मंडावरा का स्वामी)—३७४-
७५ ।
अक्षयसिंह (पूरावत)—३६७ ।
अखैराज (पाली का सोनगरा)—८८ ।
अखैराज (आंबीरामा का ठाकुर)—३६६ ।
अगरचंद मेहता (मेवाड़ का मंत्री)—
२५०-५१ ।
अचलदास (शक्तावत)—१२८ ।
अजयपाल (गुजरात का सोलंकी राजा)
—३८, ४५ ।
अजयकुंवरी (महारावत हरिसिंह की राणी)
—१६५ ।
अजयकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की
पुत्री)—२७५ ।
अजयसिंह (घांसवाड़े का महारावत)—
१८५-८६ ।

- अजयसिंह (जाजली का ठाकुर)—
३७३ ।
अजयसिंह (घरडिया का ठाकुर)—
३७१ ।
अजयसिंह (बड़ी साखथली का ठाकुर)
—३७२ ।
अजा (झाला)—४६, ७५ ।
अजा (सारंगदेवोत शाखा का मूल पुरुष)
—५३, ८० ।
अजीतसिंह (जोधपुर का महाराजा)—
६३, १७८, १८६-६०, १६७-६८,
२०१, २०८, २१७-१८, २२२-२३ ।
अजीतसिंह (रायपुर का स्वामी)—
३०६ ।
अजीतसिंह (शेखावत, खेतदी का राजा)
—३२६, ३३३-३४ ।
अजीतसिंह (धांगधरा का महाराज राणा)
—३३७ ।
अजीतसिंह (झाला का ठाकुर)—३६८ ।
अज़ीम हुमायूँ (खानजहां खिल्जी, होशंग-
शाह का वज़ीर)—४८ ।
अज़ीमुल्ला (मालवे का सूबेदार)—२३६ ।
अज़ीमुश्शान (बहादुरशाह का शाहजादा)
—१८५-८६, १६५, २०० ।
अनूपकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की राज-
कुमारी)—१६७, २०७ ।

- अनूपकुंवरी (महारावत हरिसिंह की राणी)
—१६५।
- अनूपसिंह (बीकानेर का महाराजा)—
१६५।
- अपराजित (गुहिलवंशी राजा)—४४।
- अब्दुलकरीम (स्वाजा)—२३२।
- अब्दुलक़ादिर (कालपी का शासक)—
५०।
- अब्दुलसमदख़ां (ख़ानदौरां, शाही अफ़सर)
—२३२-३३।
- अभयसिंह (जोधपुर का महाराजा)—
६३, २२३, २३३, २४०-४१।
- अभयसिंह (सूरमा)—२८२-८३, २८६।
- अमरदास चंडक (महाजन)—२४६।
- अमरदास (देपुरा)—२४६।
- अमरसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराणा)
—११०, ११४, ११६-२०, १२७,
१४४।
- अमरसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)
—१८४, १८७-८६, २२८।
- अमरसिंह (कलवाहा)—१८६।
- अमरसिंह (महारावत हरिसिंह का पुत्र)
—१६०-६१, १६४-६५, १६६,
३६६-७०।
- अमानतख़ां (मालवे का सूबेदार)—
२०२।
- अमानसिंह (भूतला का ठाकुर)—
३६८।
- अमृतकुंवरी (महारावत उम्मेदसिंह की
पुत्री)—२१७-१८।
- अमृतराव (दक्षिणी, मोतमिद)—३०७।

- अरिसिंह (गुहिल राजा)—४५।
- अरिसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)
—१५६, २०६, २२५, २४७-५०,
२५२-५३, २५६-५७।
- अर्जुन (हाड़ा, बूंदी का सरदार)—८१।
- अर्जुनसिंह (झायण का ठाकुर)—३७६।
- अर्जुनसिंह (महारावत उदयसिंह का पुत्र)
—३११।
- अर्जुनसिंह (अरणोद का महाराज)—
३६०।
- अलाउद्दीन (मांडू का सुलतान)—
११५।
- अलाउद्दीन ख़िलजी (दिल्ली का सुलतान)
—३८, ४०, ४६, १।
- अल्लट (गुहिलवंशी राजा)—४५।
- अर्सकिन (मेजर के० डी०, ग्रंथकार)—
११८, २७२।
- अहमदशाह (गुजरात का सुलतान)—
४७।
- अहमदशाह अब्दाली (दुरांनी)—२३२।

आ

- आज़म (औरंगज़ेब का शाहज़ादा)—
१७६-१८२, १८६, २२०।
- आज़मख़ां (शम्सुद्दौला, शाही सेना का
अफ़सर)—२३६।
- आदित्यगिरि (गुसाईं)—३४८।
- आनन्दकुंवरी (महारावत हरिसिंह की
राणी)—१६३।
- आनन्दराव (पंवार, मरहटा सेनापति)—
२२२, २३०।

आनन्दसिंह (महारावत हरिसिंह का पुत्र)
—१६५ ।

आपा (पंडित)—२१७ ।

आशाशाह (दुर्गाध्यक्ष)—८७-८ ।

आसकरण (महारावत हरिसिंह का पुत्र)
—८६ ।

आसकरण (झुंगरपुर का महारावल)—
८८, ९३, ९८-९, १००-१, १०३ ।

आसकुंवरी (धमोतर के ठाकुर जसकरण
की राठोड़ पत्नी)—३६३ ।

आसफुद्दौला (शाही वज़ीर)—१६६ ।

इ

इचवाकु (सूर्यवंशी राजा)—३२ ।

इनायतुल्ला (शेख, शाही अफसर)—
१७७-७८ ।

इन्द्रकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की
राजकुमारी)—३५५ ।

इन्द्रराज (चौहान)—२१, ३४ ।

इन्द्रसिंह (महारावत प्रतापसिंह का पुत्र)
—१८६ ।

इब्राहीम (लोदी, दिल्ली का सुलतान)—
७४ ।

इर्विन (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जनरल)
३५१ ।

इसलामख़ां (रामपुरे का रत्नसिंह)—
२०२, २२८ ।

ई

ईडन (कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल
एजेंट)—२६७-६८ ।

ईश्वरीसिंह (जयपुर का महाराजा)—
२२८ ।

ईसरदान (बारहठ)—३१५ ।

ईसरदास (पंचोली)—२४३ ।

उ

उगमकुंवरी (महारावत रघुनाथसिंह की
राणी)—३३२, ३४४ ।

उग्रसेन (राठोड़ राव चन्द्रसेन का पुत्र)
—१३१ ।

उदयकर्ण (चौहान)—१५६-६० ।

उदयकर्ण (महारावत रायसिंह का पुत्र)
८६ ।

उदयकुंवरी (जोधपुर के महाराजा तख्त-
सिंह की राणी)—३६४ ।

उदयदास (रघुनाथद्वारे का महंत)—
२७६ ।

उदयभाण्य (हुंबड़, मंत्री)—१६६, ३८३ ।

उदयभाण्य (राठोड़, भियाय का राजा)—
२६३ ।

उदयसिंह (ऊदा, पहला, मेवाड़ का महा-
राणा)—५१-२, ५४-७, ७२ ।

उदयसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)
—३६, ८०, ८६-९३, ९७, १०४,
१०९-१०, १२८, १४४, २२८ ।

उदयसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
१६-२०, २८५, २९६-९७, २६६,
३०२, ३०८, ३१०, ३१२-१३,
३१६-१६, ३२५, ३३१, ३६०,
३६६, ३७७-७६, ३८१ ।

उदयसिंह (पहला, हुंगरपुर का महारावत)
—४६, ७५, ९८।

उदयसिंह (दूसरा, हुंगरपुर का महा-
रावत) —२८५।

उदयसिंह (हुंगरपुर के महारावत सैसमल
का पुत्र) —६६।

उदयसिंह (महारावत जसवंतसिंह का
पुत्र) —१३८।

उदयसिंह (सोलंकी) —२८२-८३, २८६।

उदयसिंह (सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत-
सिंह का पुत्र) —३६६।

उदयसिंह (पयणावा का ठाकुर) —
३७६।

उदयादित्य (परमार राजा) —३७।

उदोतसिंह (जोधपुर के महाराजा अजीत-
सिंह का पुत्र) —१६०।

उम्मेदकुंवरी (महारावत सूरजमल की
पुत्री) —७२।

उम्मेदसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत) —
२०६-७, २१४-१८।

उम्मेदसिंह (पहला, शाहपुरा का राजा)
२४६-५०।

उम्मेदसिंहजी (दूसरा, शाहपुरा के वर्तमान
राजाधिराज) —३३३।

उम्मेदसिंह (ईडर का राजा) —२७५।

उम्मेदसिंह (भांतला का ठाकुर) —
३६९।

उर्मिलालकुवरी (महारावत रामसिंहजी
की राजकुमारी) —३५५।

ऊ

ऊदल (राठोड़, जैतमाजोत) —६०।

ऊदाजी (पंवार, धार राज्य का संस्थापक)
—३६, २२२।

ए

एजनकुवरी (महारावत गोपालसिंह की
पुत्री) —२४१।

एडम (जे०, गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी.)
—२६८।

एडवर्ड (सप्तम, भारत-सम्राट्) —३३६।

ओ

ओंकारलाल (ध्यास, औदीच्य ब्राह्मण, काम-
दार) —३०२, ३०७, ३०६।

औ

औरंगजेब (मुगल बादशाह) —१३१,
१४३, १४५, १५०-५४, १५८,
१६१, १७७, १८१-८२, १८५-८६,
१६०, १६४-६५, २०२, २१६-२०,
२२८, २३२, २३६, २३८।

अ

अंतरदे (महारावत सूरजमल की राणी)
—७३।

अंबाप्रसाद (गुहिलवंशी राजा) —४५।

अंबालाल शर्मा (डॉक्टर, दाधीच ब्राह्मण)
—१७०, ३४८।

क

ककुरस्थ (रघुवंशी प्रतिहार राजा) —३२।

कपूरचंद (शाह, पाडलिया, प्रधान
मंत्री)—२४४, २५५, २५७,
३८४ ।

कपूरचंद (शाह, खासगीवाला)—३१६ ।

कमरुद्दीन (वज़ीर)—२३२, २३८ ।

कमलकुंवरी (महारावत भानुसिंह की
पुत्री)—११७ ।

कर्णसिंह (उदयपुर का महाराणा)—
१२१, १२७-२८, १३२, १४४ ।

कर्णसिंह (बीकानेर का महाराजा)—
१८६, २०७ ।

कर्मचन्द्र (पंवार)—८५ ।

कर्मवती (महाराणा सांगा की हाकी राणी)
—७८-६, ८१-२, ८४ ।

कर्मसेन (राठोड़ राव चन्द्रसेन का पौत्र)
—१३१ ।

कल्याण (पंडित, प्रताप-प्रशस्ति का रच-
यिता)—१६६, १६६, ३६२,
३६७ ।

कल्याणकुंवरी (महारावत हरिसिंह की
पुत्री)—१६५ ।

कल्याणकुंवरी (महारावत प्रतापसिंह की
पुत्री)—१६७, २०७ ।

कल्याणकुंवरी (महारावत दलपतसिंह की
राणी)—२६५ ।

कल्याणदास (पुरोहित)—१७१ ।

कल्याणसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—
६८ ।

कल्याणसिंह (महारावत पृथ्वीसिंह का
पुत्र)—२०६-७ ।

कल्याणदास (कल्याणपुरा का ठाकुर)
—३६५ ।

कल्याणसिंह (भियाय का राजा)—
३७६ ।

कल्याणसिंह (धमोतर का ठाकुर)—
३६३-६४ ।

कल्याणमल (बीकानेर का राव)—६४ ।

कल्ला (महारावत सूरजमल का पुत्र)
—७२ ।

कानसिंह (कानगढ़ का स्वामी)—३७७ ।

कान्ह (शक्रावत जसवन्तसिंह का कुटुम्बी)
—१२६ ।

कान्हा (महारावत बाघसिंह का पुत्र)—
८४ ।

कामबख्श (बादशाह बहादुरशाह का
भाई)—१८७-८८ ।

कॉर्नवालिस (लॉर्ड, भारत का गवर्नर
जेनरल)—२६२ ।

कार्लाइल (पुरातत्त्ववेत्ता)—४३ ।

कालभोज (बापा, गुहिलवंशी राजा)—
४४, १७३ ।

कॉल्फील्ड (कप्तान)—२६४, २६६-७ ।

क्रासिमञ्जली (बागीदल का मुखिया)
—२६०-६२ ।

क्रासिमञ्जली (सूवेदार)—१५१-५२ ।

कांधल (चूंडावत)—५६ ।

कांधल (राठोड़)—६० ।

कांधल (धमोतर का ठाकुर)—६७-८,
१०५, ३६१ ।

किशन (झहाड़ा, कवि)—२५८ ।

किशनकुंवरी (महारावत बीका की पुत्री)
—१०२ ।

किशनकुंवरी (महारावत रायसिंह की
पुत्री)—८६ ।

किशनदास (महारावत विक्रमसिंह का पुत्र)—१०२, ११८ ।

किशनदास (सलुंबर का स्वामी)—३७१ ।

किशनसिंह (बोढ़ी साखथली का ठाकुर)—३७२ ।

किशनसिंह (बांसवाड़े के महारावल जगमाल का पुत्र)—६८, १०० ।

किशोरसिंह (जोरावरपुरा का स्वामी)—३७३ ।

कीटिङ्ग (कर्नल रिचर्ड हार्ट, मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट)—३०२ ।

कीर्तिवर्मा (गुहिल राजा)—४५ ।

कीर्तिशाह (टेहरी गढ़वाल का परमार राजा)—३३६ ।

कीर्तिसिंह (महारावत प्रतापसिंह का पुत्र)—१८६, ३७० ।

कुन्दनकुंवरी (महारावत सालिमसिंह की राणी)—२५३, २५६, २७६ ।

कुतुबुद्दीनख़ां (शाही अफ़सर)—१६२ ।

कुतुबुद्दीन (गुजरात का सुलतान)—४६ ।

कुबेरसिंह (धमोतर का स्वामी)—३६३-६४ ।

कुतुबुलमुल्क (सैयद अब्दुल्लाख़ां) — २०४ ।

कुंभकर्ण (कुंभा, मेवाड़ का महाराणा)—४०, ४७-६, ५१, ५४, ७६ ।

कुमारपाल (सोलंकी राजा)—३८ ।

कुमारसिंह (गुहिलवंशी रावल)—४५-६ ।

कुसुदकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की राजकुमारी)—३५५ ।

कुशलकुंवरी (महारावत हरिसिंह की पुत्री)—१६५ ।

कुशलसिंह (आंबीरामा का ठाकुर)—३६५ ।

कुशलसिंह (वरदिया का ठाकुर)—३७१ ।

कुशलसिंह (झांतलावालों का पूर्वज)—१६६ ।

कुशलसिंह (बांसवाड़े का महारावल)—१६१ ।

कुसुमकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की राजकुमारी)—३५५ ।

कृष्ण (यादव)—१७२ ।

कृष्ण (अहाड़ा, कवि, ग्रंथकार)—२५३, २५८ ।

कृष्णदास (आमेटा ब्राह्मण, विद्वान्)—३४६ ।

कृष्णाजी सांवत (मरहटा सेनापति)—२२० ।

केवेन्टरी (एफ्० सी०, प्रतापगढ़ राज्य का प्रधान मंत्री)—३५१, ३५४ ।

केटर (ए० एन्० एल्०, एजेन्ट गवर्नर जेनरल)—३५१ ।

केडिल (मेजर टी०, मेवाड़ का पोलिटिकल एजेन्ट)—३१० ।

केशवदास (रघुनाथद्वारे का महन्त)—२७६ ।

केशवदास (शाही सेवक)—१८४ ।

केशवप्रसादसिंह (डुमरांव का महाराजा)—३५५ ।

केसरकुंवरी (राणा मोकल की सोलंकिनी राणी)—४७ ।

- फैसरकुंवरी (महारावत उम्मेदसिंह की फज़वाही राणी)—२१७ ।
- फैसरकुंवरी (महारावत दलपतसिंह की राणी)—२६५ ।
- फैसरकुंवरी (महारावत रघुनाथसिंह की राणी)—३४४, ३७६ ।
- फैसरीसिंह (आंबीरामा के ठाकुर कुशलसिंह का पुत्र)—३०६, ३६६ ।
- फैसरीसिंह (अचलदास शक्कावत का पुत्र)—१२८, १३०-३१ ।
- फैसरीसिंह (आंतला का ठाकुर)—१३८, १४२, ३६८ ।
- फैसरीसिंह (सलूवर का रावत)—२३५, २३८, २४० ।
- फैसरीसिंह (कुंवर दीपसिंह का पुत्र)—२६३, २७३-७५ ।
- फैसरीसिंह (रायपुर का ठाकुर)—३६८ ।
- फैसरीसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६४ ।
- फैसरीसिंह (कल्याणपुरा के ठाकुर रणछोड़दास का पुत्र)—३६६ ।
- फैनिङ्ग (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जनरल)—२६१, २६४-६५ ।
- फोमलराम (व्यास, औदीच्य ब्राह्मण)—३०६ ।

ख

- खान (चौहान)—८७, १३८, १४१ ।
- खानखाना (अन्दुरहीमख़ां, शाही अफसर)—१२१ ।
- खानजी (आंबीरामा का ठाकुर)—८४, १०६, ३६६, ३७२ ।

- खानसलह (घुड़ऊ, पुरोहित)—५०-१ ।
- खुम्माण (पहला, गुहिलवंशी राजा)—४४, १७३ ।
- खुम्माण (दूसरा, गुहिलवंशी राजा)—४४ ।
- खुम्माण (तीसरा, गुहिलवंशी राजा)—२२, ३६ ।
- खुम्माणसिंह (हुंगरपुर का महारावल)—१८४ ।
- खुम्माणसिंह (आसींद का रावत)—३१५ ।
- खुम्माणसिंह (आंबीरामा का ठाकुर)—३६६ ।
- खुम्माणसिंह (देवद का ठाकुर)—३७७ ।
- खुशहालसिंह (रामपुरा का स्वामी)—२०२ ।
- खुशहालसिंह (अरणोद का महाराज)—३१५, ३६० ।
- खुशहालसिंह (सालिमगढ़ का स्वामी)—३७० ।
- खुशहालसिंह (पूरावत)—३७५ ।

ग

- गज़नीख़ां—देखो मुहम्मद गोरी ।
- गजसिंह (महारावत सालिमसिंह का पुत्र)—२५४ ।
- गजसिंह (कोलवी का स्वामी)—३७८ ।
- गनिंग (मेजर, मेवाड़ के भील कोर का कमांडेंट)—३०७ ।
- गयासुद्दीन (मालवे का सुलतान)—२७, ४१, ५०-१, ५५-७, ५८, ६२ ।

- गाज़ीउद्दीनख़ां (मालवे का सूबेदार)—
२३५ ।
- गिरधरबहादुर (राजा, मालवे का सूबे-
दार)—२२६, २५४ ।
- गुमानशाह (राजकर्मचारी)—२५७ ।
- गुमानसिंह (महारावत पृथ्वीराज का पुत्र)
—२०७ ।
- गुमानसिंह (बाठरदा के रावत दलेलसिंह
का छोटा भाई)—३१४ ।
- गुमानसिंह (रायपुर का ठाकुर)—३६७-
६८, ३७५ ।
- गुमानसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७ ।
- गुमानसिंह (धनेसरी का ठाकुर)—३७३ ।
- गुलाबकुंवरी (महाराजा तख्तसिंह की
राणी)—३६४ ।
- गुलाबचन्द (गांधी, कामदार)—२८६ ।
- गुलाबसिंह (ठाकरडे का ठाकुर)—२८६ ।
- गुलाबसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
- गुलाबसिंह (मेहबू चारण)—३१५ ।
- गुहिल (राजा, गुहिलवंश का आदि पुरुष)
—४३-४ ।
- गेमल (नागर ब्राह्मण)—२६ ।
- गौरतख़ां (शाही अरुख़र)—१४६ ।
- गोपालदास (धमोतर का ठाकुर)—
१४२, ३६१, ३७२, ३७४ ।
- गोपालदास (अजमेर का गौड़ राजा)
—१८६ ।
- गोपालसिंह (अचलावदा के ठाकुर माधव-
सिंह दूसरे का पुत्र)—३७० ।
- गोपालसिंह (रायपुर का ठाकुर)—
३६७ ।

- गोपालसिंह (अरग्योद के महाराज गोवर्द्ध-
नसिंह का पुत्र)—३६० ।
- गोपालसिंह (रामपुरा का राव)—
२०२, २२८ ।
- गोपालसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)
—२०७, २१६-१८, २२४-२६,
२३७, २४०-४५, २४७, २५३,
२५८, ३६३, ३७८, ३८३-८४ ।
- गोपालसिंह (बोड़ीसाखथली का ठाकुर)
—३७२ ।
- गोपालसिंह (जोरावरपुरे का स्वामी)—
३७३ ।
- गोपीनाथ (आंबीरामा का ठाकुर)—
३६६ ।
- गोरबेग (ज़मानाबेग का पिता)—१२८ ।
- गोवर्द्धनसिंह (अरग्योद का स्वामी)—
२५, ३२८, ३३८, ३४५, ३६० ।
- गोविन्ददास (खंगारोत, बेगुंवालों का
पूर्वज)—१०६ ।
- गोविन्दराज (चौहान)—२१, ३४ ।
- गोविन्दसिंह (धनेसरी का ठाकुर)—
३८० ।
- गौरीशंकर वर्मा (बार-पुट ला, कामदार)
—३२६ ।
- गंगाकुंवरी (वृंदी के राव भोज के पुत्र
मनोहरदास की पत्नी)—१२५ ।
- गंगाराम (कवि, ग्रंथकार)—८४, ६८,
१०६, ११२, ११३-१४, १३४,
१३७, १४०, १६८-६९, १७१,
१७६ ।
- गंगासिंहजी (बीकानेर के महाराजा)—
३२५-२६, ३४३ ।

- गंड (कालिंजर का राजा)—३६ ।
 गभीरसिंह (ईंडर का महाराजा)—
 २७५ ।
 गंभीरसिंह (सेलारपुरा का ठाकुर)—
 ३३८, ३७८ ।
 गभीरसिंह (धमोतर के ठाकुर हमीरसिंह
 का भाई)—३६४ ।

घ

- घनश्यामसिंहजी (मेजर, धांगधरा का
 महाराज राणा)—३३७, ३५५ ।

च

- चक्रायुध (कन्नौज का राजा)—३२ ।
 चण्डतानत्रां (शाही अफसर)—१६८-
 ६६ ।
 चाचा (महाराणा खेता का दासीपुत्र)—
 ४७ ।
 चांदकुवरी (युवराज्ञी)—३२६, ३३४,
 ३५०, ३५७ ।
 चारुमती (महाराणा राजसिंह की राणी)
 —१५८, १६१ ।
 चिनकलीचण्डी (निज़ामुद्दुल्क, आस-
 फ़जाह)—२२६, २३२, २३५-३६ ।
 चिमनकुवरी (लूणावादा के राणा फ़तह-
 सिंह की राणी)—२७५-६ ।
 चिमनलाल कोठारी (वांसवादे का काम-
 दार)—३०६ ।

- चिमनसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—
 ३६६ ।
 चिमनसिंह (भांतला का ठाकुर)—३६८ ।
 चिमनसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—
 ३७० ।
 चिमनसिंह (वरदिया का स्वामी)—
 ३७१ ।
 चील मेहता (बनवीर का प्रधान)—
 ८८ ।
 चुन्नीलाल एम० शरीफ (प्रतापगढ़ का
 दीवान)—३५४ ।
 चूंडा (महाराणा लाखा का पुत्र)—४६,
 ३७० ।
 चैनराम (अग्रवाल)—२३ ।
 चोड़सिंह (गुहिल राजा)—४५ ।
 चंदनकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की
 पुत्री)—२७५ ।
 चंद्रदेव (गाहड़वाल)—३७ ।
 चंद्रधर गुलेरी (विद्वान्)—३४१ ।
 चंद्रप्रभसूरि (जैन विद्वान्)—३३ ।
 चंद्रभाण (कल्याणपुरा का ठाकुर)—
 ३६५ ।
 चंद्रभाण शाह (मंत्री)—२४२-४३, ३८३-
 ८४ ।
 चद्रसिंह (आंवीरामा का ठाकुर)—
 ३६६ ।
 चंद्रसेन (जोधपुर का राव)—१३१ ।
 चंपाकुंवरी (महारावत जसवंतसिंह की
 राणी)—१३८, १४१, १६७ ।

छ

- छत्रसाह (बोधी साखथली का ठाकुर)
—३७२ ।
छ्भीलेराम (नागर ब्राह्मण, सूबेदार)—
२२६ ।

ज

- जगतसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराणा)
—१२३, १२७, १३०-३२, १३४,
१३६, १४१, १४४-४५, १५७,
१६१, ३६२ ।
जगतसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)
—२३१, २३३, २३८, २४०,
२४७ ।
जगतसिंह (कानोड़ का रावत)—२४६,
२४६ ।
जगतसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७० ।
जगतसिंह (बरड़िया का स्वामी)—३७१ ।
जगतसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
जगन्नाथ शास्त्री (विद्वान्)—२४, ६८, ६०,
१३६, १४५, १७०, १७४, ३४६ ।
जगन्नाथसिंह (नागदी का स्वामी)—
१२४, ३७६ ।
जगमाल (बांसवाड़े का महारावल)—
४६, ८८, ६८ ।
जगमाल (सिरोही का राव)—७० ।
जगमाल (बाघावत)—१२६ ।
जग्गा (महारावत सूरजमल का पुत्र)—
७२-३ ।
जगू बापू (सिंधिया का सेनापति)—
२६० ।

५४

- जड़ावकुंवरी (महारावत सूरजमल की
राणी)—७२ ।
जड़ावचंद (शाह, मंत्री)—२६६ ।
जनकूजी (सिंधिया)—६३ ।
जमानावेग—देखो महावतखां ।
ज़फ़रखां (मांडू के सुलतान का सेनापति)
—५४, ५७-८, ६२ ।
जयश्यामा (सिंधिया, ग्वालियर का महार-
राजा)—६३, २२१, ।
जयदेव (मेहता, कवि)—१६६, १७०,
१७२-७४, १६१-६२ ।
जयमल (महाराणा रायमल का पुत्र)—
५६, ५८-६, ६०-२ ।
जयमल (मेड़तिया)—६४ ।
जयसिंह (सिद्धराज, गुजरात का सोलंकी
राजा)—३७-८, ४५ ।
जयसिंह (चतुर्थ, मालवे का परमार
राजा)—३८ ।
जयसिंह (सवाई, जयपुर का महाराजा)
—६३, १८६-८८, २०१-४, २०८,
२२२-२३, २२६-३०, २३२-३६,
२४०-४१, २४५ ।
जयसिंह (शक्कावत, पीपलियावालों का
पूर्वज)—२३४-३५ ।
जयसिंह (खेतड़ी का राजा)—३२६,
३३३, ३४१ ।
जयसिंह (मेवाड़ का महाराणा)—१७६-
८०, १८२-३ ।
जयसिंह (बांसवाड़े का महारावत)—
६८ ।
जलालुद्दीन फ़ीरोज़शाह (दिल्ली का सुलतान)—४० ।

जसकरण (धमोतर का ठाकुर)—१६६,

३६२, ३६३ ।

जसकुंवरी (महारावत हरिसिंह की राणी)

—१६५ ।

जसरूपसिंह (आमभरुा का राव)—२५३ ।

जसवंतराव (होल्कर, इन्दौर का महा-

राजा)—२६१ ।

जसवंतसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)

—११४, १२०, १२२, १२४,

१२६, १२८-२९, १३१-३४, १३६-

४१, १४५, १५७, १७३, ३४६,

३६२, ३६८ ।

जसवंतसिंह (शह्लावत, वानसी का रावत)

—१२८-३१, १३३ ।

जसवंतसिंह (पहला, जोधपुर का महा-

राजा)—१५१, १५२, १५४,

१७८ ।

जसवंतसिंह (दूसरा, जोधपुर का महा-

राजा)—३१४, ३६४ ।

जसवंतसिंह (भाला, गोगूँदा का स्वामी)

—२४७ ।

जसवंतसिंह (देवगढ़ का रावत)—२४६-

५० ।

जसवतसिंह (दूसरा, हूंगरपुर का रावल)

—२६८-६९, २७४, २८२-८४,

२९७ ।

जसवंतसिंह (सावली का ठाकुर)—

२८५ ।

जसवंतसिंह (सैलाना का राजा)—३३५,

३३६ ।

जहांगीर (सलीम, मुगल बादशाह)—

१८, ११८-२२, १२६-२८, १४७,

१५६, १६४ ।

जहांदारशाह (मुगल बादशाह)—१६६-

२००, २०२, २०८-९, २२८,

२३२ ।

जहांशाह (बहादुरशाह का शाहजादा)—

२१६ ।

जानशालम (शाहजादा)—२० ।

जानकीप्रसाद (रसिकबिहारी के मन्दिर का

महन्त)—३१४ ।

जांवाज़ख़ां (शाही मनसबदार)—१४७ ।

जानिसारख़ां (पैज़ारख़ां, मंदसोर का फ़ौज-

दार)—१२८-३१, १३३ ।

जॉर्ज (पंचम, सत्राट्)—३३६ ।

जॉर्ज (षष्ठ, सत्राट्)—३५३ ।

ज़ालिमसिंह (भाला)—२४६-५०,

३७४ ।

ज़ालिमसिंह (कुशलगढ़ का राव)—

२६५ ।

ज़ालिमसिंह (अचलावदा के ठाकुर जगत-

सिंह का पुत्र)—३७० ।

जीवराज (शाह, मंत्री)—२१०-११,

२१५, ३८३ ।

जुहारकुंवरी (महारावत उदयसिंह की

राणी)—३११, ३१३ ।

जैतमाल (राव सलखा का पुत्र)—६० ।

जैतसिंह (महारावत गोपालसिंह का पुत्र)

—२४१ ।

जैत्रसिंह (मेवाड़ का स्वामी)—४६ ।

जैनुल्लाहदीन (मीर, शाही अफ़सर)

—१८३ ।

जोग (ग्रंथकार)—१७५ ।

जोगा (रावत अज्जा का पुत्र)—८० ।

जोगीदास (धमोतर का ठाकुर)—१६०,
१६४, ३६२ ।

जोगीदास (नागदी का स्वामी)—३७६-
७७ ।

जोधकरण (पाडलिया, मंत्री)—२६४,
२६६-६७, ३०७ ।

जोधसिंह (शक्तावत, कण्णगोटी का
स्वामी)—११०-११, ११३-१४,
११८-१९ ।

जोधसिंह (धमोतर का ठाकुर)—१४१-
४२, ३६१-६२, ।

जोधसिंह (सलूवर का रावत)—२४७ ।

जोधसिंह (गढ़ी का ठाकुर)—२५७ ।

जोधसिंह (अचलावटा के ठाकुर जगत-
सिंह का पुत्र)—३७० ।

जोरावरसिंह (बीकानेर का महाराजा)—
२४०-४१ ।

जोरावरसिंह (खींसर का ठाकुर)—२४८ ।

जोरावरसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
३६६ ।

जोरावरसिंह (विलेसरी का स्वामी)—
३७३ ।

जोरावरसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७ ।

झ

झामा (खोदीप का स्वामी)—३७१ ।

ट

टॉड (फर्नल जेम्स, ग्रंथकार)—१७,

५६-७, ६२, ६८, ७०, ७८, ८२-३,
१६०, २३६, २५३ ।

टेलर (मेजर, पोलिटिकल एजेन्ट)—
२६२, २६४ ।

टैवर (कर्नल, राजपूताने का एजेन्ट
गवर्नर जनरल)—३१७, ३१९ ।

ट्रिवस (सी० सी० एच्०, महारावत राम-
सिंहजी का अभिभावक)—३५० ।

ड

डलहोजी (लॉर्ड, भारत का गवर्नर
जेनरल)—२८७, २९१, २९४ ।

डाड्सवेल (जी०, सरकारी अफसर)—
२६७ ।

डूंगरसिंह (डूंगरपुर का महारावल)—४६।
ड्यूक आर्च कैंनाट् (महाराणी विक्टो-
रिया का पुत्र)—३१२ ।

डयूरंड (कर्नल, मध्यभारत का एजेन्ट
गवर्नर जनरल)—२८६-९१ ।

डयूरंड (एच्० एम्०, भारत सरकार का
सेक्रेटरी)—३०६ ।

त

तझतकुंवरी (महारावत सूरजमल की
हाड़ी राणी)—७२ ।

तझतकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की
पुत्री)—२७५ ।

तझतसिंह (नागदी का ठाकुर)—३७७ ।

तझतसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—३६६ ।

तझतसिंह (जोधपुर का महाराजा)—३६४ ।

तझतसिंह (हम्मीरगढ़ का स्वामी)—२३८ ।

- सप्रतासिंह (भांतला का ठाकुर)—३६६ ।
 सप्रतासिंह (नामली का ठाकुर)—२६७,
 ३१३, ३८१ ।
 सांतियाटोपी (सिपाही-विद्रोह का प्रसिद्ध
 विद्रोही)—२६२-६३ ।
 मुकोजी (होल्कर का सेनापति)—२४६ ।
 मुकोजीराव होल्कर (दूसरा, इन्दौर का
 महाराजा)—३११ ।
 तेजमाल (महारावत बाघसिंह का पुत्र)—
 ८४ ।
 तेजसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
 ३, १८, ६४, १००-२, १०४-७,
 १०६, १११-१३, ११६-१७,
 १७३ ।
 तेजसिंह (मेवाड़ का महारावत)—४६ ।
 तेजसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
 तेजसिंह (अन्नघोरा का ठाकुर)—३७४ ।
 तेजसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७५ ।
 तेजसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७ ।
 तैमूर (दिल्ली का सुलतान)—१४७ ।
 त्रिभुवनदास (एम० ए०, राजा, प्रधान
 मंत्री)—३५५ ।
 त्रिखोचनपाल (प्रतिहार वंशी राजा)—३६ ।
- द**
- दयाल (शाह बर्द्धमान का पुत्र)—३८३ ।
 दयाबहादुर (मालवे का सूधेदार)—
 २५४ ।
 दयालदास (महाराया राजसिंह का
 मंत्री)—१७६ ।
 दयालसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६५ ।

- दलपतसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
 १७-१८, २६३ २६८-७०, २७४-
 ७५, २८१-८८, २६४-६७, ३०७,
 ३५६, ३७४, ३७७-७८ ।
 दलपतसिंह (साखथली का ठाकुर)—
 १६४ ।
 दलपतसिंह (रायपुर का ठाकुर)—१६६,
 ३६७-६८ ।
 दलपतसिंह (मूलथान का स्वामी)—
 ३७५ ।
 दलपतसिंह (डोराणा का स्वामी)—३८१ ।
 दलसिंह (रायपुर का ठाकुर)—३६७,
 ३७४ ।
 दलसिंह (बोड़ी साखथली का ठाकुर)—
 १६५, ३६६ ।
 दल्लेसिंह (बूंदी का राजा)—२२७,
 २३० ।
 दल्लेसिंह (भिणाय का राजा)—२६३ ।
 दल्लेसिंह (बाठरका का रावत)—३१४,
 ३८० ।
 दल्लेसिंह (महारावत हरिसिंह का
 प्रपौत्र)—३६४ ।
 दल्लेसिंह (भांतला का ठाकुर)—३६८ ।
 दामोदर (महासामंत माधवे का पुत्र)
 —३४ ।
 दाराशिकोह (शाहजहां का शाहजादा)—
 १३१, १४६, १४६-५४ ।
- दिलावरखां (दिलावरशाह शोरी, अमी-
 शाह, मालवे का सुलतान)—४० ।
 दिलीपसिंहजी (सैलाना का राजा)—
 ३३५, ३४३ ।

हीपसिंह (महारावत सामन्तसिंह का पुत्र)—२०, २५६-६०, २६३, २७०-७३, २७५, २७८, २८० ।
 दुर्गभान (दुर्गा, रामपुरा का राव)—६४, ११६, २२८ ।
 दुर्गादास (प्रसिद्ध राठोड़ वीर)—१७६-८०, १८७, २०५, २२८ ।
 दुर्गादास (आंवीरामा का ठाकुर)—३६६ ।
 दुर्गाप्रसाद (महामहोपाध्याय, ग्रंथकार)—३० ।
 दुर्गादास (बोदीसाखथली का ठाकुर)—३७२ ।
 दुर्जनसाल (कोटा का महाराव)—२३३, २४० ।
 दुर्लभराज (घोटासी का चौहान)—२१, २४, ३४ ।
 दुलहसिंह (सैलाना का राजा)—३१३ ।
 दुलहसिंह (पहाड़सिंह का पुत्र)—३४७, ३६८ ।
 देदा (सादड़ी का स्वामी)—४८ ।
 देवपाल (रघुवंशी प्रतिहार राजा)—३६ ।
 देवराज (रघुवंशी प्रतिहार राजा)—३२ ।
 देवी (मीरगी)—१७, ६६ ।
 देवीसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—३६६ ।
 देवीसिंह (कुशलपुरा का रावत)—१८१ ।
 देवीसिंह (सूरजमल का पौत्र)—६६ ।
 देवेन्द्रकुमारी (हुंगरपुर के महारावल विजयसिंह की पुत्री)—३३६ ।
 देवेन्द्रकुंवरी (महारावल रामसिंहजी की पुत्री)—३५५ ।
 दोस्तमुहम्मदख़ां (शाही अफ़सर) २३६ ।

दौलतकुंवरी (महारावल सामंतसिंह की राणी)—२७७ ।
 दौलतकुंवरी (महारावल दलपतसिंह की राणी)—२६५ ।
 दौलतराव सिंधिया (ग्वालियर का महा-राजा)—६३ ।
 दौलतसिंह (बरदिया का ठाकुर)—३७१-७२ ।
 दौलतसिंह (महारावल प्रतापसिंह का पुत्र)—१८६, २३३ ।
 दौलतसिंह (देवद का स्वामी)—२४१, २५४, ३७७ ।
 दौलतसिंह (केरण्या का ठाकुर)—२६५ ।
 दौलतसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७० ।
 दौलामियां (मुसलमान अफ़सर)—२५० ।
 द्वारिकादास (रायपुर का ठाकुर)—३६७ ।
 द्वारिकादास (मेहता)—२११, २१५ ।
 ध
 धनजीशाह (पारसी, कामदार)—३४३ ।
 धनपतिसिंह (अनघोरा का स्वामी)—३७४ ।
 धर्मकुंवरी (महारावल हरिसिंह की राणी)—१६६ ।
 धर्मकुंवरी (पाटमदे, महारावल प्रतापसिंह की राणी)—१८६-९०, १६६ ।
 न
 नगराज (गूजर, धायभाई)—२३० ।
 नरवद (कानोड़वालों का पूर्वज)—८० ।
 नरवर्मा (माकवे का परमार राजा)—३७ ।

- नरवर्मा (गुहिल राजा)—४५ ।
 नरवाहन (गुहिल राजा)—४५ ।
 नरसिंहदेव (महाराणा सांगा का भतीजा)—
 ७६ ।
 नरहरदास (शक्कावत)—१२८ ।
 नरू (विद्वान्)—१६१ ।
 नवलचंद्र (शाह, राजकर्मचारी)—२७३ ।
 नवाजिशखां (सैयद, शाही अफसर)—
 १६२ ।
 नागभट्ट (नागावलोक, रघुवंशी प्रतिहार
 राजा)—३२-३ ।
 नार्थासिंह (बागोरों का महाराज)—२४७ ।
 नाथूराम (धमोतर का ठाकुर)—३६४ ।
 नाथूसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७ ।
 नादिरशाह (ईरान का बादशाह)—
 २३२, २३६ ।
 नारायणदास (ईंडर का राव)—११७ ।
 नारायणदास (शक्कावत)—१२८ ।
 नारायणराव (वृढा का जागीरदार)—
 २२१, २३१ ।
 नासिरुद्दीन मुहम्मदशाह (मालवे का
 सुल्तान)—४०, ५५, ६२, ११५ ।
 नासिरशाह (मांडू का सुल्तान)—
 २६, ४१ ।
 नॉर्थब्रुक (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जनरल)
 —३०८ ।
 नाहदराव (पडिहार)—३३ ।
 नाहर (सोनगरा चौहान)—१०६ ।
 नाहरसिंह (शाहपुरा का राजाधिराज)—
 ३३३, ३३७ ।
 नाहरसिंह (सेमलिया का महाराज)—
 ३४५ ।

- नाहरसिंह (बोड़ीसाखथली के ठाकुर
 बलवंतसिंह का पुत्र)—३७२ ।
 निकोसियर (औरंगजेब बादशाह का
 पौत्र)—२१६ ।
 निक्सन (कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल
 एजेन्ट)—२६८ ।
 निज़ामुल्मुल्क—देखो चिनकलीचखां ।
 निहालचंद्र (मंत्री)—२६४, २६६ ।

प

- पत्ता (महाराणा रायमल का पुत्र)—५६ ।
 पद्मकुंवरी (महारावत हरिसिंह की पुत्री)—
 १६६ ।
 पद्मकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की
 पुत्री)—२०७ ।
 पद्मसिंह (मेवाड़ का स्वामी)—४६ ।
 पद्मसिंह (बीकानेर का महाराजा)—
 १८६, २०७ ।
 पद्मसिंह (महारावत प्रतापसिंह का
 पुत्र)—२०६-७ ।
 पद्मसिंह (महारावत सामंतसिंह का
 पुत्र)—२७५ ।
 पन्ना (धाय)—८६-७, ९० ।
 परवेज़ (जहांगीर का शाहज़ादा)—१२० ।
 पर्वतसिंह (बोड़ी साखथली के ठाकुर
 बलवंतसिंह का पुत्र)—३७२ ।
 पहाड़सिंह (कल्याणपुरा का रावत)—
 ३६६ ।
 पहाड़सिंह (महारावत पृथ्वीसिंह का
 पुत्र)—२०३, २०५, २०६-७,
 २०६-१०, २१३ ।

पहाड़सिंह (सलूंवर का रावत)—
२४६-२० ।

पाटमदे—देखो धर्मकुंवरी—

पार्क (त्रिगेडियर)—२६२ ।

पिकाँक (कर्नल, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट)—
३१६ ।

पिन्हे (ए० एफ्०, मेवाड़ का रेज़िडेन्ट)
—३०५, ३१६, ३१८ ।

पीथा (महारावत सैंसमल का पुत्र)—६६ ।

पीथा (बाघावत)—१२६ ।

पीर हज़ूरअली (बाग़ियों का सरदार)—
२६३ ।

पीरमुहम्मद सरवानी (नासिरुल्लमुक्क,
शाही अक़सर)—६२ ।

पुंजराज (हुंगरपुर का स्वामी)—१४३ ।

पूरणमल (महारावत रायसिंह का
पुत्र)—८६ ।

पूरा (जौज़ली का स्वामी)—७२, ३६२,
३७२-७४ ।

पृथ्वीराज (हुंगरपुर का महारावत)—
४६, ८७, ६८ ।

पृथ्वीराज (महाराणा रायमल का पुत्र)—
५६-७१, ७३, ८६, ११५ ।

पृथ्वीराज (जैतावत, वगड़ीवाल्लों का
पूर्वज)—६३-४ ।

पृथ्वीराज (पृथ्वीसिंह, धमोतर का
स्वामी) ३६२-६३ ।

पृथ्वीसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
१४४, १८६-६०, १६७-२१३,
२१५, २२४-२५, २४२, २५२,
३८३-८४ ।

पृथ्वीसिंहजी (वांसवाड़े के वर्तमान
महारावत)—३३६ ।

पृथ्वीसिंह (धमोतर के स्वामी हिन्दूसिंह
का भाई) ३६४ ।

पृथ्वीसिंह (आंबीरामा का ठाकुर)—
३६६ ।

पेपकुंवरी (महारावत क्षेमकर्ण की पुत्री)—
५३ ।

पेपकुंवरी (महारावत भानुसिंह की
पुत्री)—११७ ।

पैज़ारखां—देखो जानिसारखां ।

पोखरदास (रघुनाथद्वारे का महंत)—
२७६ ।

प्रतापकुंवरी (बीकानेर के महाराजा सर-
दारसिंह की राणी)—२७३ ।

प्रतापकुंवरी (जोधपुर के महाराजा तख़्त-
सिंह के पुत्र बहादुरसिंह की पत्नी)
—३६४ ।

प्रतापसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराणा)
—४८, १०२, १०५-६, १०६,
११४, १२०, १२८, १४४, २२३,
२५७, ३६१ ।

प्रतापसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महा-
राणा)—२४७ ।

प्रतापसिंह (काश्मीर का महाराजा)—
३३५ ।

प्रतापसिंह (रायपुर का रावत)—
३४७, ३६८ ।

प्रतापसिंह (महारावत रघुनाथसिंह का
पुत्र)—३२८, ३३२-३३, ३४४,
३६० ।

प्रतापसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
१, १६, १६, १२२, १३७-३६,
१४३, १५६, १६०-६१, १६४-६६,

- १६६, १७१-७३, १७७, १७६-८०,
१८२-८५, १८७-६३, १६७-२००,
२०८, २१५, ३४६, ३६२, ३६६-
६७, ३७१, ३७८, ३८३ ।
- प्रतापसिंह (बांसवाड़े का महारावल)—
६४, ६८-१००, १०३ ।
- प्रतापसिंह (हाड़ा, बूंदी के राव दलेल-
सिंह का भाई)—२३० ।
- प्रतापसिंह (झांतला का ठाकुर)—
३६६, ३७६ ।
- प्रतापसिंह (अनघोरा का स्वामी)—३७४ ।
- प्रतापसिंह (वरखेदी के ठाकुर रत्नसिंह
का भाई)—३७५ ।
- प्रह्लादासिंह (बरड़िया के ठाकुर दौलत-
सिंह का पुत्र)—३७१ ।
- प्रेमकुंवरी (महारावल प्रतापसिंह की
राणी)—१८६ ।

फ

- फ़तहचंद (कायस्थ, मेवाड़ का प्रधान)—
१५५-५६, १६१ ।
- फ़तहसिंह (कल्याणपुरा का सरदार)—
२१७, २४१, ३६३, ३६६, ३७७ ।
- फ़तहसिंह (सोलंकी, लूणावाड़ा का
महाराणा)—२७६ ।
- फ़तहसिंह (नामली का ठाकुर)—२६५ ।
- फ़तहसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६३ ।
- फ़तहचंद (सिंघवी जोधपुर का कर्मचारी)—
फ़र्कहर्सन (लेफ्टेनेन्ट)—२८६ ।
- फ़र्रुखसियर (मुग़ल बादशाह)—२००-४,
२०८-६, २१२, २१८-१६, २२३,
२२८, २३२, २५२ ।

- फ़ीरोज़ (हाजी, ग़दर का बागी)—२८८-
८६ ।
- फ़ीरोज़ख़ां (शाही अफ़सर)—१६७ ।
- फ़ीरोज़ख़ां दन्दानी (नागोर का स्वामी)—
४६ ।
- फ़ीरोज़शाह (पारसी, सेठ)—३५७ ।
- फ़ीरोज़शाह (बाग़ियों का सरदार)—
२६३ ।
- फ़ीरोज़शाह तुग़लक़ (दिल्ली का सुल-
तान)—४० ।
- फ़ील्ड (लेफ्टेनेन्ट कर्नल डी० एम्०, राज-
पूताने का पोलिटिकल एजेन्ट)—
३५१ ।
- फूलकुंवरी (महारावल प्रतापसिंह की
पुत्री)—१८६ ।
- फूलकुंवरी (महारावल उदयसिंह की
राणी)—३१३, ३७६ ।
- फ़ामजी भीकाजी (पारसी, मेवाड़ का
असिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्ट)—
३०७, ३११, ३२५ ।

ब

- बख़्तसिंह (नागोर का स्वामी)—२१७-
१८, २२३, २४० ।
- बख़्तावरसिंह (प्रतापगढ़ के महारावल
गोपालसिंह का पुत्र)—२४१-४२ ।
- बख़्तावरसिंह (आमभरा का स्वामी)—
२५४ ।
- बख़्तावरसिंह (बोरया का स्वामी)—
३८१ ।
- बख़्तावरसिंह (नागदी का ठाकुर)—
३३८, ३७७ ।

- खल्लावरसिंह (सेलारपुरा का ठाकुर)—
३७८ ।
- खदनसिंह (रामपुरा के राव गोपालसिंह
का पौत्र)—२०२ ।
- घनवीर (दासीपुत्र)—८६-८, ६० ।
- वनेकुंवरी (महारावत प्रतापसिंह की
पुत्री)—१८६ ।
- बलदेवसिंह (सदापुरा का भोसिया)—
३७३-७४ ।
- बलवंतसिंह (बोड़ी साखथली का
ठाकुर)—३३८, ३७२ ।
- बलवंतसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
- बलवंतसिंह (देवद का स्वामी)—३७७ ।
- बहरी—देखो मलिक बहरी ।
- बहादुरशाह (गुजरात का सुलतान)—४१,
७६-८, ८१-५, ६१-३, ६८,
११७ ।
- बहादुरसिंह (जोधपुर के महाराजा तख्त-
सिंह का पुत्र)—३६४ ।
- बहादुरसिंह (किशनगढ़ का राजा)—
१६५, २७५, ३७३ ।
- बहादुरसिंह (बोड़ी साखथली के ठाकुर
बलवंतसिंह का पुत्र)—३७२ ।
- बाडक (मंडोर का प्रतिहार राजा)—३० ।
- बाघसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
१७, ७१-२, ७४-६, ७८-८५,
६७, १०६, ११४-१६, १४५,
१७३, ३६६, ३७२ ।
- बाघसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
- बाघसिंह (कण्णोटी के शक्तिसिंह का
भाई)—११० ।
- बाघसिंह (सेलारपुरा का स्वामी)—३७८ ।
- बाघसिंह (फतहगढ़ का ठाकुर)—३७३ ।

- बाज़बहादुर (मालवे का सुलतान)—४२ ।
- बाजीराव (बल्लाल, पेशवा)—२२०,
२२४, २३२, २३४, २३६-३७,
२३८, २४५, २५८ ।
- बापा—बापारावल, देखो कालभोज ।
- बाबर (मुगल बादशाह)—७४-५ ।
- बालमुकुंददास (रघुनाथद्वारे का महंत)
—२७६ ।
- बाला (चौहान)—११७ ।
- बालाजी विश्वनाथ (पेशवा)—२२० ।
- बालाजी बाजीराव (पेशवा)—२२०,
२३६, २५८ ।
- बाकीदास (कविराजा, ग्रन्थकार)—७२,
१३०, २६३ ।
- बिहारीदास (पचोली, मंत्री)—२०५,
२३३, २३८ ३६ ।
- बीका—देखो विक्रमसिंह ।
- बीदा (राठोड़, बीदावतो का मूल पुरुष)
—६० ।
- बुधसिंह (वृदी का महाराज)—२०४ ।
२२७, २३० ।
- बुधसिंह (बगड़वावदवाले वैरिशाल का पुत्र)
—३६६ ।
- ब्रुक (कप्तान)—२८६ ।
- बेचरलाल (मेहता)—२७८ ।
- बेहरजी ताकपीर (मरहटा सरदार)—२४६ ।
- बेसन (कर्नल)—२६३ ।
- बैजल (राठोड़, मारवाड़ के राव सलखा का
पुत्र)—६० ।
- बोरविक (विलियम, अग्नेज अफसर)—
२७३ ।
- बंदा वैरागी (सिख गुरु)—२३२ ।

भ

- भगवतकुंवरी (महारावत भानुसिंह की राणी)—११७ ।
- भगवतसिंह (कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तह-सिंह का पुत्र)—३६३ ।
- भगवतसिंह (बरदिया के ठाकुर दौलत-सिंह का पुत्र)—३७१ ।
- भर्तृभट (भर्तृपट्ट, पहला, गुहिलवंशी राजा)—४४ ।
- भर्तृभट्ट (भर्तृपट्ट, दूसरा, गुहिलवंशी-राजा)—२२, ३६, ४४-५, १६३ ।
- भवानकुंवरी (महारावत दलपतसिंह की राणी)—२६६ ।
- भवानीराम (नागर, मालवे का सूवेदार)—२२७ ।
- भवानीसिंह (सेमलिया का महाराज)—३४४ ।
- भवानीसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७० ।
- भवानीसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७५ ।
- भवानीसिंह (धमोतर के ठाकुर हंमीरसिंह का भाई)—३६४ ।
- भाखरसी (जोधसिंह का पुत्र)—११६ ।
- भातुलदेवी (वूंदी के राव भावसिंह की राणी)—१६६ ।
- भानुसिंह (भाना, भीमा, भवानीसिंह, प्रतापगढ़ का महारावत)—३६, १०४, १०७, १०६-१६, १२३, ३७२ ।
- भामरया (मीया, देवलिया का)—६६ ।
- भामाशाह (मेवाड़ का मंत्री)—१२६ ।

- भारतसिंह (देवद का स्वामी)—३७७ ।
- भारमल (महारावत बाघसिंह का पुत्र)—८४ ।
- भारमल (ईडर का राव)—८८ ।
- भावसिंह (वूंदी का राव)—१६६ ।
- भीमदेव (दूसरा, भोलाभीम, सोलंकी-राजा)—३८ ।
- भीमराज (मारवाड़ का कर्मचारी)—२४८ ।
- भीमसिंह (मेवाड़ का महाराणा)—२५७-५८, २६६ ।
- भीमसिंह (चौहान, कोटा का महाराव)—२०१, २०४ ।
- भीमसिंह (बनेड़ा का राजा)—१७६, २३८ ।
- भीमसिंह (बांसवाड़े का महारावल)—१८५ ।
- भीमसिंह (प्रतापगढ़ के महारावत प्रताप-सिंह का पुत्र)—१८६ ।
- भीमसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७० ।
- भीमसिंह (अरयोद के महाराज गोवर्द्धनसिंह का पुत्र)—३६० ।
- भीमसिंह (कचोलिया का महाराज)—३७३ ।
- भुवनपाल (बदायूं का राठोड़ राजा)—३७ ।
- भुवनेश्वरीदेवी (महाराजकुमार मानसिंह की पत्नी)—३३६, ३४१, ३५२ ।
- भूपतराय (सलहदी का पुत्र)—७७ ।
- भूराखां (बखतगढ़ का कामदार)—३७५ ।
- भैरव (कलचुरीवंशी राजा)—५० ।
- भैरवसिंह (वोड़ीसाखथली के ठाकुर बख-वंतसिंह का पुत्र)—३७२ ।

- भैरवसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
 भैरवसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७ ।
 भोगीदास (धमोतर के ठाकुर जोगीदास
 का भाई)—१६३, १६०, १६२,
 १६६, ३६२ ।
 भोज (दूसरा, प्रतिहार राजा)—३४ ।
 भोज (धार का परमार राजा)—३७, ४५ ।
 भोज (हाड़ा, वृन्दी का राव)—१२५ ।
 भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिवराह, कन्नोज
 का प्रतिहार राजा)—३१-२, ३४ ।
 भोजराज (शाह, प्रतापगढ़ का कर्मचारी)
 —२६४ ।
 भोमसिंह (देवद का ठाकुर)—३३८,
 ३७७ ।
 भौमसिंह (अनघोरा का स्वामी)—
 ३७४ ।

म.

- मक़बलख़ां (ख़ानख़ालम, जानख़ालम,
 जानागढ़ का शासक)—२१, २६,
 ४१ ।
 मक़खनख़ां (माखन, मदसोर का शाही
 फ़ौजदार)—१११, ११६ ।
 मत्त (गुहिल राजा)—४४ ।
 मथनसिंह (मेवाड़ का स्वामी)—४६ ।
 मदनमोहन मालवीय (प्रसिद्ध नेता)—
 ३४१ ।
 मदनसिंह (जयपुर के मान नोबल्स हाई
 स्कूल का प्रधानाध्यापक)—३७५-
 ७६ ।
 मन्नालाल (भांवावत, कामदार)—
 ३४३ ।

- मनभावती (महारावत तेजसिंह की पुत्री)
 —१०७ ।
 मनभावती (मनभावनदे, महारावत हरि-
 सिंह की राणी)—१६५-६६, १६०,
 १६६ ।
 मनु (सूर्यवंशी राजा)—३२ ।
 मनोहरदास (वृन्दी के राव भोज का पुत्र)—
 १२५ ।
 मनोहरदास (बरदिया का ठाकुर)—
 ३७८ ।
 मनोहरदास (भामा का पुत्र)—३७१ ।
 मनोहरदास (रघुनाथद्वारे का महत)—
 २७६ ।
 मयाकुंवरी (महारावत सालिमसिंह की
 पुत्री)—२५४ ।
 मयाकुंवरीबा (महाराजकुमार मानसिंह
 की पत्नी)—३३७, ३४२, ३५२ ।
 मरे (कर्नल, अंग्रेज़ सेनापति)—२६१-
 ६२ ।
 मलिक बहरी (ख़ानसलह का अनुचर)
 —५०-५१ ।
 मवलूख़ां (सुलतान कादिर, मालवे का
 सुलतान)—४१, ६५ ।
 महारराव होल्कर (इन्दौर राज्य का
 संस्थापक)—२२१, २२८-३१,
 २४६, २५६, २६४-६५ ।
 मसऊद (मालवे का सरदार)—४६ ।
 महताबसिंह (महारावत सालिमसिंह का
 पुत्र)—२५४ ।
 महमूद ग़ज़नवी (ग़ज़नी का सुलतान)—
 ३६ ।

भ

- भगवतकुंवरी (महारावत भानुसिंह की राणी)—११७।
- भगवतसिंह (कल्याणपुरा के ठाकुर फ़तहसिंह का पुत्र)—३६३।
- भगवतसिंह (बरड़िया के ठाकुर दौलतसिंह का पुत्र)—३७१।
- भर्तृभट (भर्तृपट्ट, पहला, गुहिलवंशी राजा)—४४।
- भर्तृभट्ट (भर्तृपट्ट, दूसरा, गुहिलवंशी-राजा)—२२, ३६, ४४-५, १६३।
- भवानकुंवरी (महारावत दलपतसिंह की राणी)—२६६।
- भवानीराम (नागर, मालवे का सूवेदार)—२२७।
- भवानीसिंह (सेमलिया का महाराज)—३४४।
- भवानीसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७०।
- भवानीसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७५।
- भवानीसिंह (धमोतर के ठाकुर हंसीरसिंह का भाई)—३६४।
- भाखरसी (जोधसिंह का पुत्र)—११६।
- भातुलदेवी (बूंदी के राव भावसिंह की राणी)—१६६।
- भानुसिंह (भाना, भीमा, भवानीसिंह, प्रतापगढ़ का महारावत)—३६, १०४, १०७, १०६-१६, १२३, ३७२।
- भामरया (मीणा, देवलिया का)—६६।
- भामागाह (मेवाड़ का मंत्री)—१२६।

- भारतसिंह (देवद का स्वामी)—३७७।
- भारमल (महारावत बाघसिंह का पुत्र)—८४।
- भारमल (ईंडर का राव)—८८।
- भावसिंह (बूंदी का राव)—१६६।
- भीमदेव (दूसरा, भोलाभीम, सोलंकी-राजा)—३८।
- भीमराज (मारवाड़ का कर्मचारी)—२४८।
- भीमसिंह (मेवाड़ का महाराणा)—२५७-५८, २६६।
- भीमसिंह (चौहान, कोटा का महाराव)—२०१, २०४।
- भीमसिंह (बनेड़ा का राजा)—१७६, २३८।
- भीमसिंह (वांसवाड़े का महारावल)—१८५।
- भीमसिंह (प्रतापगढ़ के महारावत प्रतापसिंह का पुत्र)—१८६।
- भीमसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—३७०।
- भीमसिंह (अरयोद के महाराज गोवर्द्धनसिंह का पुत्र)—३६०।
- भीमसिंह (कचोलिया का महाराज)—३७३।
- भुवनपाल (वदायूं का राठोड़ राजा)—३७।
- भुवनेश्वरीदेवी (महाराजकुमार मानसिंह की पत्नी)—३३६, ३४१, ३५२।
- भूपतराय (सलहदी का पुत्र)—७७।
- भूराम्रां (वखतगढ़ का कामदार)—३७५।
- भैरव (कलसुरीवंशी राजा)—५०।
- भैरवसिंह (बोड़ीसाखथली के ठाकुर बखवतसिंह का पुत्र)—३७२।

- भैरवसिंह (जाजली का ठाकुर)—३७३ ।
 भैरवसिंह (नागदी का स्वामी)—३७७ ।
 भोगीदास (धमोतर के ठाकुर जोगीदास
 का भाई)—१६३, १६०, १६२,
 १६६, ३६२ ।
 भोज (दूसरा, प्रतिहार राजा)—३४ ।
 भोज (धार का परमार राजा)—३७, ४५ ।
 भोज (हाड़ा, बूंदी का राव)—१२५ ।
 भोजदेव (पहला, मिहिर, आदिवराह, कन्नोज
 का प्रतिहार राजा)—३१-२, ३४ ।
 भोजराज (शाह, प्रतापगढ़ का कर्मचारी)
 —२६४ ।
 भोमसिंह (देवद का ठाकुर)—३३८,
 ३७७ ।
 भौमसिंह (अनघोरा का स्वामी)—
 ३७४ ।

म

- मक़दलख़ां (ख़ानख़ालम, जानख़ालम,
 जानागढ़ का शासक)—२१, २६,
 ४१ ।
 मक्खनख़ां (माखन, मंदसोर का शाही
 फ़ौजदार)—१११, ११६ ।
 मत्त (गुहिल राजा)—४४ ।
 मथनसिंह (मेवाड़ का स्वामी)—४६ ।
 मदनमोहन मालवीय (प्रसिद्ध नेता)—
 ३४१ ।
 मदनसिंह (जयपुर के मान नोबल्स हाई
 स्कूल का प्रधानाध्यापक)—३७५-
 ७६ ।
 मन्नालाल (भांचावत, कामदार)—
 ३४३ ।

- मनभावती (महारावत तेजसिंह की पुत्री)
 —१०७ ।
 मनभावती (मनभावनदे, महारावत हरि-
 सिंह की राणी)—१६५-६६, १६७,
 १६६ ।
 मनु (सूर्यवंशी राजा)—३२ ।
 मनोहरदास (बूंदी के राव भोज का पुत्र)—
 १२५ ।
 मनोहरदास (बरदिया का ठाकुर)—
 ३७८ ।
 मनोहरदास (भामा का पुत्र)—३७१ ।
 मनोहरदास (रघुनाथद्वारे का महत)—
 २७६ ।
 मयाकुवरी (महारावत सालिमसिंह की
 पुत्री)—२५४ ।
 मयाकुवरीवा (महाराजकुमार मानसिंह
 की पत्नी)—३३७, ३४२, ३५२ ।
 मरे (कर्नल, अंग्रेज़ सेनापति)—२६१-
 ६२ ।
 मलिक बहरी (ख़ानसलह का अनुचर)
 —५०-५१ ।
 मल्लूख़ां (सुलतान क़ादिर, मालवे का
 सुलतान)—४१, ६५ ।
 महारराव होल्कर (इन्दौर राज्य का
 संस्थापक)—२२१, २२८-३१,
 २४६, २५६, २६४-६५ ।
 मसऊद (मालवे का सरदार)—४६ ।
 महतावसिंह (महारावत सालिमसिंह का
 पुत्र)—२५४ ।
 महमूद ग़ज़नवी (ग़ज़नी का सुलतान)—
 ३६ ।

महमूदशाह खिलजी (पहला, मालवे का सुलतान) — ४०-१, ४८-६।

महमूदशाह खिलजी (दूसरा, मालवे का सुलतान) — ४१, ५०, ५५, ७६, ७८।

महमूदशाह तुगलक (दिल्ली का सुलतान) — ४०।

महावतप्रां (सुगल सेनापति) — १८, ११८, १२१-२३, १२६, १२८, १३२, १४२, १४५।

महायक (गुहिल राजा) — ४४।

महासिंह (महारावत जसवतसिंह का पुत्र) — १३१-३४, १३७-३८, १४१, ३६२।

महासिंह (वेगू का रावत) — १८१।

महिया (भाखरोत) — ६५।

महीपाल (प्रतिहार राजा) — ३४।

महीपालसिंह (खवास का ठाकुर) — ३४४।

महेन्द्र (गुहिल राजा) — ४४।

महेन्द्रकुवरी (महारावत रामसिंहजी की महाराणी) — ३५५।

महेन्द्रपाल (पहला, प्रतिहार राजा) — ३४।

महेन्द्रपाल (दूसरा, प्रतिहार राजा) — २२-३, २५, २६, ३२, ३४-५, ४४।

माणकलाल शाह (पाडलिया, प्रधान मंत्री) — ३५४।

माधव (महा सामंत) — ३४।

माधवराव सिंधिया (पहला, महादजी, ग्वालियर का महाराजा) — २४६-५१, २५३, २५५।

माधवराव सिंधिया (दूसरा, ग्वालियर का महाराजा) — ३४३।

माधवसिंह (जयपुर का महाराजा) — २२८।

माधवसिंह (शेखावत, सीकर का राव-राजा) — ३४३, ३५५।

माधवसिंह (पहला, अचलावदा का ठाकुर) — १६५, १६६, ३७०।

माधवसिंह (दूसरा, अचलावदा का ठाकुर) — ३७०।

माधवसिंह (महारावत सिंहा का पुत्र) — १२४।

माधवसिंह (जाजली का ठाकुर) — ३७३।

मानकुंवरी (महारावत भानुसिंह की राणी) — ११७।

मानजी (महारावत बाघसिंह का पुत्र) — ८४।

मानसिंह (कड़वाहा, आंबेर का राजा) — १०५, ३६१।

मानसिंह (प्रतापगढ़ का महाराजकुमार) — १६-२०, २६६, ३२८-२९, ३३२-३३, ३३६-४०, ३४२, ३४४, ३४६-५०, ३५७, ३६०।

मानसिंह (जोधपुर का महाराजा) — ३६४।

मानसिंह (महारावत जसवतसिंह का पुत्र) — १३६-३८, १६६।

मानसिंह (मानपुरा का स्वामी) — ३६७।

मानसिंह (किशनगढ़ का राजा) — १५८, २००।

मानसिंह (भैसरोड़गढ़ का रावत) — २५०।

मानसिंह (पयणावा का ठाकुर) — ३७६।

मालकम (सर जॉन, एजेंट-गवर्नर जेन-रल) — ११५-१६, १२०, १४३,

२१२, २५८, २६४, २६६-६७,
२६६ ।
मालदेव (जोधपुर का राव)—६२-४,
२५४ ।
माला (सोलकी)—११७ ।
माहप (सीसोदे का राणा)—४५ ।
मीर कज्जन (मंदसोर का हाकिम)—२०० ।
मुअज़्जम (शाहनाम बहादुरशाह,
सुगल बादशाह)—१८६-८७, १६५,
१६८-६९, २०१, २०८, २१२,
२१६ ।
मुईज़ुद्दीन (जहांदारशाह, बहादुरशाह
का शाहज़ादा)—१८७ ।
मुनइमखा (खानखाना, शाही सेवक)—
१८६ ।
मुराद (मुरादबख्श, शाहजहां का पुत्र)—
१३१, १४८, १५३ ।
मुहकमसिंह (पहजा, शक्लावत, भींडर
का महाराज)—१५७ ।
मुहकमसिंह (दूमरा, शक्लावत, भींडर का
महाराज)—२४८ ।
मुहकमसिंह (कोठारिया का रावत)—
२६३ ।
मुहम्मद अमीनख़ां (एतमादुद्दोला, शाही
अरुमर)—२३२ ।
मुहम्मदअली (सवार)—२८७ ।
मुहम्मदख़ा (शाही फौजदार)—२०२ ।
मुहम्मद गोरी (गज़नीख़ा, मालवे का
सुलतान)—४०, ४६ ।
मुहम्मदज़मां (शाही फौजदार)—२०२ ।
मुहम्मद तुगलक (मुहम्मदशाह तुगलक,
दिल्ली का सुलतान)—४० ।
मुहम्मद तुरा (शाही अरुमर)—१४७ ।

मुहम्मद बंगश (मालवे का सूबेदार)—
२२६ ।
मुहम्मद मुअज़्जम (बादशाह औरंगज़ेब का
शाहज़ादा)—१६३, १७६, १८२,
१८५ ।
मुहम्मद मुरार (शाही अफसर)—१४७ ।
मुहम्मदशाह (सूरवंशी सुलतान)—४२,
६५ ।
मुहम्मदशाह (सुगल बादशाह)—२१२-
१३, २१६, २२३, २२६-२८, २३२,
२३५, २३८, २४३ ।
मुहम्मदीवेग (मिर्जा, कामदार)—
३११, ३२५ ।
गुज (परमार राजा)—३७, ४५ ।
मुहणोत नैणली (ओसवाल महाजन,
ख्यातकार)—४६, ५५-६, ८०,
८२, ६७, १०४, १२८-२९, १४४,
१८३ ।
मेकडॉनल्ड (कप्तान ए०)—२७०-७२ ।
मेवराजकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की
राणी)—३५५ ।
मेदिनीराय (चदेरी का राजा)—७६ ।
मेयो (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जनरल)—
३०४, ३१६ ।
मेश (महाराणा खेता का दामीपुत्र)—
४७ ।
मैलिसन (जी० वी०, ग्रंथकर्ता)—२७१-
७२ ।
मोकल (मेवाड़ का महाराणा)—४६-७,
४६, १७३ ।
मोकल (केलवेवालों का पूर्वज)—६० ।
मोतीकुंवरी (महारावत दलपतसिंह की
राणी)—२६५ ।

- मोतीसिंह (छायाण का ठाकुर)—३७६।
 मोहकमसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
 १६४-६५, १८५, १६६, ३६६।
 मोहकमसिंह (न.दली का ठाकुर)—
 २८२, २८४, २६६।
 मोहकमसिंह (धमोतर का ठाकुर)—
 ३६४।
 मोहकमसिंह (वरड़िया का ठाकुर)—
 ३७१।
 मोहनकुंवरी (सीतामऊ के महाराजकुमार
 डा० रघुवीरसिंह की पत्नी)—३३६,
 ३५१-५२।
 मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या (नागर
 ब्राह्मण, कामदार)—३१८, ३२५।
 मोहनसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
 ३६६।
 मोहनसिंह (अनवोरा का स्वामी)—
 ३७४।
 मोहवतपत्रां (शाही सेवक)—१६३।
 मोहवतसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
 १६४-६५, ३६६।

य

- यश पाल (प्रतिहार राजा)—३६।
 यशवंतकुंवरी (महारावत रामसिंहजी की
 राजकुमारी)—३५५।
 यशोधर्मन् (मालवे का राजा)—२३।
 यशोवर्मा (मालवे का परमार राजा)—
 ३७-८।
 योगराज (गुहिल राजा)—४५।
 योध (महारावत हरिसिंह का सेवक)—
 १७१।

र

- रघुजी पायगिया (मरहटा अफसर)—
 २५०।
 रघुनाथ (राजा, शाही अफसर)—१६१।
 रघुनाथसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
 ११, १८-६, २५, ६८, ७२, १७०,
 २६६, ३१५-१७, ३३२-३३, ३४४-
 ४६, ३५०, ३६०, ३६८, ३७२,
 ३७५, ३७७-७६, ३८२।
 रघुनाथसिंह (रायपुर के ठाकुर केसरीसिंह
 का भाई)—३६८।
 रघुनाथसिंह (अरणोद का महाराज)—
 ३१६।
 रघुनाथसिंह (राणावत, धरियावद का
 रावत)—२५७।
 रघुनाथसिंह (सलूंवर का रावत)—
 १५७।
 रघुनाथसिंह (जाजली का ठाकुर)—
 ३७३।
 रघुवीरसिंह (डॉक्टर, सीतामऊ का राज-
 कुमार)—२१२, ३५१।
 रघुवीरसिंह (ठाकुर, कामदार)—३२६-
 २७, ३२६।
 रणमल (मंडोवर का राव)—४७।
 रणछोड़दास (रणछोड़, कर्याणपुरा का
 ठाकुर)—१६६, ३६५।
 रणछोड़दास (बोड़ी साखथली का ठाकुर)
 —३७२।
 रणजीतसिंह (आवात्रा का स्वामी)—
 ३७७।

रणधीर (महारावत सूरजमल का पुत्र)

—७१-२, ७४ ।

रणमल मंडोवर का राव —४७ ।

रणमल (रिड़मल, कल्याणपुरा का ठाकुर

—३६५ ।

रणवीर (महारावत चेमकर्ण का पुत्र)—

५३ ।

रणसिंह (गुहिल राजा)—४५ ।

रतना (सांखला)—६१ ।

रत्नकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की पुत्री)

—२०७ ।

रत्नकुंवरी (कोठारिया के रावत संग्राम-

सिंह की पौत्री)—२६३ ।

रत्नकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की पुत्री)

—२७५ ।

रत्नसिंह (मेवाड़ का महारावल)—४६ ।

रत्नसिंह (मेवाड़ का महाराणा)—७५, ७७ ।

रत्नलाल (पाडलिया, कामदार)—३१६,

३१८ ।

रत्नसिंह (बीकानेर का महाराजा)—

२७३ ।

रत्नसिंह (महाराणा अरिसिंह का प्रति-

पत्नी)—२४७-५१ ।

रत्नसिंह (रायपुर का ठाकुर)—३४७,

३६८ ।

रत्नसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—

३७० ।

रत्नसिंह (वोड़ी साखथली का ठाकुर)—

३७२ ।

रत्नसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७५-७६ ।

रत्नसिंह (रामपुरा का चन्द्रावत)—२०२,

२२८, २४१ ।

रत्नसी (भंडारी)—२२३ ।

रफीउदरजात (मुगल बादशाह)—२१६ ।

रफीउदौला (मुगल बादशाह)—२१६ ।

रफीउश्शान (बहादुरशाह का शाहज़ादा)

—२१६ ।

रॉक (मेजर)—२६२ ।

राघव (वल्लशी)—२५७ ।

राघवदास (कल्याणपुरा का ठाकुर)—३६५ ।

राघवदेव (देवगढ़ का रावत)—२४६ ।

राघवदेव (दूसरा, भाला, देलवाड़े का

राजराणा)—२४६-५० ।

राघवराम (पंडित)—२४६ ।

राजकुंवरी (भिणाय के राजा उदयभाण

की पुत्री)—२६३ ।

राजकुंवरी (महारावत सिहा की पुत्री)

—१२४ ।

राजकुंवरी (सैलाना के राजा दिलीपसिंहजी

की राणी)—३३५, ३४५ ।

राजधर (महारावत सूरजमल का पुत्र)

—७२ ।

राजशेखर (कवि)—३२ ।

राजसिंह (पहला, मेवाड़ का महाराणा)

—१२३, १५४, १५८, १६१-६२,

१७७-८०, २३८ ।

राजसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)

२४६-४७ ।

राजसिंह (किशनगढ़ का राजा)—१८८-

१६८, २००-१ ।

राज्यपाल (प्रतिहार राजा)—३६ ।

राणोजी सिन्धिया (ग्वालियर राज्य का

सस्थापक)—२२१, २३० ।

रॉबर्टस् (जेनरल)—२६२ ।

रॉबर्ट्स (सर जेम्स, सिविल सर्जन)—
३४२ ।

रॉविन्सन (कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल
एजेन्ट)—२८१, २८३, २८६ ।

राम (भ्रामकरावालों का पूर्वज)—२५४ ।

रामकुंवरी (महारावत बाघसिंह की
पुत्री)—८४ ।

रामकृष्णदास (रघुनाथद्वारे का महंत)—
२७६ ।

रामचन्द्र (भरहटा सेनापति)—२३० ।

रामचन्द्र (वेदला का राव)—२४६ ।

रामचन्द्र भाऊ (राजकर्मचारी)—२६४,
२६६-६७ ।

रामचन्द्र (अयोध्या के रघुवंशी राजा)—
३२ ।

रामदयालु शर्मा (राजवैद्य)—१७०, ३४८ ।

रामदान (रायपुर का ठाकुर)—१०२,
३६७ ।

रामभद्र (प्रतिहार राजा)—३३ ।

रामसिंहजी (सर सीतामऊ के राजा)—
३५१ ।

रामसिंहजी (सर, प्रतापगढ़ के वर्तमान
महारावत)—११, १६, ७२, १३६,
२६६, ३३४-३५, ३४३-४४, ३४८,
३५०, ३५५-५६, ३५६, ३७३ ।

रामसिंह (महाराणा रायमल का पुत्र)—
५६ ।

रामसिंह (डूंगरपुर का महारावल)—
२१५ ।

रामसिंह (रोटला) १३१, १३३-३४,
१३७, १४२ ।

रामसिंह मेहता (उट्टपुर का मंत्री)—
२८३ ।

रायेश्वर गौरीशंकर ओझा (एम० ए०,
प्रोफेसर)—५१ ।

रायमल (मेवाड़ का महाराणा)—५२-३,
५५-८, ६०-३, ६५, ७०, ७३,
८६, ११५ ।

रायसल (महारावत जैमकर्ण का पुत्र)—
५३ ।

रायसेन (मालवे का राजा)—७७ ।

रायसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
१७, ८४-५, ८७-६१, ६७, ११६,
१७३ ।

रायसिंह (वनेड़ा का राजा)—२५० ।

रावण (लङ्का का राजा)—३२ ।

राव साहब (विद्रोही)—२६२ ।

राहप (सीसोदा का राणा)—४५ ।

रिकेड्स (सी० एम०, सरकारी अफसर)
—२६७ ।

रिद्धमल—देखो रणमल, कल्याणपुरा का
ठाकुर ।

रुक्मांगद (कोठारिया का रावत)—
१५८ ।

रूपकुंवरी (महारावत जसवंतसिंह की
पुत्री)—१३८ ।

रूपकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की
पुत्री)—२५४ ।

रूपसिंह (खेरोटवालों का पूर्वज)—
१६६ ।

रूपसिंह (किशनगढ़ का राजा)—२०० ।

रेवाशंकर (पुरोहित)—३४८ ।

रोड़सिंह (महारावत सालिमसिंह का
पुत्र)—२५४ ।

रोड़सिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६४ ।

रोशनअख्तर (मुहम्मदशाह, बादशाह) —
२१६।

रंतिदेव (चद्रवशी राजा)—५१।

ल

लक्षसिंह (लाखा, मेवाड़ का महाराणा)
—४६, ४८-६।

लक्ष्मण (अयोध्या का रघुवंशी राजकुमार)
—३२।

लक्ष्मणदान (वारहट, चारण)—१८,
२६६।

लक्ष्मणसिंह (चौहान)—३०६।

लक्ष्मणसिंह (बांसवाड़े का महारावल)—
२८३, ३०८।

लक्ष्मणसिंह (अचलावदा का ठाकुर)—
३७०।

लक्ष्मीचंद्र (शाह, चंद्रभाण का पुत्र)—
२४३।

लक्ष्मीराम (नागर, राजकर्मचारी)—३१६।

लतीफुल्लाखा (शाही सेवक)—२०१।

लसाण (पाडलिया, राजकर्मचारी)—३८४।

लॉयल (सर ए० सी०, राजपूताने का
एजेन्ट गवर्नर जेनरल)—३०८।

लॉयड (कप्तान)—२८८-८६।

लॉरेन्स (जॉर्ज, मेवाड़ का पोलिटिकल
एजेन्ट)—२८६-८७, २६०-६१।

लॉरेन्स (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन-
रल)—२६६, ३०२।

लाखकुंवरी (महारावत विक्रमसिंह की
पुत्री)—१०२।

लालकुंवरी (महारावत दलपतसिंह की
राणी)—२६६-६७।

५६

लालसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—
३६६।

लालसिंह (झांतला का ठाकुर)—३६६।

लालसिंह (पहला, वरदिया का स्वामी)
—३७१।

लालसिंह (दूसरा, वरदिया का स्वामी)
—३७१।

लालसिंह (ग्रामभूरा का राव)—२५३।

लालसिंह (अरण्योद का महाराज)—
२५४, ३५६-६०।

लालसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७६।

लिटन (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेनरल)
—३१०।

लिनलिथगो (लॉर्ड, भारत का गवर्नर
जेनरल)—३५४।

लियरमाउथ (कप्तान)—२६२।

लूणकर्ण (बीकानेर का महाराजा)—
७२।

लेस्ली जोन्स (एफ० ए०, वर्तमान महा-
रावतजी का शिक्षक)—३५०।

लैंसडाउन (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जेन-
रल)—३१७।

ष

वर्द्धमान (मंत्री)—१६६, २०८-१०,
३८३।

षर्पाशाह (हुंवंड़, राजकर्मचारी)—१६८,
१७१, २१०, ३८३।

षत्सराज (रघुवंशी प्रतिहार राजा)—
३२।

षसभकुंवरी (महारावत विक्रमसिंह की
पुत्री)—१०२।

- वल्लभकुंवरी (वीकानेर के महाराजा सर गंगासिंहजी की महाराणी)—३२५, ३४४ ।
- वाक्पतिराज (सांभर का चौहान राजा)—४५ ।
- वायली (जॉन, लेफ्टिनेन्ट)—२७२ ।
- वाल्टर (कर्नल सी० कै० एम्०, राजपूताने का एजेन्ट गवर्नर जेनरल)—३४५ ।
- विक्टोरिया (सम्राज्ञी)—२६३-६५, ३१०-१२ ।
- विक्रमसिंह (बीका, प्रतापगढ़ का महारावत)—१७, ४२, ७२, ८८-९१, ९४-८, १००-३, ११६, ११८, १४४, १७३, ३४८, ३६१, ३६५, ३६७, ३८२ ।
- विक्रमसिंह (गुहिल राजा)—४५ ।
- विक्रमादित्य (मेवाड़ का महाराणा)—७६-८०, ८५-७, ९१-२ ।
- विग्रहपाल (गुहिल राजा)—३६ ।
- विजयकुंवरी (महारावत प्रतापसिंह की राणी)—१८६ ।
- विजयकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की राणी)—२०७ ।
- विजयपाल (प्रतिहार राजा)—३६ ।
- विजयसिंह (सवाई जयसिंह का भाई)—१८६ ।
- विजयसिंह (जोधपुर का महाराजा)—६३, २२१, २४८ ।
- विजयसिंह (गुहिल राजा)—४५ ।
- विजयसिंह (खेरोट का स्वामी)—६८ ।
- विजयसिंह (महारावत सालिमसिंह का पुत्र)—२५४ ।

- विजयसिंह (बांसवाड़ा का महारावत)—२५७ ।
- विजयसिंह (डूंगरपुर का महारावत)—३३७, ३३६ ।
- विट्ठलदास (गौड़, अजमेर का राजा)—१८६ ।
- विनायकपाल (प्रतिहार राजा)—३४ ।
- विंध्यवर्मा (परमार राजा)—३८ ।
- विभूतिसिंह (आंबीरामा का ठाकुर)—३६६ ।
- विवेकानन्द (विद्वान्, संन्यासी)—३३३ ।
- विशनसिंह (सेलारपुरा का ठाकुर)—३०७, ३७८ ।
- विश्वनाथ (भट्ट, तरवाड़ी मेवाड़ा ब्राह्मण)—२६, १६८-६९, १७१ ।
- वीरपुरी (महारावत पृथ्वीसिंह की राणी)—२११ ।
- वीरमदेव (मेड़ते का राव)—६२ ।
- वीरमदेव (धमोतर के ठाकुर हरिसिंह का पुत्र)—३६४ ।
- वृन्दावन (राजकर्मचारी)—१८० ।
- वेलेजली (अंग्रेज अफसर)—२७२ ।
- वैरट (गुहिल राजा)—४५ ।
- वैरिसिंह (गुहिल राजा)—४५ ।
- ब्रजकुवरी (महारावत रघुनाथसिंह की राणी)—३४५ ।

श

- शक्रिकुमार (गुहिल राजा)—४५ ।
- शक्रिसिंह (महाराणा प्रतापसिंह का भाई)—११०, १२८ ।
- शम्सुद्दीन अल्लमश (दिल्ली का सुलतान)—३६ ।

शमसुद्दौला खानदौरां (शाही अफसर) —
२०३।

शाहस्ताख़ां (गुजरात का सूबेदार) — १४८।
शायस्ताख़ां (मालवे का सूबेदार) —
१८६।

शार्दूलसिंह (बीकानेर का युवराज) — ३४४,
३५७।

शार्दूलसिंह (ख़वास का ठाकुर) — ३४४।
शार्दूलसिंह (सीधपुरा का स्वामी) —
१०२।

शार्दूलसिंह (वीरावाली का स्वामी) —
३७८।

शालिवाहन (गुहिल राजा) — ४४।
शॉवर्स (कप्तान, मेवाड़ का पोलिटिकल
एजेन्ट) — २८७-६०, २६२।

शाह आलम (दूसरा, मुगल बादशाह) —
१३-४, २१३, २४५, २५५।

शाहजहां (खुर्रम, मुगल बादशाह) —
१२१-२२, १२७-३१, १३३, १४२-
४३, १४६-४७, १४६-५०, १५३-
५४, १५६, १७५, २६१, ३६२।

शाहू (सतारा का राजा) — २२०-२२,
२३४।

शिवसिंह (नौजाना का ज़मींदार) —
२०२।

शिवसिंह (डूंगरपुर का महाराज) —
२२५, २३७, २४०।

शिवसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर) — ३७०।

शिवसिंह (वरड़िया के ठाकुर अजबसिंह
का पुत्र) — ३७१।

शिवाजी (छत्रपति, मरहटा राजा) —
२२०-२१, २६०।

शिवाजी (दूसरा, मरहटा राजा) —
२२०-२१।

शीलादित्य (गुहिल राजा) — ४४।

शुचिवर्मा (गुहिल राजा) — ४५।

शुजा (शाहज़ादा) — १५०।

शुजाख़ां (शुजा, अजमेर का सूबेदार,
१६७-६८।

शुजाख़ां (मालवे का सुलतान) — ४२,
६५।

शृङ्गारकुंवरी (महारावत सूरजमल की
राणी) — ७२।

शेखधर (महारावत चेमकरण का पुत्र) —
५३।

शेरबुलन्दख़ां (शाही सेवक) — १८५,
१६५।

शेरशाह सूर (दिल्ली का बादशाह) —
४१, ६१-६३, ६५।

शेरसिंह (बोड़ीसाखथली के ठाकुर बल-
वंतसिंह का पुत्र) — ३७२।

शंभाजी (मरहटा राजा) — २२०।

शंभूसिंह (मेवाड़ का महाराणा) —
३१६।

शंभूसिंह (आंवीरामा का ठाकुर) —
३६६।

शंभूसिंह (पणणावा का ठाकुर) — ३८०।

श्यामकुंवरी (महारावत बाघसिंह की
पुत्री) — ८४।

श्यामलदास (महामहोपाध्याय, कविराजा,
ग्रंथकार) — १३२, १३७, १४५,
२५३।

श्यामसिंह (मेवाड़ के गरीबदास का
पुत्र) — १८०।

श्रीहर्ष (परमार राजा)—३७ ।
श्रीहर्ष (वैसंशी राजा)—२६ ।

स

सज्जनसिंह (मेवाड़ का महाराणा)—
३१८ ।
सदाकुंवरी (महारावत सिंहा की पुत्री)
—१२४ ।
सदाराम देपुरा (उदयपुर का मंत्री)—
२४६ ।
सक्रदरश्रीश्री (मुंशी)—२८६ ।
सबलसिंह (कड़वाहा)—१८६ ।
सबलसिंह (चौहान, वेदला का राव)—
१५७ ।
सबलसिंह (भ्रांवीरामा का ठाकुर)—
३६६ ।
समरसिंह (बांसवाड़े का महारावल)—
१२५, १६१, १६२ ।
समरसिंह (मेवाड़ का महारावल)—४६ ।
समुद्रकुंवरी (महारावत भानुसिंह की राणी)
११७ ।
सय्यद गफ़्फ़ार (मौलवी, शिक्षक)—
३५० ।
सरदारसिंह (वनेड़ा का राजा)—२३८ ।
सरदारसिंह (महारावत सामन्तसिंह का
सामा)—२५७ ।
सरदारसिंह (बीकानेर का महाराजा)—
२०३ ।
सरदारसिंह (महारावत सामन्तसिंह का
पुत्र)—२७५ ।
सरदारसिंह (सालिमगढ़ के ठाकुर हिम्मत-
सिंह का पुत्र)—३६६ ।

सरदारसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
३७० ।
सरदारसिंह (नागदी का ठाकुर)—३७७ ।
सरूपकुंवरी (महारावत सामन्तसिंह की
राणी)—२७५ ।
सरूपकुंवरी (महारावत उदयसिंह की राणी)
—२६७, ३१३, ३८१ ।
सलखा (मंडोवर का राव)—६० ।
सलहदी (तंवर, रायसेन का स्वामी)—७७ ।
सलीम—देखो जहांगीर बादशाह ।
सलीमशाह शूर (इस्लामशाह, शेरशाह
सूर का पुत्र)—६२ ।
सवाईसिंह (मूलथान का स्वामी)—३७५ ।
सहसमल (महाराणा उदयसिंह प्रथम का
पुत्र)—५५-५६, ७२ ।
सादूल (नरहरोत)—१२६ ।
सॉमरसेट (ब्रिगेडियर)—२६३ ।
सामन्तकुंवरी (महारावत सिंहा की पुत्री)
—१२४ ।
सामन्तसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—
१८, २०, २१३, २५४-५८, २६३-
६४, २६६-७०, २७२-७६, २७६,
२८१, २८४, ३५६, ३६८, ३७५ ।
सामन्तसिंह (मेवाड़ का स्वामी)—४५-६ ।
सामन्तसिंह (कोठारिया का रावत)—
२६३ ।
सामन्तसिंह (श्रमरेठा का महाराज)—
३६६ ।
सामन्तसिंह (पहला, धरदिया का स्वामी)
३७१ ।
सामन्तसिंह (दूसरा, धरदिया का स्वामी)
३७१-७२ ।

सारंगदेव (कानोड़वालों का पूर्वज) — ५३,
५५-७, ५६, ६१-४, ६७-६, ८० ।
सालिमसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत) —
१३-४, १६, २७, २१२-१३, २२४-
२५, २४१, २४३-४५, २५२-५३,
२५५, २५६, २६१, ३५६, ३६३,
३७४, ३७७-७८, ३८४ ।
सालिमसिंह (महारावत उम्मेदसिंह का
पुत्र) — २१७-१८ ।
सिकन्दर (सम्राट्) — १५६ ।
सिकन्दर शाह सूर (दिल्ली का सुल-
तान) — ६२ ।
सिद्धराज — देखो जयसिंह सोलंकी ।
सिंधुराज (मालवे का परमार राजा) —
३७, ४५ ।
सिम्पसन (कप्तान) — २८६ ।
सिंह (गुहिल राजा) — ४४ ।
सिंहा (प्रतापगढ़ का महारावत) — १८,
१०७, १११-१३, ११७-२०, १२२-
२८, १३२, १४५, १७३, ३६६-
६७, ३७२, ३७६ ।
सुन्दर (जाजली का ठाकुर) — ३७३ ।
सुन्दर (शाह चन्द्रभाण का पुत्र) —
२४३, २५४, ३८४ ।
सुभटवर्मा (परमार राजा) — ३८ ।
सुरजन (रायपुर का ठाकुर) — १०२,
३६७ ।
सुरताणसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर) —
६७, ३६५ ।
सुरतान (सोलंकी) — ६१ ।
सुलतान (बूंदी का हाड़ा राव) — ८८ ।
सुलतान क्रादिर — देखो मस्खूखां ।

सुलतानसिंह (भाला, सादड़ीवालों का
पूर्वज) — १५७ ।
सुलेमानशिकोह (शाहजादे दाराशिकोह
का पुत्र) — १५० ।
सूरजकुंवरी (महारावत पृथ्वीसिंह की
पुत्री) — २०७
सूरजकुवरी (महारावत जसवंतसिंह की
पुत्री) — १३८ ।
सूरजकुंवरी (महारावत गोपालसिंह की
पुत्री) — २४१ ।
सूरजकुवरी (शाहपुरा के राजाधिराज उम्मे-
दसिंहजी की राणी) — ३३३ ।
सूरजमल (प्रतापगढ़ का महारावत) — १७,
४१-२, ५३-५, ५७-६, ६१-७५,
८०, ८३, ६१, ६७, १०३, १७३,
३६१, ३६५, ३७२ ।
सूरजमल (मेवाड़ के महाराणा उदय-
सिंह प्रथम का पुत्र) — ५५-७ ।
सूरजमल (हाड़ा, बूंदी का राव) — ७५-६,
८४, ६४ ।
सूरजमल (सादड़ी का सरदार) — ११५ ।
सूरजमल (बोड़ी साखथली के ठाकुर
छत्रसाल का चाचा) — ३७२ ।
सूर्यमल (मिश्रण, ग्रंथकार) — १२५ ।
सेटनकर (डब्ल्यू० एस्०, भारत गवर्न-
मेन्ट का सेक्रेटरी) — ३०५ ।
सैसमल (सहसमल, धमोतर का ठाकुर)
— ७१-२, ६६, ३६१, ३७२ ।
सोड़ा (राव) — ४७ ।
सोभागमल (ढहा, सेठ) — ३२६ ।
सौभाग्यकुंवरी (महारावत हरिसिंह की
पुत्री) — १६५ ।

सौभाग्यकुंवरी (महारावत प्रतापसिंह की राणी)—१८६ ।

संग्रामसिंह (रामसिंह, प्रतापगढ़ का महारावत)—२०६, २१३-१५ ।

संग्रामसिंह (पहला, सांगा, मेवाड़ का महाराणा)—५६, ५८-६१, ६३, ७०-१, ७४-६, ८५ ।

संग्रामसिंह (दूसरा, मेवाड़ का महाराणा)—१११, २०३-५, २११, २१८, २२१, २२५, २२८, २३०-३१, २३४, २३७ ।

संग्रामसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—३६६ ।

संग्रामसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७५ ।

संसारचंद्र (महारावत सूरजमल का पुत्र)—७२ ।

सांवलदास (झांतला का स्वामी)—११८-१९ ।

स्ट्रार्ट (जे०, अंग्रेज़ अफसर)—२६७ ।

स्ट्रेटन (कप्तान चार्ल्स)—३०६ ।

स्वरूपसिंह (वीकानेर का महाराजा)—१६५ ।

स्वरूपसिंह (उदयपुर का महाराणा)—२८४ ।

स्वरूपसिंह (पण्णावा का ठाकुर)—३८० ।

ह

हचिन्सन (कर्नल, मेवाड़ का पोलिटिकल एजेंट)—३०२, ३०४ ।

हम्मीरसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३१४, ३६४ ।

हम्मीरसिंह (महारावत उदयसिंह का पुत्र)—२६७ ।

हम्मीरसिंह (कुशलगढ़ का राव)—२८३, २९५-९६ ।

हम्मीरसिंह (मेवाड़ का महाराणा)—४६, २५७ ।

हरकुंवरी (महारावत जसवंतसिंह की पुत्री)—१३८ ।

हरराव (हथनारा का पंवार)—१०६ ।

हरिसिंह (प्रतापगढ़ का महारावत)—१८, १३२, १३६, १३८, १४१-४७, १५१, १५३-५५, १५८-६०, १६३-६७, १६६-७३, १७७, १९१, १९३, २२४, २४३, ३६२, ३६८-६९, ३७०, ३८३ ।

हरिसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६४ ।

हरिसिंह (कल्याणपुरा का ठाकुर)—३६६ ।

हरिसिंह (वरखेड़ी का ठाकुर)—३७४ ।

हरिसिंह (बोड़ीसाखथली का ठाकुर)—३७२ ।

हरिसिंह (धनेसरी का ठाकुर)—३८० ।

हसनखां (इब्राहीम लोदी का सेनापति)—७४ ।

हाजीख़ां (शेरशाह का सेनापति)—६२-४ ।

हार्डिंज (लॉर्ड, भारत का गवर्नर जनरल)—३३६-३७ ।

हिन्दूसिंह (धमोतर का ठाकुर)—३६४ ।

हिन्दूसिंह (रायपुर का ठाकुर)—३६८ ।

हिन्दूसिंह (साजिमगढ़ का ठाकुर)—३७० ।

हिम्मतसिंह (वरखेड़ी के ठाकुर रत्नसिंह
का भाई)—३७६ ।

हिम्मतसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
१६४-६५ ।

हिम्मतसिंह (नांदली का ठाकुर)—
२८२, २८४, २६६-६७ ।

हिम्मतसिंह (सालिमगढ़ का ठाकुर)—
३६६ ।

हिमार (अज़ीज़ हिमार, धार का हाकिम)
—४० ।

हुमायू (मुग़ल बादशाह)—४१, ४८,
७८, ८०-३, ६१-२, ६५ ।

हुसेनअलीख़ां (शाही अफ़सर)—१८७ ।

हृदयेश (ग्रंथकार)—१७४ ।

हेबर (बिशप, ग्रंथकार)—२७१ ।

हेमाद्रि (ग्रंथकार)—१७४ ।

हेस्टिंग्स (मारक्विस ऑव् हेस्टिंग्स, भारत
का गवर्नर जनरल)—२१३, २६३,
२६७ ।

होम (कर्नल् ए० टी०, राजपूताने का एजेंट
गवर्नर जनरल)—३३५ ।

होशंग (अल्पखां, मालवे का सुल्तान)
—४०, २२८ ।

होशंग (मांडू का सुल्तान)—४८-५१ ।

हंटर (कप्तान)—२८२ ।

हंसपाल (गुहिलराजा)—४५ ।

हंसपुरी (गोसांई)—१४५, १६८ ।

ह्यूरोज़ (सर, अंग्रेज़ अफ़सर)—२६२ ।

(ख) भौ गोलिक

++5++

अ

- अगरान (गांव)—१०२ ।
 अचलपुर (गांव)—३ ।
 अचलावदा (ठिकाना)—३, ११-२,
 १६५, २७७, ३२१, ३७० ।
 अचेरा (दुर्ग)—२७१-७२ ।
 अजमेर (नगर)—२४, २७, २६, ६२-
 ४, १२१, १५४, १७०, १७८-७६,
 १८६, १८६, १६७-६८, २४१,
 ३१६, ३२६, ३२६, ३३३, ३३७,
 ३४८, ३५०, ३५७, ३६०, ३६५,
 ३७३, ३७६ ।
 अजमेर-मेरवाड़ा (प्रान्त)—३३७ ।
 अजदा (गांव)—३०७, ३६६ ।
 अनघोरा (ठिकाना)—३७३-७४ ।
 अवेली (गांव)—२५५ ।
 अमरेठा (ठिकाना)—३६६ ।
 अमलावट (गांव)—६, ११६, १४३,
 २०८, ३१३ ।
 अयोध्या (नगर)—३१४ ।
 अरणोद (ठिकाना)—४, ८-१२, २५,
 ४१, १२१, १२७-२८, १३८,
 १४५, २५४, ३१५-१६, ३२१,
 ३२८-२९, ३३२-३३, ३३८, ३४४,
 ३५६-३६० ।

- अलवर (राज्य)—३३६ ।
 अलिपुरा (ठिकाना)—३७ ।
 अवलेसर (गांव)—६, १४२ ।
 अहमदनगर (नगर)—३६४ ।
 अहमदाबाद (नगर)—१४४, १४७-४६,
 १५१-५२, १५४, १६२ ।

आ

- आकोला (गांव)—२६२ ।
 आगरा (नगर)—४३, १४६, १५०,
 १५२-५३, १६८, १९७, २१६,
 २६६ ।
 आनर्त (देश)—३३ ।
 आमभरा (कस्बा)—२२७, २५३-५४ ।
 आमलसर (गांव)—१४३ ।
 आमेर (आंवेर, कस्बा)—१०५, १८६-
 ८७, २०१, २०३, २२२, २२६,
 ३६१ ।
 आसावता (गांव)—३८४ ।
 आसींद (ठिकाना)—३११, ३१५ ।
 आहाड़ (आघाटपुर, प्राचीन नगर)—
 ४५ ।
 आंध्र (देश)—३३ ।
 आंबीरामा (ठिकाना)—११-२, ८४,
 ३०६, ३२१, ३६६ ।

इ

इन्दौर (नगर, राज्य)—२, ५०-१,
२०२, २२१, २५४, २५६, २५६,
३१० ।

इलाहाबाद (नगर)—२२६, ३७६ ।

इंग्लैण्ड (देश)—३११ ।

ई

ईडर (राज्य)—३१, ५२, ८८, ११७,
२५७, २७५ ।

उ

उज्जैन (नगर)—३४, ४०, १४४,
१४८-४९, १५१-५२, १६७, २०१,
२२७, २५०-५१ ।

उदयपुर (नगर, राज्य)—२, १४, ४३,
४८, ५२-३, ७८, ६२, १११, १२२-३,
१२७, १३१-३३, १३६-३७, १४१,
१५५, १५७, १८१, १८३, १८७,
१८३-८४, २०३-६, २०८-९, २११,
२१६, २१८, २२१-२५, २२८,
२३०-३१, २३४-३५, २३७-४०,
२४२, २४६-४७, २४९-५१, २५३,
२५५-५७, २६१, २६८-६९, २८०,
२८३-८४, २८७-८९, २९२, ३०७-
८, ३१०, ३१६, ३१८, ३६१-६२,
३६५, ३७१, ३८४ ।

उमटवाड़ा (प्रान्त)—३८ ।

ऋ

ऋषभदेव (जैन तीर्थ)—५२ ।

५७

ए

एकलिङ्ग (तीर्थ)—४४, ५२ ।

ऐ

ऐरा (नदी)—२, ३ ।

क

कचरोद (खाचरोद, कस्तुरी)—२८८ ।

कच्छ (राज्य)—१५४ ।

कटकदी (गांव)—३४२ ।

कडागा (ठिकाना)—२६६ ।

कणगोटी (ठिकाना)—११० ।

कनौरा (करनौरा, गांव)—४, ८, १०,
२७१, ३२१ ।

कन्नौज (नगर)—५२-३, २६, ३१,
३२ ३, ३६-७ ।

करजू (गांव)—६७, ३६५ ।

करमदी का खेड़ा (गांव)—५२ ।

करमोई (नदी)—२, ३ ।

कराहिया (गांव)—११०, २४१, २५४ ।

करोली (राज्य)—२३१ ।

कलकत्ता (नगर)—२८७ ।

कलथागा (गांव)—२७४ ।

कलिंग (देश)—३३ ।

कल्याणपुरा (कल्याणपुर, डोडेरिया खेड़ा,
ठिकाना)—११२, ७२, ६८,
१८३, १६६, २१७, २४१, ३२१,
३६३, ३६५-६६, ३७७ ।

काठियावाड़ (प्रदेश)—३७, ४५, ३५५ ।

कानगढ़ (गांव)—२, ३६७ ।

कानपुर (नगर)—२८७ ।
 कानोड़ (कान्होड़, ठिकाना)—५३, ८०,
 २४६, २४६, ३११ ।
 कावुल (नगर)—१२८ ।
 कामलियाखाल (स्थान)—५ ।
 काजपी (नगर)—५० ।
 कालिंजर (प्रदेश)—३६ ।
 काशी (घनारस, तीर्थ)—१०, ५१,
 १५०, ३३४, ३४२ ।
 काश्मीर (राज्य)—३३५, ३३६ ।
 कांकरोली (तीर्थ)—२६३ ।
 कांठल (प्रदेश)—१, १७, ४२, ५७, ७०-
 ७२, ६०-१, ६५, ६७, १०२,
 १४३-४४, १६६, १६४-६५, ३६१,
 ३६५, ३८३ ।
 किरात (देश)—३३ ।
 किशनगढ़ (कृष्णागढ़, राज्य)—१५८,
 १६०-१, १६५, २००-१, २७५,
 ३३६, ३७३ ।
 कीटखेड़ी (गांव)—१६८, १७०, ३४८ ।
 कुणी (गांव)—६ ।
 कुलथाना (गांव)—६ ।
 कुशलगढ़ (ठिकाना)—२८३, २६२,
 २६५-६६, ३११ ।
 कुशलपुरा (गांव)—१८१ ।
 कुंडा (गांव)—४४ ।
 कुंडाल (परगना)—१२० ।
 कुंभलगढ़ (दुर्ग)—६०-१, ६३, ८७-
 ८, ६०, २४८ ।
 फेरय्या (गांव)—२६५ ।
 फेलवा (ठिकाना)—६० ।
 फेसूदा (गांव)—२८६ ।

कोटड़ी (गांव)—८, ६, ६५-६, १४७,
 २१२ ।
 कोटा (नगर, राज्य)—२०१, २०४, २३१,
 २३३, २४०, २४६, ३७४ ।
 कोटेश्वरी (नदी)—२६२ ।
 कोठारिया (ठिकाना)—८७, १५८,
 २६३, २६२ ।
 कोलवी (गांव)—२७६ ।
 कोल्हारी (गांव)—१०५ ।
 कोल्हापुर (राज्य)—२२० ।
 कंधार (गांव)—३७४ ।
 कंधार (कंदहार, नगर)—७४३ ।
 क्षिप्रा (नदी)—२५७ ।

ख

खड़ावदा (गांव)—५०-१ ।
 खडियाखेड़ी (गांव)—३७४ ।
 खमणोर (कस्बा)—१०५ ।
 खरदेवला (गांव)—७० ।
 खवास (ठिकाना)—३२८, ३३२, ३४४ ।
 खानवा (युद्धक्षेत्र)—७१, ७५, ६८ ।
 खीवसर (ठिकाना)—२४८ ।
 खेड़ (गांव)—४५ ।
 खेड़ा (गांव)—२७८ ।
 खेतड़ी (ठिकाना)—३२६, ३३३,
 ३३५, ३४१, ३५० ।
 खेरवाड़ा (छावनी)—२८२, २८६ ।
 खेरोट (केरोट, कस्बा)—३, ६, २३,
 २५, ६५-६, ६८, १६६ ।

खैराबाद (क़स्बा)—५७ ।
खोदीप (गांव)—३६१, ३७१ ।

ग.

गढ़वाल (राज्य)—३३६ ।
गढ़ी (ठिकाना)—२५७, २७२-७३,
२७५ ।
गया (तीर्थ)—२३४ ।
गयासपुर (प्राचीन स्थान)—२७, ४१,
६१, ६६, १०३, १२२-२३, १५४-
५५, १५७-५८, १५६-६०, १६२ ।
गिरवा (ज़िला)—६१ ।
गुजरात (प्रांत)—१३, ३७, ४१, ४५-
७, ४६, ७४, ७६-८, ८३, ८५,
६१-२, ६४, ६८, १४८-५०, १७६,
२२३, २२६-२७, २३६-३७, २५३,
२६१, २६४, ३५५ ।
गोगूँदा (ठिकाना)—१०५, २४७ ।
गोठिया (गांव)—७० ।
गोवर्द्धनपुर (गांव)—२४४ ।
गौतमेश्वर (तीर्थ)—२५ ।
गंगराठ (गंगराल, गांव)—२५२ ।
गंभीरी (नदी)—६३ ।
गंधेर (गांव)—३, ६ ।
ग्वालियर (राज्य)—२, ३, ५, १४,
३१-३, ३८-६, ८१, ६३, १०२,
१०६, २२१, २५५, २७२, २६२,
३२०, ३४३ ।

घ

आणोराव (ठिकाना)—२४३ ।

घोघेरियाखेड़ा (छोडरिया का खेड़ा,
गांव)—१, १६ ।
घोटासी (प्राचीन स्थान)—३, २१,
२३-५, २६, ३४, ४४ ।

च.

चाटसू (क़स्बा)—४३ ।
चारणखेड़ी (गांव)—७० ।
चित्तोड़ (दुर्ग)—३६, ४३, ४५-८, ५५,
६३, ६५, ६६, ७४, ७६-८५, ८८,
६०, ६२, १०४, १०६, ११५-६,
१४५, १७६, १८१, २२८, २५२,
२६२ ।
चीताखेड़ा (गांव)—१११ ।
चूंपना (गांव)—६ ।
चंबल (चर्मणवती, नदी)—२, ३, ५०-१,
२६२ ।

छ

छन्याखेड़ी (गांव)—१७० ।
छायण (ठिकाना)—३७८-७६ ।
छोटा उदयपुर (राज्य)—२६२ ।

ज

जजाओ (युद्धक्षेत्र)—१८६, २०१ ।
जयपुर (राज्य, नगर)—४३, ६२-३,
२०१, २०३-४, २०८, २१७, २२२-
२४, २२८, २३१, २३३-३५, २३७,
२३६-४१, २५०, २६१, ३५१,
३५१, ३७६ ।

- जर्मनी (देश)—३३८ ।
 जलखेड़िया (गांव)—६६ ।
 जहाज़पुर (कस्बा)—४७, २३८ ।
 जाकम (जाखम, नदी)—२, १८३ ।
 जाखमिया (गांव)—२ ।
 जाजली (ठिकाना)—३, ६, ११-२,
 ७२, १८३, ३६२, ३७२-७३ ।
 जाट (गांव)—२६२ ।
 जानागढ़ (ज़िला)—२० ।
 जामनगर (राज्य)—३३६ ।
 जालिंधरी (ठिकाना)—२६२ ।
 जालोर (कस्बा)—४७, १६७ ।
 जावद (कस्बा)—२४६, २५१, २८६ ।
 जावर (योगिनीपुर, कस्बा)—५२-३ ।
 जावरा (राज्य)—२, ५, १४, २५५ ।
 जीमखेड़ा खेड़ी (गांव)—२०८ ।
 जीरण (कस्बा)—३६, १०६-१०,
 ११४, ११८-१६, १३०, २५१,
 २८६ ।
 जीरापुर (कस्बा)—२६३ ।
 जीलवाड़ा (ठिकाना)—४७ ।
 जेठयाखेड़ी (गांव)—२४३ ।
 जोजावर (गांव)—१३१ ।
 जोधपुर (नगर, राज्य)—७२, ६२-४,
 १३१, १५४, १७८, १८६-८७, १८६-
 ६०, १६३-६५, २०३, २०८, २१७-
 १८, २२१-२४, २३१, २३३, २४०-
 ४१, २४५, २४८, २५४, २६१,
 ३१४, ३६४ ।
 जोरावरपुरा (ठिकाना)—३७३ ।

झ

- झाबुआ (राज्य)—२५४ ।
 झालामंड (ठिकाना)—७२, ३६४ ।
 झालावाड़ (राज्य)—१४, २६२ ।
 झांतला (ठिकाना)—११-२, १०२,
 ११८-१६, १३८, १४४, १८१,
 १६६, ३२१, ३६८-६६, ३७६ ।
 झांसी (ज़िला)—२८७, २६१ ।

ट

- टीकर्या (गांव)—२४३ ।
 टेहरी (राज्य)—३३६ ।
 टोपला (गांव)—२५१ ।
 टोंक (राज्य)—२५५, ३०८ ।

ठ

- ठाकरडा (गांव)—२८६ ।
 ठीकरा (गांव)—१४६, १६८ ।

ड

- डुमरांव (संस्थान)—३५५ ।
 डूंगरपुर (राज्य)—८, १४, १६, ७५-
 ६, ८७-८; ६०, ६३, ६८, १००,
 १०३, १०५, १२१, १२७, १३०,
 १४३, १४५, १५४, १८४, २०५,
 २२५, २३७, २४०-४१, २४५,
 २५५, २५७, २६८-६६, २७४-७५,

२८१-८४, २८५-८७, २६६, ३३०,
३३७, ३३६ ।

हूंगला (गांव)—२८८ ।

डोराणु (गांव)—२४३ ।

डोराना (गांव)—६, १६३-६४, ३८०-८१,
३८४ ।

ढ

ढोस (गांव)—३७३ ।

त

तागा (ठिकाना)—८८ ।

तुरुष्क (तुर्किस्तान, देश)—३३ ।

थ

थदा (गांव)—२४४ ।

थाहरून (गांव)—७० ।

द

दमदम (छावनी)—२८७ ।

दलोट (गांव)—६, ६५-६ ।

दाङ्गिमपुर (दाङ्गमी, गांव)—५२-४ ।

दामाखेड़ी (गांव)—१००-१, १०७ ।

दारु (ठिकाना)—२८६ ।

दांता (राज्य)—३१ ।

दिल्ली (नगर)—१३, ३८-४२, ४६,
५०, ५६, ७४-५, ७८, ६१-२, ६४-

५, १०४, १४२, १५०, १५३-५४,
२१२-१३, २१६; २२१, २४५-६,
२६१, २८७-८८, ३१०, ३३६,
३४५ ।

दीव (बंदरगाह)—४१, ८३ ।

देवारी (स्थान)—१५६, १८० ।

देपालपुर (ज़िला)—२०२ ।

देल्वाड़ा (ठिकाना)—२४६ ।

देवगढ़ (ठिकाना)—२४६-५०, २६२ ।

देवद (ठिकाना)—२४१, २५४, ३३८,
३६३, ३७७ ।

देवलिया (देवदुर्ग, देवलपत्तन, देवगिरि,
देवगढ़, प्रतापगढ़ राज्य की पुरानी-
राजधानी)—१, ३, ५, ६-११,
१५-१६, २८, ३६, ४१, ७०, ७६,
८३, ८७, ६४, ६६-७, १०४-१४,
११७-२०, १२२-२४, १२७, १२६,
१३२-३४, १३७-३८, १४१-४५,
१५१, १५४-५५, १५८-५६, १६३-
६८, १७१-७२, १७७, १७६, १८१,
१८३-८४, १८६-९०, १८२-८४,
१६७-६६, २०१-५, २०८-१०, २१२-
१३, २१७-१८, २२४-५, २३३-३४,
२३७, २४३, २४५, २५६, २६५,
२६७-६६, २७१, २७५-७७, २७६-
८१, २६६, २६६, ३१५, ३१६-२०,
३४३-४६, ३४८, ३६१-६२, ३६५,
३६७, ३७१, ३७३, ३७५, ३८०,
३८३-८४ ।

देवास (राज्य)—३६ ।

देवासला (गांव)—२४४, ३८४ ।

देसूरी (क़स्बा)—६० ।

दोतब (गांव)—२७६

झरिका (तीर्थ)—२५६, २७७-६ ।

ध

धनेसरी (गांव)—२४३, ३८० ।

धमोतर (ठिकाना)—५; ६-१२, २७,
७२, ६७, ११६, १४१-४२, १६०,
१६६, ३१४, ३१६, ३२१, ३६१-
६५, ३७४ ।

धर्मातपुर (कृतिहावाद, युद्धक्षेत्र)
—१५२ ।

धरियावद (ठिकाना)—२, ३, ५, ३४,
८५, १२६, १४४, २०३, २१२,
२२४, २२५, २५२-५३, २५७,
२८०, ३०६ ।

धामल्या (गांव)—६ ।

धामुनी (झुलाक़ा)—२२० ।

धार (राज्य)—३६-४०, ७६, २२२ ।

धारता (गांव)—७०, ७३ ।

धौलपुर (राज्य)—३३६ ।

ध्रांगधरा (राज्य)—३३७; ३३६,
३५५ ।

न

नकोर (गांव)—५ ।

नर्मदा (नदी)—२०१-२, २२० ।

नरयाना (नौलाना, गांव)—२०२ ।

नरसिंहगढ़ (राज्य)—३३८-३६ ।

नसीरावाट (छावनी, नगर)—४ ।

नाई (गांव)—६३ ।

नागदा (नागहद, प्राचीन स्थान)—३६,
४४ ।

नागदी (ठिकाना)—१२४, ३३८, ३७६-
७७ ।

नागोद (राज्य)—३७ ।

नागोर (नगर)—४६, २४०, २४८ ।

नाडोल (प्राचीन स्थान)—४६ ।

नाथद्वारा (तीर्थ स्थान)—१०५, २३५,
२४३-४४, २६२ ।

नाथूखेड़ी (गांव)—२४२ ।

नानण (गांव)—३७४ ।

नामली (ठिकाना)—२६५, २६७,
३१३, ३८१ ।

नांदली (ठिकाना)—२८२, २८४, २६६ ।

निक्सनगंज (गांव)—२८६ ।

नीनोर (प्राचीन स्थान)—६, २६-७,
६५-६, २४४, २५५ ।

नीमच (छावनी)—४, ५, ८, ३६,
६३, ७७, १०६-१०, ११६,
१३०, १८१, २५१, २६४, २८३,
२८७-८६, ३०८, ३१०, ३१२ ।

नींबाहेड़ा (परगना)—१४, ७२, ६७,
२५५, २८६, ३०८, ३६१ ।

नौगांवा (गांव)—६ ।

प

पययावा (ठिकाना)—३७६-८० ।

परतावखेड़ा (गांव)—१७० ।

पलथाना (गांव)—६५-६, २११ ।

पलाशिया (पलासकृषिका, गांव)—२२,
३६, ४४ ।

पाटण्या (गांव)—१६, १६६, १७२,
१६२, ३८३ ।

पानमोढी (गांव)—६, १४३ ।
 पानीपत (युद्धक्षेत्र)—७४ ।
 पारल्या (गांव)—६ ।
 पाली (कस्बा)—८८ ।
 पालीताना (राज्य)—४५ ।
 पांचाल (देश)—३७ ।
 विपरोढा (गांव)—२७८ ।
 पीपलिया (गांव)—२३४ ।
 पीलू (गांव)—६ ।
 पीपलोदा (राज्य)—५, १८४-५, १६५ ।
 पुष्कर (तीर्थ)—३३, ४७, २१७,
 २४०, ३१५ ।
 पूना (नगर)—२२०, २३६ ।
 पंजाब (प्रांत)—३४१ ।
 प्रतापगढ़ (नगर, राज्य)—१-३, ५-७,
 ६-११, १३-१५, १७-२६, ३४, ३६-
 ४१, ४३-४, ४७, ४६, ५३, ५७,
 ६८, ७२, ७८, ६०, १००, १०२,
 १०७, ११५-१६, १३६, १४२-४३,
 १४६, १७०, १७५, १८१, १८३-
 ८४, १८६, १८३-६४, १६७, २०१,
 २०४, २०७, २१३-१४, २१६-१८,
 २२४, २३७, २४०-४१, २४४-
 ४६, २५२-५३, २५५-६०, २६२-
 ७३, २७५-७७, २८०-८४, २८६,
 २६०, २६२, २६४-३२१, ३२४-
 २७, ३२६-३२, ३३४-३६, ३३६-
 ४३, ३४६, ३४८-५३, ३५६,
 ३५८-५६, ३६२, ३६६-७१, ३७४,
 ३७६-८४ ।

फ

फ़तहगढ़ (गांव)—२६३, ३७३ ।
 फ़तहपुर सीकरी (प्राचीन स्थान)—७१ ।
 फलोधी (ज़िला)—१८७ ।
 फूलिया (गांव)—१३० ।
 फ़ांस (देश)—३३८ ।

व

वख़्तगढ़ (कस्बा)—३७५ ।
 वगढ़ावद (गांव)—१६४, ३६६ ।
 वगड़ी (ठिकाना)—६३ ।
 बगवा (गांव)—१०३ ।
 बगाणा (गांव)—२८६ ।
 बजरंगगढ़ (गांव)—४, १०, ३२१ ।
 बडवासकलां (गांव)—४ ।
 बड़ोदा (चटपद्रक, प्राचीन स्थान)—४६ ।
 बदनावर (कस्बा)—२३८ ।
 बदनोर (ठिकाना)—१५४ ।
 बदायूं (ज़िला)—३७ ।
 बनेड़ा (ठिकाना)—२३८-३६, २५० ।
 बमोतर (गांव)—२७, १६४, ३५४ ।
 बरडिया (ठिकाना)—११, १२, ३२१,
 ३७०-७२, ३७८ ।
 बरवाड़ा (कस्बा)—१३१ ।
 बराद (इलाक़ा)—१५०-५२ ।
 बरेली (नगर)—२८७ ।

- बर्दवान (नगर)—२७६ ।
 बसावर (बसाढ़, गांव)—६, २३, २७-
 ८, १२१, १२८-३१, १३३, १४३,
 १४५, १५४-५५, १५७-६२, १७०,
 १६८-२००, २१६, २४२ ।
 बांकरोल—देखो हंसीरगढ़ ।
 बर्गोर (गांव)—१२८ ।
 बाघवाड़ा (गांव)—७६ ।
 बाठरड़ा (ठिकाना)—६३, ६७-८, १०६,
 ३१४, ३८० ।
 बानसी (ठिकाना)—१२८ ।
 बारकपुर (अंग्रेज़ी-छावनी)—२८७ ।
 बारेचरदां (गांव)—६, १४४ ।
 बालियां (गांव)—७० ।
 बांगाखेड़ी (गांव)—२११ ।
 बांसया (गांव)—२६५ ।
 बांसलाही (गांव)—३०६ ।
 बांसवाड़ा (राज्य)—२, ३, ५, ८, १४,
 ८८, ९३, ९८-१००, १०३, १२१,
 १२७, १४५, १५४-५५, १६४,
 १८४-८६, २०५, २५७, २६८,
 २८३, २९२-९३, ३०५-६, ३११-
 १२, ३१६-१८, ३३०, ३३६,
 ३४३, ३६१, ३६६ ।
 बिलेसरी (गांव)—३७३ ।
 बिहार (प्रांत)—३७ ।
 बीकानेर (राज्य)—५६, ७२, ९४,
 १६५, १८६, १६३-४, २०३,
 २०७, २४०-४१, २४५, २७३,
 ३२६, ३२६, ३४३-४४, ३५७ ।
 बीठया (गांव)—७० ।

- बीजापुर (नगर)—१५० ।
 बुचकला (गांव)—३३ ।
 बुंदेलखंड (प्रांत)—३७ ।
 बूढा (परगना)—२२१, २३१ ।
 बूंदी (राज्य)—७२, ७५, ८०, ८५,
 ८८, ९४, १२४-२५, १३१, १६६,
 २०१, २०३-४, २२७, २३०-३४
 २३३, ३६५ ।
 बेगूं (ठिकाना)—१८१ ।
 बेड़वास (गांव)—१५६, १६१ ।
 बेदला (ठिकाना)—२४६ ।
 बेलिजबम (देश)—३३८ ।
 बोरदिया (प्राचीन स्थान)—२७, ३६७ ।
 बोरी (गांव)—३०६ ।
 बोरी-रीछड़ी (गांव)—३६६-६७ ।
 बोसोला (गांव)—७० ।
 बंग (बंगाल, देश)—३३, ४१, ६१, ६५,
 १५०, १८५, २८७ ।
 बंबई (नगर)—८, ३०८ ।
 ब्रह्मा की खेड़ (गांव)—५२ ।

भ

- भचूंडला (गांव)—२६, २७, २७८ ।
 भरकिया (गांव)—७० ।
 भरकी (गांव)—७० ।
 भारतवर्ष (हिंदुस्तान, देश)—८, ३६,
 ७४, १४२, १४६, २१२, २१६-२२,
 २३२, २३५-३६, २६१, २८७,
 २९१, २९३-९५, ३०५, ३०८,
 ३१०-११, ३१६, ३२६, ३३६-३८,
 ३५४, ३५७ ।

भावनगर (राज्य)—४५ ।
 भांडेसर (गांव)—२४८ ।
 भिनाय (ठिकाना)—२६३, ३७६ ।
 भीनमाल (श्रीमाल, प्राचीन स्थान)—
 २६, ३२ ।
 भीमल (गांव)—५६-६०, ७०, ७३ ।
 भीलवाड़ा (क़स्बा)—२६२ ।
 भींडर (ठिकाना)—२४६, २६२ ।
 भुवांसा (गांव)—२७६ ।
 भैरवी (ठिकाना)—३६५ ।
 भेलसा (प्राचीन स्थान)—४० ।
 भैंसरोड़गढ़ (ठिकाना)—५५-५६, ६१,
 १३० ।
 भोपाल (राज्य)—२३६ ।
 भोमट (प्रदेश)—४४ ।

म

मगरा (ज़िला)—२-४, १०-११, ३२१,
 ३३१ ।
 मगरोदा (गांव)—१४३ ।
 मचलाणा (मसलाणा, गांव)—१४५,
 १६८ ।
 मत्स्य (देश)—३३ ।
 मध्य भारत (प्रांत)—१४, २२१,
 २६० ।
 मथुरा (तीर्थ)—१५३, ३१८, ३७६ ।
 मनोहरगढ़ (गांव)—३७८ ।
 मल्हारगढ़ (परगना)—२६२ ।
 मही (माही, नदी)—१-३, ६८-६,
 २५७ ।
 महीकाठा (प्रदेश)—१ ।
 ५८

महू (छावनी)—२८६ ।
 मागसा (गांव)—१६२ ।
 माताखेड़ी (गांव)—२७८ ।
 मानपुरा (गांव)—३६७ ।
 मारवाड़ (जोधपुर, राज्य)—६०, ७२,
 ६३-४, १७६, ३००-१ ।
 मालवा (प्रांत)—१-३, १३, २१, २७-
 ८, ३३, ३७, ४२, ४५-४६, ४८-
 ५०, ५४-५६, ५८, ६२-६३, ७४,
 ७६-७८, ८३, ८५, ६१, ६५, १०३,
 ५, १०६, १२२, १४७, १५१,
 १६२, १७७, १७६-८२, १८६,
 १६४, १६८-२०२, २०४, २०८,
 २१२, २२०-२२, २२६-३२, २३४-
 ३६, २३८, २४५-४६, २५३-५५,
 २५८-२६१, २६४, २८३, २८६,
 २६१, २६८, ३००, ३०८ ।
 मावली (माहोली, गांव)—८८ ।
 मांडलगढ़ (दुर्ग)—५६-७, १०६, १५४,
 २६२ ।
 मांडू (क़िला)—१३, २६, ४०, ४२,
 ४८-५०, ५५, ६२, ७६-७, ८२,
 ११५, २२७, २२६ ।
 मुलतान (नगर)—२३२ ।
 मूलथान (ठिकाना)—३७५ ।
 मेढ़ता (क़स्बा)—६२, ६४, १८७ ।
 मेदपाट (मेवाड़, राज्य)—२-३, ८, १७,
 २१, ३५, ३६-४२, ४४-४६, ५१-
 २, ५५-७, ५६, ६१-२, ६८, ७०-
 ४, ७६-७, ८३, ८५, ६०-६१,
 ६७, १०२, १०५-६, १०६-१०,
 ११५, ११६-२१, १३०-३१, १८२-

- ४४, १५४, १५८, १७५, १७७-७८, १८३, १९१, १९४, २२५, २२८, २३१, २३७-३८, २४७-४८, २५०-५३, २५६, २८१, २८३, २८६-८८, २९०, २९२-९३, २९७-९८, ३०२, ३०७-११, ३१६-१८, ३४८, ३६१, ३६५, ३७०, ३७८, ३८० ।
- मेरठ (नगर)—२८७ ।
- मेवात (प्रांत)—६२ ।
- मोकलसर (गांव)—६० ।
- मोखण (गांव)—१० ।
- मोड़ी (पानमोड़ी, गांव)—१२८-२९ ।
- मोरभर (गांव)—२०८ ।
- मोरवण (गांव)—२५१ ।
- मोहनपुरा (गांव)—२३ ।
- मोहनगढ़ (गांव)—३६६ ।
- मोहेड़ा (गांव)—२४४, ३८४ ।
- मंडावरा (गांव)—३७४, ३७८, ३७९ ।
- मंडेश्वर (मंडलेश्वर, स्थान)—१८७ ।
- मंडोर (मंडोवर, प्राचीन स्थान)—३०, ४७ ।
- मंदसौर (क़स्बा,)—२, ४-५, ८, १४, १६, ३६, ७७, ८२, ११०-११, ११५, ११६, १२८, १४३, १४७, १५३, १७८-७९, १८१, १९६, २०३, २२६, २५५, २८८, २९१, २९३-९४, ३१२, ३२०, ३७७ ।
- मंदाकिनी (तीर्थ)—१२७ ।

य

यूरोप (महाद्वीप)—३३८, ३५७ ।

र

रजौरा (स्थान)—५ ।

रतनगढ़ (क़स्बा)—२८६, २९२ ।

रतलाम (राज्य)—२, ८, १४, १२१, १६५, २१२, २५५, ३०२, ३०६, ३६६ ।

राजगढ़ (राज्य)—३८ ।

राजपीपला (राज्य)—१२२ ।

राजपुर्या (गांव)—३७७ ।

राजपूताना (प्रान्त)—१, १३, ३३, ३७, ६१-२, १०४, ११७, १८०, १९३, २०३, २२०, २२२-२४, २२७, २३१, २५८, २६०-६१, २८७, २९७-९८, ३००, ३१८-१९, ३२७, ३३३, ३३७, ३४१, ३५१, ३५८ ।

राजोरगढ़ (क़िला)—३० ।

रामपुरा भाणपुरा (ज़िला)—४६, ६४, ११६, १४५, १८६, २०२, २०४-५, २२७-२८, २३१, २३३, २४६, २७२, २९२, ३७५ ।

रायपुर (ठिकाना)—३, ८, १०-१२, १०२, १६६, ३०६, ३२१, ३४७, ३६७-६८ ।

रीछड़ी (गांव)—३०६ ।

रूपनगर (रूपनगढ़, क़स्बा)—१५८, १८८, १९८, २०१ ।

रेतम (नदी)—२-३ ।

रेवा (नदी)—१ ।

रेवाकांठा (हलाका)—१ ।

रोजवानी (गांव)—३७४ ।

ल

लखनऊ (नगर)—२८७ ।

लालगढ़ (लालपुरा, गांव)—३६० ।

लाहोर (नगर)—२३२ ।

लूणावाड़ा (राज्य)—३३७, २७६ ।

लडन (नगर)—३३६ ।

व

वडाली (गांव)—३१ ।

वत्स (देश)—३३ ।

वरखेड़ी (ठिकाना)—७२, २४३, ३६२,
३७४-७६ ।

वरमंडल (गांव)—६, २४ ।

वागड़ (प्रदेश)—८, ३६, ४६, ६८,
३५३, ३७५, ३८३ ।

विदर्भ (देश)—३३ ।

विन्ध्याचल (पर्वत)—५४ ।

विलाईखेडु (गांव)—२०८ ।

वीरपुर (गांव)—२४ ।

वीरावाली (गांव)—३७८ ।

वृंदावन (तीर्थ)—२६४, २६७ ।

वेलाली (गांव)—२१७ ।

वैरा (गांव)—१०२ ।

श

शाहपुरा (राज्य)—२३८-३६, २५०,
३३३, ३३७, ३३६ ।

शिव (नदी)—२ ।

शिवना (शिवनी, शिवनगरी, प्राचीन स्थान)
—२, २६, २७ ।

शुजालपुर (क़स्बा)—२२१ ।

शंखोद्वार (तीर्थ)—५० ।

स

सतारा (नगर)—२२०-२२, २३६,
२६१ ।

सदापुरा (गांव)—३७३ ।

समूनगर (युद्धक्षेत्र)—१३१, १५२-३ ।

सरहिंद (प्रांत)—२३२ ।

सरीपीपली (गांव)—४, ६ ।

सलूवर (ठिकाना)—२३५, २३८, २४०,
२४७, २४६-५०, २६२, ३७१ ।

साखथली (बोड़ी, गांव)—३, १०-१२,
८४, १६४-६५, ३२१, ३३८, ३६६,
३७२ ।

सागवाड़ा (क़स्बा)—१६६, ३८३ ।

साटोजा (ठिकाना)—७१, ८५, ८८ ।

सादड़ी कुंडलकी (छोटी सादड़ी, क़स्बा)—
१७, ४२, ४६, ५१, ५४-५५, ६३,
६७, ६६-७०, ७२, ८५, ८७, ८६-
६१, ११०, ११५, १४४ ।

सादड़ी बड़ी (तेजमाल की सादड़ी, ठिकाना)
—४८, ६१, ७१, ७३, ३४८ ।

सावली (ठिकाना)—२८५ ।

सामोली (गांव)—४४ ।

सारंगपुर (क़स्बा)—४२ ।

सालिमगढ़ (ठिकाना)—४, ८, ६, ११-
२, १६४-६५, २५६, २७२, ३२१,
३४३, ३६६ ।

सावर (ठिकाना)—२३८ ।

सांगानेर (क़स्बा)—२६२ ।

साडनी (गांव)—३०७ ।

सांभर (क़स्बा)—४५, ४७ ।

सिरोही (राज्य)—७० ।

सिवाना (क़स्बा)—१८७ ।

सिंदे (गांव)—२२१ ।

सिंध (सिंध, प्रांत)—३३, १५४ ।

सीकर (ठिकाना)—७१, ३४३, ३५५ ।

सीतामऊ (राज्य)—१४, २१२, २५५,
३११, ३५१ ।

सीधपुरा (गांव)—१०२ ।

सीप्री (गांव)—२६३ ।

सीसोदा (गांव)—४५-६ ।

सींगपुरथा (गांव)—३१३ ।

सींगोली (गांव)—२८६, २६२ ।

सुआली (गांव)—७० ।

सुखेरीखेड़ा (गांव)—१५३ ।

सुणोर (गांव)—१३० ।

सुहागपुर (गांव)—२४, २७, ६५-६ ।

सूरजपुरा (गांव)—३०७ ।

सेखड़ी (गांव)—२१६, २४२ ।

सेमलखेड़ी (गांव)—२७८, ३४८ ।

सेमलिया (गांव)—१६०-६२, ३०७,
३४४ ।

सेरा (सायरा, परगना)—२४८ ।

सेलारपुरा (ठिकाना)—३०७, ३३८,
३७८ ।

सेवली (गांव)—११६ ।

सेवंत्री (गांव)—५६-६० ।

सेंट्रल इंडिया (प्रांत)—३५१ ।

सैलाना (राज्य)—३११, ३१३, ३३५,
३३६, ३४३ ।

संचई (गांव)—२१७ ।

संदला (ठिकाना)—३७५ ।

ह

हतुगया (गांव)—४, १०६ ।

हथनारा (गांव)—१०६ ।

हथूनिया (गांव)—१० ।

हरिद्वार (तीर्थ)—१७० ।

हुरड़ा (परगना)—२३१ ।

हैदराबाद (नगर)—२३२ ।

होल (गांव)—२२१ ।

हंसीरगढ़ (ठिकाना)—२३८ ।

हंसीरपुर (गांव)—५० ।

शुद्धि पत्र



पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१८	१६	वि० सं० १७०७	वि० सं० १७०५ -
१८	१६	ई० सं० १६५०	ई० सं० १६४८
१६	८	घारी दर्वाजा	घारी दर्वाजा, धाय दर्वाजा
१६	१७	घासीराम	घासीलाल
२३	१२	ता० २ नवम्बर	ता० १७ अक्टोबर
२४	२५	ई० सं० १६१३-१४	ई० सं० १६१५-१६
७२	१८	कान्हल	गोपालदास
८६	१	विक्रमादित्य	विक्रमादित्य
८६	२	संग्रामसिंह	रायमल
८६	१५	दिय	दिया
९३	१७	ई० सं० १५५६	ई० सं० १५५७
९८	२०	महारावत	महारावल
१०४	२	वि० सं० १६२१	वि० सं० १६२०
१०४	२	ई० सं० १५६४	ई० सं० १५६३
१४१	१३	महाराव	महारावत
१५१	२४	समान	सामान
१५३	५	समूनगर	धर्मातपुर (फतिहाबाद)
१५३	६	तीसरे दिन	कुछ दिन बाद
१५८	१७	चौडावत हकमूसिंह	चौडावत् मुहकमूसिंह
१७३	५	रामसिंह	रायसिंह
१६२	२६	श्रीकृष्णापर्येन	श्रीकृष्णार्पणेन

	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
पृष्ठ			
२३२	१८	शम्सुद्दौला	शम्सामुद्दौला
२५६	१४-१५	प्रतापगढ़	देवलिया
२५६	१२	ओलो	ओल
३१०	२१	जोन	जाने
३४३	२	माचावत	भांचावत
३७४	१	कचोशिया	कचोलिया

शु
७ २





